

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला



इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध
आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन
साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और चयासम्भव
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोकी सूचियाँ,
शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और
लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी
ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक

डॉ० हीरालाल जैन,

एम० ए०, डी० लिट्०

डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय,

एम० ए०, डी० लिट्०



प्रकाशक

अयोध्याप्रसाद गोयलीय

मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ

दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी

स्थापनाब्द

फाल्गुन कृष्ण ६

वीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २०००

१२ फरवरी सन् १९४४

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी



स्वर्गाय मूर्तिदेवी, मानेध्वरी साहू शान्तिप्रसाद जैन

1/12

JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAIN GRANTHMĀLĀ

PRĀKRIT GRANTHA NO. 8

MAHĀBANDHO

[MAHĀDHAVALĀ SIDDHĀNTA SHĀSTRA]

Chautha Pades Bandhāhiyāra

Vol. IV

PRADESH BANDHĀDHĪKĀRA


WITH

HINDĪ TRĀNSLATION



Editor

Pandit, **PHOOL CHANDRA** Siddhant Shāstry



Published by

BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA KĀSHĪ

First Edition }
1100 Copies }

ASHVIN VIR SAMVAT 2184
VIKRAMA SAMVAT 2014
OCT. 1957

BHĀRATĪYĀ JÑĀNA-PĪTHA Kāshi

FOUNDED BY

SETH SHĀNTI PRĀSAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRĪ MURTI DEVĪ

**BHĀRATĪYĀ JÑĀNA-PĪTHA MŪRTI DEVĪ
JAIN GRANTHAMĀLĀ**

PRĀKRIT GRANTHA NO. 8

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAIN ĀGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURĀNIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRĀKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI,
KANNADA AND FAMIL ETC, WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATION IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS STUDIES OF COMPETENT
SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain M. A , D Litt
Dr. A N Upadhye M A , D Litt



Publisher

Ayodhya Prasad Goyalija
Secy, BHARATIYA JNANAPITHA
DURGAKUND ROAD, VARANASI



Founded on }
Phalgunā Krishna 9. }
Vīra Sam. 2470 }

All Rights Reserved.

{ Vikrama Samavāt 2000
18 Feb. 1944.

प्राथमिक

हर्षकी बात है कि गत वर्ष महाग्रन्थकी पाँचवीं जिल्द प्रकाशित होनेके पश्चात् लगभग एक ही वर्षमें यह छठी जिल्द प्रकाशित हो रही है। अब इसके पश्चात् महाग्रन्थको सम्पूर्ण होनेमें केवल एक और जिल्दकी कमी रही है। उसका भी मुद्रण-कार्य चालू है और आशा की जा सकती है कि वह भी शीघ्र पूर्ण होकर प्रकाशमें आ जायगी। जिस तत्परताके साथ यह जैन-साहित्यका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और महान् कार्य सम्पन्न हो रहा है, उसके लिए ग्रन्थके विद्वान् सम्पादक पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री तथा भारतीय ज्ञानपीठके अधिकारी व कार्यकर्ता हमारे व समस्त जिज्ञासु संसारके धन्यवादके पात्र हैं।

महाग्रन्थमें वर्णित प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चार प्रकारके कर्मग्रन्थोंमेंसे प्रथम तीन का वर्णन पूर्व प्रकाशित पाँच जिल्दोंमें समाप्त हो चुका है। प्रस्तुत जिल्दमें प्रदेशबन्ध अधिकारका एक भाग सम्मिलित है। शेष भाग अगली जिल्दमें पूर्ण होकर इस ग्रन्थराजकी समाप्ति हो जायगी।

कर्मसिद्धान्त जैन दर्शनकी प्रधान वस्तु है। वह उसका प्राण कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। इस विषयका सर्वाङ्गपूर्ण सुव्यवस्थित विस्तारसे वर्णन जैसा इन ग्रन्थोंमें पाया जाता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। इसी गौरवके अनुरूप इन ग्रन्थोंकी समाजमें और धर्माथतनोंमें प्रतिष्ठा होगी ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है।

इन ग्रन्थोंका स्वाध्याय सरल नहीं है। विषयकी गूढताके साथ-साथ पाठ-रचना भी अपनी विलक्षणता रखती है। पाठक देखेंगे कि अधिकांश स्थलोंपर पूरा पाठ न देकर अर्थात् शब्दोंके आगे विन्दियाँ रख दी गई हैं। यह इसलिए करना पड़ा है कि नहीं तो ग्रन्थका विस्तार द्विसकियों द्वारा बहुत बढ़ जाता। पाठकोंकी सुविधा और ग्रन्थके सौष्ठवकी दृष्टिसे यदि पाठ पूरे करके ही प्रकाशित होते तो बहुत अच्छा था। तथापि मूल पाठकी इस कर्माकी पूर्ति विद्वान् सम्पादकने अपने अनुवाद द्वारा कर दी है। आशा है कि इस अनुवादकी सहायतासे कर्मसिद्धान्तसे परिचित पाठकोंको विषयके समझनेमें तथा यदि वे चाहें तो मूलके पाठोंका लुप्त पाठ अनुमान करनेमें विशेष कठिनाई न होगी। सम्पादकने जो विषय-परिचय आदिमें दे दिया है उससे ग्रन्थको हस्तामलकवत् समझनेमें सुविधा होगी।

ग्रन्थकी सम्पादन-सामग्री वहीं रही है जो पूर्वके भागोंमें और सम्पादन-शैली आदि भी तदनुसार ही। जैसा 'सम्पादकोय' में कहा गया है ताम्रपत्र प्रतिका पाठ तो सम्पादकके सम्मुख रहा है, किन्तु मूल ताडपत्रोंका पाठ नहीं। संकेत स्पष्ट है कि ताम्रपत्र प्रतिका पाठ भी ताडपत्रोंके पाठके सोलहो आने अनुसृत नहीं है। उसमें जो उस मूल प्रतिले जामदूकर पाठ-भेद किये गये हैं, या जो प्रमादसे स्वल्पन हो गये हैं उनका संकेत व परिमार्जन वहाँ नहीं किया गया। इस प्रकार ताडपत्र प्रतिले एक बार पूरे पाठके मिलानकी आवश्यकता गेप है। हम आशा करते हैं कि इस नुटिकी पूर्तिका आयोजन अगले भागके समाप्त होते ही किया जायगा, जिससे कि इस प्रकाशनमें पूर्ण प्रामाणिकता आ जाय और इन ताडपत्रोंकी शब्द-रचनाकी दृष्टिसे हमारी चिन्ता मिट जाय।

इन याताके सम्ग्रन्थमें हमारा जो मत है उसे हम अगले भागके वक्तव्यमें विस्तारसे व्यक्त करेंगे।

हीरालाल जैन
आ० ने० उपाध्ये
ग्रन्थमाला सम्पादक

सम्पादकीय

प्रदेशबन्ध पट्टखण्डागमके छठे खण्डका चौथा भाग है। इसका सम्पादन व अनुवाद लिखकर प्रकाशन योग्य बनानेमें लगभग एक वर्ष लगा है। इसके सम्पादनके समय हमारे सामने दो प्रतियाँ रहीं हैं—एक प्रेसकार्या और दूसरी ताम्रपत्र प्रति। मूल ताडपत्र प्रतिको हम इस बार भी नहीं प्राप्त कर सके। फिर भी जो भी सामग्री हमारे सामने रही है उससे सम्पादन कार्यमें पर्याप्त सहायता मिली है और बहुत कुछ स्वलिखित अंशोंकी पूर्ति एक दूसरी प्रतिये होती गई है। प्रकाशित हुए मूल ग्रन्थके देखनेसे विदित होगा कि इतना सब करनेपर भी बहुत स्थल ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पाठको जोड़नेकी आवश्यकता पड़ी है। इस भागमें ऐसे छोटे-बड़े पाठ जो ऊपरसे जोड़े गये हैं सौसे अधिक हैं। हमने इन पाठोंको जोड़ते समय मुख्य रूपसे स्वामित्वके आधारसे विचार करके ही उन्हें जोड़ा है। पर वे जोड़े हुए अलग दिखलाई दें इसके लिए हमने उन्हें [] चतुष्कोण ब्रैकेटमें अलगसे दिखला दिया है।

यों तो अनुभागबन्धके प्रारम्भिक व मध्यके अंशके एक-दो ताडपत्र नष्ट हो गये हैं। पर प्रदेशबन्धमें नष्ट हुए ताडपत्रोंकी वह मात्रा काफी बढ गई है। इन ताडपत्रोंके नष्ट होनेसे कई प्ररूपणाएँ स्वलिखित हो गई हैं जिसकी पूर्ति होना असम्भव है। बहुत प्रयत्न करनेके बाद भी श्रुति ह्रुप चड़े अंशोंकी यथावत् पूर्ति नहीं की जा सकती है, इसलिये हमने उन्हें वैसा ही छोड़ दिया है। हाँ जहाँ एकाद्रि शब्द या वाक्यांश स्वलिखित हुआ है उसकी अनुसन्धानपूर्वक पूर्ति अवश्य कर दी गई है और टिप्पणियोंमें श्रुति अंशको दिखला दिया गया है। इस भागमें श्रुति ह्रुप बड़े अंशोंके लिए देविएष्ट ४८, ८२, १५४ और १८२।

महाबन्धके प्रदेशबन्ध प्रकरणमें ऐसे तीन स्थल मिलते हैं जहाँ पवाइज्वंत और अन्य उपदेशका स्वरूपसे मूलमें निर्देश किया गया है। प्रथम उल्लेख भुजगार अनुयोगद्वारके अन्तर्गत मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा एक जाँवकी अपेक्षा कालप्ररूपणामें किया गया है। वहाँ कहा गया है—

‘अवष्टि० पवाइज्वतेण उवदेसेण ज० ए०, उ० एङ्कारससमवं । अण्णेण पुण उवदेसेण ज० ए०, उ० पण्णारससम० ।’

सात वर्योंके अवस्थितपदका पवाइज्वंत उपदेशके अनुसार जवन्व काल एक समय है और उल्लेख काल ग्यारह समय है। परन्तु अन्य उपदेशके अनुसार जघन्व काल एक समय है और उल्लेख काल पन्द्रह समय है।

दूसरा उल्लेख उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा उल्लेख सन्निकर्ष प्रकरणके समाप्त होनेपर नाना प्रकृतियन्धके सन्निकर्षके साधनके लिए जो निदर्शन पद दिया है उसके प्रसंगसे आया है। वहाँ लिखा है—

‘पवाइज्वतेण उवदेसेण मूलपगदिविसेतेण कम्मत्त अवहारकालो थोवो । पिंडपगदिविसेतेण कम्मत्त अवहारकालो अतंजेजगुणो । उत्तरपगदिविसेतेण कम्मत्त अवहारकालो अतंजेजगुणो ।.... . उवदेसेण मूलपगदिविसेतो आवलियवगमूलत्त अतंजेजदिभागो । पिंडपगदिविसेतो पल्लिवोमवगमूलत्त अतंजेजदि० । उत्तरपगदिविसेतो पल्लिवो० अतंजेजदि० ।’

पवाइज्वंत उपदेशके अनुसार मूलप्रकृति विशेषकी अपेक्षा कर्मका अवहारकाल स्तोकि है। पिण्डप्रकृतियन्धकी अपेक्षा कर्मका अवहारकाल असंख्यातगुणा है। उत्तरप्रकृति विशेषकी अपेक्षा कर्मका अवहारकाल असंख्यातगुणा है।... उपदेशके अनुसार मूलप्रकृतिविशेष आवलिके वर्गमूलका असंख्यातवां भागप्रमाण है। पिण्डप्रकृतिविशेष पत्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। उत्तरप्रकृतिविशेष पत्योपमके अन्त्यातवें भागप्रमाण है।

तीसरा उल्लेख भुजगारविभक्तिके अन्तर्गत उत्तरप्रकृतियोंका एक जीवकी अपेक्षा कालका निर्देश करते हुए किया गया है यह उल्लेख प्रथम उल्लेखके समान है, इसलिए यहाँ उसका अलगसे निर्देश नहीं किया है।

पूर्व भागोंके समान हमें इस भागको व्यवस्थित करनेमें सहारनपुरनिवासी वन्द्युद्वय श्रीयुक्त पं० रतनचन्द्रजी मुख्तार और श्रीयुक्त नेमिचन्द्रजी वकीलका सहयोग मिलता रहा है, इसलिए हम उनके आभारी हैं।

कर्मसाहित्यका विषय बहुत गहन और अनेक भागों व उपभागोंमें बटा हुआ है। वर्तमान कालमें उसके गहन अध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था एक प्रकारसे विच्छिन्न हो गई है, इसलिए महाबन्धके सम्पादन, संशोधन और अनुवादमें सम्भव है हमसे अनेक त्रुटियाँ रह गई हों। हमें आशा है पाठक उनके लिए हमें क्षमा करेंगे। और जहाँ कहीं कोई त्रुटि उनके ध्यानमें आवे उसकी सूचना हमें अवश्य ही देनेकी कृपा करेंगे।

फूलचन्द्र सि० शा०

विषय-परिचय

यह महाबन्धका अन्तिम भाग प्रदेशबन्ध है। इसमें प्रत्येक समयमें बन्धको प्राप्त होनेवाले मूल और उत्तर कर्मोंके प्रदेशोंके आश्रयसे मूल प्रकृतिप्रदेशबन्ध और उत्तरप्रकृतिप्रदेशबन्धका विचार किया गया है। किन्तु दोनोंके विचार करनेका क्रम एक होनेसे यहाँ एक साथ ग्रन्थके हार्दको स्पष्ट किया जाता है।

भागाभागसमुदाहार—मूलमें सर्वप्रथम आठ कर्मोंका बन्ध होते समय किस कर्मको कर्मपरमाणुओंका कितना भाग मिलता है इसका विचार करते हुए बतलाया गया है कि आयुर्कर्मको सबसे स्तोत्र भाग मिलता है। उससे नानकर्म और गोत्रकर्मको विशेष अधिक भाग मिलता है। उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मको विशेष अधिक भाग मिलता है। उससे मोहनीय कर्मको विशेष अधिक भाग मिलता है। तथा उससे वेदनीय कर्मको विशेष अधिक भाग मिलता है। इसका कारण क्या है इस बातका निर्देश करते हुए वहाँ लिखा है कि आयु कर्मका स्थितिवन्ध स्वरूप है, इसलिए उसे सबसे थोड़ा भाग मिलता है। वेदनीयके सिवा शेष कर्मोंमें जिसकी स्थिति दीर्घ है उसे बहुत भाग मिलता है और वेदनीयके विषयमें यह लिखा है कि यदि वेदनीय न हो तो सब कर्म जीवको सुख और दुःख उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हैं, इसलिए उसे सबसे अधिक भाग मिलता है। श्वेताम्बर कर्म प्रकृति की चूर्णित सकारण वटवारेका यही क्रम दिखलाया गया है। सात प्रकारके और छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध होते समय भी वटवारेका यही क्रम जानना चाहिये। मात्र यहाँ जिस कर्मका बन्ध नहीं होता उसे भाग नहीं मिलता है इतनी विवेकता है।

उत्तर प्रकृतियोंमें कर्म परमाणुओंका वटवारा करते समय बतलाया है कि आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध होते समय जो ज्ञानावरणीय कर्मको एक भाग मिलता है वह चार भागोंमें विभक्त होकर अभिनि-योधिकज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरण इन चार कर्मोंको प्राप्त होता है। यहाँ जो सर्वघाति प्रदेशाग्र है वह भी इसी क्रमसे बट जाता है। केवलज्ञानावरण सर्वघाति प्रकृति है, इसलिए उसे केवल सर्वघाति द्रव्य ही मिलता है किन्तु देशघाति प्रकृतियोंको दोनों प्रकारका द्रव्य मिलता है। दर्शनावरणमें तीन देशघाति और छह सर्वघाति प्रकृतियाँ हैं। इसलिए देशघाति द्रव्य देशघातियोंको और सर्वघाति द्रव्य देशघाति और सर्वघाति दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंको मिलता है। यहाँ जिनका दन्ध होता है उनमें यह वटवारा होता है। वेदनीय कर्ममें जब जिसका दन्ध होता है तब उसे ही समस्त भाग मिलता है। मोहनीय कर्मको जो देशघाति भाग मिलता है उसके दो भाग हो जाते हैं—एक कपायवेदनीयका और दूसरा नोक्पायवेदनीयका। इनमेंसे कपायवेदनीयका द्रव्य चार भागोंमें और नोक्पायवेदनीयका द्रव्य बन्धके अनुसार पाँच भागोंमें विभक्त हो जाता है। तथा मोहनीय कर्मको जो सर्वघाति द्रव्य मिलता है उनमेंसे एक भाग चार संज्वलन कपायोंमें और दूसरा एक भाग बारह कपायोंमें और मिष्यात्वमें विभक्त हो जाता है। अपने बन्ध समयमें आयु कर्मको जो भाग मिलता है वह जिस आयुका बन्ध होता है उसका होता है। नामकर्मको जो भाग मिलता है उसके बन्धके अनुसार गति, जाति, शरीर आदि रूपसे अलग अलग विभाग हो जाते हैं। गोत्र कर्ममें जिसका दन्ध होता है उसे ही नमान भाग मिलता है। तथा अन्तराय कर्मको मिलनेवाला द्रव्य पाँच भागोंमें बट जाता है। इस प्रकार

यह उत्तर प्रकृतियोंमें भागाभाग जानना चाहिए। श्वेताम्बर कर्मप्रकृति की चूर्णमें भी इसका विचार किया गया है पर वहाँ सर्वघाति द्रव्यका घटवारा सर्वघाति और देशघाति दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंमें होता है इसका उल्लेख देवनेमें नहीं आया। यहाँ दो घातों का रूपसे ध्यान देने योग्य हैं—एक तो यह कि वन्धको प्राप्त होनेवाले द्रव्यमें सर्वघाति द्रव्य अनन्तत्वं भागप्रमाण और देशघाति द्रव्य अनन्त बहुभाग प्रमाण होता है। दूसरी यह कि चौबीस अनुयोगद्वारोंके अन्तमें अल्पबहुत्व अनुयोग द्वारमें ज्ञानावरणादि की उत्तर प्रकृतियोंमें मिलनेवाले द्रव्यका अल्पबहुत्व बतलाया है, इसलिए उसे ध्यानमें रखकर द्रव्यका घटवारा करना चाहिए।

चौबीस अनुयोगद्वार

भागाभागासमुदाहारका कथन करनेके बाद चौबीस अनुयोगद्वारोंके अर्थपदके रूपमें मूलमें दो गाथाएँ आती हैं। ये दोनों गाथाएँ साधारणसे पाठ-भेदके साथ श्वेताम्बर कर्मप्रकृतिमें भी उपलब्ध होती हैं (देखो बन्धनकरण गाथा २५, २६)। इनमेंसे प्रथम गाथामें सय द्रव्यके अनन्तत्वं भागप्रमाण सर्वघाति द्रव्यको अलग करके देशघाति द्रव्यका ज्ञानावरण और दर्शनावरणकी देशघाति उत्तर प्रकृतियोंमें तथा पाँच अन्तराय प्रकृतियोंमें घटवारा बतलाया गया है। और दूसरी गाथामें मोहनीयके देशघाति द्रव्यके दो भाग करके उनमेंसे एक भाग बँधनेवाली चार संज्ञलनोंको और दूसरा भाग पाँच नोकपायोको बतलाया गया है। वेदनीय, आयु और गोत्रके विषयमें यह व्यवस्था दी है कि इनमेंसे जिस कर्मकी जिस प्रकृतिका बन्ध होता है उसे घटवारेका द्रव्य मिलता है। यहाँ गाथामें नामकर्मके विषयमें कोई उल्लेख नहीं किया है। इसप्रकार इस अर्थपदको देकर उसके अनुसार चौबीस अनुयोगद्वारोंके जाननेकी सूचना की है। वे चौबीस अनुयोगद्वार ये हैं—स्थानप्ररूपणा, सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अनुत्कृष्टबन्ध, जघन्यबन्ध, अजघन्यबन्ध, सादिवन्ध, अनादिवन्ध, भ्रुवबन्ध, अश्रुवबन्ध, स्वामिल, एक जीवकी अपेक्षा काल, अन्तर, सन्निकर्ष, नाना जाँवकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व। आगे चौबीस अनुयोगद्वारोंका कथन समाप्त होनेपर भुजगा, पदनिक्षेप, वृद्धि, अध्यवसान समुदाहार और जीवसमुदाहारका व्याख्यान किया गया है, इसलिए यहाँ इसी क्रमसे इन सबका परिचय दिया जाता है—

स्थानप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारके दो भेद हैं—योगस्थानप्ररूपणा और प्रदेशबन्धप्ररूपणा। योगस्थानप्ररूपणामें पहले उत्कृष्ट और जघन्य योगस्थानोंका चौदह जीवसमाप्तोंके आश्रयसे अल्पबहुत्व व प्रदेशअल्पबहुत्वका विचार करके दश अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे योगस्थानोंका विशेष विचार किया है। वे दश अनुयोगद्वार ये हैं—अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणा, वर्गणाप्ररूपणा, स्पर्शकप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, स्थानप्ररूपणा, अनन्तरोपनिधा, परम्परोपनिधा, समयप्ररूपणा, वृद्धिप्ररूपणा और अल्पबहुत्व।

वीर्य-विशेषके कारण मन, वचन और कायके निमित्तसे आत्मप्रदेशोंमें जो चञ्चलता उत्पन्न होती है उसे योग कहते हैं। यद्यपि सर्व आत्मप्रदेशोंमें वीर्यान्तराय कर्मका ज्योपशाम आदि एक समान होता है पर यह चञ्चलता सब आत्मप्रदेशोंमें एक समान नहीं होती किन्तु आत्माके जो प्रदेश मुख्यरूपसे व्यापारत होते हैं उनमें वह सर्वाधिक पाई जाती है और उनसे लगे हुए प्रदेशोंमें कुछ कम पाई जाती है। इसप्रकार यद्यपि चञ्चलता तो सर्व आत्मप्रदेशोंमें पाई जाती है पर वह उत्तरोत्तर हीन-हीन होती जाती है, इसलिए जीवके सब प्रदेशोंमें योगका तारतम्य स्थापित होकर एक योगस्थान बनता है। उदाहरणार्थ किसी मनुष्य के झुककर एक हाथसे पानीसे भरी हुई बाल्टीके उठानेपर उस हाथके आत्मप्रदेशोंमें विशेष खिंचाव होता है। यहाँ हाथके सिवा शरीरके अन्य अवयवगत आत्मप्रदेश भी यद्यपि उस कार्यमें योगदान दे रहे हैं पर उनमें वह खिंचाव उत्तरोत्तर हीन-हीन होता जाता है, इसलिए कार्यरूपमें परिणत हाथके आत्मप्रदेशोंसे

जितनी योगशक्ति अनुभव की जाती है उतनी अन्यत्र नहीं। यही कारण है कि आत्माने सब प्रदेशोंमें योगशक्तिकी हीनाधिकता उत्पन्न होकर वह सब मिलकर एक स्थान बनाती है। यहाँ योगस्थानप्ररूपणामें दस अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे मुख्यरूपसे इसी बातका विचार किया गया है। पहले अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणामें प्रत्येक आत्मप्रदेशमें योगशक्तिके कितने अविभागप्रतिच्छेद होते हैं यह बतलाया गया है। वर्णान्तरूपणामें कितने अविभागप्रतिच्छेदोंकी एक वर्णना होती है यह बतलाया गया है। स्पर्धकरूपणामें कितनी वर्णांशोंका एक स्पर्धक होता है यह बतलाया गया है। अन्तरप्ररूपणामें एक स्पर्धककी अन्तिम वर्णांशसे दूसरे स्पर्धकका प्रथम वर्णान्तरूपणामें अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा कितना अन्तर होता है इस बातका निर्देश किया गया है। स्थानप्ररूपणामें कितने स्पर्धक मिलकर एक योगस्थान बनता है यह बतलाया गया है। अनन्तरोपनिधामें जघन्य योगस्थानसे लेकर उत्कृष्ट योगस्थान तक प्रत्येक योगस्थानमें कितने स्पर्धक बढ़ते जाते हैं यह बतलाया गया है। परम्परोपनिधामें जघन्य योगस्थानके स्पर्धकोंसे कितने योगस्थान जानेपर वे दूने होते जाते हैं यह बतलाया गया है। समयप्ररूपणामें उत्कृष्टरूपसे चार, पाँच, छह, सात, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन और दो समय तक अवस्थित रहनेवाले कितने योगस्थान हैं इसका विचार किया गया है। वृद्धिप्ररूपणामें लगातार कौन वृद्धि या हानि कितने कालतक हो सकती है इस बातका विचार किया गया है। अल्पबहुत्वप्ररूपणामें अलग-अलग कालतक अवस्थित रहनेवाले योगस्थानोंका अल्पबहुत्व दिखलाया गया है। इन दस अनुयोगद्वारोंका विशेष खुलासा मूलके अनुवादमें विशेषार्थ देकर किया है, इतलिये वहाँसे जान लेना चाहिए। स्थानप्ररूपणका दूसरा भेद प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपण है। इसमें यह बतलाया गया है कि जो योगस्थान हैं वे ही प्रदेशबन्धस्थान हैं। किन्तु ज्ञानावरणादि प्रकृति विशेषके कारण वे विशेष अधिक हैं।

सर्व-नोसर्वप्रदेशबन्ध—ज्ञानावरणादि कर्मोंका प्रदेशबन्ध होने पर वह सर्वबन्धरूप है या नोसर्वबन्धरूप है इसका विचार इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें किया गया है। जब सब प्रदेशबन्ध होने पर उसे सर्वबन्ध कहते हैं और जहाँ उससे न्यून प्रदेशबन्ध होता है उसे नोसर्वबन्ध कहते हैं। मात्र यह बोध और आदेशसे दो प्रकारका है, इसलिये मूल और उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा जहाँ जो सम्भव हो वहाँ उसे घटित कर लेना चाहिए।

उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टप्रदेशबन्ध—ज्ञानावरणादिका प्रदेशबन्ध होने पर वह उत्कृष्टरूप है या अनुत्कृष्टरूप इसका विचार इन दो अनुयोगद्वारोंमें किया गया है। जहाँ मूल और उत्तर प्रकृतियोंका ओष और आदेशसे यथासम्भव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है वहाँ उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कहलाता है और मूल व उत्तर प्रकृतियोंका इससे न्यून प्रदेशबन्ध होता है वह अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कहलाता है।

जघन्य-अजघन्यप्रदेशबन्ध—ज्ञानावरणादि मूल व उत्तर प्रकृतियोंका प्रदेशबन्ध होने पर वह जघन्य है या अजघन्य इसका विचार इन दो अनुयोगद्वारोंमें किया गया है। बन्धके समय ओष और आदेशसे यथासम्भव सबसे कम प्रदेशबन्ध होने पर वह जघन्य प्रदेशबन्ध कहलाता है और उससे अधिक प्रदेशबन्ध होने पर वह अजघन्य प्रदेशबन्ध कहलाता है।

सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवप्रदेशबन्ध—इन चारों अनुयोगद्वारोंमें जो उत्कृष्ट आदि चार प्रकारका प्रदेशबन्ध बतलाया गया है वह सादि आदि किस रूप है इस बातका विचार किया गया है। मूल व उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा इसका विशेष खुलासा इनके विशेषार्थके द्वारा उस प्रकारके समय किया ही है, इसलिये वहाँसे जान लेना चाहिए। सच्चेमें उनकी संशयि इस प्रकार है—

कर्म	उत्कृष्ट	अनुत्कृष्ट	जघन्य	अजघन्य
ज्ञानावरण मूल व उत्तर प्रकृतियों	सादि-अध्रुव	सादि आदि चार	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
दर्शनावरण मूल व छह उत्तर प्रकृतियों	सादि-अध्रुव	सादि आदि चार	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
स्थानगृद्धि आदि तीन	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
वेदनीय मूल	सादि-अध्रुव	सादि आदि चार	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
उत्तर प्रकृतियों	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
मोहनीय मूल व मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और सात नोकषाय	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
बारह कषाय, भय और सुगुप्सा	सादि-अध्रुव	सादि आदि चार	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
आयु मूल व उत्तर प्रकृतियों	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
नामकर्म मूल	सादि-अध्रुव	सादि आदि चार	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
नामकर्म की सब उत्तर प्रकृतियों	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
गोत्रकर्म मूल	सादि-अध्रुव	सादि आदि चार	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
गोत्रकर्म की उत्तर प्रकृतियों	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव
अन्तरायकर्म मूल व उत्तर प्रकृतियों	सादि-अध्रुव	सादि आदि चार	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव

स्वामित्वप्ररूपणा—इसमें ओघ और आदेशसे मूल व उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशबन्धके स्वामीका निर्देश किया गया है। यहाँ इसे संक्षिप्त देकर दिखलाया जाता है—

मूल प्रकृतियोंका ओघसे उत्कृष्ट व जघन्य स्वामित्व

मूल प्रकृतियों	उत्कृष्ट स्वामित्व	जघन्य स्वामित्व
बृह मूल प्रकृ०	बृह कर्मोंका बन्ध करनेवाला उपशामक व क्षपक	प्रथम समयमें तद्भवस्थ हुआ जघन्य योगसे युक्त और जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला भी कोई सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त
मोहनीय कर्म	सात कर्मोंका बन्धक, उत्कृष्ट योगसे युक्त और उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला कोई सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त	"
आयु कर्म	आठ कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगवाला कोई सम्यग्-दृष्टि व मिथ्यादृष्टि चारों गतिका संज्ञी पर्याप्त जीव ।	ध्रुवस्तक भवके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमें विद्यमान, जघन्य योगसे युक्त और जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला कोई सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव

उत्तर प्रकृतियोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उपशामक और क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय जीव; निद्रा, प्रचला, बृह नोकपाय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका सम्यग्दृष्टि जीव; अपत्याख्यानावरणचतुष्कका असंयतसम्यग्दृष्टि जीव, प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका देशसंयत जीव, संज्वलनचतुष्क और पुरुषवेदका उपशामक और क्षपक अनिष्टुतिकरण जीव, असातावेदनीय, मनुष्यायु, देवायु, देवगति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रपंभनाराच-संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि संज्ञी पर्याप्त जीव; आहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत जीव तथा शेष प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि संज्ञी पर्याप्त जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तथा नरकायु, देवायु और नरकगतिद्विकका असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव; देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिका असंयतसम्यग्दृष्टि जीव; आहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत जीव और शेष प्रकृतियोंका तीन मोहोंमें से प्रथम मोहमें स्थित सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । मात्र तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुबन्धके समय कराना चाहिए । यहाँ यह सामान्यरूपसे स्वामित्वका निर्देश किया है । जो अन्य विशेषताएँ हैं वे मूलसे जान लेनी चाहिए । मात्र जो उत्कृष्ट योगसे युक्त है, और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके साथ कमसे कम प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी होता है । तथा जो जघन्य योगसे युक्त है और जघन्य प्रदेशबन्धके साथ अधिकसे अधिक प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा है वह जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी होता है । प्रत्येक प्रकृतिके उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशबन्धके समय हतनी विशेषता अवश्य जान लेनी चाहिए ।

कालप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमें ओघ व आदेशसे मूल व उत्तर प्रकृतियोंके जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके कालका विचार किया गया है । उदाहरणार्थ ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध दशवें गुणस्थानमें होता है और वहाँ उत्कृष्ट योगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है, इसलिये इसका

यिक ब्रह्मा उच्छ्रित और अनुच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं। आहारकद्विकका उच्छ्रित और अनुच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। तीर्थङ्कर प्रकृतिका उच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं और अनुच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं। तथा शेष प्रकृतियोंका उच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं और अनुच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं। यह ओघप्ररूपणा जिन मार्गणाओंमें सम्भव है उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना करके शेष मार्गणाओंमें जहाँ जो विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है। ओघसे जघन्य परिमाणका निर्देश करते हुए बतलाया है कि तीन आयु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। देवगतिद्विक, वैक्रियिकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं। आहारकद्विकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं। आगे जिन मार्गणाओंमें यह ओघप्ररूपणा बन जाती है उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना करके शेष मार्गणाओंमें अपनी-अपनी बन्ध-प्रकृतियोंकी अपेक्षा अलगसे परिमाणका निर्देश किया है।

क्षेत्रप्ररूपण—मूल प्रकृतियोंकी यह प्ररूपणा भी श्रुति है। ओघसे उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा निर्देश करते हुए बतलाया है कि तीन आयु, वैक्रियिकयत्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका उच्छ्रित और अनुच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और शेष प्रकृतियोंका उच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अनुच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्वलोकप्रमाण है। आगे जिन मार्गणाओंमें यह ओघप्ररूपणा सम्भव है उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना करके शेषमें अलगसे विधान किया है। जघन्य क्षेत्रका विधान करते हुए बतलाया है कि ओघसे तीन आयु, वैक्रियिक ब्रह्म, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्वलोकप्रमाण है। यह प्ररूपणा भी जिन मार्गणाओंमें सम्भव है उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना करके शेषमें उसका अलगसे विधान किया है।

स्पर्शनप्ररूपणा—मूल प्रकृतियोंकी यह प्ररूपणा भी नष्ट हो गई है। ओघसे उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा निर्देश करते हुए बतलाया है कि पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर आह्नोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्विका, त्रस, बादर, यथाःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराथका उच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका उच्छ्रित और अनुच्छ्रित प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार स्पर्शन कहा है। तथा सब मार्गणाओंमें भी अपनी अपनी बन्ध योग्य प्रकृतियोंका आश्रय लेकर स्पर्शन कहा है। जघन्य स्पर्शनका निर्देश करते हुए जो प्रकृतियाँ एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीवोंके नहीं बँधती हैं उनका स्पर्शन अपने स्वामित्वके अनुसार अलग-अलग बतलाया है और शेष प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सर्वलोक बतलाया है। केवल मनुष्यायुके स्पर्शनमें कुछ विशेषताका निर्देश किया है। यहाँ मार्गणाओंमें भी इसी प्रकार अपनी अपनी विशेषताके अनुसार स्पर्शनका निर्देश किया है।

नाना जीवोंकी अपेक्षा काल—मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा उच्छ्रित कालप्ररूपणा तो नष्ट हो गई है। मात्र जघन्यकाल प्ररूपणा उपलब्ध होती है। आठों मूलप्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध योग्य सामग्रीके सद्भावमें सूक्ष्म एकेन्द्रिय अर्थात् जीव करते हैं, इसलिए नाना जीवोंकी अपेक्षा इनके जघन्य और

अजघन्य प्रदेशवन्धका काल सर्वदा पाये जानेसे वह सर्वदा कहा है। इसी प्रकार मार्गणाओंमें भी अपने अपने स्वामित्वके अनुसार कालका विचार किया है। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट कालका विचार करते हुए जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध संख्यात जीव करते हैं उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है। नरकायु, मनुष्यायु और देवायुका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध असंख्यात जीव करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा इनके अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इसका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्थके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। अथ रहीं शेष प्रकृतियाँ तो इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध असंख्यात जीव और अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध अनन्त जीव करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका काल सर्वदा कहा है। यह ओघप्ररूपणा जिन मार्गणाओंमें वन जाती है उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना करके शेष मार्गणाओंमें अलगसे कालका निर्देश किया है। जघन्य कालप्ररूपणाका निर्देश करते हुए तीन आयु, वैक्रियिकपट्टक, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य प्रदेश वन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपने अपने स्वामित्वके अनुसार बतला कर शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका काल सर्वदा कहा है, क्योंकि इनका जघन्य प्रदेशवन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव करते हैं। तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध यथासम्भव एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है। यह ओघप्ररूपणा जिन मार्गणाओंमें सम्भव है उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना करके शेषमें जहाँ जो विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है।

नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर—जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे अन्तर प्ररूपणा भी दो प्रकार की है। ओघसे मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकालका कथन करते हुए बतलाया है कि आठों कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेश वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगत्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका अन्तर काल नहीं है। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी यही काल है। आगे यह ओघ प्ररूपणा जिन मार्गणाओंमें वन जाती है उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना करके शेष मार्गणाओंमें जहाँ जो विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है। ओघसे मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य प्ररूपणाका निर्देश करते हुए बतलाया है कि आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नहीं है। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा निर्देश करते हुए तीन आयु, वैक्रियिकपट्टक, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्टके समान बतलाकर शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। आगे यह ओघप्ररूपणा जिन मार्गणाओंमें वन जाती है उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना करके शेषमें जहाँ जो विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है।

भाषप्ररूपणा—सब प्रकृतियोंका वन्ध औद्यिक भावसे होता है, इसलिए यहाँ सब मूल और उत्तर प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका औद्यिक भाव कहा है।

अल्पबहुत्वप्ररूपणा—अल्पबहुत्वके दो भेद हैं—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व। मूल प्रकृतियोंमें स्वस्थान अल्पबहुत्व सम्भव नहीं है, इसलिए इनका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारका परस्थान प्रदेश अल्पबहुत्व ही कहा है। उत्तर प्रकृतियोंका स्वस्थान और परस्थान दोनों प्रकारका अल्पबहुत्व सम्भव है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक कर्मके अलग-अलग अनेक भेद हैं, इसलिए प्रत्येक कर्मकी अघान्तर प्रकृतियोंका स्वस्थान अल्पबहुत्व वन जाता है और सब कर्मोंकी अघान्तर प्रकृतियोंको एक पंक्तिमें रखने पर उनमें परस्थान अल्पबहुत्व भी वन जाता है। यह प्रदेशवन्धका प्रकरण है और प्रदेशवन्ध दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। इसलिए यहाँ यह दोनों प्रकारका अल्पबहुत्व प्रदेश वन्धकी अपेक्षा भी ओघ और आदेशके अनुसार घटित करने बतलाया है और जघन्य प्रदेशवन्धकी अपेक्षा भी ओघ और आदेशके अनुसार घटित करके बतलाया है। इस अल्पबहुत्वके कारणका

निर्देश ग्रन्थके प्रारम्भमें भागहार प्ररूपणाके समय बतला ही आये हैं, इसलिए उसे ध्यानमें रखकर और स्वामित्वको ध्यानमें रखकर इसकी योजना करनी चाहिए। कर्मोंके घाति-अघाति तथा घाति कर्मोंके देश-घाति और सर्वघाति होनेसे किसी कर्मको कम और किसी कर्मको अधिक प्रदेश मिलते हैं इसे भी इस प्रकरणमें ध्यान रखना चाहिए।

भुजगारवन्ध

इस प्रकरणमें भुजगार पद उपलक्षण है। इससे भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवकल्प्य इन चारोंका बोध होता है। अनन्तर पिछले समयमें अल्प प्रदेशोंका बन्ध करके अगले समयमें अधिक प्रदेशोंका बन्ध करना यह भुजगारवन्ध है। अनन्तर पिछले समयमें अधिक प्रदेशोंका बन्ध करके वर्तमान समयमें कम प्रदेशोंका बन्ध करना यह अल्पतर बन्ध है। अनन्तर पिछले समयमें जितने प्रदेशोंका बन्ध किया है अगले समयमें उतने ही प्रदेशोंका बन्ध करना यह अवस्थित बन्ध है और अवन्धके बाद बन्ध करना यह अवकल्प्यबन्ध है। यहाँ इसका तेरह अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे कथन किया गया है। वे तेरह अनुयोगद्वार ये हैं—समुक्तीर्तना, स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भद्रविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व।

यहाँ आठ मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा नाना जीवोंकी अपेक्षा भद्रविचय प्रकरणका प्रारम्भके और अन्तके कुछ अंशको छोड़कर शेष अंश नष्ट हो गया है। कारण कि यहाँका एक तावपत्र गल गया है इसी प्रकार तावपत्रके तीन पत्र गल जानेसे उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा अन्तर प्ररूपणाका अन्तका कुछ भाग, नाना जीवोंकी अपेक्षा भद्रविचय और भागाभाग ये तीन प्रकरण भी नष्ट हो गये हैं।

समुक्तीर्तनामें ओष और आदेशसे मूल और उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा पूर्वके भुजगार आदि चारों पदोंमेंसे किसके कौन सम्भव हैं इस बातका निर्देश किया गया है। स्वामित्वमें ओष और आदेशसे उनका स्वामी बतलाया है। कालप्ररूपणामें उनके कालका और अन्तर प्ररूपणामें अन्तरका विचार किया गया है। इसी प्रकार आगे भी जिस प्रकरणका जो नाम है उसके अनुसार ओष और आदेशसे विचार किया गया है। यहाँ मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा ओषसे अवस्थित पदके कालका निर्देश करते हुए दो प्रकारके उपदेशोंका स्पष्टरूपसे उल्लेख किया है—एक पवाइजन्त उपदेश और दूसरा अन्य उपदेश। पवाइजन्त उपदेशके अनुसार ओषसे आयुके विना सात मूल कर्मोंके अवस्थित पदका उत्कृष्ट काल ग्यारह समय और अन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह समय कहा गया है। ओषसे उत्तर प्रकृतियोंके कालका निर्देश करते हुए भी इन दो उपदेशोंका उल्लेख किया है। वहाँ चार आयुओंके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके अवस्थित पदका उत्कृष्ट काल पवाइजन्त उपदेशके अनुसार ग्यारह समय और अन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह समय बतलाया है।

पदनिक्षेप

भुजगार अनुयोगद्वारमें भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवकल्प्यपदके आश्रयसे मूल और उत्तर प्रकृतियोंके समुक्तीर्तना आदिका विचार किया जाता है यह पहले बतला आये हैं। किन्तु ये भुजगार आदि पद उत्कृष्ट भी होते हैं और जघन्य भी होते हैं इस बातका विचारकर यहाँ इस अनुयोगद्वारमें भुजगारके उत्कृष्ट वृद्धि और जघन्य वृद्धि ये दो भेद करके, अल्पतरके उत्कृष्ट हानि और जघन्य हानि ये दो भेद करके तथा अवस्थितपदके उत्कृष्ट अवस्थान और जघन्य अवस्थान ये दो भेद करके विचार किया गया है। अवकल्प्यपदके ये उत्कृष्ट और जघन्य भेद सम्भव नहीं हैं, इसलिए यहाँ इसकी अपेक्षा न तो ये भेद किये गये हैं और न इसकी अपेक्षा विचार ही किया गया है। इस प्रकार उक्त तीनपदके अनुसार पदनिक्षेपके समुक्तीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ये तीन अनुयोगद्वार कहकर प्रत्येकके उत्कृष्ट और जघन्य ये दो-दो भेद कर दिये गये हैं। उत्कृष्ट समुक्तीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्वमें ओष और आदेशसे मूल और उत्तर

प्रकृतियोंकी उच्छ्रष्ट वृद्धि, उच्छ्रष्ट हानि और उच्छ्रष्ट अवस्थानका विचार किया गया है। तथा जघन्य समुक्तीर्तना, जघन्य स्वामित्व और जघन्य अल्पबहुत्वमें ओघ और आदेशसे मूल और उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानका विचार किया गया है।

यहाँ एक ताडपत्रके गल जानेसे मूलप्रकृतियोंकी अपेक्षा स्वामित्वके अन्तका बहुभाग और अल्प-बहुत्व तथा वृद्धि अनुयोगद्वारके अल्पबहुत्वके अन्तके अंशको छोड़कर शेष सब प्रकरण नष्ट हो गये हैं। इसीप्रकार उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा उच्छ्रष्ट स्वामित्वका निर्देश करते हुए आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी इन तीन मार्गणाओंकी प्ररूपणके मध्यमें ताडपत्र मुद्रित प्रतिमें यह सूचना दी गई है—[क्रमागतताडपत्रत्याजानुल्लिखः। अक्रमयुक्तमन्यं समुपलभ्यते।] अर्थात् क्रमागत ताडपत्रकी यहाँपर अनुपलब्धि है। अक्रमयुक्त अन्य ताडपत्र उपलब्ध हो रहा है। वैसे प्रकरणकी सङ्गति बैठ जाती है, इसलिए यह कह सकना कठिन है कि क्रमाङ्कके अन्तरको सूचित करनेके लिए यहाँ सूचना दी गई है या यह सूचना देनेका अन्य कोई कारण है।

यहाँ समुक्तीर्तनामें ओघ और आदेशसे मूल और उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा किसके उच्छ्रष्ट वृद्धि आदि और जघन्य वृद्धि आदि सम्भव हैं इस बातका निर्देश किया गया है। तथा स्वामित्वमें उनका स्वामित्व और अल्पबहुत्वमें अल्पबहुत्व बतलाया गया है।

वृद्धि

पहले पदनिक्षेपमें उच्छ्रष्ट वृद्धि आदि और जघन्य वृद्धि आदि पदोंके आश्रयसे विचार कर आये हैं। यहाँ इस अनुयोगद्वारमें उच्छ्रष्ट और जघन्य भेद न करके अपने अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा वे वृद्धि और हानि जितने प्रकारकी हैं उनके आश्रयसे तथा अवस्थित और अवकल्प्यपदके आश्रयसे ओघ और आदेशसे मूल व उत्तर प्रकृतियोंका साक्षीपाद्म विचार किया गया है। इसके अवान्तर अनुयोगद्वार तेरह हैं—समुक्तीर्तना, स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व।

वृद्धिपद उपलक्षण है। इससे वृद्धि, हानि, अवस्थित और अवकल्प्य इन सबका ग्रहण होता है। इन चारोंके अवान्तर भेद चारह हैं। यथा अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवकल्प्य। यहाँ इन पदोंकी अपेक्षा समुक्तीर्तना आदि तेरह अनुयोगद्वारोंका आलम्बन लेकर और आदेशसे मूल व उत्तर प्रकृतियोंका विचार किया गया है।

समुक्तीर्तनामें मूल व उत्तर प्रकृतियोंके कहीं कितने पद सम्भव हैं यह बतलाया गया है। स्वामित्वमें मूल व उत्तर प्रकृतियोंके किन पदोंका कहीं कौन स्वामी है यह बतलाया गया है। इसी प्रकार जागे भी जिस प्रकरणका जो नाम है उसके अनुसार विचार किया गया है।

यह तो हम पहले ही सूचित कर आये हैं कि मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा वृद्धि-अनुयोगद्वारका कथन करनेवाला प्रकरण ताडपत्रके गल जानेसे प्रायः सबका सब नष्ट हो गया है, उत्तर प्रकृतियोंका विवेचन करनेवाला ही यह प्रकरण उपलब्ध होता है।

अध्यवसानसमुदाहार

अध्यवसानसमुदाहारके दो भेद हैं—प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व। प्रमाणानुगममें योगस्थानों और प्रदेशव्यवस्थानोंके प्रमाणका निर्देश करते हुए बतलाया है कि जितने योगस्थान हैं उनसे ज्ञानावरण कर्मेके प्रदेशव्यवस्थान संख्यातवत् भागप्रमाण अधिक हैं। कारणका निर्देश करते हुए बतलाया है कि आठ

प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवको सब योगस्थान प्राप्त होते हैं। सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके जो उत्कृष्ट होता है उसमेंसे आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवका उत्कृष्ट योगस्थानका कुछ भाग शेष बचता है, इसलिये आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवालेसे सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवालेके विशेष प्राप्त होता है। तथा इसी प्रकार सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवालेसे छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने वालेके विशेष प्राप्त होता है। यही कारण है कि यहाँ पर योगस्थानोंसे ज्ञानावरणके प्रदेशबन्धस्थान सख्यातर्वे भागप्रमाण अधिक कहे हैं। यहाँ ज्ञानावरण कर्मके आश्रयसे जो व्याख्यान किया है उसी प्रकार अन्य कर्मोंके आश्रयसे जानना चाहिए। मात्र आयु कर्मके योगस्थान समान होते हैं। यह मूल प्रकृतियों की अपेक्षा विचार हुआ। उत्तरप्रकृतियोंकी अपेक्षा इसीप्रकार प्रत्येक प्रकृतिका आत्मन लेकर योगस्थानों और प्रदेशबन्ध स्थानोंके प्रमाणका अलग-अलग विचार किया गया है। तथा अल्पबहुत्वमें इन योगस्थानों और प्रदेशबन्ध स्थानोंके मूल व उत्तरप्रकृतिकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका विचार किया गया है।

जीवसमुदाहार

इस अनुयोगधारके भी दो भेद हैं—प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व। प्रमाणानुगममें पहले चौदह जीव समाप्तके आश्रयसे जघन्य और उत्कृष्ट योगस्थानोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा करके बादमें उन्ही चौदह जीव समाप्तके आश्रयसे जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्थानोंके अल्पबहुत्वका कथन किया गया है।

अल्पबहुत्वके जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्योत्कृष्ट ये तीन भेद करके ओष और आदेशसे सब मूल व उत्तरप्रकृतियोंके प्रदेशोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा इन प्रकरणोंमें की गई है।

विषय-सूची

मङ्गलाचरण	१	जघन्य काल	३४-४५
प्रदेशबन्धके दो भेदोंका नाम निर्देश	१	अन्तरप्ररूपणा	४५-४८
मूल प्रकृति प्रदेशबन्ध	१-८७	अन्तरके दो भेद	४५
भागामाससुदाहार	१-२	उत्कृष्ट अन्तर (वृद्धि ^१)	४५-४८
चौबीस अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	३	नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल	४६
स्थानप्ररूपणा	३-१०	अन्तरप्ररूपणा	५०-५१
स्थानप्ररूपणाके दो भेद	३	अन्तरके दो भेद	५०
योगस्थानप्ररूपणा	३-१०	उत्कृष्ट अन्तर	५०
योग-अल्पबहुत्व	३-४	जघन्य अन्तर	५१
प्रदेश-अल्पबहुत्व	४	भावप्ररूपणा	५१
योगस्थानप्ररूपणाके दस भेद	५	भावके दो भेद	५१
अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा	५	उत्कृष्ट भाव	५१
वर्णणाप्ररूपणा	५	जघन्य भाव	५१
स्पर्धकरूपणा	६	अल्पबहुत्वप्ररूपणा	५२-५३
अन्तरप्ररूपणा	६	अल्पबहुत्वके दो भेद	५२
स्थानप्ररूपणा	७	उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	५२
अनन्तरोपनिधा	७	जघन्य अल्पबहुत्व	५२-५३
परम्परोपनिधा	८	भुजगारवन्ध	५३-७६
समयप्ररूपणा	६	अर्थपद	५३
वृद्धिप्ररूपणा	६-१०	भुजगारके १३ अनुयोगद्वारोंकी सूचना	५३
अल्पबहुत्व	१०	समुत्कीर्तना	५३-५४
प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणा	१०	स्वामित्व	५४-५५
सर्व-नोसर्व प्रदेशबन्धप्ररूपणा	१०-११	काल	५५-५७
उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धप्ररूपणा	११	अन्तर	५७-६५
जघन्य-अजघन्य प्रदेशबन्धप्ररूपणा	१२	नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	६५-६६
साद्यादि प्रदेशबन्धप्ररूपणा	१२-१३	भागामाग	६६-६७
स्वामित्वप्ररूपणा	१४-२८	परिमाण	६७-६६
स्वामित्वके दो भेद	१४	क्षेत्र	६६-७०
उत्कृष्ट स्वामित्व	१४-२२	स्पर्शन	७१-७३
जघन्य स्वामित्व	२२-२८	काल	७३-७५
कालप्ररूपणा	२८-४५	अन्तर	७६-७७
कालके दो भेद	२८	भाव	७७
उत्कृष्ट काल	३८-३४	अल्पबहुत्व	७८-७६

१ जघन्य अन्तर, सन्निकर्ष, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागामाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन और उत्कृष्ट काल भी वृद्धित ।

सिरि-भगवंतभूदबलिभेडारयणीदो

महाबंधो

चउत्थो पदेसबंधाहियारो

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं ॥

१. यो सो पदेसबंधो सो दुविधो—मूलपगदिपदेसबंधो चैव उत्तरपगदि-
पदेसबंधो चैव ।

१ मूलपयडिपदेसबंधो

२. एत्तो मूलपगदिपदेसबंधे पुर्व्वं गमणीयो भागाभागसमुदाहारो । अट्टविध-
बंधगस्स आउगभागो^१ थोवो । णामा-गोदेसु भागो विसेसाधियो । णाणावरण-दंसणा-
वरण-अंतराहगणं भागो विसेसाधियो । मोहणीयभागो विसेसाधियो । वेदणीयभागो
विसेसाधियो । केण कारणेण आउगभागो^२ थोवो ? अट्टसु कम्मपगदीसु आउगे द्विदिवंधो
थोवो । एदेण कारणेण आउगभागो थोवो । सेसाणं वेदणीयवज्जाणं कम्मणं यस्स दोहा
द्विदी तस्स भागो बहुगो । वेदणीयस्स पुण अण्णं कारणं । यदि वेदणीयं ण भवे तदो

अरिहन्तोंको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो, आचार्योंको नमस्कार हो, उपाध्यायोंको
नमस्कार हो और लोकमें सर्व साधुओंको नमस्कार हो ।

१. प्रदेशबन्ध दो प्रकारका है—मूलप्रकृतिप्रदेशबन्ध और उत्तरप्रकृतिप्रदेशबन्ध ।

१ मूलप्रकृतिप्रदेशबन्ध

२. यहाँसे मूलप्रकृतिप्रदेशबन्धमे भागाभागसमुदाहारका सर्व प्रथम विचार करते हैं ।
वह इस प्रकार है—आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके आयुर्कर्मका भाग सबसे स्तोक
है । इससे नाम और गोत्रकर्म का भाग विशेष अधिक है । इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और
अन्तराय कर्म का भाग विशेष अधिक है । इससे मोहनीय कर्मका भाग विशेष अधिक है
और इससे वेदनीय कर्मका भाग विशेष अधिक है ।

शंका—आयुर्कर्मको स्तोक भाग क्यों मिलता है ?

समाधान—क्योंकि आठ कर्मोंमें आयुर्कर्मका स्थितिबन्ध स्तोक है, इससे आयुर्कर्मको
स्तोक भाग मिलता है ।

वेदनीयके सिवा शेष कर्मोंमें जिसकी स्थिति अधिक है उसको बहुत भाग मिलता है ।
परन्तु वेदनीयको अधिक भाग मिलनेका अन्य कारण है । यदि वेदनीय कर्म न हो तो सब कर्म

१. ता० प्रतौ आउगभावो (गो) इति पाठः । २. ता० प्रतौ आउगभावो (गो) आ० प्रतौ
आउगभावो इति पाठः ।

सञ्चकम्माणि वि जीवस्स ण समत्था सुहं वा दुक्खं वा उप्पादेदुं^१ । एदेण कारणेण वेदणीए भागो बहुगो । एदेण कारणेण सञ्चकम्माणं उवरिद्धं^२ ।

३. सत्तविध्वंधगस्स वि णामा-गोदेसु भागो थोचो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराह्माणं भागो विसे० । मोहणीए भागो विसे० । वेदणीए भागो विसे० ।

४. छन्विध्वंधगस्स वि णामा-गोदेसु भागो थोचो । णाणाव०-दंसणा०-अंतराह्माणं भागो विसे० । वेदणीए भागो विसे० ।

जीवको सुख या दुःख उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हैं । इस कारण वेदनीयको सबसे बहुत भाग मिलता है । तथा इसी कारण से सब कर्मों के ऊपर वेदनीयका भागाभाग प्राप्त होता है ।

३. सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके भी नाम और गोत्र कर्मका भाग स्तोक है । इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका भाग विशेष अधिक है । इससे मोहनीय कर्मका भाग विशेष अधिक है और इससे वेदनीय कर्मका भाग विशेष अधिक है ।

४. छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके भी नाम और गोत्रकर्मका भाग स्तोक है । इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका भाग विशेष अधिक है और इससे वेदनीय कर्मका भाग विशेष अधिक है ।

विशेषार्थ—गुणस्थान भेदसे बन्ध चार प्रकारका होता है—आठ प्रकृतिक बन्ध, सात प्रकृतिक बन्ध, छह प्रकृतिक बन्ध और एकप्रकृतिक बन्ध । एकप्रकृतिक बन्ध उपशान्तमोह आदि तीन गुणस्थानोंमें होता है । किन्तु जब एकप्रकृतिक बन्ध होता है तब बटवारेका प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए मूलमें इसका उल्लेख नहीं किया है । छह प्रकृतिक बन्ध सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता है । तथा सात प्रकृतिक बन्ध प्रथमादि नौ गुणस्थानोंमें और आठ प्रकृतिक बन्ध प्रथमादि सात गुणस्थानोमे आयुबन्धके काल मे होता है । इसलिए पिछले इन तीन प्रकारके बन्धोंमेंसे अपने-अपने योग्य स्थानोंमे जब जो बन्ध होता है तब बन्धको प्राप्त होनेवाले कर्म प्रदेशोंका विभाग किस क्रमसे होता है यह कारणपूर्वक यहाँ बतलाया गया है । आठ कर्मोंका जितना स्थितिबन्ध होता है उनमें आयुकर्मका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है, क्योंकि इसका गहन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेतीस सागर है । इसलिए इसमें निषेकरचना सबसे अल्प है । यही कारण है कि इसे बन्धके समय सबसे अल्प भाग मिलता है । नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बीस कोड़ाकोड़ी सागर है, इसलिए इन दोनों कर्मोंको समान भाग मिलकर भी आयुकर्मके भागसे बहुत मिलता है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय का स्थितिबन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागर है, इसलिए इन तीन कर्मोंको परस्पर समान भाग मिलकर भी नाम और गोत्रकर्मके भागसे बहुत मिलता है । यद्यपि वेदनीय कर्मका स्थितिबन्ध भी तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है तथापि सुख-दुःखके निमित्तसे इसकी निर्णय सर्वाधिक होती है, अतः इसे मोहनीय कर्मसे भी अधिक द्रव्य मिलता है । मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है, अतः इसे ज्ञानावरणादिके द्रव्यसे बहुत द्रव्य मिलता है । तात्पर्य यह है कि वेदनीय कर्मके सिवा जिस कर्मके अपने अपने स्थितिबन्धके अनुसार जितने निषेक होते हैं उसी हिसाबसे उस कर्मको द्रव्य मिलता है । मात्र यह विवक्षा वेदनीय कर्मपर लागू नहीं होती, इसका कारण पहले दे ही आये हैं ।

१. ता० प्रती उप्पादेदु० चे इति पाठः । २. ता० प्रती अवरिद्धं इति पाठः ।

चतुर्वीसअणियोगद्वाराणि

५. एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि चतुर्वीसं अणियोगद्वाराणि णादन्वाणि भवंति । तं जहा—ठाणपरूवणा सव्वबंधो णोसव्वबंधो उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो जहण्णबंधो अजहण्णबंधो एवं याव अप्पावहुणे त्ति । भुजगारबंधो^१पदणिकखेओ चड्ढिबंधो अज्झवसानसमुदाहारो जीवसमुदाहारो त्ति ।

द्वानपरूवणा

६. द्वानपरूवणादाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि—योगद्वानपरूवणा पदेसबंधपरूवणा चेदि । योगद्वानपरूवणादाए सव्वत्थोवा सुहुमस्स अपज्जत्तयस्स जहण्णगो योगो । वादरस्स अपज्जत्तयस्स जहण्णगो योगो असंखेज्जगुणो । वेइं०-तेइं०-चतुरिं०-पंचिदिं०-असण्णि-सण्णिअपज्जत्तयस्स जहण्णगो योगो असंखेज्जगुणो । सुहुम-एइंदियअपज्ज० उक्क० योगो असंखेज्जगुणो । वादरएइंदियअपज्ज० उक्क० योगो असंखेज्जगुणो । सुहुमएइंदियपज्ज० जहण्णगो योगो असं०गुणो । वादरएइंदिय०पज्ज० जह० योगो असं०गुणो । सुहुम०पज्ज०उक्क० असं०गुणो । वादर०पज्ज० उक्क० असं०गुणो ।

चौबीस अनुयोगद्वार

५. इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये चौबीस अनुयोगद्वार होते हैं । यथा—स्थानप्ररूपणा, सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्ट बन्ध, अनुत्कृष्ट बन्ध, जघन्य बन्ध और अजघन्य बन्धसे लेकर अल्पबहुत्व तक । तथा भुजगारबन्ध, पदनिक्षेप, वृद्धिबन्ध, अध्यवसानसमुदाहार और जीवसमुदाहार ।

विशेषार्थ—यहाँ चौबीस अनुयोगद्वारोंका निर्देश करते समय प्रारम्भके सात और अन्तका एक गिनाया है । मध्यके शेष ये हैं—सादिबन्ध, अनादिबन्ध; ध्रुवबन्ध, अध्रुवबन्ध स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, अन्तर, सन्निकर्ष, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर और भाव । आगे इन चौबीस अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर प्रदेशबन्धका विचार कर पुनः उसका भुजगारबन्ध, पदनिक्षेप, वृद्धि, अध्यवसानसमुदाहार और जीवसमुदाहार इन द्वारा और इनके अवान्तर अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे विचार किया गया है ।

स्थानप्ररूपणा

६. स्थानप्ररूपणामे ये दो अनुयोगदार होते हैं—योगस्थानप्ररूपणा और प्रदेशबन्धप्ररूपणा । योगस्थानप्ररूपणामें सूक्ष्म अपर्याप्त जीवके जघन्य योग सबसे स्तोके है । इससे वादर अपर्याप्त जीवके जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, पञ्चिन्द्रिय असंज्ञी अपर्याप्त और पञ्चिन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्त जीवके जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । इससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवके उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । इससे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवके उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । इससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इससे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । इससे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । इससे द्वीन्द्रिय

१. ता० प्रती भुजागारबंधो इति पाठः ।

बैहं०-तेहं०-चदुरिं०-पंचिं०-असण्णि-सण्णिअपज्जत्तयस्स उक्क० असं०गुणो । तस्सेव पज्जत्तयस्स जह० योगो असं०गुणो । तस्सेव पज्ज० उक्क० असं०गुणो । एवमेकेकस्स जीवस्स योगगुणगारो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

७. पदेसअप्पावहुगे ति । सव्वत्थोवा सुहुम०अपज्ज० जहण्णयं पदेसग्गं । बादर०-अपज्ज० जह० पदे० असं०गु० । बैहं०-तेहं०-चदुरिं०-पंचिं०-असण्णि-सण्णिअपज्ज० जह० पदे० असं०गु० । एवं यथा योगअप्पावहुगं तथा षोदव्वं । णवरि विसेसो एवमेवकेकस्स पदेसगुणगारो पल्लिदो० असंखेज्जदिभागो ।

एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी अपर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्त जीवके उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । इससे इन्हीं पर्याप्त जीवोंके जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । इससे इन्हीं पर्याप्त जीवोंके उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । इस प्रकार यहाँ एक-एक जीवके योगका गुणकार पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—मन, वचन और कायका आलम्बन लेकर जीवमें जो आत्मप्रदेशपरिष्पद रूप शक्ति उत्पन्न होती है उसे योग कहते हैं । यह योग आलम्बनके भेदसे तीन प्रकारका है—मनोयोग, वचनयोग और काययोग । यह सामान्य लब्धपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवसे लेकर सयोगिकेवली तक सब ससारी जीवोंके उपलब्ध होता है । उसमें भी सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्धपर्याप्त जीवके यह सबसे जघन्य होता है और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके उत्कृष्ट होता है । बीच में जीवसमासके भेदसे जघन्य और उत्कृष्ट योग किस क्रमसे होता है यह मूलमें बतलाया ही है ।

७. प्रदेशअल्पबहुत्वका विचार करनेपर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवके जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक हैं । इनसे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवके जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणे हैं । इनसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय, अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी अपर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्त जीवके जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार आगे योग अल्पबहुत्वके समान यह अल्पबहुत्व जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि एक-एक जीवके प्रदेशगुणकार पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—पहले योगअल्पबहुत्व का कथन कर आये हैं । प्रदेशअल्पबहुत्व उसीके समान है । यहाँ प्रदेशअल्पबहुत्वसे उत्तरोत्तर कितने गुणे प्रदेशोका बन्ध होता है यह बतलाया गया है । सबसे जघन्य योग सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकके होता है, अतएव इस योगसे इसी जीवके सबसे जघन्य प्रदेशबन्ध होता है । इससे बादर एकेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकके जघन्य योग असंख्यातगुणा होता है, इसलिए सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकके जितने कर्म परमाणुओंका बन्ध होता है उनसे असंख्यातगुणे कर्मपरमाणुओंका बन्ध होता है । पहले योग अल्पबहुत्व बतलाते समय असंख्यातगुणेमें असंख्यात पदका अर्थ पत्योपमका असंख्यातवां भाग लिया गया है यह कह आये हैं । वैसे ही इस अल्पबहुत्व में भी असंख्यातगुणेमें असंख्यात पदका अर्थ पत्योपमका असंख्यातवां भाग लेना चाहिए । इस प्रकार संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा प्रदेशबन्ध होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

योगद्वाणपरूवणा

८. योगद्वाणपरूवणादाए तत्थ इमाणि दस अणियोगद्दाराणि—अविभागपलिच्छेद-परूवणा वगणापरूवणा फइयपरूवणा अंतरपरूवणा ठाणपरूवणा अर्णतरोवणिधा परंपरोवणिधा समयपरूवणा वड्डिपरूवणा अप्पावहुणे ति ।

९. अविभागपलिच्छेदपरूवणादाए एकमेकम्हि जीवपदेसे केवडिया अविभाग-पलिच्छेदा ? असंखेजा लोगा अविभागपलिच्छेदा । एवडिया अविभागपलिच्छेदा ।

१०. वगणपरूवणादाए असंखेजा लोगा योगअविभागपलिच्छेदा एया वगणा भवंदि^१ । एवं असंखेजाओ वगणाओ सेडोए असंखेजद्विभागमेत्तीओ ।

योगस्थानपरूवणा

८. योगस्थानपरूवणामे ये दस अनुयोगद्दारा ज्ञातव्य हैं—अविभागप्रतिच्छेदपरूवणा, वर्गणापरूवणा, स्पर्धकपरूवणा, अन्तरपरूवणा, स्थानपरूवणा, अनन्तरोपनिधा, परन्परोपनिधा, समयपरूवणा, वृद्धिपरूवणा और अल्पवहुत्व ।

९ अविभागप्रतिच्छेदपरूवणामें जीवके एक एक प्रदेशमें कितने अविभागप्रतिच्छेद होते हैं ? असंख्यात लोकप्रमाण अविभागप्रतिच्छेद होते हैं । इतने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं ।

विशेषार्थ—बुद्धिद्वारा शक्तिका छेद करने पर सबसे जघन्य शक्त्यंशकी वृद्धिका नाम प्रतिच्छेद संज्ञा है । यह वृद्धि अविभाज्य होती है, अतः इसे अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं । प्रकृतमें योगशक्ति विवक्षित है । जीवके प्रत्येक प्रदेशमें इस योगशक्तिके देखने पर वह असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिच्छेदोंसे युक्त योगशक्तिको लिये हुये होता है । यद्यपि यह योगशक्ति किसी जीवप्रदेशमें जघन्य होती है और किसी जीवप्रदेशमें उत्कृष्ट, पर अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा विचार करने पर वह असंख्यात लोकप्रमाण अविभागप्रतिच्छेदोंको लिये हुए होकर भी जघन्यसे उत्कृष्टमें असंख्यातरुणे अविभागप्रतिच्छेद होते हैं । उदाहरणार्थ—एक शुद्ध वस्त्र लीजिये । उसके किसी एक अवयवमें कम शुद्धता होती है और किसीमें अधिक । जिस प्रकार उस वस्त्रमें शुद्धरुणका तारतम्य दिखाई देता है उसी प्रकार जीवके प्रदेशोंमें भी योगशक्तिका तारतम्य दिखाई देता है । इससे विदित होता है कि इस तारतम्यका कोई कारण होना चाहिए । यहाँ तारतम्यका जो भी कारण है उसीका नाम अविभागप्रतिच्छेद है । इन अविभागप्रतिच्छेदोंके क्रमसे वर्गणा कैसे उत्पन्न होती है आगे इसी बातका विचार किया जाता है ।

१०. वर्गणापरूवणाकी अपेक्षा योगके असंख्यात लोकप्रमाण अविभागप्रतिच्छेद मिलकर एक वर्गणा होती है । इस प्रकार असंख्यात वर्गणाएँ होती हैं, क्योंकि ये जगश्रेणिके असंख्यातवै भागप्रमाण होती हैं ।

विशेषार्थ—पहले हम प्रत्येक प्रदेशगत योगके अविभागप्रतिच्छेदोंका विचार कर आये हैं । उत्तरोत्तर वृद्धिरूप ये अविभागप्रतिच्छेद सभी जीव प्रदेशोंमें उपलब्ध होते हैं । कारण कि योग सब प्रदेशोंमें समान रूपसे नहीं उपलब्ध होता । उदाहरणार्थ दाहिने हाथसे वजन उठाने पर इस हाथके प्रदेशोंमें जितना अधिक खिचाव दिखाई देता है उतना खिचाव कंधेके पासके प्रदेशोंमें नहीं दिखाई देता । तथा कंधेके प्रदेशोंमें जितना खिचाव दिखाई देता है उतना खिचाव शरीरके अन्य अवयवोंके प्रदेशोंमें नहीं प्रतीत होता । इसलिये सब जीवप्रदेशोंमें योगशक्तिकी होनाधिकताके कारण उसका तारतम्य किस क्रमसे उपलब्ध होता है यह विचार करना पड़ता

१. प्रत्योः भवन्ति इति पाठः ।

११. फ़द्दयपरूवणदाए असंखेजाओ वगगणाओ' सेडीए असंखेजदिभागमेत्तीओ
एयं फ़द्दयं भवदि । एवं असंखेजाणि फ़द्दयाणि सेडीए असंखेजदिभागमेत्ताणि ।

१२. अंतरपरूवणदाए एक्केक्कस्स फ़द्दयस्स केवडियं अंतरं ? असंखेजा लोगा
अंतरं । एवडियं अंतरं ।

है और इसी विचारके परिणामस्वरूप योगका निरूपण अविभागप्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक और योगस्थान इत्यादि अधिकारो द्वारा किया जाता है। अविभागप्रतिच्छेदोका विचार तो किया ही है। वे जितने जीवप्रदेशोमे समानरूपसे पाये जाते हैं उन जीव प्रदेशोंकी वर्गणा संज्ञा है। पुनः इनसे आगेके जीवप्रदेशोंमें एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक पाया, इसलिये इन जीवप्रदेशोंकी दूसरी वर्गणा बनती है। पुनः इनसे आगेके जीव प्रदेशोमे दो अधिक अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं इसलिये इन जीव प्रदेशोंकी तीसरी वर्गणा बनती है। इस प्रकार एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिकके क्रमसे उत्तरोत्तर चौथी आदि वर्गणाएँ बनती हैं जो जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण होती हैं। इस प्रकार वर्गणाओका विचार किया। आगे स्पर्धकका विचार करते हैं—

११. स्पर्धकरूपणाकी अपेक्षा असंख्यात वर्गणाएँ, जो कि जगश्रेणिके असंख्यातवे भाग-प्रमाण होती हैं, मिलकर एक स्पर्धक होता है। इस प्रकार असंख्यात स्पर्धक होते हैं, क्योंकि ये जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं।

विशेषार्थ—पहले जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण वर्गणाओका विचार कर आये हैं। उन सब वर्गणाओका समुदाय प्रथम स्पर्धक होता है। इसी प्रकार अन्य अन्य जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण वर्गणाओका अन्य अन्य स्पर्धक बनता है और ये सब स्पर्धक भी मिलकर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण होते हैं। इस प्रकार स्पर्धकोंका विचार कर आगे इनके अन्तरका विचार करते हैं—

१२. अन्तररूपणाकी अपेक्षा एक एक स्पर्धकके बीच कितना अन्तर होता है ? असंख्यात लोकप्रमाण अन्तर होता है। इतना अन्तर होता है।

विशेषार्थ—पहले हम जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण अन्य अन्य वर्गणाएँ मिलकर एक एक स्पर्धक बनता है यह बतला आये हैं। वहाँ हमने यह भी बतलाया है कि एक एक स्पर्धकके भीतर जितनी वर्गणाएँ होती हैं उनमे प्रथम वर्गणासे लेकर अन्तिम वर्गणा तक प्रत्येक वर्गणामे एक एक अविभागप्रतिच्छेद बढ़ता जाता है। उदाहरणार्थ प्रथम स्पर्धकमे चार वर्गणाएँ हैं और प्रथम वर्गणाके जीवप्रदेशोंमें पाँच-पाँच अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं तो दूसरी वर्गणाके जीवप्रदेशोंमें छह-छह, तीसरी वर्गणाके जीवप्रदेशोंमें सात-सात और चौथी वर्गणाके जीव प्रदेशोंमें आठ-आठ अविभागप्रतिच्छेद पाये जावेगे। अब विचार इस बातका करना है कि क्या जैसे प्रथम स्पर्धककी प्रत्येक वर्गणामें एक-एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक पाया जाता है उसी प्रकार प्रथम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोसे दूसरे स्पर्धककी प्रथम वर्गणामे एक अधिक ही अविभागप्रतिच्छेद पाया जावेगा या इनके बीच कोई अन्तर है और यदि अन्तर है तो वह कितना है ? इसी प्रश्नका उत्तर देनेके लिये यह अन्तर ररूपणा आई है। इसमें बतलाया गया है कि एक-एक स्पर्धकके बीच असंख्यात लोकप्रमाण अन्तर है। इसका आशय यह है कि अनन्तरपूर्व स्पर्धककी अन्तिम वर्गणामे जितने अविभागप्रतिच्छेद होते हैं उनसे असंख्यात लोकप्रमाण अविभागप्रतिच्छेदोका अन्तर देकर आगेके स्पर्धककी प्रथम वर्गणामे

१३. ठाणपरुषणदाए असंखेजाणि फहयाणि सेडीए असंखेजदिभागमेचाणि जहणणयं जोगट्टाणं भवदि । एवं असंखेजाणि योगट्टाणाणि सेडीए असंखेजदि-भागमेचाणि ।

१४. अणतरोवणिधाए जहणणजोगट्टाणे फहयाणि थोवणि । विदिए योगट्टाणे फहयाणि विसेसाधियाणि । तदिए योगट्टाणे फहयाणि विसे० । एवं विसे० विसे० याव उक्कस्सए योगट्टाणे त्ति । विसेसो पुण अंगुलस्स असंखेजदिभागमेचाणि फहयाणि ।

अविभागप्रतिच्छेद होते हैं । उदाहरणार्थ प्रथम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाके प्रत्येक प्रदेशमें आठ-आठ अविभागप्रतिच्छेद हैं इसलिए यहाँ असंख्यात लोकका प्रमाण चार मानकर इतना अन्तर देकर द्वितीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके प्रत्येक प्रदेशमें तेरह-तेरह अविभागप्रतिच्छेद होंगे । इसी प्रकार आगे सब स्पर्धकोंमें अन्तर दे-देकर उनकी वर्गणाओंके उक्त प्रकारसे अविभागप्रतिच्छेद होते हैं । आगे इन स्पर्धकोंके आधारसे स्थानकी उत्पत्ति कैसे होती है यह बतलाते हैं—

१३. स्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा असंख्यात स्पर्धक, जो कि जगश्रेणिके असंख्यातवे भाग-प्रमाण होते हैं, मिलाकर जघन्य योगस्थान होता है । इस प्रकार असंख्यात योगस्थान होते हैं, क्योंकि उनका प्रमाण जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—पहले हम जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्धकोंका निर्देश कर आये हैं । वे सब स्पर्धक मिलाकर एक जघन्य योगस्थान होता है । यह सुक्ष्म निर्गोद लब्धव्यपर्याप्तक एक जीवसम्बन्धी योगस्थान है । इसी प्रकार अन्य अन्य जीवोंके सब प्रदेशोंमें रहनेवाली योगशक्तिके आश्रयसे अन्य अन्य योगस्थानकी उत्पत्ति होती है । इस हिसाबसे सब योगस्थानों की परिगणना करने पर वे जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण होते हैं । यहाँ प्रश्न यह है कि जबकि एक एक जीवके आश्रयसे एक एक योगस्थान बनता है और जीव अनन्तानन्त हैं ऐसी अवस्थामें अनन्तानन्त योगस्थान होने चाहिये, न कि जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण । समाधान यह है कि जीव अनन्तानन्त होकर भी योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण ही होते हैं, क्योंकि एक जीवके जो योगस्थान होता है अन्य बहुतसे जीवोंके वही योगस्थान सम्भव है । उदाहरणस्वरूप साधारण वनस्पतिको लीजिये । साधारणवनस्पतिके एक-एक सरीरमें अनन्तानन्त निर्गोद जीव रहते हैं जिनके आहार और इवासीच्छ्वास आदि समान होते हैं । वे एक साथ मरते हैं और एक साथ उत्पन्न होते हैं, अतः इन जीवोंके समान योगस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं आती । इसी प्रकार अन्य जीवोंके भी समान योगस्थानोंका प्राप्त होना सम्भव है, अतः जीवराशिके अनन्तानन्त होने पर भी योगस्थान सब मिलाकर जगश्रेणिके असंख्यातवे भाग प्रमाण ही होते हैं यह सिद्ध होता है । अब आगे इन योगस्थानोंमें समान स्पर्धक न होकर उत्तरोत्तर अधिक स्पर्धक होते हैं यह बतलाते हैं—

१४. अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य योगस्थानमें स्पर्धक सबसे थोड़े होते हैं । इनसे दूसरे योगस्थानमें स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं । इनसे तीसरे योगस्थानमें स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं । इस प्रकार उच्छ्रय योगस्थानके प्राप्त होने तक वे उत्तरोत्तर विशेष अधिक विशेष अधिक होते हैं । यहाँ विशेषका प्रमाण अङ्गुलके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्धक है ।

विशेषार्थ—एक योगस्थानमें कुल स्पर्धक जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण होते हैं यह हम पहले बतला आये हैं । इस हिसाबसे सब योगस्थानोंमें वे उत्तरे-उत्तरे ही होते होंगे यह शंका होती है, अतएव इस शंकाका परिहार करनेके लिये यह अनन्तरोपनिधा अनुयोगद्वार

१५. परंपरोवणिधाए जहण्णगे योगद्वाणे फद्दगेहिंतो सेडीए असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदा । एवं दुगुण० दुगुण० याव उक्कस्सए योगद्वाणे त्ति । एयजोग-दुगुणवड्ढिद्वाणंतरं सेडीए असंखेज्जदिभागो । णाणाजोगदुगुणवड्ढिद्वाणंतरं पलिदेवमस्स असंखेज्जदिभागो । णाणाजोगदुगुणवड्ढिद्वाणंतराणि 'थोवाणि । एयजोगदुगुणवड्ढि-द्वाणंतरं असंखेज्जगुणं ।

आया है । इसमें बतलाया गया है कि सूक्ष्म निगोद लब्धयपर्याप्तकके भवके प्रथम समयमें होने-वाले जघन्य योगस्थानमें जितने स्पर्धक होते हैं उनसे द्वितीच योगस्थानमें वे अंगुलके असंख्यातवें भाग अधिक होते हैं । आगे इसी क्रमसे सन्धी पञ्चोन्द्रिय पर्याप्तकके प्राप्त होनेवाले योगस्थान तक वे उत्तरोत्तर अधिक-अधिक होते जाते हैं । अब यहाँ यह देखना है कि वे उत्तरोत्तर अधिक-अधिक कैसे होते जाते हैं । वात यह है कि जघन्य योगस्थानके प्रत्येक स्पर्धककी प्रत्येक वर्गणामें जितने जीवप्रदेश होते हैं, उनसे द्वितीयादि योगस्थानोंके प्रत्येक स्पर्धककी प्रत्येक वर्गणामें वे उत्तरोत्तर हीन-हीन होते हैं, क्योंकि अधिक-अधिक योगशक्तिवाले जीवप्रदेशोंका उत्तरोत्तर न्यून-न्यून प्राप्त होना स्वाभाविक है और इसलिये प्रथमादि योगस्थानोंके स्पर्धकोंसे द्वितीयादि योगस्थानोंके स्पर्धकोंकी उत्तरोत्तर संख्या बढ़ती जाती है । इस प्रकार अन्तरोपनिधाका विचारकर परम्परोपनिधाका विचार करते हैं—

१५. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य योगस्थानमें जो स्पर्धक हैं उनसे जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थान जाकर स्पर्धकोंकी दूनी वृद्धि होती है । इस प्रकार उक्कष्ट योगस्थानके प्राप्त होने तक दूनी-दूनी वृद्धि जाननी चाहिए । एकयोगद्विगुणवृद्धिस्थानान्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है और नानायोगद्विगुणवृद्धिस्थानान्तर पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है । तदनुसार नानायोगद्विगुणवृद्धिस्थानान्तर स्तोक है और इनसे एकयोगद्विगुणवृद्धिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—पहले अन्तरोपनिधामें यह बतलाया था कि जघन्य योगस्थानके स्पर्धकोंसे दूसरे योगस्थानमें तथा इसी प्रकार आगे-आगे सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्धकोंकी वृद्धि होती जाती है । अब यहाँ इस अनुयोगद्वारमें यह बतलाया गया है कि इस प्रकार एकसे दूसरेमें, दूसरेसे तीसरेमें और तीसरे आदिसे चौथे आदिमें स्पर्धकोंकी वृद्धि होती हुई वह जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाने पर दूनी हो जाती है । तात्पर्य यह है कि प्रथम योगस्थानमें जितने स्पर्धक होते हैं उनसे जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान आगे जाने पर वहाँ अन्तमें प्राप्त होनेवाले योगस्थानमें वे दूने हो जाते हैं । पुनः यहाँ अन्तमें प्राप्त होनेवाले योगस्थानमें जितने स्पर्धक होते हैं उनसे जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान जाने पर वहाँ अन्तमें प्राप्त होनेवाले योगस्थानमें वे दूने हो जाते हैं । इस प्रकार उक्कष्ट योगस्थानके प्राप्त होने तक यह दूने-दूने स्पर्धक होने का क्रम जान लेना चाहिये । इस प्रकार जहाँ-जहाँ जाकर स्पर्धकोंकी दूनी-दूनी वृद्धि हुई ऐसे स्थानोंका यदि योग किया जाय तो वे पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होते हैं । ये नानाद्विगुणवृद्धिस्थान हैं और यह तो बतला ही आये है कि जघन्य योगस्थानमें जितने स्पर्धक हैं उनसे जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान जाने पर वहाँ जो योगस्थान प्राप्त होता है उसमें दूने स्पर्धक होते हैं । ये एकयोगद्विगुणवृद्धिस्थान हैं । इसलिये एक योगद्विगुणवृद्धिस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं यह सिद्ध ही है । अपतव नानाद्विगुणवृद्धिस्थानोंका अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे वह थोड़ा है और एक योगद्विगुणवृद्धिरूप दो योगस्थानोंके मध्य योगस्थानोंका यदि अन्तर अर्थात् व्यवधान लिया जाय तो वह जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है ।

१६. समयप्ररूपणदाए चहुसमइगाणि जोगट्टाणाणि सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताणि । पंचसमइगाणि जोगट्टाणाणि सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताणि । एवं छस्सम० सत्तसम० अट्टसम० । पुणरपि सत्तसम० छस्सम० पंचसम० चहुसम० । उवरिं तिसम० विसमइगाणि जोगट्टाणाणि सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताणि ।

१७. बद्धिप्ररूपणदाए अत्थि असंखेज्जभागवद्धिहाणी संखेज्जभागवद्धिहाणी संखेज्जगुणवद्धिहाणी असंखेज्जगुणवद्धिहाणी । तिण्णि बद्धिहाणी केवचिरं

अतएव यह कहा है कि नानाद्विगुणवृद्धिस्थानान्तर थोड़ा है और एकयोगद्विगुणवृद्धिस्थानान्तर उससे असंख्यातगुणा है, क्योंकि एक पत्योपममें जितने समय होते हैं उससे जगश्रेणिके आकाश प्रदेश असंख्यातगुणे होते हैं ।

१६. समयप्ररूपणाकी अपेक्षा चार समयवाले योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । पांच समयवाले योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार छह, सात और आठ समयवाले तथा पुनः सात समयवाले, छह समयवाले, पांच समयवाले, चार समयवाले और इनसे ऊपरके तीन समयवाले तथा दो समयवाले योगस्थान अलग-अलग जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

विशेषार्थ—ये पहले जो जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान बतलाये हैं उनमें से सबसे जघन्य योगस्थानसे लेकर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान चार समयकी स्थितिवाले हैं । उनसे आगे जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान पांच समयकी स्थितिवाले हैं । उनसे आगे जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान छह समयकी स्थितिवाले हैं । उनसे आगे उतने ही योगस्थान सात समयकी स्थितिवाले हैं । उनसे आगे उतने ही योगस्थान आठ समयकी स्थितिवाले हैं । पुनः उनसे आगे उतने ही योगस्थान सात समयकी स्थितिवाले हैं । उनसे आगे उतने ही योगस्थान छह समयकी स्थितिवाले हैं । उनसे आगे उतने ही योगस्थान पांच समयकी स्थितिवाले हैं । उनसे आगे उतने ही योगस्थान चार समयकी स्थितिवाले हैं । उनसे आगे उतने ही योगस्थान तीन समयकी स्थितिवाले हैं और उनसे आगे उतने ही योगस्थान दो समयकी स्थितिवाले हैं । इन योगस्थानोंका यह उत्कृष्ट अवस्थितिकाल कहा है । जघन्य अवस्थितिकाल सबका एक समय है । यहां चार आदि समयकी अवस्थितिवाले सब योगस्थान यद्यपि जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहे हैं फिर भी उनमें आठ समयवाले योगस्थान सबसे थोड़े हैं । इनसे दोनों ओरके सात समयवाले योगस्थान परस्परमें समान होते हुए भी असंख्यातगुणे हैं । इनसे दोनों पार्श्वके छह समयवाले योगस्थान परस्परमें समान होते हुए भी असंख्यातगुणे हैं । इनसे दोनों पार्श्वके पाँच समयवाले योगस्थान परस्परमें समान होते हुए भी असंख्यातगुणे हैं । इनसे दोनों पार्श्वके चार समयवाले योगस्थान परस्पर में समान होते हुए भी असंख्यातगुणे हैं । इनसे तीन समयवाले योगस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे दो समयवाले योगस्थान असंख्यातगुणे हैं । ये तीन समयवाले और दो समयवाले योगस्थान यद्यमध्यके ऊपर ही होते हैं, नीचे नहीं होते । इस प्रकार समयप्ररूपणा करनेके बाद अब वृद्धिप्ररूपणा करते हैं ।

१७. वृद्धिप्ररूपणाकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि है, संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानि है, संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानि है तथा असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानि है । इनमें से तीन वृद्धियों और तीन हानियोंका कितना काल

कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमयं, उक्क० आवलि० असंखेज्ज० । असंखेज्जगुणवद्धि-हाणी केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमयं, उक्क० अंतोमुहुत्तं ।

१८. अप्पावहुत्ते ति सन्वत्थोवाणि अट्टसमइगाणि योगट्ठाणाणि । दोसु वि पासेसु सत्तसमइगाणि जोगट्ठाणाणि दो वि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि । दोसु वि पासेसु छत्तसमइ० दो वि तु० असं०गु० । दोसु वि पासेसु पंचसमइ० दो वि तु० असं०गु० । दोसु वि पासेसु चट्ठसमइगाणि जोगट्ठाणाणि दो वि तु० असं०गु० । उवरिं तिसमइगाणि० असंखेज्जगुणाणि । विस० जोग० असं०गु० ।

एवं जोगट्ठाणपरूवणा समत्ता

पदेसबंधट्ठाणपरूवणा

१९. पदेसबंधट्ठाणपरूवणादाए याणि चेव जोगट्ठाणाणि ताणि चेव पदेसबंध-ट्ठाणाणि । णवरि पदेसबंधट्ठाणाणि यगदिविसेसेण विसेसाधियाणि ।

एवं पदेसबंधट्ठाणपरूवणा समत्ता ।

सन्व-णोसन्वबंधपरूवणा

२०. यो सो सन्वबंधो णोसन्वबंधो णाम तस्स इमो दुविधो णिहेसो—ओधे०

है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँपर वृद्धि और हानिका विचार किया गया है । योगवर्ग असंख्यात होनेसे यहाँ चार वृद्धि और चार हानि ही सम्भव हैं । विवक्षित योगस्थानमे एक जीव है उसके जितनी वृद्धि या हानि होकर उसे जो योगस्थान प्राप्त होता है वहाँ वह वृद्धि या हानि होती है । इसी प्रकार सब योगस्थानोमें वृद्धि और हानिका विचार कर लेना चाहिये ।

१८. अल्पबहुत्वकी अपेक्षा आठ समयवाले योगस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे दोनो ही पाश्चोमें सात समयवाले योगस्थान दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे दोनो ही पाश्चोमें सात समयवाले योगस्थान दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे दोनों ही पाश्चोमें छह समयवाले योगस्थान परस्परमे समान होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे दोनो ही पाश्चोमें पाँच समयवाले योगस्थान दोनो ही समान होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे दोनों ही पाश्चोमें चार समयवाले योगस्थान परस्परमें समान होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे ऊपर तीन समयवाले योगस्थान असंख्यातगुणे हैं और इनसे दो समयवाले योगस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

इस प्रकार योगस्थानपरूपणा समाप्त हुई ।

प्रदेशबन्धस्थानपरूपणा

१९. प्रदेशबन्धपरूपणाकी अपेक्षा जो योगस्थान हैं वे ही प्रदेशबन्धस्थान हैं । इतनी विशेषता है कि प्रदेशबन्धस्थान प्रकृतिविशेषकी अपेक्षा विशेष अधिक हैं ।

इस प्रकार प्रदेशबन्धस्थान परूपणा समाप्त हुई ।

सर्व-नोसर्वप्रदेशबन्धपरूपणा

२०. जो सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध है उसका यह निदर्श है—ओध और आदेश । ओध

आदे० । ओघेण णाणावरणीयस्स पदेसंबंधो किं सञ्चबंधो णोसञ्चबंधो ? सञ्चबंधो वा णोसञ्चबंधो वा । सञ्चाणि पदेसंबंधंताणि बंधमागस्स सञ्चबंधो । तदूर्णं बंधमागस्स णोसञ्चबंधो । एवं सत्तणं कम्ममाणं । गिरएसु मोहाउगं ओघं । सेसाणं णोसञ्चबंधो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

उक्तस्य-अणुकृतस्यपदेसंबंधपरुवणा

२१. यो सो उक्तसंबंधो अणुकृतसंबंधो णाम तस्स इमो दु वि० णि०-ओघे० आदे० । ओघे० णाणावरण० किं उक्तसंबंधो अणुकृतसंबंधो ? उक्तसंबंधो वा अणुकृतसंबंधो वा । सञ्चुकृतस्यपदेसं बंधमागस्स उक्तसंबंधो । तदूर्णं बंधमागस्स अणुकृतसंबंधो । एवं सत्तणं० । गिरयेसु मोहाउगं ओघं । सेसाणं अणुकृतसंबंधो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

से ज्ञानावरणीय कर्मका क्या सर्वबन्ध है या नोसर्वबन्ध है ? सर्वबन्ध भी है और नोसर्वबन्ध भी है । सब प्रदेशोंको बांधनेवालेके सर्वबन्ध होता है और उनसे न्यून प्रदेशोंका बांधनेवाले जीवके नोसर्वबन्ध होता है । इसी प्रकार सात कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए । नरकगतिमें मोहनीय और आयुकर्मका भङ्ग ओघके समान है । तथा शेष कर्मोंका वहाँ नोसर्वबन्ध है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—इन दोनों मिले हुए अधिकारो में प्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वबन्ध और नोसर्वबन्धका विचार ओघ और आदेशसे किया गया है । ओघसे विचार करते समय ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंका सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध यह दोनों ही प्रकारका बन्ध बतलाया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि अपने अपने योग्य उत्कृष्ट योगके होनेपर जब ज्ञानावरणादि कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध होता है तब वहाँ उस कर्मकी अपेक्षा सर्वबन्ध कहलाता है और इससे न्यून प्रदेशोंका बन्ध होनेपर नोसर्वबन्ध कहलाता है । मार्गणाओमें मात्र नरकगतिकी अपेक्षा विचार किया है और शेष मार्गणाओमें इसी प्रकारसे जानने-भरका संकेत किया है । नरकगतिमें मोहनीय और आयुकर्मका प्रदेशबन्ध ओघके समान सम्भव होनेसे वहाँ इन दो कर्मोंका तो ओघके समान सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध कहा है तथा शेष कर्मोंका नोसर्वबन्ध बतलाया है, क्योंकि ओघसे इन छह कर्मोंमें सबसे अधिक प्रदेशोंका बन्ध उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणियोंमें होता है, जो दोनों श्रेणियों नरकमें सम्भव नहीं हैं । इसके अतिरिक्त अन्य जितनी मार्गणाएँ हैं उनमें यथासम्भव अपनी अपनी विशेषताको देखकर आठों कर्मोंका वा जहाँ जितने कर्मोंका बन्ध सम्भव हो उनका सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध यथासम्भव जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टप्रदेशबन्धपरुवणा

२१. जो उत्कृष्टबन्ध और अनुत्कृष्टबन्ध है उसका यह निर्देश है—ओघनिर्देश और आदेश निर्देश । ओघसे ज्ञानावरण कर्मका क्या उत्कृष्टबन्ध होता है या अनुत्कृष्टबन्ध होता है ? उत्कृष्टबन्ध भी होता है और अनुत्कृष्टबन्ध भी होता है । सबसे उत्कृष्ट प्रदेशोंको बांधनेवालेके उत्कृष्टबन्ध होता है और उनसे न्यून प्रदेशोंको बांधनेवालेके अनुत्कृष्टबन्ध होता है । इसी प्रकार सातों कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए । नारकियोंमें मोहनीय और आयुकर्मका भंग ओघके समान है । तथा वहाँ शेष कर्मोंका अनुत्कृष्टबन्ध होता है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

जहण्ण-अजहण्णपदेसंबंधपरूवणा

२२. यो सो जहण्णबंधो अजहण्णबंधो गाम' तस्स इमो दुवि० णिदेसो-ओघे० आदे० । ओघे० णाणावर० किं० जहण्णबंधो अजहण्णबंधो ? जहण्णबंधो वा अजहण्ण-बंधो वा । सव्वजहण्णयं पदेसग्गं वंधमाणस्स जहण्णबंधो । तदुवरि वंधमाणस्स अजहण्ण-बंधो । एवं सत्तण्णं कम्मणं । णिरएसु ओघं पडुच्च अजहण्णबंधो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

सादि-अणादि-ध्रुव-अध्रुवपदेसंबंधपरूवणा

२३. यो सो सादियबंधो अणादियबंधो ध्रुवबंधो अध्रुवबंधो गाम तस्स इमो दुवि० णि०-ओघे० आदे० । ओघे० छण्णं कम्मणं उक्कस्स-जहण्ण-अजहण्णपदेसंबंधो किं सादियबंधो०४ ? सादिय-अद्ध्रुवबंधो । अणुक्कस्सपदेसंबंधो किं सादि०४ ?

विशेषार्थ—इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें पूरा स्पष्टीकरण सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध अनुयोगद्वारोंके विवेचनके समय जिस प्रकार कर आये हैं उसी प्रकार कर लेना चाहिये । जिस प्रकार सर्वबन्धसे उत्कृष्टरूपसे बंधे हुए सब प्रदेश विवक्षित हैं उसी प्रकार उत्कृष्टबन्धमें भी उत्कृष्ट रूपसे बंधे हुए प्रदेश विवक्षित हैं और जिस प्रकार नोसर्वबन्धमें न्यून बंधे हुए प्रदेश विवक्षित हैं उसी प्रकार अनुत्कृष्ट बन्धमें भी न्यून बंधे हुए प्रदेश विवक्षित हैं । इनमें केवल अन्तर इतना है कि उत्कृष्टबन्धमें समुदायकी मुख्यता है और सर्वबन्ध अवयवप्रधान है ।

जघन्य-अजघन्यप्रदेशबन्धप्ररूपणा

२२. जो जघन्यबन्ध और अजघन्यबन्ध है उसका यह निर्देश है—ओघ और आदेश । ओघसे ज्ञानावरणकर्मका क्या जघन्यबन्ध होता है या अजघन्यबन्ध होता है जघन्यबन्ध भी होता है और अजघन्यबन्ध भी होता है । सबसे जघन्य प्रदेशोंको बाँधनेवालेके जघन्यबन्ध होता है और उनसे अधिक प्रदेशोंको बाँधनेवालेके अजघन्य बन्ध होता है । इसी प्रकार शेष सात कर्मोंकी अपेक्षासे जानना चाहिए । नरकोंमें ओघकी अपेक्षा अजघन्यबन्ध होता है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—नोसर्वबन्धसे जघन्यबन्धमें क्या अन्तर है इसका स्पष्टीकरण अनन्तर पूर्व कहे गये विशेषार्थसे हो जाता है । यहाँ एक विशेष बात यह कहनी है कि यहाँ नरकोंमें अजघन्यबन्ध क्यों है इसका खुलासा 'ओघं पडुच्च' इस पदद्वारा किया है । इस आधारसे सब मार्गणाओंमें कहीं ओघकी अपेक्षा जघन्यबन्ध संभव है और कहीं अजघन्यबन्ध संभव है इसका खुलासा कर लेना चाहिये ।

सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवप्रदेशबन्धप्ररूपणा

२३. जो सादिबन्ध, अनादिबन्ध, ध्रुवबन्ध और अध्रुवबन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे छह कर्मोंका उत्कृष्टप्रदेशबन्ध, जघन्यप्रदेशबन्ध और अजघन्यप्रदेशबन्ध क्या सादिबन्ध है, क्या अनादिबन्ध है, क्या ध्रुवबन्ध है या क्या अध्रुवबन्ध है ? सादिबन्ध है और अध्रुवबन्ध है । अनुत्कृष्टप्रदेशबन्ध क्या सादियबन्ध है,

सादियबंधो वा अणादियबंधो वा ध्रुवबंधो वा अद्भुवबंधो वा । मोहाडगाणं उक्०
अणु०-जह०-अजह०पदेसबंधो किं सादि०४ ? सादिय-अद्भुवबंधो । एवं औघर्मगो
अचक्त्तु०-भवसि० । णवरि भवसि० ध्रुवं वज० । सेसाणं उक्०-अणु०-जह०-अजह०-
पदेसबंधो सादिय-अद्भुवबंधो ।

क्या अनादिवन्ध है, क्या ध्रुववन्ध है या क्या अध्रुववन्ध है ? नादिवन्ध है, अनादि-
वन्ध है, ध्रुववन्ध है और अध्रुववन्ध है । मोहनीय और आयुर्कर्मका उत्कृष्टप्रदेशवन्ध,
अनुत्कृष्टप्रदेशवन्ध, जघन्य प्रदेशवन्ध और अजघन्यप्रदेशवन्ध क्या नादिवन्ध
है, क्या अनादिवन्ध है, क्या ध्रुववन्ध है या क्या अध्रुववन्ध है ? नादिवन्ध है और
अध्रुववन्ध है । इसी प्रकार ओषके समान अचक्षुदग्नेनवाले और भव्य जीवोंके जानना चाहिये ।
इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोंके ध्रुवभंग नहीं होता । शेष सब मार्गाणोंमें उत्कृष्टप्रदेश-
वन्ध, अनुत्कृष्टप्रदेशवन्ध, जघन्यप्रदेशवन्ध और अजघन्यप्रदेशवन्ध नादि और अध्रुव दो
प्रकारका होता है ।

विशेषार्थ—यह। मोहनीय और आयुर्कर्मके सिवा शेष छह कर्मोंका उत्कृष्टप्रदेशवन्ध
सूक्ष्मसांप्रदाय गुणस्थानमें होनेसे इसके पहले अनादिनालसे उनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता
रहता है, इसलिये तो इन छह कर्मोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अनादि है और उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होने
पर जब पुनः वह जीव गिर कर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने लगता है तब वह सादि है । तथा
अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धमें ध्रुव और अध्रुव ये भेद भव्य और अभव्यकी अपेक्षासे हैं । यही कारण
है कि इन छह कर्मोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सादि थादिके भेदसे चारों प्रकारका पतनाया
है । इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सूक्ष्मसांप्रदाय गुणस्थानमें होता है, इसलिये यह सादि और
अध्रुव यह दो प्रकारका है यह स्पष्ट ही है । अब यह जघन्य और अजघन्यवन्ध सौ इनका
जघन्यवन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके भवके प्रथम समयमें सम्भव है और इसके बाद
अजघन्यवन्ध होता है । यतः इस पर्यायका प्राप्त होना पुनः पुनः संभव है, अतः ये दोनों वन्ध
सादि और अध्रुव इस प्रकार दो प्रकारके ही कहे हैं । मोहनीय और आयुके उत्कृष्ट आदि चारों
प्रकारके वन्ध सादि और अध्रुव ही हैं । कारण कि आयुर्कर्म तो अध्रुववन्धो है ही,
क्योंकि उसका वन्ध विवाहित भवके प्रथम त्रिभागमें या उसके बाद द्वितीयादि त्रिभागोंमें
होता है । यदि वहाँ भी न हो तो अन्तमें अन्तर्मुहूर्त आयु शेष रहने पर होता है इसलिए इसके
उत्कृष्ट आदि चारों सादि और अध्रुव हैं यह स्पष्ट ही है । नहा मोहनीय कर्म तो इसका
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मिथ्यादृष्टिके भी होता है और जघन्य प्रदेशवन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रिय लक्ष्य-
पर्याप्तके भवके प्रथम समयमें होता है । यतः इन दोनों प्रकारके वन्धोंका पुनः पुनः प्राप्त
होना संभव है और इनके बाद क्रमशः अनुत्कृष्ट और अजघन्य प्रदेशवन्धोंका भी पुनः पुनः
प्राप्त होना संभव है अतः ये चारों प्रकारके वन्ध सादि और अध्रुव ये दो प्रकारके कहे हैं ।
अध्रुवदर्शन और भव्यमार्गाणा सूक्ष्मसांप्रदायके आगे तक भी संभव है, अतः इनमें औघर्मरूपणा
अधिकल घटित हो जानेसे इनको प्ररूपणा ओषके समान कही है । मात्र भव्य मार्गाणमें ध्रुव
भंग संभव नहीं है । शेष सब मार्गाणोंमें बदलती रहती हैं अतः उनमें सब कर्मोंके उत्कृष्टादि
चारोंके सादि और अध्रुव ये दो ही भंग कहे हैं । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि
जिन मार्गाणोंमें जितने कर्मोंका वन्ध संभव हो तथा ओष या आदेशसे उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट,
जघन्य और अजघन्य वन्ध संभव हो उसी अपेक्षासे ये भंग घटित करने चाहिये ।

सामित्तपरूवणा

२४. सामित्तं दुविधं—जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविं—ओघे० आदे० । ओघे० छण्णं कम्मणं उक्कस्सपदेसबंधो कस्स ? अण्णदरस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा छविधबंधयस्स उक्कस्सजोगिस्स । मोह० उक्क०पदे०व० कस्स ? अण्ण० चदुगदियस्स पंचिंदियस्स सण्णि० मिच्छादिट्ठिस्स वा सम्मादिट्ठिस्स वा सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स सत्तविधबंधयस्स उक्कस्सजोगिस्स उक्कस्सए पदेसबंधे वट्टमाणगस्स । आउगस्स उक्क० पदे०व० कस्स ? अण्ण० चदुग० पंचिं० सण्णि० मिच्छादिट्ठिं वा सम्मादिट्ठिं वा सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्ज० अट्टविधबंधगस्स उक्कस्सजोगिस्स । एवं ओघभंगो कायजोगि-लोभक०-अचक्खु०-भवसिं-आहारगत्ति ।

२५. गिरएसु सत्तणं क० उक्क० पदेसव० कस्स ? अण्ण० मिच्छा० वा सम्मा० वा सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तग० उक्कस्सजोगिस्स सत्तविधबंधगस्स । आउ० उक्क० पदेसव० कस्स ? अण्ण० सम्मा० वा मिच्छा० वा सन्वाहि पज्ज० अट्टविध० उक्क० पदे०व० । एवं सत्तसु पुट्ठवीसु । णवरि सत्तमाए आउ० मिच्छा० अट्टविधबंधग० उक्क० ।

स्वामित्वपरूवणा

२४. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । ओघसे छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर उपशामक या क्षपक छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट योगवाला है वह उक्त छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मोहनीयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो चारों गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट योगवाला है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर रहा है वह उक्त सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो चारो गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट योगवाला है वह अन्यतर जीव आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इस प्रकार ओघके समान काययोगवाले, लोभकषायवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भन्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

२५. नारिकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, उत्कृष्ट योगवाला है और सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है वह उक्त सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, उत्कृष्ट योगवाला है और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीसे आठ कर्मोंका बन्ध करनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव आयुर्कर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

२६. तिरिक्खेसु सत्तणं कम्माणं उक्कं पदे० वं० कस्स ? अण्णं पंचिं० सण्णिस्स सव्वाहि पज्जतीहि पज्ज० सम्मा० वा मिच्छा० वा सत्तविधबंधं० उक्कं० जोगि० उक्कं० पदे० । आउ० उ० पदे० कस्स० ? अण्णं० पंचिं० सण्णि० सव्वाहि पज्ज० मिच्छा० वा सम्मादिट्ठिं० वा अट्ठविधबंधं० उक्कं० जोगि० उक्कं० पदे० । एवं पंचिं० तिरि० ३ ।

२७. पंचिं० तिरि० अपज्ज० सत्तणं कं उक्कं कस्स० ? अण्णं० सण्णिस्स सत्त-विधबंधं० उ० जोगि० उ० पदे० वं० वट्ठं० । आउ० उ० पदे० कस्स ? अण्णं० सण्णिस्स अट्ठविधबंधं० उक्कं० जोगि० उक्कं० पदे० । एवं सत्त्वअपज्जत्ताणं गृह्णंदिं० विगल्लिं० पंच-कायाणं च अप्पण्णो परिचोयं णादव्वं । वादरे वादरे त्ति ण भाणिदव्वं । सुहुमे सुहुमे त्ति ण भाणिदव्वं । पज्जत्तगे पज्जत्तगं त्ति ण भाणिदव्वं । अपज्जत्तगे अपज्जत्तगं त्ति ण भाणिदव्वं ।

२८. मणुसेसु लण्णं कम्माणं ओघं । मोहं उक्कं सम्मा० वा मिच्छा० वा सत्तविधं० उक्कं० जोगि० उक्कं० पदे० । एवं आउ० । णवरि अट्ठविधबंधं० । एवं

२६. तिरिक्खोमं सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीव जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, सम्यग्दृष्टि है या मिथ्यादृष्टि है, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट योगवाला है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि है, आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट योगवाला है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिरिक्खन्निकके जानना चाहिये ।

२७. पञ्चेन्द्रियतिरिक्ख अपर्याप्तकोंमें नात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर संज्ञी जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट योगवाला है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर संज्ञी जीव आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट योगवाला है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त तथा एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्वावरकायिक जीवोंके अपने अपने योगके अनुसार जानना चाहिए । किन्तु वादरोंका स्वामित्व बतलाते समय वादर ऐसा नहीं कहना चाहिए । सूक्ष्मोंका स्वामित्व बतलाते समय सूक्ष्म ऐसा नहीं कहना चाहिए । पर्याप्तकोंका स्वामित्व बतलाते समय पर्याप्त ऐसा नहीं कहना चाहिए और अपर्याप्तकोंका स्वामित्व बतलाते समय अपर्याप्त ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

२८. मनुष्योंमें छह कर्मोंका भंग ओघके समान है । मोहनीयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट योगवाला है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह मोहनीयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता

१. ता० प्रती० सम्मादिट्ठिं० अट्ठविधबंधं० उ० पदे० इति पाठः । २. ता० प्रती० उक्कं० उक्कं० इति पाठः । ३. ता० प्रती० पज्जत्तगं पज्जत्तगं इति पाठः ।

मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीसु ।

२९. देवाणं णिरयभंगो याव उवरिभगेवज्जा^१ चि । अणुदिस याव सच्चदु
त्ति एवं । णवरि सम्मादिट्ठिस्स सत्तविधवं उक्कंजो उक्कंपदेवं । आउं
उक्कंपदे अट्टविधं उक्कं ।

३०. पंचिदिं छण्णं कं ओघं । मोहं उक्कंपदे कं ? अण्णं चदु-
गदियं सण्णिस्स मिच्छां वा सम्मां वा सत्तविधबंधं उक्कं । एवं आउं ।
णवरि अट्टविधं उक्कं । एवं पंचिदियपञ्जत्तं ।

३१. तसं २ छण्णं कं ओघं । सेसं पंचिदियभंगो । णवरि अण्णं चदु-
गदियं पंचिं सण्णिं मिच्छां वा सम्मां वा सत्तविधवं उक्कं । एवं आउं ।
णवरि अट्टविधं उक्कं ।

३२. पंचमण-तिण्णिवचिं छण्णं कं ओघं । मोहं उं अण्णं चदु-
गदिं सम्मां वा मिच्छां वा सत्तविधवं उक्कं । एवं आउं णवरि अट्टविधं

है कि यह आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला होता है । इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंके जानना चाहिए ।

२९. देवोंमें उपरिम श्रैवेयक तक नारकियोंके समान जानना चाहिए । अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धितक इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो सम्यग्दृष्टि सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट योगवाला है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तथा जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट योगवाला है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

३०. पञ्चेन्द्रियोंमें छह कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । मोहनीयकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चारों गतियोंका संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट योगवाला है वह मोहनीयकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट योगवाला है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर रहा है वह आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

३१. त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें छह कर्मोंका भंग ओघके समान है । शेष दो कर्मोंका भंग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि जो अन्यतर चारों गतियोंका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर रहा है वह मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

३२. पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें छह कर्मोंका भंग ओघके समान है । मोहनीयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चारों गतियोंका सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित

उक्त० । दोवचिजोगी० तसपञ्जत्तमंगो ।

३३. ओरालि० छण्णं क० ओघं । मोहाउगस्स उफ० पदे० क० ? अण्ण० तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा सण्णि० मिच्छा० वा सम्मा० वा सत्तविधवं० उफ० । णवरि आउ० अट्टविधवं० । ओरालि०मि० सत्तण्णं क० उफ० पदे० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सण्णि० मिच्छा० वा सम्मा० वा सत्तविधवं० उफ० से काले सरीरपञ्जत्ति गाहिदि ति । आउ० उफ० क० ? दुगादि० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा० अट्टविधवं० उफ० ।

३४. वेउ० सत्तण्णं क० उफ० पदे० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० सम्मा० वा मिच्छा० वा सत्तविधवं० उफ० । एवं आउ० । णवरि अट्टविध० उफ० । वेउव्वि०मि० सत्तण्णं क० उफ० पदे० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० सम्मा० वा मिच्छा० वा से काले सरीरपञ्जत्ति जाहिदि ति सत्तविध० उफ० ।

३५. आहारका० सत्तण्णं क० उ० पदे० क० ? अण्ण० सत्तविध० उफ० । एवं

हे वह मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । दो वचनयोगी जीवोंका भंग त्रसपर्याप्तकोंके समान है ।

३३. औदारिककाययोगी जीवोंमें छद्म कर्मोंका भंग ओघके समान है । मोहनीय और आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जीव आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है और अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको ग्रहण करनेवाला है वह सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो दो गतिका तिर्यञ्च और मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धसे अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

३४. वैक्रियिककाययोगवाले जीवोंमें सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर देव और नारकी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर देव और नारकी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव तदनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको ग्रहण करनेवाला है, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

३५. आहारककाययोगी जीवोंमें सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन

आउ० । णवरि अट्टविध० उक्क० । एवं आहारमि० । णवरि से काले सरिरपज्जत्तिं गाहिदि त्ति उक्क० । कम्मइ० सत्तण्णं क० उ० पदे० क० ? अण्ण० चट्ठुगदिय० पंत्तिं सण्णि० मिच्छा० सम्मा० सत्तविध० उक्क० ।

३६. इत्थि०-पुरिस० सत्तण्णं क० उ० पदे० क० ? अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० वा० सम्मा० वा सत्तविध० उक्क० । णवुंसगे सत्तण्णं कम्ममाणं उक्क० पदे० क० ? सम्मा० मिच्छा० तिगदि० सण्णि० सत्तविध्वं० उ० । एवं० आउ० । णवरि अट्टविध० । अवगदवे० छण्णं क० ओघं । मोह० उ० पदे० कस्स ? अण्ण० अणियट्ठि० सत्तविध० उक्क० ।

३७. क्रोध-माण-माया० सत्तण्णं क० उक्क० पदे० क० ? अण्ण० चट्ठुगदिय० पंत्तिं सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सन्वाहि पज्ज० सत्तविध० उक्क० । एवं आउ० ।

है ? जो अन्यतर जीव सात कर्मों का बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो तदनन्तर समयमे शरीरपर्याप्ति ग्रहण करनेवाला है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

३६. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । नपुंसकवेदी जीवोंमें सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि तीन गतिका संज्ञी जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार इन तीनों वेदवाले जीवोंमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वह आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला होता है । अपगतवेदी जीवोंमे छह प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी ओघके समान है । मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अनिष्टुत्तिकरण जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

३७. क्रोध, मान और मायाकषायवाले जीवोंमें सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो

णवरि अहविध० उक्क० ।

३८. मदि-सुद-विभंग०-अन्भवसि०-मिच्छा० सत्तण्णं० क० उक्क० पदे० क० ?
अण्ण० चदुगदि० सण्णिस्स सत्तविध० उक्क० । एवं आउ० । णवरि अहविध० उक्क० ।
आभिणि०-सुद-ओधि० छण्णं क० ओघं । मोह० उ० पदे० क० ? अण्ण० चदुगदि०
सत्तविध० उक्क०-जोगि० । एवं आउ० । णवरि अहविध० उक्क० । एवं ओघिदं-
सम्मा०-खइग० । मणपज्ज० छण्णं० ओघं । मोह० उ० पदे० क० ? अण्ण० सत्तविध०
उक्क० । एवं आउ० । णवरि अहविध० उक्क० । एवं संजदा० ।

३९. सामाइ०-छेदो० सत्तण्णं क० अण्ण० सत्तविध० उक्क० । एवं आउ० ।
णवरि अहविध० उक्क० । एवं परिहार० । एवं चैव संजदासंजदा० । णवरि दुगदियस्स ।

आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

३८. मत्त्वज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिकर मंडी जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आभिनिर्वाधि-रु-ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें छठ प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी ओघके समान है । मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट योगवाला है वह मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार अवधिदर्शनवाले, सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । मत्तःपर्ययज्ञानी जीवोंमें छह कर्मोंका भंग ओघके समान है । मोहनीयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये ।

३९. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार परिहारविच्छेदिसंयत जीवोंके जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संयतासंयतोमे दो

सुहृमसंप० छुण्णं क० ओषं० । असंजदे सत्तण्णं क० उक्क० पदे० क० ?
अण्ण० चदुगदिय० पंचिं० सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० सत्तविध०
उक्क० । एवं आउ० । णवरि अट्ठविध० उक्क० । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो ।

४०. किण्ण०-गील०-काउ० सत्तण्णं क० उक्क० पदे० क० ? अण्ण० तिगदि०
पंचिं० सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उक्क० । एवं आउ० । णवरि अट्ठविध०
उक्क० । तेउ०-पम्म० सत्तण्णं क० उक्क० पदे० क० ? अण्ण० तिगदि० सम्मा० मिच्छा०
सत्तविध० उक्क० । एवं आउ० । णवरि अट्ठविध० उक्क० । सुक्काए छुण्णं क० ओषं० ।
मोह० तिगदि० सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उक्क० । एवं आउ० । णवरि
अट्ठविध० उक्क० ।

४१. वेदो सत्तण्णं क० उक्क० पदे० क० ? अण्ण० चदुगदि० सत्तवि० उक्क० ।

गतिका जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी होता है । सूक्ष्मसान्प्रत्यक्संयतोंमें छह कर्मोंका भंग ओषके समान है । असंयत जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त है, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयु कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भंग है ।

४०. छुण्ण, नील और कापोत लेखावाले जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तीन गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । पीत और पद्मलेखावाले जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । शुक्ललेखामे छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी ओषके समान है । मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो तीन गतिका सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

४१. वेदकसम्यक्त्वमे सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें

एवं आउ० । णवरि अट्टविध० उफ० । उवसम० छण्णं क० उ० प० क० ? सुहुमसं० उवसाम० छत्विध० उफ० । मोह० उफ० चदुगदि० सत्तविध० उफ० । सासणे सत्तण्णं क० उफ० पदे० क० ? अण्ण० चदुगदि० सत्तविध० उफ० । एवं आउ० । णवरि अट्टविध० उ० । सम्मामि० सत्तण्णं क० उ० पदे० क० ? अण्ण० चदुगदि० सत्तविध० उफ० ।

४२. सण्णीसु छण्णं क० ओयं । मोह० उफ० चदुगदि० सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उफ० । एवं आउ० । णवरि अट्टविध० उफ० । अमण्णीसु सत्तण्णं क० उफ० पदे० क० ? अण्ण० पंचिं सत्त्वाहि पत्ता० सत्तविध० उफ० । एवं आउ० ।

अवस्थित है वह उक्त सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसीप्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए। इनकी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। उपशमसम्बन्धमें छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो सूक्ष्ममांसप्राय उपशासक जीव छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो चार गतिका जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। सासादनसम्बन्धमें सात प्रकारके कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गतिका जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसीप्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए। इनकी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। नम्यमिध्याह्नमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गतिका जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है।

४२. संज्ञी जीवोंमें छह कर्मोंका भंग ओघके समान है। मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो चार गतिका नम्यमिध्याह्न या मिध्याह्न जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए। इनकी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। असंज्ञी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर पंचेन्द्रिय जीव सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार आयु आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए। इनकी विशेषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट

णवरि अद्वविध० उक्त० । अणाहार० कम्महयभंगो ।

एवं उक्तस्सामित्तं समत्तं ।

४३. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तण्णं क० जहण्णओ पदेसबंधो कस्स ? अण्ण० सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स पढमसमयतम्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स जहण्णए पदेसबंधे वड्डमाणस्स । आउगस्स जहण्णपदेसबंधो कस्स ? अण्ण० सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स खुद्दाभवग्गहणतदियतिभाणेण पढमसमयआउगबंध-माणयस्स जहण्णजोगिस्स जह० पदे० दं० वट्ट० । एवं ओघभंगो तिग्गिक्खोवं एइंदि०-वणफ्फदि-णियोद-कायजोगि-णत्तुंस०—क्रोधादि०४—मदि-सुद०—असंज०—अचक्खु०—किण्ण०—णोल०—काउ०—भवसि०—अम्भवसि०—मिच्छा०—असंणिण-आहारग ति ।

४४. आदेसेण णिरएसु सत्तण्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० असंणिणपच्छा-गदस्स पढमसमयतम्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स । आउ० ज० प० क० ? अण्ण० सम्मा० मिच्छा० घोलमाणजहण्णजोगिस्स । एवं पढमाए पुढवीए देव०—भवण०-वाण० । छसु हेट्ठिमासु सत्तण्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० मिच्छा० पढमसमय-

प्रदेशबन्धका स्वामी है । अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान जानना चाहिए ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामिरव समाप्त हुआ ।

४३. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव अपर्याप्त है, प्रथम समयमें तद्भवस्थ हुआ है, जघन्य योगवाला है और जघन्य प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव क्षुल्लक भवग्रहणके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमें आयुबन्ध कर रहा है, जघन्य योगवाला है और जघन्य प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद, काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेखावाले, नीललेखावाले, कापोतलेखावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

४४. आदेशसे नारकियोमे सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव असंज्ञियोंसे आकर नारकी हुआ है, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि घोलमान जघन्य योगवाला जीव आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमे तथा सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तरोंके जानना चाहिये । द्वितीयादि नीचेकी छह पृथिवियोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि, प्रथम समयमें तद्भवस्थ हुआ और जघन्य योगवाला नारकी उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयु-

तन्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स । आउ० णिरयोर्धं । णवरि सत्तमाए आउ० मिच्छादि० ।

४५. पंचिदियतिरिक्खेसु सत्तण्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० असण्णि० अपज्ज० पढमसमयतन्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स । आउ० ज० प० क० ? अण्ण० असण्णि० अपज्ज० खुदाभ० तदियतिभागे वट्टमाणस्स जहण्णजोगिस्स । एवं पज्जत्त-जोगिणीसु । णवरि आउ० असण्णि० घोटमाणयस्स जह० । पंचिदि०तिरि०अपज्ज० सत्तण्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० असण्णि० पढमसमयतन्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स । आउ० ज० क० ? असण्णि० खुदाभ० तदियतिभागे वट्ट० जहण्णजो० ।

४६. मणुसेसु सत्तण्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० असण्णिपच्छागदस्स पढमसमयतन्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स । आउ० ज० प० क० ? अण्ण० खुदाभव० तदियतिभागपढमसमाए वट्ट० जहण्णजोगि० । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । णवरि आउ० अण्ण० घोडमाणजहण्णजोगिस्स । मणुसअपज्ज० मणुसोर्धं ।

४७. जोदिसि० विदियपुढविभंगो । सोधन्मीसाण याव उवरिमगेवजा ति

कर्मका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि नारकी होता है।

४५. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर असंज्ञी जीव अपर्याप्त है, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर असंज्ञी जीव अपर्याप्त है, क्षुल्लकभवग्रहणके तीसरे त्रिभागमें विद्यमान है और जघन्य योगवाला है वह आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहाँ आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी असंज्ञी घोटमान योगवाला और जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव होता है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर असंज्ञी जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो असंज्ञी जीव क्षुल्लक भवग्रहणके तृतीय त्रिभागमें विद्यमान है और जघन्य योगवाला है वह आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है।

४६. मनुष्योंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर असंज्ञियोंमें से आकर मनुष्य हुआ है, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर क्षुल्लक भवग्रहणके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमें स्थित है और जघन्य योगवाला है वह आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्य-पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी अन्यतर धोल्लमान जघन्य योगवाला मनुष्य होता है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सामान्य मनुष्योंके समान भङ्ग है।

४७. ज्योतिषी देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है। सौधम और ऐशान कल्पसे

सत्तर्णं क० ज० पदे० क० ? अण्ण० सम्मा० मिच्छा० पढमसमयतवभवत्थ० जहण्णजोगिस्स । आउ० णिरयभंगो । अणुदिस याव सच्चत्ति सत्तर्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० पढमसमयतवभवत्थ० जहण्णजोगिस्स । आउ० सम्मादि० ।

४८. वादरएइंदिय० एइंदियभंगो । णवरिअपज्ज० पढम० तवभव० जह०जोगि० । एवं आउ० । णवरि खुद्दामभव० तदियतिभा० पढमसम० वट्ट० जह०जोगि० । एवं अपज्जत्तएसु । पज्जत्तेसु सत्तर्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० पढम०तवभव० जह० जोगि० । आउ० जह० धोडमाणजह०जो० । एवं सच्चवादराणं । सुहुमएइंदि० सत्तर्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० अपज्ज० पढम०तवभवत्थ० जह०जोगि० । आउ० जह० खुद्दामभव० तदिय० जह०जो०^१ । एवं सुहुमअप० । सुहुमपज्ज० सत्तर्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० पढम०तवभवत्थ० जह०जोगि० । आउ० जह० धोडमा०जह०जोगि० । एवं सच्चसुहुमाणं । विगळिंदियाणं अपज्जत्तयभंगो । णवरि

लेकर उपरिम प्रवैयक तकके देवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । नौ अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी सम्यग्दृष्टि देव है ।

४८. वादर एकेन्द्रियोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जो प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगवाला अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय जीव है वह सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकर्मका भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि क्षुल्लक भवग्रहणके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमें विद्यमान और जघन्य योगवाला उक्त जीव आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार अपर्याप्तकोमें जानना चाहिए । पर्याप्तकोमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी घोलमान जघन्य योगवाला उक्त जीव है । इसी प्रकार सब वादरोके जानना चाहिये । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अपर्याप्त जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी क्षुल्लक भवग्रहणके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयवर्ती और जघन्य योगवाला जीव है । इसी प्रकार सूक्ष्म अपर्याप्तकोमें जानना चाहिये । सूक्ष्म पर्याप्तकोमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सूक्ष्म पर्याप्त जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योगवाला है वह सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी घोटमान जघन्य योगवाला उक्त जीव है । इसी प्रकार सब सूक्ष्म जीवोंके जानना चाहिये । विकलेन्द्रियोंमें अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

पञ्चतप्तसु सत्तर्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० पढम० तम्भवत्थ० जह० जोगि० ।
आउ० जह० घोडमाणजह० जोगि० । पंचि० ३ पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

४९. तस० सत्तर्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० वीईदि० अप० पढम०-
तम्भव० जह० जो० । आउ० ज० प० क० ? अण्ण० वीईदि० अप० सुहाभ०
तदियतिभा० पढमसम० जह० जोगि० । एवं तसअपज्ज० । तसपज्ज० सत्तर्णं क०
ज० प० क० ? अण्ण० वीईदि० पढम० तम्भव० जह० जोगि० । आउ० जह०
घोडमाणजह० जो० । पंचर्णं कायाणं एईदियभंगो ।

५०. पंचमण०-तिण्णवचि० अट्टण्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० चटुगदि०
सम्मा० मिच्छा० घोडमा० अट्टविध० जह० जोगि० । दोवचि० अट्टण्णं क० ज० प०
क० ? अण्ण० वीईदि० घोड० अट्टविध० जह० जोगि० ।

५१. ओराल्लियका० सत्तर्णं क० ज० प० क० ? सुहुमण्णिगोदस्स पढमसमय-
पज्जयस्स जह० जोगि० । आउ० ज० प० क० ? अण्ण० सुहुमण्णिगोद० घोडमा०

इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकों सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगवाला है वह उक्त कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी घोटमान जघन्य योगवाला जीव है । पञ्चेन्द्रिय त्रिकमे पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोके समान भङ्ग है ।

४९. त्रसकायिकोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर द्वीन्द्रिय अपर्याप्त जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर द्वीन्द्रिय अपर्याप्त जीव क्षुल्लक भवग्रहणके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयवर्ती है और जघन्य योगवाला है वह आयुर्कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार त्रस अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । त्रस पर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर द्वीन्द्रिय जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी घोटमान जघन्य योगवाला जीव है । पाँचों कायवालोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है ।

५०. पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका सन्न्यगृह्णति और मिथ्यागृह्णति आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और घोटमान जघन्य योगवाला जीव है वह उक्त आठ प्रकारके कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । दो वचनयोगवाले जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और घोटमान जघन्य योगवाला द्वीन्द्रिय जीव उक्त आठों कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

५१. औदारिककाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो सूक्ष्म निगोदिया जीव प्रथम समयवर्ती पर्याप्त और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सूक्ष्म निगोदिया जीव घोटमान जघन्य योगवाला है वह आयुर्कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका

५७. तेउ-पम्माणं सत्तणं क० ज० प० क० ? अण्ण० देवस्स वा मणुस्सस्स वा पढम०त्तम्भव० ज०जो० । आउ० ज० प० क० ? अण्ण० तिगादि० अट्टविध० घोड०ज०जो० । सुक्काए पम्ममंगो ।

५८. उवसम० सत्तणं क० ज० प० क० ? पढमसमयदेवस्स ज०जो० । सासणे सत्तणं क० ज० प० क० ? अण्ण० तिगादि० पढम०त्तम्भव० जह०जो० वट्ट० । आउ० घोडमा०ज०जो० । सम्मामि० सत्तणं क० ज० प० क० ? अण्ण० चदुग० घोडमा० ज०जो० ।

५९. सणीसु सत्तणं क० ज० प० क० ? अण्ण० सण्णि०^५ मिच्छा० पढम०त्तम्भवत्थ० जह०जो० । आउ० ज० प० क० ? अण्ण० खुद्दाम० तदियपढमसमए वट्ट० ज०जोगिस्स ।

एवं सामिचं समत्तं ।

कालपरूवणा

६०. कालं दुविचं—जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओषे०

५७. पीत और पद्मलेइयामे सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर देव और मनुष्य प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तीन गतियोंका जीव वाठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर रहा है और घोटमान जघन्य योगवाला है वह आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । शुक्कलेइयामें पद्मलेइयामे समान भङ्ग है ।

५८. उपशमसम्यक्त्वमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर प्रथम समयवर्ती देव जघन्य योगवाला है वह सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तीन गतियोंका जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगमें विद्यमान है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी घोटमान जघन्य योगवाला जीव है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चारो गतियोंका जीव घोटमान जघन्य योगमें अवस्थित है वह सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

५९. संक्षियोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर संक्षी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव क्षुल्लक भवग्रहणके तृतीय भागके प्रथम समयमें विद्यमान है और जघन्य योगवाला है वह आयुकर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

कालपरूवणा

६०. काल दो प्रकारका है—जघन्य और उक्कष्ट । उक्कष्टका प्रकरण है । निर्देश दो

आदे० । ओषेण छण्णं कम्मणं उक्कं पदेसबंधो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एससं, उक्कं वेसमयं । अणुक्कं तिण्णि भंगा । यो सो सादियो सपज्जवसिदो तस्स इमो णिहेसो—ज० ए०, उ० अद्दपोगल० । मोह० उक्कं पदेसं^१ केव० ? ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० अणंतकालं असंखे०पोगव० । आउ० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । एवं आउ० याव अणाहारग ति सरिसो कालो । णवरि आहार०मि० उ० ए० ।

प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके तीन भङ्ग हैं । उनमे से जो सादि-सान्त भङ्ग है उसका यह निर्देश है—जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यत पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । आयुर्मर्मेके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आयुर्मर्मेका अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार सदृश काल है । इतनी विशेषता है कि आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

विशेषार्थ—सब कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध उत्कृष्ट योगके सद्भावमें होता है और उत्कृष्ट योगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है, इसलिये यहाँ ओषसे आठों कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । यह सम्भव है कि अनुत्कृष्ट योग एक समय तक हो और अनुत्कृष्ट योगके सद्भावमे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव नहीं, इसलिए ओषसे आठों कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है । अब शेष रहा आठों कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल सो उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—मोहनीय और आयुर्मर्मेके सिवा छह कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध उपद्रामश्रेणियों या क्षपकश्रेणियों होता है, अन्यत्र इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध ही होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके कालकी अपेक्षा तीन भङ्ग सम्भव हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । अनादि-अनन्त भङ्ग अभव्योके होता है । अनादि-सान्त भङ्ग जो भव्य एक वार उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करके मुक्तिके पात्र होते हैं उनके होता है और सादि-सान्त भङ्ग उन भव्योके होता है जो एकाधिक वार उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं । यह तो हम पूर्वमे ही स्पष्टीकरण कर आये हैं कि इन कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है । इसका उत्कृष्ट काल जो कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण बतलाया है सो उसका कारण यह है कि किसी जीवने अर्धपुद्गलपरिवर्तनके प्रारम्भमे और अन्तमे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध किया और मध्यमे वह अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता रहा, इसलिये अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण प्राप्त हो जाता है । मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सञ्जी जीव करता है और संज्ञोका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है । आयुर्मर्मेका बन्ध अन्तर्मुहूर्त काल तक ही होता है, इसलिये इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । आयुर्मर्मेका सब मार्गणाओंमें ओषके समान ही काल है यह स्पष्ट ही है । मात्र आहारकमिश्रकाययोगमे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

१. ता० प्रतौ मोह० पदे० इति पाठः ।

६१: गिरएसु सत्तणं क० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु०^१ ज० ए०, उ० तेत्तीसंसा० । एवं सत्तसु पुढवीसु अप्पप्पणो द्विदीओ भाणिदव्वाओ ।

६२. तिरिक्खेसु सत्तणं क० उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० अणंतकाल-मसंखे० । एवं तिरिक्खोघमंगो णणुंसं-सदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भव०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि त्ति । णवरि अचक्खु०-भवसि० छणं क० ओघं । पंचिदियतिरिक्ख०^३ सत्तणं क० उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० पुव्व० । पंचि०तिरि०अपज्ज० अट्ठणं क० उ० ज० ए०, उ० वेसम०^२ । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । एवं सव्वअपज्जत्ताणं तसाणं थावरारणं सव्वसुहुमपज्जत्ताणं च । मणुस०^३ पंचि०तिरि०अंगो ।

जो अनन्तर समयमे शरीरपर्याप्तिको पूर्ण करेगा उसके होता है, इसलिये इसके आ्युक्रमके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है ।

६१. नारकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिये । मात्र अनुत्कृष्टका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए ।

६२. तिर्यञ्चोमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त कालप्रमाण है जो असंख्यता पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोके समान नपुंसकवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोमे जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोमे छह कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पर्य है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमे आठो कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तकोंके तथा सब सूक्ष्म पर्याप्तकोंके जानना चाहिए । मनुष्यत्रिकमे पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ सब मार्गणाओंमे सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल जिस प्रकार ओघसे घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार से घटित कर लेना चाहिये । आगे भी यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल सब मार्गणाओमे अलग अलग है सो यह काल भी जहाँ जो कायस्थिति हो उसके अनुसार घटित कर लेना चाहिए । हों जिन मार्गणाओका काल अर्धपुद्गलपरिवर्तनसे अधिक है और उनमें उपशमश्रेणी व क्षपकश्रेणीकी प्राप्ति सम्भव है उनमे इन कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल ओघके समान जाननेकी सूचना की है । कारण स्पष्ट है ।

१. आ० प्रती वेसम०, अणु० ज० ए०, उ० वेसम०, अणु० इति पाठः । २. ता० प्रती ज० ए० वेसम० इति पाठः ।

६३. देवेषु सत्तर्णां क्रममाणं उक्तं ओषं । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सा० । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो द्विदीओ पेदव्वाओ ।

६४. एहंदि० सत्तर्णां क० उक्तं ओषं । अणु० ज० ए०, उ० असंखेजा लोगा । वादरे अंगुल० असं० । वादरपज्ज० संखेजाणि वाससहस्साणि । एवं वणप्फदि० । सव्वसुहुमाणं सत्तर्णां क० उक्तं ओषं । अणु० ज० ए०, उ० सेडीए असंखे० । विगल्लिदि० सत्तर्णां क० उक्तं ओषं । अणु० ज० ए०, उ० संखेजाणि वाससह० । एवं पज्जत्ता० । पंचि०त्तस०२ सत्तर्णां क० उक्तं ओषं । अणु० ज० ए०, उ० सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपु० वेसागरोवमसह० पुव्वकोडिपुध० । पज्जत्ते सागरोवमसदपुधत्तं वेसागरोवमसहस्साणि ।

६५. पुट्ट०आउ०तेउ०त्राउवणप्फदि०णियोद० सत्तर्णां क० उ० ओषं ।

६३. देवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओषके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सब देवोंमें जानना चाहिए। मात्र इनमें अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति-प्रमाण जानना चाहिए।

६४. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओषके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। वादरोंमें अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। वादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है। इसी प्रकार वनस्पतिकायिक जीवोंमें जानना चाहिए। सब सूक्ष्म जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओषके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल जगत्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। विकलेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओषके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। इसी प्रकार इनके पर्याप्तकोंमें जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विकमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओषके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पञ्चेन्द्रियोंमें पूर्वकोटि अधिक एक हजार सागर और त्रसकायिकोंमें पूर्वकोटिद्वयवत् अधिक दो हजार सागर है। तथा पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण और त्रसपर्याप्तकोंमें दो हजार सागर है।

विशेषार्थ—यहाँ जिसकी जो कायस्थिति है उसके अनुसार अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कहा है। मात्र एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध वादर एकेन्द्रियोंके होता है और वादर एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिए एकेन्द्रियोंमें अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है, क्योंकि जो एकेन्द्रिय असंख्यात लोकप्रमाण काल तक सूक्ष्म एकेन्द्रिय होकर रहते हैं उनके इतने काल तक एकेन्द्रिय सामान्यकी अपेक्षा नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है। तथा सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जो उत्कृष्ट काल जगत्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है सो इसका कारण योगस्थानके अवान्तर भेद हैं। शेष कथन स्पष्ट ही है।

६५. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओषके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका

अणु० ज० ए०, उ० असंखेजा लोभा । एदेसिं वादराणं कम्मड्ढिदी तेसिं वादर-
गज्जाणं संखेजाणि वाससहस्साणि । पत्तेयसरी० वादरपुढविभंगो ।

६६. पंचमण०-पंचवचि०-वेउळ्वि०-आहार०-कोघादि०४ अट्टण्णं क० उक्क०
अणु० अपजत्तभंगो । कायजोगि० तिरिक्खोषं । ओरालि० सत्तण्णं क० उक्क० ओषं ।
अणु० ज० ए०, उ० वादीसंखस्ससहस्साणि देवणाणि । ओरालि०मिस्स०-वेउळ्वि०-
मिस्स०आहारमि० सत्तण्णं क० उ० ज० ए०, उ० ए० । अणु० ज० उ० अंतो० ।
कम्मइ०-अणाहार० सत्तण्णं क० उ० ज० उ० ए० । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णिसं० ।

६७. इत्थि०-पुरिस० सत्तण्णं क० उक्क० ओषं । अणु० ज० ए०, उ०
पलिदोवमसदपुघ० सागरोवमसदपुघ० । अवगद० सत्तण्णं क० उक्क० ओषं । अणु०

जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । इनके वादरोंमें कर्म-
स्थितिप्रमाण है और उनके वादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है । तथा प्रत्येकशरीर
जीवाका भङ्ग वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ पृथिवीकायिक आदिमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट
काल जैसे एकेन्द्रियोंके घटित करके चतला आये हैं उस प्रकारसे घटित कर लेना चाहिए ।
तथा वादर पर्याप्त निगोद जीवोंमें अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष
वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवोंके समान कहा है सो यह सामान्य कथन है । विशेष इतना
है कि वादर पर्याप्त निगोद जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त जानना चाहिए ।
शेष कथन सुगम है ।

६६. पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी और
क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें आठ कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल
अपर्याप्तकोंके समान है । काययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । औदारिक-
काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओषके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेश-
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्षप्रमाण है ।
औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात
कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है ।
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । कार्मणकाययोगी और अनाहारक-
जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है ।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्र आदि तीन मिश्रकाययोगोंमें शरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेके
उपान्त्य समयमें उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है इसलिए इनमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध संज्ञी जीव द्वितीय विग्रहके समय करते हैं, क्योंकि इनके इसी समय उत्कृष्ट
योग सम्भव है, इसलिए इन दो मार्गणाजोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और
उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

६७. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओषके
समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रमसे चौ

ज० ए०, उ० अंतो० । एवं सुहुमसंप०सम्माभि० ।

६८. विभगे सत्तणं क० उक्क० ओषं । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसु० । आभिणि-सुद-ओधि० सत्तणं क० उक्क० ओषं । अणु० ज० ए०, उ० छावहिं सादि० । एवं ओधिदं०-सम्मा० । मणपज्ज० सत्तणं क० उक्क० ओषं । अणु० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी दे० । एवं संज०-सामा०-छेदो०-परिहार०-संजदासंज० । चक्खु० तसपज्जत्तमंगो ।

६९. छणं लेस्साणं सत्तणं क० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सत्तारस सत्तसाग० वे अट्टारस तेत्तीसं साग० सादि० ।

७०. खड्ग० सत्तणं क० उक्क० ओषं । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सादि० । वेदग० सत्तणं क० उक्क० ओषं । अणु० ज० ए०, उ० छावहिं-सा० । उव्वसम० सत्तणं क० उक्क० ओषं । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । सासणे सत्तणं क० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० छावलिगाओ ।

पत्यपृथक्त्वप्रमाण और सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

६८. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । मन-पर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकीटिप्रमाण है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें जानना चाहिये । चक्षुदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है ।

६९. छह लेश्याओंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर, साधिक सात सागर, साधिक दो सागर, साधिक अठारह सागर और साधिक तेतीस सागर है ।

७०. क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छथासठ सागर है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय

१. सा०प्रतौ अणु० ज० उ० ए० अंतो० इति पाठः । २. आ०प्रतौ अट्टारस साग० इति पाठः ।

सण्णी० पंचिदियपञ्जत्तभंगो । असणी० तिरिक्खोषं । आहार० सत्तण्णं क० उ० ओषं । अणु० ज० ए०, उ० अंगुल० असं०^१ ।

एवं उक्त्सकालं समत्तं^२

७१. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तण्णं क० जह० पदे० केवचिरं ? ज० उ० ए० । अज० ज० खुदा० समऊ०, उ० असंखेज्जा लोगा । अथवा सेठीए असंखेज्जदिमागो । आउ० ज० पदे० केवचिरं ? ज० उ० ए० । अज० जहण्णु० अंतो० ।

७२. णिरएसु सत्तण्णं क० ज० पदे० ज० उ० ए० । अज० ज० दसवस्स-सह० समऊ०, उ० तेत्तीसं० । आउ० ज० ज० ए०, उ० चत्तारिसं० । अज० ज०

है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवलिप्रमाण है । संज्ञी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भद्र है । असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोके समान भद्र है । आहारक जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

७१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । अथवा जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आयुर्कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवके तद्भवस्थ होने के प्रथम समयमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा जघन्य प्रदेशबन्धका क्षुल्लक भवमें से एक समय कम करने पर अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उत्कृष्ट प्रमाण कहा है । तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण होनेसे यहाँ अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । यहाँ अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल विकल्परूपसे जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है सो जान कर इसकी संगति विठलानी चाहिये । साधारणतः योगके भेद जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे इस अपेक्षासे यह काल कहा है ऐसा जान पड़ता है । आयुर्कर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध क्षुल्लक भवके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा आयुर्कर्मका बन्ध अन्तर्मुहूर्त काल तक होता है, अतः इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

७२. नारकियोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष प्रमाण है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । आयुर्कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है ।

ए०, उ० अंतो० । एवं सत्तसु पुढवीसु । सत्तणं क० पढमाए ज० ज० उ० ए० ।
अज० [ज०] दसवस्ससह० समऊ०, उक्क० सागरोवम० । विदियाए० ज० ज० उ०
ए० । अज० ज० सागरो०^१, उक्क० तिण्णि साग० । एवं षोदच्चं ।

७३. तिरिक्खोघो एइंदि०-णुंस०-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-
अन्नवसि०-मिच्छा०-असण्णि० ओघमंगो । णवरि णुंस० अज० ज० ए० ।

और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें आयुर्कर्मका काल जानना चाहिये । पहली पृथिवीमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल एक सागर प्रमाण है । दूसरी पृथिवी में जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक सागरप्रमाण है और उत्कृष्ट काल तीन सागर है । इसी प्रकार आगेकी पृथिवियोंमें ले जाना चाहिये ।

विशेषार्थ—असंज्ञीके मर कर नरकमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशवन्ध होता है, अतः यहाँ सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट-काल एक समय कहा है । तथा जघन्य भवस्थितिमेंसे इस एक समयके कम कर देने पर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल प्राप्त होनेसे यह उक्त प्रमाण कहाँ है और इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है । आयुर्कर्मका जघन्य प्रदेशवन्ध घोलमान जघन्य योगसे होता है और इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय है, इसलिये आयुर्कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका यह काल उक्त प्रमाण कहाँ है । यह सम्भव है कि आयुर्कर्मका अजघन्य प्रदेशवन्ध एक समय तक होकर दूसरे समयमें घोलमान जघन्य योगके प्राप्त होनेसे जघन्य प्रदेशवन्ध होने लगे, इसलिये इसके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कहाँ है और इसका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । आयुर्कर्मके कालका विचार सातों पृथिवियोंमें इसी प्रकार कर लेना चाहिये । मात्र प्रत्येक पृथिवीमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका जो काल है उसे अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट भवस्थितिको व स्वामित्वको देखकर घटित कर लेना चाहिये । तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पृथिवीमें इन कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल तो एक समय ही प्राप्त होता है, क्योंकि सर्वत्र भवग्रहणके प्रथम समयमें ही जघन्य प्रदेशवन्ध होता है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम जघन्य भवस्थिति प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि सर्वत्र जघन्य प्रदेशवन्धका एक समय काल कम कर देने पर यह काल शेष बचता है और उत्कृष्ट काल सर्वत्र अपनी अपनी उत्कृष्ट भवस्थिति प्रमाण है यह स्पष्ट ही है । यहाँ प्रसंगसे इस बातका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जिस जिस मार्गणामें आयुर्कर्मका जघन्य प्रदेशवन्ध घोटमान जघन्य योगसे होता है वहाँ उसका नारकियाके समान ही काल घटित कर लेना चाहिये । कोई विशेषता न होनेसे हम आगे उसका स्पष्टीकरण नहीं करेंगे ।

७३. सामान्य तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय, नपुंसकवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षु-दर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्याहृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतना विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीवोंमें अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें ओषके समान काल घटित

७४. पंचितिरि० सत्तण्णं क० ज० ज० उ० ए० । अज० ज० खुदा० समऊणं, उक्क०^१ तिण्णि पलि० पुव्वकोडिपु० । आउ० ओर्धं । पंचितिरि०पज्जत्त-जोणिणीसु सत्तण्णं क० ज० ज० उ० ए० । अज० ज० अंतो, उ० तिण्णि पलि० पुव्वकोडिपु० । आउ० गिरयोर्धं । पंचितिरि०अपज्ज० सत्तण्णं क० ज० ज० उ० ए० । अज० ज० खुदा०समऊणं, उक्क० अंतो । आउ० ओर्धं । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं तसाणं थावरणं च ।

७५. मणुस०३ पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि सत्तण्णं क० अज० ज० ए० । देवाणं गिरयभंगो । एवं सव्वदेवाणं अप्पण्णो जहण्णुक्कसड्ढिदी षोदव्वा ।

हो जानेसे वह ओघके समान कहा है । मात्र नपुंसकवेदका उपशमश्रेणिमे जघन्य काल एक समय भी घन जाता है, अतः इसमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है ।

७४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । आयुर्कर्मका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चपर्याप्त और पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिनी जीवोंमे सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । आयुर्कर्मका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्तकोमे सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आयुर्कर्मका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तकोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और इनके अपर्याप्तकोंमें आयुर्कर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध ओघके समान क्षुल्लक भवके तीसरे त्रिभागके प्रथम समयमे होता है, इसलिये इसका भङ्ग ओघके समान कहा है । तथा शेष दो प्रकारके पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें आयुर्कर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध नारकियोंके समान घोटमान जघन्य योगसे होता है, इसलिये यहाँ इसका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

७५. मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है । देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सब देवोंके अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिये ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें अन्य सब काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके समान है यह स्पष्ट ही है । केवल सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धके जघन्य कालमे फरक है । वात यह है कि मनुष्यत्रिकमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव है और उपशमश्रेणिमें इनके सात कर्मोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध एक समय तक भी हो सकता है क्योंकि जो उक्त मनुष्य उपशमश्रेणिसे उतरते समय एक समय तक सात कर्मोंका बन्ध कर दूसरे समयमे मरकर देव हो जाता है उसके इनका एक समयके लिये अजघन्य प्रदेशबन्ध देखा जाता है । देवोंमें अन्य सब काल जिस प्रकार नारकियोंमें घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिये । मात्र

७६. एइंदि० सुहुमं च अट्टुणं क० ओघभंगो । वादर० सत्तणं क० ज० ज० उ० ए० । अज० ज० खुद्धाभ० समऊणं, उ० अंगुल० असंखे० । आउ० ओघं । वादरपज्ज० सत्तणं क० ज० ज० उ०^१ ए० । अज० [ज०] अंतो० [समऊणं०], उ० संखेज्जाणि वाससह० । आउ० गिरयभंगो । एवं वादरवणप्फदि-वादरवणप्फदि-पज्जत्त० । सन्वसुहुमपज्ज० सत्तणं क० ज० ओघं । अज० ज० अंतो० समऊ०, उ० अंतो० । आउ० गिरयभंगो ।

अजघन्य प्रदेशवन्धका काल अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट भवस्थितिको ध्यान में रख कर कहना चाहिये ।

७६. एकेन्द्रियों और सूक्ष्म जीवोंमें आठ कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है । वादरोंमें सात कर्मों के जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आयु कर्मका भंग ओषके समान है वादर पर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्ध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्ध का जघन्य काल एक समय कम अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । आयु कर्मका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । इसीप्रकार वादर वनस्पतिक्रायिक और वादर वनस्पतिक्रायिक पर्याप्त जीवों में जानना चाहिये । सब सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका काल ओषके समान है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आयु कर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

विशेषार्थः—यहाँ एकेन्द्रिय और सूक्ष्म जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओषके समान प्राप्त होनेसे वह उसके समान कहा है । वादरोंमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशवन्ध भवके प्रथम समयमें होता है, इसलिये इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इस एक समयको क्षुल्लक भवमेंसे कम कर देने पर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है और वादरोंकी कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशवन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । इनके आयु कर्मका जघन्य प्रदेशवन्ध ओषके समान क्षुल्लक भवग्रहणके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमें होता है, इसलिये इसका भङ्ग ओषके समान कहा है । वादर पर्याप्तकोंमें भी सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशवन्ध भवके प्रथम समयमें होता है, इसलिये इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इस एक समयको कम कर देने पर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम अन्तर्मुहूर्त कहा है और इनकी कायस्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण होनेसे अजघन्य प्रदेशवन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । आयु कर्मका जघन्य प्रदेशवन्ध नारकियोंके समान घोटमान जघन्य योगसे होनेके कारण यहाँ इसका भंग नारकियोंके समान कहा है । वादर वनस्पतिक्रायिक और वादर वनस्पतिक्रायिक पर्याप्त जीवोंका भङ्ग वादर एकेन्द्रिय और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान होनेसे यह भङ्ग उक्त प्रमाण कहा है । सब सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशवन्ध ओषके समान प्राप्त होनेसे

७७. विगलिदि० सत्तणं क० ज० ज० उ० ए० । अज० ज० खुदाभ० समऊ० । पञ्जत्ते० ज० ज० उ० ए० । अज० ज० अंतो [समऊ०], उ० संखेज्जाणि वाससह० । आउ० पंचि०तिरिक्खदुगभंगो ।

७८. पंचि०-तस० सत्तणं क० ज० ज० उ० ए० । अज० ज० खुदाभ० समऊ०, उ० अणुक्कसभंगो । पञ्जत्तेसु ज० ए०, अज० ज० अंतो, उ० अणुक्कस-भंगो । आउ० पंचि०तिरि०भंगो ।

७९. पुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि-णियोद-सुहुमपुढ० एवं आउ०-तेउ०-

इसका काल ओषके समान कहा है। तथा इस एक समयको अन्तर्मुहूर्तमेंसे कम कर देने पर यहाँ अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम अन्तर्मुहूर्तप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है और इनकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होनेसे अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कहा है।

७७. विकलेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है। इनके पर्याप्तकोंमें जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल दोनोंमें संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। तथा इन दोनोंमें आयुर्कर्मका भंग पंचेन्द्रियतिर्यञ्चिकके समान है।

विशेषार्थ—विकलेन्द्रियों और उनके पर्याप्तकोंमें भवग्रहणके प्रथम समयमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसलिये उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा इस एक समयको अपनी अपनी जघन्य भवस्थितिसे कम कर देने पर इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल होता है, इसलिये वह एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण-प्रमाण और एक समय कम अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है। तथा इन दोनोंकी कायस्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। आयुर्कर्मके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल स्वामित्वको देखते हुए विकलेन्द्रियोंमें पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान और विकलेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंके समान प्राप्त होनेसे यह उनके समान कहा है।

७८. पञ्चेन्द्रिय और त्रस जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट कालका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेश-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कालका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। आयुर्कर्मका भंग पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान है।

विशेषार्थ—इन जीवोंके भी भवग्रहणके प्रथम समयमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है इसलिये इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इस एक समयको जघन्य भवस्थितिसे कम कर देने पर इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा इसका उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके अनुत्कृष्टके समान है यह स्पष्ट ही है। इसीप्रकार इनके पर्याप्तकोंमें काल घटित कर लेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

७९. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक,

१. ता०प्रती समऊ० । अ[प]जते इति पाठः ।

वाड०-वृणफ्फदि-णिगोद० सत्तण्णं क० ज० ज० उ० ए० । अज० ज० खुद्दाभ० समऊणं, उ० सेदीए असंखे० । आउ० ओघं । एदेसिं वादराणं सत्तण्णं क० ज० ए० । अज० ज० खुद्दाभ० समऊ०, उक० कम्महिदी० । तेसिं पञ्जत्ता० सत्तण्णं क० ज० ए० । अज० ज० अंतो०, उक० संखेजाणि वाससहस्साणि । आउ० तिरिक्खभंगो । वादर-पत्तेग० वादरपुढविभंगो ।

८०. पंचमण०-पंचवचि० अट्ठण्णं क० ज० ज० ए०, उ० चत्तारि सम० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । कायजोगि० सत्तण्णं क० ज० ए० । अज० ज० ए०, उक० असंखेजा लोगा । आउ० ज० ए० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

निगोदजीव, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्मवनस्पतिकायिक, सूक्ष्म निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्यप्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आयुर्कर्मका भङ्ग ओघके समान है । इनके वादरोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है । उनके पर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । आयुर्कर्मका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है । वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंका भङ्ग वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—कालका खुलासा पहले जिस प्रकार कर आये हैं उसे ध्यानमें रखकर यहाँ भी कर लेना चाहिये । मात्र वादर पर्याप्तनिगोदोका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त जानना चाहिए ।

८०. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें आठ कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है । आयुर्कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें आठकर्मोंका जघन्य प्रदेशवन्ध घोटमान जघन्य योगसे होता है, अतः इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है । तथा इन योगीका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यहाँ आठों कर्मोंके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । काययोगमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेश वन्ध सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवके भवके प्रथम समयमें ही सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा जिसके मरणके

८१. ओरालि० सत्तण्णं क० ज० ए० । अज० ज० ए०, उ०
वावीस वाससह० । आउ०^१ गिरयभंगो । ओरा०मि० अपज्ज०भंगो । णवरि अज०
ज० खुद्दाम० तिसमऊणं ।

८२. वेउन्विय०-आहार० सत्तण्णं क० ज० ए० । अज० ज० ए०,
उ० अंतो० । अथवा ज० ज० ए०, उ० चत्तारि स० । अज० ज० ए०, उ०
अंतो० । वेउन्वियका० आउ० देवोर्वं । आहार० आउ० जह० ए० । अज० ज०
ए०, उ० अंतो० । वेउन्वि०मि० सत्तण्णं क० ज० ए० । अज० ज० उ०

समय काययोग हुआ है और दूसरे समयमें जो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त होकर जघन्य योगसे सात कर्मों का जघन्य प्रदेशबन्ध करने लगा है उसके काययोगमें एक समय तक सात कर्मों का अजघन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है और इसका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । शेष कथन सुगम है ।

८१. औदारिककाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम वार्डस हजार वर्ष है । आयुर्कर्मका भंग नारकियोंके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल तीन समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है ।

विशेषार्थ—सूक्ष्म निगोद जीवके पर्याप्त होनेके प्रथम समयमें जघन्य योगसे सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है, अतः औदारिक काययोगमें इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा औदारिककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम वार्डस हजार वर्ष है, इसलिए इसमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम वार्डस हजार वर्षप्रमाण कहा है । यहाँ आयुर्कर्म का जघन्य प्रदेशबन्ध नारकियोंके समान घोटमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए यहाँ इसका भङ्ग नारकियोंके समान कहा है । अपर्याप्तकोमें प्रारम्भके तीन समय कर्मणकाययोगके हो सकते हैं, अतः उनसे न्यून शेष समयमें औदारिकमिश्रकाययोग नियमसे रहता है, इसलिए औदारिकमिश्रकाययोगमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल तीन समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण कहा है । इसमें शेष भङ्ग अपर्याप्तकोके समान है यह स्पष्ट ही है ।

८२. वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अथवा जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें आयुर्कर्मका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । आहारककाययोगी जीवोंमें आयुर्कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका

अंतो० । एवं आहारमि० सत्तर्णं क० । आउ० ज० ए० । अज० ज० ए०, उ०
अंतो० । कम्मइ० सत्तर्णं क० ज० ए० । अज० ज० ए०, उ० तिण्णि स० ।
एवं अणाहार० ।

८३. इत्थि०-पुरिस० सत्तर्णं क० ज० ए० । अज० ज० ए० पुरिस०

जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग जानना चाहिये। आयु कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। कर्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। इसीप्रकार अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—वैक्रियिक और आहारक काययोगमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त होनेके प्रथम समयमें होता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इन योगोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यहाँ इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। यहाँ विकल्परूपसे इन योगोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। सो घोटमान जघन्य योगसे भी जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है यह मानकर यह काल कहा है। इस अपेक्षासे भी अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है। वैक्रियिककाययोगमें आयुकर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध सामान्य देवोंके समान घोटमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इसमें आयुकर्मका भङ्ग सामान्य देवोंके समान कहा है। आहारककाययोगमें आयुकर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध शरीर पर्याप्तिके प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिये इसके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इस योगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त सम्भव होनेसे इसमें आयुकर्मके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध भवग्रहणके प्रथम समयमें होता है, इसलिये इसके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इस योगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिये इसमें अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। आहारकमिश्रकाययोगमें वैक्रियिक-मिश्रकाययोगके समान काल घटित हो जाता है, इसलिये आहारकमिश्रमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका काल वैक्रियिकमिश्रके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र आहारकमिश्रमें आयुकर्मका बन्ध भी सम्भव है इसलिये उसका काल अलगसे कहा है। कर्मणकाययोगमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवके प्रथम विग्रहमें होता है, इसलिये इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इस योगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है, इसलिये इसमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। आहारकोंमें कर्मणकाययोगियोंके समान व्यवस्था रहनेसे उनमें सब भङ्ग कर्मणकाययोगियोंके समान जाननेकी सूचना की है।

८३. खीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और

अंतो०, उ० अणुक०भंगो । आउ० देवभंगो । अवगद० सत्तणं क० ज० ए०, उ० चत्तारिस० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

८४. क्रोधादि० ४ सत्तणं क० ज० ए० । अज० ज० ए०, उ० अंतो । एवं आउ० ।

८५. विभंग सत्तणं क० ज० ज० ए०, उ० चत्तारिस० । अज० ज० ए०, उ० तेचीसं० दे० । आउ० देवभंगो । आभिणि-सुद-ओधि० सत्तणं क० ज० ए० ।

उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल स्त्रीवेदमें एक समय और पुरुषवेदमें अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट कालका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । आयुर्कर्मका भङ्ग देवोंके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—इन दोनों वेदोंमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशवन्ध इन वेदवाले असंज्ञी जीवोंके भवग्रहणके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा स्त्रीवेदका जघन्य काल एक समय और पुरुषवेदका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे इनमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनमें इनके अजघन्य प्रदेशवन्धके उत्कृष्ट कालका भङ्ग अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धके उत्कृष्ट कालके समान है यह स्पष्ट ही है । इनमें आयुर्कर्मका जघन्य प्रदेशवन्ध देवोंके समान घोटमान जघन्य योगसे होता है, इसलिये यहाँ आयुर्कर्मका भङ्ग देवोंके समान जाननेकी सूचना की है । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशवन्ध घोटमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इसमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है । तथा वन्ध करनेवाले अपगतवेदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे इसमें अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

८४. क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आयुर्कर्मका भङ्ग इसीप्रकार जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—क्रोधादि चार कपायोंमें ओषधके समान भव ग्रहणके प्रथम समयमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशवन्ध होता है, इसलिये इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इन कपायोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे इनमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । यहाँ आयुर्कर्मका भङ्ग इसी प्रकार जाननेकी सूचना की है सो इसका यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार यहाँ सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका काल कहा है उसी प्रकार आयुर्कर्मके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका काल प्राप्त होता है ! कारण स्पष्ट है ।

८५. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट कुछ कम तेतीस सागर है । आयुर्कर्मका भङ्ग देवोंके समान है । आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुत-ज्ञानी और अबधिज्ञानी जावोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल

अज० ज० अंतो०, उ० छावट्टि० सादि० । आउ० देवभंगो । एवं ओधिदं०-सम्मा०-
खइग०-वेदग० । णवरि खइग०-वेदग० अज० अणुक्क०भंगो ।

८६. मणप० सत्तण्णं^३ क० ज० ज० ए०, उ० चत्तारि स० । अज० ज०
ए०, उ० पुव्वकोट्टी दे० । आउ० देवभंगो । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-
संजदासंजद० । सुहुमसं० अवगद० भंगो । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो ।

एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक
छयासठ सागर है । आयुर्कर्मका भङ्ग देवोंके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि,
क्षायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिक-
सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अजघन्य प्रदेशबन्धका भंग अनुत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—विभङ्गज्ञानमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध घोटमान जघन्य योगसे
होता है, इसलिए इसमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट
काल चार समय कहा है । तथा यहाँ जघन्य प्रदेशबन्धके मध्यमें एक समयतक अजघन्य प्रदेश-
बन्ध हो यह सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है । विभङ्गज्ञानका
उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इसमें उक्त कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका
उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । यहाँ आयुर्कर्मका भङ्ग देवोंके समान है यह स्पष्ट
है । आभिनिवोधिक आदि तीन ज्ञानोंमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्ता
तद्भवत्थ जीवके होता है, इसलिए इनमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट
काल एक समय कहा है । तथा इन ज्ञानोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक
छयासठ सागर होनेसे इनमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और
उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर कहा है । यहाँ भी आयुर्कर्मका भङ्ग देवोंके समान है यह
स्पष्ट ही है । यहाँ अवधिदर्शनी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें आभिनिवोधिक
ज्ञानी आदिके समान काल घटित हो जानेसे वह उनके समान कहा है । मात्र क्षायिकसम्यग्दृष्टि
और वेदकसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल भिन्न प्रकार है, इसलिये इनमें सात कर्मोंके अजघन्य
प्रदेशबन्धके कालको अनुत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है ।

८६. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । आयुर्कर्मका भङ्ग देवोंके समान है । इसी प्रकार
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतारंयत जीवोंमें
जानना चाहिए । सूक्ष्मसात्पर्यसंयत जीवोंमें अपगतवेदी जीवोंके समान भंग है । चक्षुदर्शनी
जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध घोटमान जघन्य
योगसे होता है, इसलिए इसमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और
उत्कृष्ट काल चार समय कहा है । तथा दो बार जघन्य प्रदेशबन्धके मध्यमें एक समयके लिए
अजघन्य प्रदेशबन्ध हो यह सम्भव है और मनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व-
कोटिप्रमाण है, इसलिए यहाँ सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और
उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण कहा है । यहाँ आयुर्कर्मका भङ्ग देवोंके समान है
यह स्पष्ट ही है । यहाँ संयत आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें मनःपर्ययज्ञानी

८७. किण्ण-णील काऊ० सत्तण्णं क० ज० ए० । अज० ज० अंतो, उक्क० तेचीसं-सत्तारस-सत्तसाग० सादि० । आउ० ओधं । तेउ-पम्मणं सत्तण्णं क० ज० ए० । अज० ज० अंतो, उ० वे-अट्टारससाग० सादि० । आउ० देवभंगो । सुकाए सत्तण्णं क० ज० ए० । अज० ज० अंतो, उ० तेचीसं सादि० । आउ० देवभंगो ।

८८. उव्सम० सत्तण्णं क० ज० ए० । अज० जहण्णुक० अंतो । सासणे सत्तण्णं क० ज० ए० । अज० ज० ए०, उ० छावलिंगा० । आउ० देवभंगो । सम्मामि० मणजोगिभंगो ।

जीवोंके समान कालपरूपणा बन जाती है, इसलिए उनका कथन मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान जानने की सूचना की है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

८७. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यामें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर है । आयुकर्मका भङ्ग ओषके समान है । पीत और पद्मलेश्यामें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है । आयुकर्मका भङ्ग देवोंके समान है । शुक्ललेश्यामें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । आयुकर्मका भंग देवोंके समान है ।

विशेषार्थ—छहों लेश्याओंमें अपने अपने योग्य प्रथम समयवर्ती तद्बन्धस्थ जीवके जघन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इनमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इन लेश्याओंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर आदि है, इसलिए इनमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । स्वामित्वको देखते हुए कृष्णादि तीन लेश्याओंमें आयुकर्मका भङ्ग ओषके समान और पीत आदि तीन लेश्याओंमें वह देवोंके समान बन जानेसे उस प्रकार जाननेकी सूचना की है ।

८८. उपशमसम्यक्त्वमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सासादनसम्यक्त्वमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवलिप्रमाण है । आयुकर्मका भङ्ग देवोंके समान है । सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—उपशमसम्यक्त्वमें प्रथम समयवर्ती देवके और सासादन सम्यक्त्वमें प्रथम समयवर्ती तीन गतिके जीवके सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इनमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट जो काल है उसे ध्यानमें रखकर इनमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है । सासादनमें आयुकर्मका भङ्ग देवोंके समान

८९. सण्णी० सत्तणं क० ज० ए० । अज० ज० खुदाभ० समजणं । उ० सागरोवमसदपुध० । आउ० ओघमंगो । आहार० सत्तणं क० ज० ए० । अज० ज० ए०, उ० अंगुल० असंखे० । आउ० जहण्णाजहणं ओघं ।

एवं कालं समत्तं ।

अंतरपरूवणा

९०. अंतरं दुविधं-जहणयं उकस्सयं च । उक्क० पगदं । दुवि-०ओघे० ओदे० । ओघे० छणं क० उकस्सपदेसवंधंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जह० एग०, उक्क० अद्दुयोगल० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । मोह० उ० ज० ए०, उ० अणंत-

है यह स्पष्ट ही है । अपने स्वामित्वको देखते हुए सम्यग्मिथ्यात्वमे मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग बन जाता है; इसलिये सम्यग्मिथ्यात्वमे मनोयोगी जीवोंके समान कालपरूपणा जाननेकी सूचना की है ।

८९. संज्ञी जीवोंमे सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है । आयुकर्मका भङ्ग ओघके समान है । आहारकोमे सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातवे भागप्रमाण है । आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—इन दोनों मार्गणाओंमें भी यथायोग्य भव ग्रहणके प्रथम समयमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है, अतः इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । सङ्घियोंमे इस एक समयको अपनी जघन्य भवस्थितिमेंसे कम कर देने पर उनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । तथा उपशमश्रेणिमें जो आहारक एक समय तक सात कर्मोंके बन्धक होकर दूसरे समयमे मर कर अनाहारक हो जाते हैं उनकी अपेक्षा आहारकोंमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है । यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि छह कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय लानेके लिये उतरते समय एक समय तक सूक्ष्मसाम्परायमे रखकर मरण करावे और मोहनीयके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय लानेके लिये उतरते समय एक समयके लिये अनिवृत्तिकरणमें मोहनीयका बन्ध कराकर मरण करावे । इन दोनों मार्गणाओंमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । तथा दोनोंमें आयुकर्मका भङ्ग ओघके समान है यह भी स्पष्ट है ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तरपरूवणा

९०. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आवेश । ओघसे छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुल्ल परिवर्तनप्रमाण है ।

कालमसं० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । आउ० उ० ज० ए०, उ० अणंतका०
असं० । अणु० ज० ए०, उ० तेचीसं० सादि० ।

९१. गिरएसु सत्तणं क० उ० ज० ए०, उ० तेचीसं दे० । अणु० ज० ए०,
उ० वे० सम० । आउ० उ० अणु० ज० ए०, उ० छम्मासं देव्ठ० । एवं सत्तसु

अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असांख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असांख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—छह कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध उपशमश्रेणिमें भी होता है । वहां यह सम्भव है कि इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एक समयके अन्तरसे भी हो और कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कालके अन्तरसे भी हो । यही कारण है कि ओषसे इन कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है । तथा जो जीव उपशमश्रेणिमें अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर रहा है वह एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करके पुनः अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने लगता है उसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका एक समय प्रमाण अन्तर देला जाता है और जो जीव उपशान्तमोहमें अन्तर्मुहूर्त कालतक अवन्धक होकर नीचे उतर कर छह कर्मोंका पुनः बन्ध करता है उसके इत्के अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तर्मुहूर्त प्रमाण अन्तर काल देला जाता है । यही कारण है कि यहां इन कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एक समयके अन्तरसे भी हो सकता है और संक्षिप्तोंके उत्कृष्ट अन्तरकालको, देखते हुए अनन्त कालके अन्तर से भी हो सकता है, इसलिए यहां मोहनीय कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल प्रमाण कहा है । इसी प्रकार आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण ले आना चाहिये । पहले छह कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर घटित करके बतलाया ही है उसी प्रकार मोहनीयके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर घटित कर लेना चाहिये । आयुर्कर्मका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एक समयके अन्तरसे भी होता है और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी होता है, क्योंकि जो एक पूर्वकौटिकी आयुवाले विर्यञ्ज और मनुष्य प्रथम त्रिभागमें आयुर्कर्मका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करके और मरकर तेतीस सागरकी आयुवाले नारकियो व देवा-युक्तोंमें यथासम्भव उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर आयुर्कर्मका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका साधिक तेतीस सागरप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर देला जाता है, इसलिये आयुर्कर्मके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरप्रमाण कहा है । यहां सरल होनेसे जघन्य अन्तर एक समयका खुलासा नहीं किया है ।

९१. नारकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना प्रमाण है । इसी प्रकार सातों

पुढवीसु अप्यणो द्विदी भाणिदव्वा ।

९२. तिरिक्खेसु सत्तणं क० उ० ज० ए०, उ० अणंतका० । अणु० ज० ए०, उ० वे सम० । आउ० उ० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० सादि० । पंचिदि०तिरि०३ सत्तणं क० उ० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० पुव्वकोड्डिपु० । अणु० ज० ए०, उ० वे सम० । आउ० गाणाव०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० सादि० । पंचि०तिरि०अपज्ज० सत्तणं क० उ० ज० ए०, उ० अंतो० । अणु० ज० ए०, उ० [वे सम० । आउ० उ० अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।

पृथिवियासे जानना चाहिए । मात्र सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कहते समय वह कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एक समयके अन्तरसे हो और कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे हो यह सम्भव है, इसलिए इनमें उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समयप्रमाण जौर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण कहा है । तथा इनमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीनाप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि एक समयके अन्तरसे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध हो यह तो ठीक ही है । साथ ही नरकमें छह महीनाके प्रारम्भमें और अन्तमें उक्त बन्ध हो और मध्यमें न हो यह भी सम्भव है, इसलिये यह अन्तर उक्तप्रमाण कहा है ।

९२. तिर्यञ्चोमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तर ओषके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । पञ्चेन्द्रिय-तिर्यञ्चत्रिकमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्यप्रमाण है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है और अनन्त कालके अन्तरसे भी सम्भव है, क्योंकि संज्ञी पञ्चेन्द्रियका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालप्रमाण है, इसलिए इनमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय जिस प्रकार नारकियोंमें घटित करके वतला आये हैं उसी प्रकार यह अन्तर यहाँ और आगे भी घटित कर लेना चाहिये । ओषसे आयुर्कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जो अन्तर कहा है, वह यहाँ बन जाता है, इसलिये यह अन्तर ओषके समान

९३. मणुस०३ पंचिदियतिरिक्खतियभंगो । णवरि सत्तणं क० अणु०
ज० ए०, उक्क० अंतो० । देवाणं णिरयभंगो । एवं सच्चदेवाणं अप्पप्पो
उक्कस्सट्ठिदी णेदव्वा ।].....

कालपरूवणा

.....संखेज्जस०, अणु०^३ ज० ए०, उ०.....

कहा है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एक समयके अन्तरसे भी होता है और पूर्वकोटिकी आयुवाला जो तिर्यञ्च प्रथम त्रिभागमें आगामी भवकी आयु बाँधकर उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होता है और वहाँ छह महीना काल शेष रहने पर पुनः आयुबन्ध करता है उसके साधिक तीन पल्यके अन्तरसे भी अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देखा जाता है, इसलिये यहाँ आयुकर्मके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य कहा है । आयुकर्मके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका यह अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें भी घटित हो जाता है, इसलिये वह इसी प्रकार कहा है । इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिप्रथमत्व अधिक तीन पल्यप्रमाण है, इसलिये इनमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है, क्योंकि यहाँ अपनी-अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें आठों कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है । इनमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है यह स्पष्ट ही है । पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त है और इनमें आठों कर्मोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध यथायोग्य एक समयके अन्तरसे हो सकता है, इसलिये इनमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा आयुकर्मके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

९३. मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सब देवोंमें जानना चाहिये । मात्र सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—स्वामित्व और कार्यास्थितिको देखते हुए मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकसे कोई विशेषता नहीं होनेसे यहाँ आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके समान कहा है । मात्र मनुष्यत्रिकमें उपरामश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव होनेसे इनमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समयके स्थानमें अन्तर्मुहूर्तप्रमाण बन जाता है, इसलिये इनमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके अन्तरका अलगसे उल्लेख किया है । देवोंमें सब कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामित्व नारकियोंके समान है, इसलिये इनमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर नारकियोंके समान कहा है । मात्र देवोंके अवान्तर भेदोंकी भवस्थिति अलग-अलग है, इसलिये इन भेदोंमें अन्तर कहते समय सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट भवस्थितिप्रमाण जाननेकी अलगसे सूचना की है ।

कालप्ररूपणा (नाना जीवोंकी अपेक्षा)

.....संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट ।

१. ता०प्रती अंतो० अणु० [अत्र ताडपत्र द्वयं विनष्टम्]संखेज्जसं० अणु०, शा०प्रतो अंतो० अणु० ज० ए० उ०.....संखेज्जसं० अणु० इति पाठः ।

९४. जहणए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० अट्टणं क० ज० अज० सव्वद्धा^१ । एवं ओघभंगो सव्वअणंतरासीणं सव्वएइदिं पंचकायाणं च । गवरि वादरपुढ०—आउ०—तेउ०—वाउ०—पत्ते०—पञ्ज० ज० ज० ए०, उ० आवलि० असं० । अज० सव्वद्धा । आउ० ज० अज० णिरयभंगो । वेउव्वियमि० सत्तणं क० ज० ज० ए०, उ० आवलि० असं० । अज० ज० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अवगद०—सुहुमसंप० उक्कसभंगो । उवसम० सत्तणं क० ज० ज० ए०, उ० संखेज्जसम० । अज० ज० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । एवं परिमाणे असंखेज्जरासीणं तेसिं ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० । अज० अप्पणो पगदिकालो कादव्वो । एवं संखेज्जरासीणं तेसिं^२ ज० ए०, उ० संखेज्जसम० । अज० अप्पणो पगदिकालो कादव्वो ।

एवं कालं सम्मत्तं ।

९४. जघन्य कालका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठ कर्मोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका काल सर्वदा है । इसी प्रकार ओघके समान सब अनन्तराशि, सब एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवों में जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंमें जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका काल सर्वदा है । आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका काल नारकियोंके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अपगतवेदी और सूक्ष्मसान्प्ररायसंयत जीवोंमें उत्कृष्टके समान भंग है । उपशमसम्यक्त्वमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार परिमाणसे जो असंख्यात राशियाँ हैं उनमें जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका काल अपने-अपने प्रकृतिबन्धके कालके समान करना चाहिये । इसी प्रकार जो संख्यात राशियाँ हैं उनमें जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका काल अपने-अपने प्रकृतिबन्धके कालके समान करना चाहिये ।

विशेषार्थ—ओघसे आठों कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवके यथायोग्य समयमें योग्य सामग्रीके मिलने पर होता है । यतः ऐसे जीव निरन्तर पाये जाते हैं, अतः ओघसे जघन्य प्रदेशबन्धका काल सर्वदा कहा है । तथा ओघसे अजघन्य प्रदेशबन्धका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । सब अनन्त राशियोंमें, एकेन्द्रियों और पाँच स्थावरकायिकोंमें इसी प्रकार अपने स्वामित्वको जान कर आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका सर्वदा काल ले आना चाहिये । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त आदि पाँच कायिक जीवोंमें उनकी

१. ता०प्रतौ सव्वहा (द्धा) इति पाठः । अत्रेऽपि क्वचिदेवमेव पाठः । २. ता०प्रतौ संखेज्जरासी तेसिं इति पाठः ।

अंतरपरूवणा

९५. अंतरं^१ दुवि०—ज० उ० । उ० पगदं । दुवि०—ओषे० ओदे० । ओषे० अट्टुणं क० उक० पदेसबंधंतरं केवचिरं कालदो होदि ? जह० ए०, उ० सेदीए असंखे० । अणु० गत्थि अंतरं । एवं एदेण^२ वीजेण एसिं सब्बद्धा तेसिं गत्थि अंतरं । एसिं णोसब्बद्धा तेसिं उक० ज० ए०, उ० सेदीए असं० । अणु० अट्टुणं पि क० अप्पप्पणो पगदिअंतरं कादव्वं ।

उत्पत्ति और स्वामित्वको देखकर सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । इनमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । आगे असंख्यात संख्यावाली राशियोंमें कालका निर्देश किया है । उसमें नारकियोका समावेश है ही, अतः उसे ध्यानमें रखकर यहाँ बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त आदिमें आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धके जघन्य और उत्कृष्ट कालके जाननेकी सूचना की है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें जो असंज्ञी मरकर नरकमें और देवोंमें उत्पन्न होता है उसके प्रथम समयमें जघन्य अनुभाग होता है । ऐसे जीव लगातार कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यातवे भाग-प्रमाण काल तक ही उत्पन्न होते हैं, अतः इस योगमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । तथा इस योगका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है, अतः इसमें सात कर्मोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल क्रमसे उक्त कालप्रमाण कहा है । उपशमसम्यक्त्वमें अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल वैक्रियिकमिश्र-काययोगके समान ही घटित कर लेना चाहिये । क्योंकि इन मार्गणाओका काल समान है । किन्तु उपशमसम्यक्त्वके साथ मरकर देव होते हैं उनके ही इस सम्यक्त्वमें सात कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है । ऐसे जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही मरकर उत्पन्न होते हैं अतः इस सम्यक्त्वमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेश-बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

अन्तरपरूवणा

९५. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे आठ कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार जिनका काल सर्वदा है उनमें अन्तरकाल नहीं है । तथा जिनका काल सर्वदा नहीं है उनमें उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका आठों ही कर्मोंका अपने अपने प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान अन्तर करना चाहिए ।

विशेषार्थ—सब योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । यह सम्भव है कि नाना जीवोंके जो योग उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें निमित्त है वह एक समयके अन्तरसे भी हो जावे और एक बार होकर पुनः क्रमसे सब योगस्थानोंके ही जानेके बाद हीवे, इसलिए यहाँ सब कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे

१. ता०प्रतौ पगदिकाले कादन्वो । अंतरं इति पाठः । २. आ०प्रतौ अंतरं । एदेण इति पाठः ।

९६. जह० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० अट्टुण्णं क० ज० अज० गत्थि अंतरं । एवं अणंतरासीणं असंखेज्जलोगरासीणं । सेसाणं उक्कस्सभंगो ।

भावपरूवणा

९७. भावं दुविधं—जह० उक्क० च । उक्क०पदे० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० अट्टुण्णं क० उ० अणु०बंधग त्ति को भावो ? ओदइगो भावो एवं' अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

९८. जह० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० अट्टुण्णं क० ज० अज०-बंधग त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

भागप्रमाण कहा है । जीवराशि अनन्त है, अतः सब कर्मोंके अनुकृष्ट प्रदेशबन्धमें अन्तर पड़ना सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इसके अन्तरकालका निषेध किया है । आगे जिन मार्गणाओंका उक्तृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका काल सर्वदा है उनमें अन्तर घटित नहीं होता । किन्तु जिन जिन मार्गणाओंमें सर्वदा काल नहीं है उनमें उक्तृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उक्तृष्ट अन्तर ओघके समान बन जाता है और अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान प्राप्त होता है । उदाहरणार्थ नरकगति लीजिए । इसमें उक्तृष्ट प्रदेशबन्धका काल सर्वदा नहीं है, इसलिए इसमें उक्तृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उक्तृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण प्राप्त होता है । तथा इसमें आयुकर्मके सिवा शेष कर्मोंका सदा प्रकृतिबन्ध होता रहता है, अतः अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता । मात्र आयुकर्मका सदा बन्ध नहीं होता, अतः प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान इसमें आयुकर्मके प्रदेशबन्धका जघन्य और उक्तृष्ट अन्तरकाल बन जाता है । इसी प्रकार सर्वत्र अपनी अपनी विशेषताको जानकर अन्तरकाल ले आना चाहिए ।

९६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इस प्रकार अनन्तराशि और असंख्यात लोकप्रमाण राशियोंमें जानना चाहिए । शेष राशियोंका भङ्ग उक्तृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—स्वामित्वको देखते हुए यहाँ ओघसे और अनन्त संख्यावाली व असंख्यात लोकप्रमाण संख्यावाली मार्गणाओंमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होनेसे उसका निषेध किया है । किन्तु स्वामित्व को देखते हुए शेष मार्गणाओंमें अन्तरकाल उक्तृष्ट प्ररूपणाके समान बन जाता है, इसलिए इसे उक्तृष्ट प्ररूपणाके समान जाननेकी सूचना की है ।

भावप्ररूपणा

९७. भाव दो प्रकारका है—जघन्य और उक्तृष्ट । उक्तृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठ कर्मोंके उक्तृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशबन्धके बन्धक जीवोंका कौन-सा भाव है ? औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

९८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका कौन-सा भाव है ? औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए ।

अप्पावहुगपरूवणा

९९. अप्पावहुगं दुवि०—[जह० उक्क० । उक्क पगदं । दुवि०—] । ओघे० आदे० । ओघे० सव्वत्थोवा आउ० उक्क० पदे०बंधो । मोह० उ०पदे० विसे० । णामा-गोदाणं उ० प०बंधं दो वि तु० विसे० । णाणाव०-दंसणा०-अंतरा० उ० तिण्णि वि० विसे० । वेदणी० उ० विसे० । एवं ओघभंगो मणुस०२-पंचि०-त्तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरासि-अवग०-लोभक०-आभिणि-सुद-ओधिणा०-मणपञ्ज०-संज०-चक्खुदं०-अक्खुदं०-ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मादि०-खड्ग०-उवसम०-सण्णि०-आहारग ति । सेसाणं णिरयादीणं याव अणाहारग ति सव्वत्थोवा आउ० उ० पदे०बंधो । णामा-गोद० दो वि० तु०विसे० । णाणा०दसणा०-अंतरा०उ० तिण्णि वि तु० विसे० । मोह० विसे० । वेदणीयं विसे० ।

१००. जह० पग० । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वत्थोवा णामा-गोदा० ज० प०बंधं । णाणा०-दंसणा०-अंतरा० ज० तिण्णि वि तु० विसे० । मोह० ज० विसे० । वेदणी० ज० विसे० । आउ० ज० असंखेज्जु० । एवं ओघभंगो सव्वाणं याव अणाहारग ति । णवरि पंचमण-पंचवचि०-आहार०-आहारमि०-विभंग०-

अल्पवहुत्वप्ररूपणा

९९. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आयुर्कर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सबसे स्तोक है । मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध विशेष अधिक है । नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध दोनो ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तीनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । वेदनीयकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध विशेष अधिक है । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचो मनोयोगी, पाँचो वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, अपगतवेदी, लोभकषयवाले, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेख्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोमें जानना चाहिए । शेष नरकगति आदिसे लेकर अनाहारक मार्गणातकके जीवोमें आयुर्कर्मका उत्कृष्ट-प्रदेशबन्ध सबसे स्तोक है । इससे नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध दोनो ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । इनसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तीनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । इनसे मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध विशेष अधिक है । इससे वेदनीयकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध विशेष अधिक है ।

१००. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे नाम और गोत्रकर्मके जघन्य प्रदेशबन्ध सबसे स्तोक हैं । इनसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्ध तीनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । इनसे मोहनीयकर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध विशेष अधिक है । इससे वेदनीयकर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध विशेष अधिक है । इससे आयुर्कर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध असंख्यातगुणा है । इस प्रकार ओघके समान अनाहारक पयंत सब मार्गणाओमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पाँचो मनोयोगी पाँचो वचनयोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, विभङ्गज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसयत और संयतासंयत जीवोमें

मणपञ्ज०-संज०-सामाह०-छेदो-परिहार०-संजदासंज० सन्वत्थोवा आउ० जह० ।
गामा-नोद० ज० विसे० । गणा०-दंसणा०-अंतरा० ज० विसे० । मोह० ज० विसे० ।
वेदणी० ज० विसे० ।

एवं चतुर्वीसमणियोगद्वाराणि समत्ताणि ।

भुजगारबंधो

१०१. एत्तो भुजगारबंधे चि तत्थ इमं अहपदं-जो एण्णि पदेसग्गं बंधदि
अणंतरोसक्काविदविदिकंते समए अप्पदरादो बहुदरं बंधदि चि एसो भुजगारबंधो गाम ।
अप्पदरबंधे चि तत्थ इमं अहपदं-यो एण्णि पदेसग्गं बंधदि अणंतरउस्सक्काविदविदिकंते
समए बहुदरादो अप्पदरं बंधदि चि एसो अप्पदरबंधो गाम । अवट्ठिदबंधे चि तत्थ
इमं अहपदं-एण्हि पदेसग्गं बंधदि अणंतरउस्सक्काविदओसक्काविदविदिकंते समए
तच्चियं तच्चियं चैव बंधदि चि एसो अवट्ठिदबंधो गाम । अवत्तव्वबंधे चि तत्थ इमं
अहपदं-अबंधादो बंधदि चि एसो अवत्तव्वबंधो गाम । एदेण अहपदेण तत्थ इमाणि
तेरस अणियोगद्वाराणि—समुक्तिका याव अप्पावहुगे चि ।

समुक्तिका

१०२. समुक्तिचणदाए दुवि-ओघे० आदे० । ओघे० अट्ठण्णं क०
अत्थि भुज० अप्प० अवट्ठि० अवत्तव्वबंधगा य । एवं मणुस०३-पंचि०-त्तस०२-पंच-

आयुर्कर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध सबसे स्तोत्र है । इससे नाम और गोत्रकर्मके जघन्य
प्रदेशबन्ध दोनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । इनसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण
और अन्तरायकर्मके जघन्य प्रदेशबन्ध तीनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक हैं ।
इससे मोहनीयकर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध विशेष अधिक है । इससे वेदनीयकर्मका जघन्य प्रदेश-
बन्ध विशेष अधिक है ।

इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए ।

भुजगारबन्ध

१०१. यहाँसे भुजगारबन्धका प्रकरण है । उसमें यह अर्थपद है—जो इस समय
प्रदेशात्र बाँधता है वह अनन्तर अपकर्षित व्यतिक्रान्त समयमें बाँधे गये अल्पतरसे बहुतरको
बाँधता है यह भुजगारबन्ध है । अल्पतरका प्रकरण है । उसमें यह अर्थपद है—जो इस
समय प्रदेशात्र बाँधता है वह अनन्तर उत्कर्षित व्यतिक्रान्त समयमें बाँधे गये बहुतरसे अल्पतरको
बाँधता है यह अल्पतरबन्ध है । अवस्थितबन्धका प्रकरण है । उसमें यह अर्थपद है—जो
इस समय प्रदेशात्र बाँधता है वह अनन्तर उत्कर्षको प्राप्त हुए या अपकर्षको प्राप्त हुए व्यतिक्रान्त
समयसे उतने ही उतने ही प्रदेशात्र बाँधता है यह अवस्थितबन्ध है । अवक्तव्यबन्धका
प्रकरण है । उसमें यह अर्थपद है—जो अबन्धसे बन्ध करता है यह अवक्तव्यबन्ध है । इस
अर्थपदके अनुसार ये तेरह अनुयोगद्वार हैं—समुक्तीर्तनासे लेकर अल्पवहुत्व तक ।

समुक्तीर्तना

१०२. समुक्तीर्तनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
आठ कर्मोंके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इस प्रकार

मण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-अवगद०-आभिणि-सुद-ओधि०-मणपज०-संजद
चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-सुक्खले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि-
आहारग ति। वेउव्वियमि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारएसु सत्तण्णं क० अत्थि भुज०
एगमेव पदं। सेसाणं गिरयादीणं याव असण्णि ति सत्तण्णं क० अत्थि भुज० अप्प०
अवहिं०। आउ० ओघं।

एवं समुक्चित्तणा समत्ता।

सामित्त्वाणुगमो

१०३. सामित्त्वाणुगमेण दुवि—ओघे० आदे०। ओघे० सत्तण्णं क० भुज०-
अप्प०-अवहिं० को होदि ? अण्णदरो। अवत्त० को होदि ? अण्णदरो उवसामओ
परिवदमाणओ मणुसो वा मणुसी वा पढमसमयदेवो वा। आउ० भुज०-अप्प-अवहिं०
को होदि ? अण्णदरो। अवत्त० को होदि ? अण्णदरो पढमसमयाउगवंधओ। एवं
पंचिं-त्तस०२-कायजोगि-लोमक० मोह० आभिणि-सुद-ओधिणा०-चक्खु०-अचक्खु०-
ओधिदं-सुक्खले०-भवसि०-सम्मा०-खइग०-उवसम०-सण्णि-आहारग ति। मणुस०३-
पंचमण०-पंचवचि०-ओरा०-मणप०-संजद०-अवगद० सत्तण्णं क० अवत्त० को होदि ?
अण्ण० मणुसो वा मणुसिणी वा उवसामणादो परिवदमाणओ पढमसमयवंधओ। सेसं

मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी,
औदारिककाययोगी, अपगतवेदी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यव-
ज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेखावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि,
क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिये। वैक्रियिक-
मिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात
कर्मोंका एकमात्र भुजगार पद है। शेष नरकगतिसे लेकर असंज्ञी तककी मार्गणाओंमें
सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं। आयुर्कर्मका भङ्ग
ओघके समान है।

१०३. स्वामित्त्वाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे
सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका बन्धक कौन है ? अन्यतर जीव इन तीन
पदोंका बन्धक है। अवक्तव्यपदका बन्धक कौन है ? अन्यतर गिरनेवाला उपशामक मनुष्य
और मनुष्यिनी तथा प्रथम समयवर्ती देव अवक्तव्यपदका बन्धक है। आयुर्कर्मके भुजगार
और अवस्थितपदका बन्धक कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका बन्धक है।
अवक्तव्यपदका बन्धक कौन है ? प्रथम समयमें आयुर्कर्मका बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव
अवक्तव्यपदका बन्धक है। इस प्रकार पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, काययोगी, लोभकपायवाले
मोहनीयका, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि-
दर्शनी, शुक्ल लेखावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और
आहारक जीवोंमें जानना चाहिये। मनुष्यत्रिक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, औदारिक-
काययोगी, मनःपर्यवज्ञानी, संयत और अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदका
बन्धक कौन है ? उपशमश्रेणिसे गिरकर प्रथम समयमें इनका बन्ध करनेवाला अन्यतर
मनुष्य और मनुष्यिनी इनके अवक्तव्यपदका बन्धक है। शेष भङ्ग ओघके समान है।

ओषं । सेसाणं गिरयादि याव अणाहारग त्ति सत्तणं क० भुज०-अप्य०-अवट्ठि० को
होदि ? अण्ण० । आउ० ओषं । वेउन्वियमि० सत्तणं क० आहारमि० अट्ठणं क०
कम्मइ०-अणाहार० सत्तणं क० भुज० को होदि ? अण्णदरो ।

एवं सामित्तं समत्तं ।

कालाणुगमो

१०४. कालाणुगमेण दुवि०—ओषे आदे० । ओषे० सत्तणं क० भुज-अप्य०
ज० ए०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० पवाइज्जंतेण उवदेसेण ज० ए०, उ० एकारससमयं ।
अण्णेण पुण उवदेसेण ज० ए०, उ० पण्णारससमयं । अवत्त० एगसमयं । आउ०
भुज०-अप्य० जहण्णेण एग०, उ० अंतो० । अवट्ठि० ज० एग०, उ० सत्तसमयं
अवत्त० ज० [उ०] ए० ।

शेष नारकियोंसे लेकर अनाहारक तककी मार्गणाओंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और
अवस्थितपदका बन्धक कौन है ? अन्यतर जीव इनका बन्धक है । आयुर्कर्मका भङ्ग ओषके
समान है । वैकिक्रियकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके, आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें
षाट्ठ कर्मोंके तथा कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगारपदका बन्धक
जीव कौन है ? अन्यतर जीव बन्धक है ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

कालानुगम

१०४. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे सात
कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त
है । अवस्थितपदका चाह् उपदेशके अनुसार जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
ग्यारह समय है । अन्य उपदेशके अनुसार जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
पन्द्रह समय है । अवकल्पपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । आयुर्कर्मके
भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।
अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है । अवकल्पपदका
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

विशेषार्थ—ओषसे आठों कर्मोंका भुजगार और अल्पतरपद एक समय तक होकर
अन्य पद होने लगे यह भी सम्भव है और अन्तर्मुहूर्त तक विवक्षित पद होकर अन्व पद
होने लगे यह भी सम्भव है, क्योंकि असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि आदिका
जघन्य काल एक समय है और असंख्यातगुणवृद्धि तथा असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है । तथा इन कर्मोंका पिछले समयमें जितना बन्ध हुआ है अगले समयमें भी
उतना ही बन्ध होकर आगे बन्धकी परिपाटी बढ़ल जाय यह भी सम्भव है और चाह्
उपदेशके अनुसार अधिकसे अधिक ग्यारह समय तक तथा अन्य उपदेशके अनुसार अधिकसे
अधिक पन्द्रह समय तक सात कर्मोंका और आयुर्कर्मका अधिकसे अधिक सात समय तक
लगातार उतना ही बन्ध होता रहे यह भी सम्भव है, इसलिये सात कर्मोंके अवस्थित-
पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल ग्यारह या पन्द्रह समय तथा आयुर्कर्मके
अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सात समय कहा है । यहाँ वृद्धि या
हानि न होकर लगातार कितने काल तक उतना ही बन्ध होता रहता है इसका विचार कर

१०५. वेउच्चि०मि० सत्तर्णं क० भुज० ज० उ० अंतो० । एवं आहारमि० सत्तर्णं क० । आउ० भुज० ज० ए०, उ० अंतो० । अवत्त० ओषं । कम्मइ०-अणाहार० सत्तर्णं क० भुज० ज० ए०, उ० वेसम० ।

१०६. सेसाणं णिरयादि याव असणि त्ति ओषं । णवरि केसिं च सत्तर्णं क० अवत्त० णत्थि । अवगद० सत्तर्णं क० ओषं । णवरि मोहं अवट्ठि० ज० ए०, उ० सत्त समयं । एवं सुहुम० छण्णं० । उवसम०-सम्मामि० सत्तर्णं क० अवट्ठि० ज० एम०,

कालका निर्देश किया है। सब कर्मोंका अवक्तव्यबन्ध एक समय तक होता है यह स्पष्ट ही है।

१०५. वैकिक्रियकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगारपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगारपदका काल जानना चाहिये। आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आयुर्कर्मके भुजगारपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यपदका भङ्ग ओषके समान है। कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है।

विशेषार्थ—वैकिक्रियकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है और इनमें सात कर्मोंका एक भुजगारपद होता है, इसलिये इनमें सात कर्मोंके भुजगारपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। आहारकमिश्रकाययोगमें आयुर्कर्मका भी बन्ध होता है और यहाँ इनके दो पद सम्भव हैं—भुजगार और अवक्तव्य। यह सम्भव है कि इस योगके दो समय शेष रहने पर आयुर्कर्मका बन्ध हो और यह भी सम्भव है कि अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर आयुर्कर्मका बन्ध हो। आयुर्कर्मका बन्ध कभी भी प्रारम्भ हो। जिस समयमें इसका बन्ध प्रारम्भ होता है उस समय तो अवक्तव्यपद होता है, अतः अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। और द्वितीयादि समयोंमें भुजगारबन्ध होता है। यदि दो समय शेष रहने पर आयुर्कर्मका बन्ध प्रारम्भ हुआ तो भुजगारका इस योगमें एक समय काल उपलब्ध होता है और अन्तर्मुहूर्त पहलेसे बन्ध प्रारम्भ हुआ तो अन्तर्मुहूर्त काल उपलब्ध होता है। यही कारण है कि यहाँ आयुर्कर्मके भुजगारपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। कर्मणकाययोग और अनाहारकका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। जो एक विग्रहसे जन्म लेता है उसके तो भुजगारपद सम्भव नहीं है, क्योंकि विवक्षित मार्गणके प्रथम समयसे द्वितीय समयमें जो अधिक बन्ध होता है उसकी भुजगार संज्ञा है, इसलिये दो विग्रहसे जन्म लेनेवालेके भुजगारका एक समय और तीन विग्रहसे जन्म लेनेवालेके भुजगारके दो समय प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इन दोनों मार्गणाओंमें सात कर्मोंके भुजगारपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है।

१०६. शेष नरकगतिसे लेकर असंज्ञी तककी मार्गणाओंमें ओषके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि किन्हीं मार्गणाओंमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं है। अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें मोहनीय-कर्मके अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंतासंयत जीवोंमें छह कर्मोंका काल जानना चाहिये। उपशमसन्त्य-ग्दष्टि और सन्त्यगिसन्त्याष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय,

उक्क० सत्तसमयं ।

अंतराणुगमो

१०७. अंतराणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० भुज०—अप्य० बंधंतरं ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि ज० ए०, उ० सेटीए असंखे० । अवत्त० ज० अंतो०, उ० उवड्डुपोभगल० । आउ० भुज०—अप्य० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सा० सादि० । अवट्टि० ज० ए०, उ० सेटीए असंखे० । अवत्त० अंतो०, उ० तेत्तीसं सा० सादि० ।

है और उक्कष्ट काल सात समय है ।

विशेषार्थ—यहाँ नरकगतिसे लेकर असंज्ञी तककी शेष मार्गणाओंमें आठों कर्मोंके जहाँ जितने पद सम्भव हैं उनका भङ्ग ओघके समान प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिये वह ओघके समान कहा है । मात्र जिन मार्गणाओंमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है उनमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिये उनमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदको छोड़कर शेष पदोंका और आयुकर्मके सब पदोंका काल कहना चाहिये । तथा अगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान होकर भी यहाँ मोहनीयकर्मके अवस्थितपदका उक्कष्ट काल सात समय ही प्राप्त होता है, इसलिये इनमें ओघसे इतनी विशेषता जाननी चाहिये । तथा सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें यही विशेषता छह कर्मोंके अवस्थितपदकी अपेक्षा भी जाननी चाहिये । इसी प्रकार उपशमसम्यग्दृष्टि और सन्धिमिध्यादृष्टि जीवोंमें भी सात कर्मोंके अवस्थितपदका उक्कष्ट काल सात समय ही प्राप्त होता है ।

अंतरानुगम

१०७. अंतरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उक्कष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । आयुकर्मके भुजगार और अल्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उक्कष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरवन्धका जघन्य काल एक समय और उक्कष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यहाँ इनका जघन्य अन्तर एक समय और उक्कष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनके अवस्थितवन्धका कारणभूत योग एक समयके अन्तरसे भी होता है और जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके अन्तरसे भी होता है, इसलिये इसका जघन्य अन्तर एक समय और उक्कष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । आयुकर्मके अवस्थितवन्धका जघन्य और उक्कष्ट अन्तर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिये । सात कर्मोंका अवक्तव्यवन्ध उपशमश्रेणिके उतरते समय होता है और इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उक्कष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण होता है, इसलिये यह उक्तप्रमाण कहा है । आयुकर्मके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय स्पष्ट ही है, क्योंकि इन पदोंके योग्य योग एक समयके अन्तरसे हो सकता है और आयुकर्मका उक्कष्ट वन्धान्तर साधिक तेतीस सागर पहले बतला आये हैं, इसलिये यहाँ इन पदोंका उक्कष्ट अन्तर

१०८. गिरएसु सत्तर्णं क० भुज०-अप्य० ज० ए०, [उ० अंतो० । अवट्टि० ज० ए०,] उ० तेत्तीसं० देस० अंतोसुहुत्तेण दोहि समएहि य । आउ० तिण्णि पदा० ज० ए०, उ० छम्मासं देस० । अवत्त० ज० अंतो०, उ० छम्मासं देस० । एवं सव्वगिरयाणं अप्यप्पणो अंतरं णेदव्वं ।

१०९. तिरिक्खेसु सत्तर्णं क० ओषं अवत्तव्वं वज्ज । आउ० भुज०-अप्य० ज० ए०, उ० तिण्णि पलिं सादिं । अवट्टि० ओषं । अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० तिण्णि पलिं सादिं । पंचिंतिरि०३ सत्तर्णं क० भुज०-अप्य० ओषं । अवट्टि०

साधिक तेतीस सागर कहा है । इसी प्रकार यहाँ आयुक्रमके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर घटित कर लेना चाहिये ।

१०८. नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक अन्तर्मुहूर्त तथा दो समय कम तेतीस सागर है । आयुक्रमके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । इसी प्रकार सध नारकियोंमें अपना-अपना अन्तर जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—ओषसे सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी इनका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त घटित कर लेना चाहिए । इनके अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय स्पष्ट ही है । तथा इसका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त और दो समय कम जो तेतीस सागर बतलाया है सो उसका कारण यह है कि उपनन्त होते समय वैकृतिकमिश्रकाययोगके रहते हुए अवस्थित पद नहीं होता । उसके बाद शरीर पर्याप्तिके प्राप्त होनेके प्रथम समयमें जो बन्ध हुआ वही उसके अगले समयमें भी हुआ और मध्यमें इनका भुजगार और अल्पतर पद होता रहा । फिर भरण के समय पुनः अवस्थित पद हुआ । इस प्रकार दो समय अवस्थितके और प्रारम्भका अन्तर्मुहूर्त काल तेतीस सागरमेंसे कम कर देने पर अवस्थितपदका उक्त उत्कृष्ट अन्तरकाल आता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । यहाँ आयुक्रमके तीन पद एक समयके अन्तरसे हो सकते हैं और कुछ कम छह महीनाके अन्तरसे भी; इसलिए इनका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना कहा है । इसी प्रकार इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर भी कुछ कम छह महीना घटित कर लेना चाहिए । मात्र इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर जो अन्तर्मुहूर्त कहा है सो इसका कारण यह है कि दो बार आयुक्रमके बन्धमें जघन्य अन्तर एक अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण प्राप्त होता है । यह सामान्य नारकियोंकी अपेक्षा अन्तरकालका विचार हुआ । प्रत्येक पृथिवीमें इसी प्रकार अन्तरकाल प्राप्त होता है । मात्र अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर एक अन्तर्मुहूर्त और दो समय कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण जान लेना चाहिए । कारण स्पष्ट है ।

१०९. तिर्यञ्चोमें सात कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है । मात्र अवक्तव्यपदको छोड़कर यह अन्तरकाल है । आयुक्रमके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पलय है । अवस्थितपदका भङ्ग ओषके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पलय है । पञ्चन्द्रियतिर्यञ्चिकर्मों सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ओषके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर

ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० पुव्वकोटिपुधत्तं । आउ० भुज०-अप्प०-अवत्त०
तिरिक्खोर्धं । अवट्ठि० णाणा०भंगो । पंचि०तिरिक्ख०अपज्ज० सत्तण्णं क०
भुज०-अप्प०-अवट्ठि० ज० ए०, उ० अंतो० । आउ० तिण्णि प० णाणा०भंगो ।
अवत्त० ज० उ० अंतो० । एवं० सव्वअपज्जत्तयाणं तसाणं थावराणं च सव्वसुहुम-
पज्जापज्जात्ताणं च ।

११०. मणुस०३ सत्तण्णं क० तिण्णि प० आउ० चचारि पदा पंचि०तिरि०भंगो ।
सत्तण्णं क० अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोटिपुध० ।

एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । आयुर्कर्मके भुजगार,
अल्पतर और अवक्तव्यपदका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । तथा अवस्थितपदका भङ्ग
ज्ञानावरणके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयुर्कर्मके तीन
पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-
र्मुहूर्त है । इसी प्रकार अर्थात् पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान त्रस और स्थावर सब
अपर्याप्त तथा सब सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, क्योंकि यह पद
उपशमश्रेणितसे गिरते समय होता है । शेष भङ्ग ओषके समान है यह स्पष्ट ही है । यहाँ आयु-
कर्मका बन्धान्तर साधिक तीन पत्य है, इसलिए इसके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट
अन्तर उक्तप्रमाण कहा है । इनका जघन्य अन्तर एक समय स्पष्ट ही है । ओषसे आयुर्कर्मके
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण
कहा है सो यह अन्तर तिर्यञ्चोंमें ही घटित होता है, अतः इसे ओषके समान जाननेका सूचना
की है । तिर्यञ्चोंमें आयुर्कर्मका दो बार बन्ध कम से कम अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे और अधिकसे
अधिक साधिक तीन पत्यके अन्तरसे होता है, अतः यहाँ इसके अवक्तव्यपदका जघन्य और
उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे उक्त प्रमाण कहा है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें इनकी कायस्थितिके ध्यानमें
रखकर अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य कहा है । आयुर्कर्मके
अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरण के समान कहनेका भी यही कारण है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च
अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त है और आयुर्कर्मका दो बार बन्ध कम से कम अन्तर्मुहूर्तके
अन्तरसे होता है यह देखकर इनमें आठों कर्मोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा आयुर्कर्मके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त
कहा है । यहाँ अन्य सब अपर्याप्तकोंमें तथा सूक्ष्म पर्याप्तकोंमें यह व्यवस्था बन जाती है
इसलिए इनका भङ्ग पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान कहा है ।

११०. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके तीन पदोंका और आयुर्कर्मके चार पदोंका भङ्ग
पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान है । तथा सात कर्मोंके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है
और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिककी कायस्थिति आदि पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान है, इसलिए
इनमें सात कर्मोंके तीन पदोंका और आयुर्कर्मके चार पदोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान
प्राप्त होनेसे वैसा कहा है । मात्र मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद भी होता है जो
पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंमें नहीं होता, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है ।
उसमें जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त तो स्पष्ट ही है इसका हम पहले स्पष्टीकरण भी कर आये

१११. देवाणं सत्तणं क० भुज-अप्य० ज० एण०, उ० अंतो० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० दे० । आउ० गिरयभंगो । एवं सच्चदेवाणं अप्पप्पणो अंतरं णेदव्वं ।

११२. एह्दिएसु सत्तणं क० ओघं । आउ० अवट्ठि० ओघं । भुज०-अप्य० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० बावीसं० वाससहस्साणि सादि० । एवं सच्च-एह्दि०-विगर्लिदि०-पंचकायाणं अप्पप्पणो अंतरं णेदव्वं । णवरि अणंतट्ठाणेषु असंखेज्जालोणट्ठाणेषु य सेट्ठीए असंखेज्जदिशागो कादव्वो ।

हैं । उत्कृष्ट अन्तरकाल जो पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण कहा है सो इसका कारण यह है कि मनुष्यत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति जो पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है उसमे से तीन पत्य इसलिए अलग कर दिये है, क्योंकि उसमे उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । इसके बाद जो कायस्थिति शेष रहती है उसके प्रारम्भमें और अन्तमें उपशमश्रेणिपर आरोहण कराकर उतारते समय इन कर्मोंका अवक्तव्यबन्ध करानेसे उक्त अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण कहा है ।

१११. देवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्सुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । आयुकर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार सब देवोंमे अपना अपना अन्तर जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार ओघसे सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्सुहूर्त घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार वहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । यहाँ इन कर्मोंका अवस्थितपद कम से कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे हो सकता है, इसलिए इसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । देवोंमे नारकियोंके समान आयु-बन्धका नियम है, इसलिए इनमें आयुकर्मका भङ्ग नारकियोंके समान कहा है । देवोंके अवान्तर भेदोंमे यह अन्तरप्ररूपणा इसी प्रकार है । मात्र सात कर्मोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण प्राप्त होनेसे उसकी सूचना अलगसे की है ।

११२. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । आयुकर्मके अवस्थित पदका भङ्ग ओघके समान है । आयुकर्मके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्सुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमे अपना अपना अन्तर जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिनकी कायस्थिति अनन्तकाल और असंख्यात लोकप्रमाण है उनमें आठों कर्मोंके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भाग-प्रमाण करना चाहिए ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं है । शेष भङ्ग वा आयुकर्मके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । अब शेष रहे आयुकर्मके तीन पद सो इनमेंसे भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्सुहूर्त पहले अनेक बार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार वहाँ भी जान लेना चाहिए । तथा एकेन्द्रियोंमें आयुकर्मके प्रकृतिबन्धका अन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष है, इसलिए यहाँ इन तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है, क्योंकि मध्यके इतने कालतक आयुकर्मका बन्ध संभव न होनेसे यह अन्तरकाल बन जाता है । यहाँ एकेन्द्रियोंके अवान्तर भेद

११३. पंचि०-त्स०२ सत्तणं क० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि०-अवत्त० ओघं । णवरि कायट्ठिदी भाणिदव्वं । आउ० तिण्णिपदा ओघं । अवट्ठि० णाणा०भंगो ।

११४. पंचमण०-पंचवचि० अट्टणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० ज० ए०, उक० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं ओरालि०-वेडव्वि०-आहार०-तिण्णिसाय-सात्तण०-सम्मामि० । णवरि ओरालि० आउ० तिण्णि प० ज० ए०, उ० सत्तवाससह० सादि० । एवं अवत्त० । णवरि ज० अंतो० । ओरालि० सत्तणं क० अवट्ठि० ज० ए०, उ० वावीसं वाससह० दे० ।

आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें अपनी अपनी भवस्थिति और कायस्थितिको जानकर यह अन्तरकाल घटित करना चाहिये। सर्वत्र कुछ कम कायस्थितिप्रमाण तो आठों कर्मोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर है और साधिक भवस्थितिप्रमाण आयुर्कर्मके शेष तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर है। मात्र जिनकी कायस्थिति अनन्तकाल और और असंख्यात लोकप्रमाण है उनमें अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम कायस्थिति प्रमाण न प्राप्त होकर ओघके समान जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका संकेत अलगसे किया है।

११३. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ओघके समान है। इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है इनका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहना चाहिये। आयुर्कर्मके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है। तथा अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरण के समान है।

विशेषार्थ—ओघसे आठों कर्मोंके अवस्थित पदका और सात कर्मोंके 'अवक्तव्यपदका जो उत्कृष्ट अन्तर कहा है वह इन मार्गणाओंमें नहीं बनता, क्योंकि इन मार्गणाओंकी कायस्थिति उससे बहुत कम है। इस अपवादको छोड़कर शेष सब परुपणा ओघके समान यहाँ भी घटित कर लेनी चाहिये। कोई विशेषता न होनेसे उसका हम अलगसे स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं।

११४. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें आठों कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार औदारिककाययोगी, वैक्रियिककायोगी, आहारककाययोगी, तीनों कषायबाले, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगमे आयुर्कर्मके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है। इसी प्रकार इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा औदारिककाययोगमे सात कर्मोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम चाईस हजार वर्ष है।

विशेषार्थ—पाँच मनोयोगीं और पाँच वचनयोगींका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें आठों कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त बन जाता है। पर इन योगींका यह अन्तर्मुहूर्त काल इतना छोटा है जिससे इस कालके भीतर दो बार उपशमश्रेणीपर आरोहण और अवरोहण तथा आयुर्कर्मका दो बार वन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इन योगीं में आठों कर्मोंके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है। यहाँ औदारिककाययोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ

११५. कायजोगीसु सत्तण्णं क० तिण्णि प० ओषं । अवत्त० णत्थि अंतरं । आउ० एइंदियभंगो । ओरालियमि० अपज्जन्नसंगो । वेउव्वियमि० सत्तण्णं क० आहारमि० अट्टण्णं क० कम्म०-अणाहार० सत्तण्णं क० भुज्ज० णत्थि अंतरं । एत्ताणं एगपदं ।

११६. इत्थि०-पुरिस०-णवुंस० सत्तण्णं क० दो पदा ओषं । अवट्ठि० ज० ए०, उ० पल्लिदो०-सदपुध० सागरो०-सदपुध० सेढीए असखे० । आउ० भुज्ज०-अप्य० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतोप्पु०, उ० पणवण्णं पलि०-सादि० तेत्तीसं सा० सादिरे० । अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवगद० सत्तण्णं क० तिण्णि प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।

गिनाई हैं उनमें यह अन्तरप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उसे इन योगोंकी अन्तरप्ररूपणाके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इसमें जो अपवाद हैं उनका अलगसे उल्लेख किया है। यथा—औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्षप्रमाण होनेसे उसमें आयुकर्मके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्षप्रमाण और सात कर्मोंके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्षप्रमाण प्राप्त होनेसे उसका अलगसे निर्देश किया है। शेष कथन सुगम है।

११५. काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंका भङ्ग ओषके समान है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। आयुकर्मका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके, आहारक-मिश्रकाययोगी जीवोंमें आठ कर्मोंके और कार्मणाकाययोगी व अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुज्जगारपदका अन्तरकाल नहीं है, क्योंकि इन मार्गणाओंमें एक पद है।

विशेषार्थ—सात कर्मोंके अवक्तव्यपदका अन्तर उपश्रमश्रेणियोंमें दो बार आरोहण-अवरोहण करनेसे होता है। किन्तु इतने कालतक काययोगका बना रहना सम्भव नहीं है, इसलिए इस योगमें अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

११६. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके दो पदोंका भङ्ग ओषके समान है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे सौ पल्यपृथक्त्वप्रमाण, सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण और जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। आयु-कर्मके भुज्जगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य और साधिक तेतीस सागर है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—तीन वेदोंमें सात कर्मोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थितिको ध्यानमें रख कर कहा है। यद्यपि नपुंसकवेदकी कायस्थिति अनन्तकालप्रमाण है पर यह पहले ही सूचित कर आये हैं कि जिनकी कायस्थिति अनन्तकाल प्रमाण है उनमें सब कर्मोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है। तथा तीनों वेदोंमें आयुकर्मके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी साधिक भवस्थिति-प्रमाण कहा गया है। कारण स्पष्ट है। शेष कथन सुगम है, क्योंकि उसका पहले अनेक बार स्पष्टीकरण कर आये हैं।

११७. लोभ० मोह०-आउ० अवत्त० पत्थि अंतरं । सेसाणं कोधमंगो ।
 ११८. मदि०-सुद०-असंज०-अभवसि०-मिच्छा०-[अ]सिण्णि चि सत्तणं क०
 तिण्णि प० आउ० चत्तारि पदा ओघमंगो । णवरि असणीसु आउ० भुज०-अप्प०
 ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० तिण्णं पि पुव्वकोडी सादि० । विभंगे अट्टण्णं
 क० गिरयोधं ।

११९. आभिणि०-सुद०-ओधि० सत्तणं क० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ०
 अंतो० । अवट्ठि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० छावट्ठिसाग० सादि० । आउ०
 ओघं । णवरि अवट्ठि० णाणा०मंगो । एवं ओधिद०-सम्मादि० ।

१२०. मणपज्ज० सत्तणं क० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि ज० ए०, अवत्त०
 ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडी दे० । आउ० तिण्णि प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०,

११७. लोभकषायमे मोहनीय और आयुर्कर्मके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।
 शेष पदोंका भङ्ग क्रोध कषायके समान है ।

विशेषार्थ—लोभकषायमें मोहनीयका अवक्तव्यपद भी सम्भव है । इतनी विशेषता
 बतलानेके लिए इसमे अन्तर पररूपणा शेष तीन कषायोंकी अन्तर पररूपणासे अलग कही है ।
 यहाँ लोभकषायके उदयमें दो बार उपशमश्रेणिकी प्राप्ति और दो बार आयुर्कर्मका बन्ध सम्भव
 नहीं है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

११८. मत्स्यज्ञानी, श्रुतज्ञानी, असंयत, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें
 सात कर्मोंके तीन पदोंका और आयु कर्मके चार पदोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता
 है कि असंज्ञियोंमें आयुर्कर्मके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है,
 अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि
 है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें आठों कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।

विशेषार्थ—असंज्ञियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति एक पूर्वकोटिप्रमाण है, इसलिए इनमें
 आयुर्कर्मके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण
 कहा है । शेष कथन सुगम है ।

११९. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार
 और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित-
 पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनोंका
 उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । आयुर्कर्मका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता
 है कि अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि
 जीवों में जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—इन तीन ज्ञानों का उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है, इसलिए इनमें
 सात कर्मोंके अवस्थित और अवक्तव्यपदका तथा आयुर्कर्मके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक
 छयासठ सागर कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१२०. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ओघके
 समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर
 अन्तर्मुहूर्त है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुल कम एक पूर्वकोटि है । आयुर्कर्मके तीन पदोंका
 जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारो पदों का

उ० पुण्वकोडितिभागं देसू० । एवं संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार०-संजदासंज० । सुहुमसं० अवगदवेदभंगो । अवत्त० णत्थि अंतरं । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खु०-भवसि० ओषं ।

१२१. छल्लेस्साणं सत्तण्णं क० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि० ज ए०, उ० तेत्तीसं सत्तारस-सत्त-वे-अट्टारस-वत्तीसं सादि० । आउ० णिरयभंगो । णवरि सुकाए [सत्तण्णं क०] अवत्त० णत्थि अंतरं ।

१२२. खइग० सत्तण्णं क० भुज०-अप्प० ज० [उ०] ओषं । अवट्ठि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० दोण्णं पि तेत्तीसं सादि० । आउ० तिण्णं पि ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० दोण्णं पि वत्तीसं सादि० ।

१२३. वेदग० सत्तण्णं क० दो पदा ओषं । अवट्ठि० ज० ए०, उ०

उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है । इस प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें जानना चाहिए । सूक्ष्म-साम्परायसंयत जीवोंमें अपगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । मात्र इनमें अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । चक्षुदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञानका काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है, इसलिए उसमें सात कर्मोंके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण कहा है । इस ज्ञानमें आयुकर्मका उत्कृष्ट बन्धान्तर कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण है, इसलिए इसमें आयुकर्मके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट है ।

१२१. छह लेइयाओमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर, साधिक सात सागर, साधिक दो सागर, साधिक आठरह सागर और साधिक वत्तीस सागर है । आयुकर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि शुक्ललेइयामें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—शुक्ललेइयामें दो धार उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव नहीं, क्योंकि नीचे आने पर लेइया बढ़ जाती है, अतएव शुक्ललेइयामें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१२२. क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओषके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आयुकर्मके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर दोनों ही पदोंका साधिक वत्तीस सागर है ।

विशेषार्थ—क्षायिकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, इसलिये इसमें सात कर्मोंके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है ।

१२३. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके दो पदोंका भङ्ग ओषके समान है । अवस्थित

छावडिसा० दे० । आउ० आभिणि०भंगो । णवरि अवडि० णाणा०भंगो । उवसम० मणजोगिभंगो ।

१२४. सण्णी पंचिदियपञ्चभंगो । आहार० सत्तणं क० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवडि०-अवत्त० ज० ए० अंतो०, उ० अंगुल० असंखे० । आउ० ओघं । णवरि अवडि० सगडिदी भाणिदन्वा ।

एवं अंतरं समत्तं

णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो ।

१२५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणु० दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० भुज०-अप्प०-अवडि० णियमा अत्थि । सिया एदे य अवत्तगे य । सिया एदे य अवत्तगा य । आउ० भुज०-अप्प०-अवडि०-अवत्त० णियमा अत्थि । एवं

पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर है । आयुर्कर्मका भङ्ग आभिविबोधिक ज्ञानके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल छयासठ सागर है, परन्तु यहाँ अन्तर लाना है, इसलिए यहाँ सात कर्मोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर कहा है । आयुर्कर्मके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है यह कहनेका भी यही अभिप्राय है । उपशमसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इसमें मनोयोगके समान अन्तरकाल प्राप्त होनेसे वह उसके समान कहा है ।

१२४. संज्ञी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । आहारक जीवोंमें सात कर्मोंके सुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आयुर्कर्मका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—आहारक जीवकी उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ सात कर्मोंके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । आयुर्कर्मके अवस्थितपदका अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है इसके कहनेका भी यही तात्पर्य है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयाणुगम ।

१२५. नाना जीवोंका आत्मन्वन लेकर भङ्गविचयाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके सुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये नाना जीव हैं और अवक्तव्यपदवाला एक जीव है । कदाचित् ये नाना जीव हैं और अवक्तव्यपदवाले नाना जीव हैं । आयुर्कर्मके सुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदवाले जीव नियमसे हैं । इस प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी,

कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति । तिरिक्खोषं सन्नएहंदि-
पंचका०-ओरा०मि०-णुसं०-कोधादि०-मदि०-सुद०-असंज०-तिणिले०-मिच्छा०-
असण्णि० ओवभंगो । णवरि सत्तणं क० अवत्तव्वगे० णत्थि । लोभे मोह० ओषं ।

१२६. णिरएसु सत्तणं क० भुज०-अप्प० णियमा अत्थि । सिया एदे य
अवट्टदे य अवट्टिदा य । आउ० सच्चपदा भयणिज्जा । एवं सच्चणिरयाणं । एवं सच्चवेसिं
असंखेज्जरासीणं । णवरि सत्तणं क० अवत्त० अत्थि । तेसिं भुज०-अप्प० णियमा
अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । मणुस०-अपज्ज०-आहार०-अवगद०-सुहुमसं०-उवसम०-
सासण०-सम्मामि० सच्चपदा भयणिज्जा । वादरपुट०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवण०-
पत्ते०-पज्जत्ता णिरयभंगो । कम्मइ०-अणाहार० सत्तणं क० भुज० णियमा अत्थि ।
वेउच्चि०मि० सत्तणं० आहारमि० अट्टणं पि सिया भुजगारगे य सिया
भुजगारगा य ।

एवं भंगविचयं समत्तं

भागभागाणुगमो ।

१२७. भागाभागं^३ दुवि०-ओषे० आदे० । ओषे० सत्तणं क० भुज०वं०

भन्व और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । सामान्य तिरिच्छ, सब एकेन्द्रिय, पाँच स्थावरकाय,
औदारिकमिश्रकाययोगी, ननुसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत,
तीन लेश्यावाले, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग हैं । इतनी विशेषता है
कि इनमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदवाले जीव नहीं हैं । मात्र लोभकषायमें मोहनीय कर्मका भङ्ग
ओषके समान है ।

१२६. नारकियोंमें सात-कर्मोंके-भुजगार और अल्पतर पदवाले जीव नियमसे हैं ।
कदाचित् ये नाना जीव हैं और अवस्थितपदवाला एक जीव है । कदाचित् ये नाना जीव हैं
और अवस्थितपदवाले नाना जीव हैं । आयुकर्मके सब पद भजनीय हैं । इस प्रकार सब
नारकियोंमें जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार असंख्यात संख्यावाली राशियोंमें जानना चाहिए ।
मात्र इतनी विशेषता है कि जिनमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद है उनमें भुजगार और अल्पतर-
पदवाले जीव नियमसे हैं और शेष पद भजनीय हैं । मनुष्य अपर्याप्त आहारककाययोगी,
अपगतवेदी, सूक्ष्मसाप्परायसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि
जीवोंमें सब पद भजनीय हैं । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिकपर्याप्त, वादर
अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीरपर्याप्त जीवोंमें
नारकियोंके समान भङ्ग है । कर्मणकाययोगी और अनोहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार पद-
वाले जीव नियमसे हैं । वैक्रियिकुमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके और आहारकमिश्रकाययोगी
जीवोंमें आठो कर्मोंके भुजगारपदवाला कदाचित् एक जीव है और कदाचित् नाना जीव हैं ।

इस प्रकार भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

भागभागाणुगम

१२७. भागाभाग दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे सात कर्मोंके भुजगारपदके

१. ता० प्रती असंज० ति [अत्र क्रमांकरहित. ताडपत्रोऽस्ति] ... मिच्छा० इति पाठः । २. आ०
प्रती सासण० ... सम्मामि० इति पाठः । ३. ता० प्रती भुजगारगे सिया भुजगारुगा भागाभागं इति पाठः ।

केव० ? दुभागो सादिरेंगे । अप्प० दूभागो देख०^१ । अवट्टि० असंखेज्जदिभागो । अवत्त० अणंतभागो । एवं कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति । आउगं एवं चेव । अवत्त० असंखेज्जदिभागो । सेसाणं सन्वेसिं असंखेज्जरासीणं ओघं । णवरि केसिं च अवत्त० अत्थि केसिं च अवत्त० णत्थि । एसिं अवत्तञ्चमत्थि तेसिं अवत्तञ्चं अवट्टिदेण सह भाणिदच्चं । सेसाणं अणंतरासीणं ओघभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि । संखेज्जरासीणं पि भुज्ज०-अप्प० ओघभंगो । अवट्टि०-अवत्त० संखेज्जदिभागो । एवं अट्टुण्णं क० । एसिं सत्तण्णं क० अवत्त० णत्थि तेसिं पि एसेव भंगो । वेउच्चि०सि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० णत्थि भागाभागो ।

एवं भागाभागं समत्तं

परिमाणानुगमो

१२८. परिमाणानु० दुवि०^२-ओघे० ओदे० । ओघे० सत्तण्णं क० भुज्ज०-अप्प०-अवट्टि०-बंधगा केचित्ता ? अणंता । अवत्त० के० ? संखेज्जा । आउ० भुज्ज०-अप्प०-अवट्टि०-अवत्त०-बंध० के० ? अणंता । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति । तिरिक्खोघं एइं दिय-वणप्फदि-णियोद०-

बन्धक जीव कितने हैं ? साधिक द्वितीय भागप्रमाण हैं । अल्पतरपदके बन्धक जीव कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । आयुर्कर्मका भङ्ग इसी प्रकार है । मात्र यहाँपर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । शेष सब असंख्यात राशियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि किन्हींमें अवक्तव्यपद है और किन्हींमें नहीं है । जिनमें अवक्तव्यपद है उनमें अवक्तव्यपद अवस्थितपदके साथ कहना चाहिए । शेष अनन्तराशियोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपद नहीं है । संख्यात राशियोंमें भी भुज्जगार और अल्पतरपदका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थित और अवक्तव्यपदवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इस प्रकार आठों कर्मोंका जानना चाहिए । जिनके सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं है उनका भी यही भङ्ग है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अन्तहारकोंमें भागाभाग नहीं है ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

परिमाणानुगम

१२८. परिमाण दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके भुज्जगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । आयुर्कर्मके भुज्जगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । सामान्य तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय,

१. ता० प्रती दुभागो देसु० इति पाठः । २. ता० प्रती आहार [मित्त० कम्मइ० अणाहारं गति येदच्च] परिमाणं दुवि०, आ०प्रती आहारमि० कम्मइ० अणाहार० भंगो । एवं भागाभागं समत्तं । परिमाणानु० दुवि० इति पाठः ।

ओरालि० मि०-गजुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-तिणिले०-अभव०-मिच्छा०-
असण्णि० ओघभंगो । णवरि सत्तण्णं क० अवत्त० णत्थि । कम्मइ०-अणाहार०
सत्तण्णं क० अणंता ।

१२९. गिरएसु' सच्चपदा असंखेज्जा । एवं सच्चणिरयाणं सच्चपंचिदि०-
तिरि०-सच्चअपज्जत्तगाणं देवाणं याव सहस्सारं त्ति सच्चविगालिदिय-पंचका०-वेउच्चि०-
[वेउ०मि०] इत्थि०-पुरिस०-विमंग०-संजदासंजद०-तेउ०-पम्म०-वेदग०-सासण०-
सम्मा० ।

१३०. मणुसेसु सत्तण्णं क० भुज०-अप्प०-अवहि० असंखेज्जा । अवत्त०
संखेज्जा । आउ० सच्चपदा असंखेज्जा । एवं पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-
आमिणि०-सुद०-ओधि०-चक्खु०-ओधिदं०-सम्मादि०-उवसम०-सण्णि त्ति । मणुस-
पज्जत्त-मणुसिणोसु अट्टण्णं क० संखेज्जा । एवं सच्चद०-आहार०-आहारमि०-अवगद-
मणपज्ज०-संज०-सामाह०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० । आणद याव अवराइदा त्ति
सत्तण्णं भुज०-अप्प०-अवहि० केत्ति० ? असंखेज्जा । आउ० सच्चपदा संखेज्जा ।

वनस्पतिकायिक, निर्गोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अमव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगारपदके बन्धक जीव अनन्त हैं ।

१२९. नारकियोंमें सब पदवाले जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब अपर्याप्त, देव, सहस्रार कल्पतकके देव, सब विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावर-कायिक, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विमद्भ्रजानी, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यगिमथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

१३०. मनुष्योंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यात हैं और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । आयु कर्मके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, आमिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, उपशम-सम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनितियोंमें आठों कर्मोंके सब पदवाले जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारक-मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मन पर्ययज्ञानी, संयत, सामाधिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए । आनतसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आयु कर्मके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार भुक्लेश्या

१. ता० प्रती णत्थि ।... [कम्मइ० अणाहार० सत्तण्णं कम्मार्णं अणंता] । गिरएसु इति पाठः ।

२. आ० प्रती सच्चपदा आहार० इति पाठः । ३. ता० प्रती आली० (उ०) सच्चप० इति पाठः ।

एवं सुकले० खड्ग० । णवरि सत्तण्णं क० अवत्त० संखेज्जा ।

एवं परिमाणं समत्तं^१

खेत्ताणुगमो

१३१. खेत्ताणु० दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तण्णं क० भुज०-अप्य०-
अवट्ठि० केवड्ढि खेत्ते ? सव्वलोगे । अवत्त० लोग० असंखे० । आउ० सव्वपदा
सव्वलो० । एवं ओघमंगो कायजोगि-ओरालि०-लोभका० मोह० अचक्खु०-भवसि०-
आहारग ति । एवं चेव तिरिक्खोघं एइंदि०-सव्वसुहुम-पुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-
वणप्फदि-णियोद०-ओरालि०-मि०- णुंसं०- कोघादि०-मदि०-सुद०-असंज०-
तिणिले०-अभभवसि०-मिच्छा०-असण्णि ति । णवरि सत्तण्णं क० अवत्तव्वं णत्थि ।

और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

क्षेत्रानुगम

१३१, क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है। आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। इस प्रकार ओघके समान, काययोगी, औदारिक-काययोगी, लोभकषायवालोंमें मोहत्तीयका, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय, सब सूक्ष्म, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेइयावाले, अमव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं है।

विशेषार्थ—ओघसे सात कर्मोंके तीन पदवाले जीव सब लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए उनका सब लोक क्षेत्र कहा है। तथा इनके अवक्तव्यपदके वे ही स्वामी हैं जो उपशमश्रेणिसे उतरे हैं या वहाँ मरकर देव हुए हैं। अतः ऐसे जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, अतः सात कर्मोंके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। आयुकर्मके सब पद एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए ओघसे आयुकर्मके सब पद-वालोंका क्षेत्र सर्वलोकप्रमाण कहा है। यहाँ काययोगी आदि जो मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है इसलिए उनमें ओघके समान जानने की सूचना की है। सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी ओघके समान जानने की सूचना की है। कारण स्पष्ट है। मात्र उनमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं होता, क्योंकि उनमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव नहीं, इसलिए सात कर्मोंके अवक्तव्यपदको छोड़कर उनमें ओघके समान क्षेत्र जानना चाहिए।

१. ता० प्रती एव परिमाणं समत्तं इति पाठो नास्ति ।

१३२. वादरएइदि०-पञ्चत्तापञ्ज०-वादरवाउअपञ्ज० सत्तण्णं क० भुज०-
अप्प०-अवहि० सन्वलो० । आउ० चत्तारिप० लो० संखे० । वादरपुढ०-आउ०-तेउ०-
वादरवण०पत्ते० तेसिं चैव अपञ्ज० वादरवण०-वादरणियोद० पञ्चत्तापञ्ज० सत्तण्णं
क० तिण्णि प० सन्वलो० । आउ० चत्तारिप० लोम० असंखे० । पंचण्णं वादर-
पञ्चत्तापं पंचि०तिरि०अप०भंगो० । सेसाणं संखेज्जासंखेज्जरासीणं लोम० असं० ।
कम्मइ०-अणाहार० भुज० सन्वलो० । वादरवाउ०पञ्चत्त० सत्तण्णं क० तिण्णि पदा
आउ० चत्तारिप० लो० संखेज्ज० ।

एवं खेतं समत्तं

१३२. वादर एकेन्द्रियं और उनके पर्याप्त व अपर्याप्त और वादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका सब लोकप्रमाण क्षेत्र है। आयुकर्मके चारों पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है। वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर अग्निकायिक, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और उनके अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक और वादर निगोद तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोकप्रमाण है। आयुकर्मके चारों पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। पाँचों वादर पर्याप्तकोंका भङ्ग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। शेष संख्यात और असंख्यात राशियोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें भुजगार पदके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। वादर वायुकायिक पर्याप्तक जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदों और आयुकर्मके चार पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवे भागप्रमाण है।

विशेषार्थ—वादर एकेन्द्रिय आदिका मारणान्तिक समुद्घातके समय सब लोक क्षेत्र है।

इस समय सात कर्मोंके भुजगार आदि तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनमें सात कर्मोंके उक्त पदोंका सब लोकप्रमाण क्षेत्र कहा है। पर आयुकर्मके बन्धक समय मारणान्तिक समुद्घात और उपपादपद सम्भव नहीं, इसलिए आयुकर्मके सब पदोंकी अपेक्षा इनसे लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहा है। वादर पृथिवीकायिक आदि जीवोंका भी मारणान्तिक समुद्घातके समय सब लोकप्रमाण क्षेत्र सम्भव है, इसलिए इनमें भी सात कर्मोंके तीन पदोंकी अपेक्षा उक्त क्षेत्र कहा है पर इनका स्वस्थान क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसलिए इनमें आयुकर्मके सब पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहा है। पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। पाँचों वादर पर्याप्तकोंका भी इतना ही क्षेत्र है, इसलिए इनका भङ्ग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है। शेष संख्यात और असंख्यात संख्यावाली राशियोंका भी लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है, इसलिए उनमें भी सब कर्मोंके यथासम्भव पदोंकी अपेक्षा यही क्षेत्र कहा है। मात्र वादर वायुकायिक पर्याप्तक जीव इसके अपवाद हैं। कारण कि उनका क्षेत्र लोकके संख्यातवे भागप्रमाण है, इसलिए उनमें आठों कर्मोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा उक्तप्रमाण क्षेत्र कहा है। कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंका सब लोकप्रमाण

१. ता० प्रती वादरवाउ ० ० ० ० सत्तण्णं, आ० प्रती वादरवण्णं सत्तण्णं इति पाठः । २. ता० प्रती एवं खेतं समत्तं इति पाठो नास्ति ।

फोसणाणुगमो

१३३. फोसणाणु० दुधि०—ओषे० आदे० । ओषे अट्टण्णं क० सव्वप० खेत्तभंगो । [एवं] तिरिक्खोषं एइंदि०-पंचका०-कायजोगि०-ओरालि०-ओरालि० मि०-कम्मइ०-णवुंसं०-क्रोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसिं०-अभवसिं०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारगत्ति ।

१३४. षोरइणुसु सत्तण्णं क० भुज्ज०-अप्प०-अवट्ठि० छच्चोद० । आउ० खेत्तभंगो । एवं अप्पणो फोसणं षोदव्वं । सव्वपंचि० तिरि० सत्तण्णं क० भुज्ज०-अप्प०-अवट्ठि० लो० असंखे० सव्वलो० । आउ० खेत्तभंगो । एवं मणुस-सव्व-अपज्जत्ताणं तसाणं सव्वविगल्लिदियाणं वादर-पुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-पज्जत्ता० वादरपत्ते०-पज्जत्ताणं च । मणुसेसु अट्टण्णं क० अवत्त० खेत्त० । वादरवाउ०-पज्जत्त०

क्षेत्र होनेसे इनमें यहाँ सम्भव सात कर्मोंके भुजगर पदकी अपेक्षा सब लोकप्रमाण क्षेत्र कहा है ।

स्पर्शानुगम

१३३. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे आठो कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय, पंचो स्थावरकाय, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यहानी श्र ताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओषसे सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके सिवा आठों कर्मोंके सब पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र सब लोकप्रमाण तथा सात कर्मोंके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण बतला आये हैं वही यहाँ स्पर्शन भी प्राप्त होता है, अतः इसे क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । यहाँ सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मार्गाणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए ऐसा कहनेका अभिप्राय यह है कि इनका स्पर्शन भी क्षेत्रके समान जानना चाहिए ।

१३४. नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगर, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मका भंग क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार सर्वत्र अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए । सब पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके भुजगर अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार मनुष्य, सत्र अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, वादर-पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अधिकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और वादर प्रत्येकवनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए । मात्र मनुष्योंमें आठो कर्मोंके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा वादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंके

सत्तर्णं क० तिण्णि प० लोग० संखे० सन्वल्लो० ।

१३५. देवाणं सत्तर्णं क० तिण्णि प० अट्ट-णव० । आउ० चत्तारिप० अट्टचो० । एवं सन्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेद्व्वं । पंचि०-त्स०२ सत्तर्णं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अट्टचो० सन्वल्लो० । अवत्त० खेत्तभंगो । आउ० चत्तारिप० अट्टचो० । एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग-चक्खु०-सण्णि ति । वेउ० सत्तर्णं क० तिण्णिप० अट्ट-तेरह० । आउ० सन्वप० अट्टचो० ।

१३६. वेउन्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवग०-मणपज्ज० याव सुहुमसंप० खेत्तभंगो । आभिणि०-सुद-ओधि० सत्तर्णं क० तिण्णिप० अट्टचो० । अवत्त० खेत्तभंगो ।

बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ जितनी मार्गणाओमें स्पर्शन कहा है उनमें यही बात जाननी चाहिए कि उन मार्गणाओका जो समुद्घातकी अपेक्षा स्पर्शन है वह सात कर्मोंके पदोंकी अपेक्षा जानना चाहिए और जो स्वस्थान स्पर्शन है वह आयुर्कर्मकी अपेक्षा जानना चाहिए । स्पर्शनका उल्लेख मूलमें किया ही है ।

१३५. देवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और कुछ कम नौ बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुर्कर्मके चारों पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब देवोंमें अपना-अपना स्पर्शन जानना चाहिए । पञ्चैन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगर, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदका भङ्ग क्षेत्रके समान है । आयुर्कर्मके चारों पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी, चक्षुदर्शनी और संक्षी जीवोंमें जानना चाहिए । वैक्रियिकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछकम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ सात कर्मोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन उन-उन मार्गणाओका जो स्पर्शन है उतना है और आयुर्कर्मका बन्ध विहारवत्स्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके सब पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । आगे भी सब मार्गणाओमें विचार कर इसी प्रकार स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । यदि कहीं कोई विशेषता होगी तो मात्र उसका स्पष्टीकरण करेंगे ।

१३६. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी और मनःपर्यवहानीसे लेकर सूक्ष्मसाम्पराय संयत तक स्पर्शन क्षेत्रके समान है । आभिनि-बोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम

आउ० सन्वप० अट्टचो० । [एवं] ओधिदं०-सम्मा०-खइग०-वेदग०-सम्माभि० ।
संजदासंज० सत्तण्णं क० तिण्णिप० छच्चो० । आउ० खेत्तमंगो । तेउ० देवोधं ।
पम्माए सहस्सारमंगो । सुक्काए आणदमंगो । णवरि सत्तण्णं क० अवत्त० खेत्तमं० ।
सासणे सत्तण्णं क० तिण्णिप० अट्ट-वारह० । आउ० सन्वप० अट्टचो० ।

एवं फोसणं समत्तं^१

कालाणुगमो

१३७. कालाणुगमेण दुवि०-ओवे० आदे० । ओवे० [सत्तण्णं क० भुज० अप्प०
अवट्ठि० सन्वद्धा । अवत्त० ज० ए०, उ० संखेजसम० । आउ० सन्वपदा०
सन्वद्धा । एवं कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु०-भवत्ति०-आहारग ति । एवं चेव
तिरिक्खोधं एइदि०-पंचकाय०-ओरालियमि०-णउंस०-कोधादि०-मदि-सुद०-असंज०-
तिण्णिले०-अभव०-मिच्छा०-असण्णि-अणाहारग ति । णवरि सत्तण्णं क० अवत्त० णत्थि ।
लोमे मोह० अवत्त० अत्थि ।

आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक-
सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिये । संयतासंयत जीवोंमें
सात कर्मोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । आयुकर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है । पीतलेइयावाले जीवोंमें सामान्य देवोंके
समान भङ्ग है । पद्मलेइयावाले जीवोंमें सहस्रार कल्पके समान भङ्ग है । शुद्धलेइयावाले
जीवोंमें आनतकल्पके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि शुद्धलेइयामें सात कर्मोंके
अवक्तव्य पदका भङ्ग क्षेत्रके समान है । सासादनसम्यक्त्वमे सात कर्मोंके तीन पदोंके
बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और कुछ कम वारह वटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके
कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

१३७. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आवेश । ओघसे सात
कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका काल सर्वदा है । अवक्तव्यपदका जघन्य काल
एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । आयुके सब पदोंका काल सर्वदा है । इस प्रकार
ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें
जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय, पंच स्थावरकायिक, औदारिक-
मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असयत, तीन
लेइयावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी
विशेषता है कि सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं है । मात्र लोभकषायमें मोहनीयका
अवक्तव्यपद है ।

विशेषार्थ—ओघसे सात कर्मोंके भुजगार आदि तीन पद यथासम्भव एकेन्द्रिय आदि
सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इनका काल सर्वदा कहा है और इनका अवक्तव्यपद उपशम-

१. वा०प्रती एवं फोसणं समत्तं इति पाठो नास्ति ।

१३८. आदेशेण णेरहएसु] सत्तण्णं क० भुज०-अप्प० सव्वद्धा । अवट्ठि० ज० ए०, उ० आवलि० असं० । आउ० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० पल्लिदो० असं० । अवट्ठि०-अवत्त० ज० ए०, उ० आवलि० असं० । एवं सव्वअसंखेज्जरासीणं । संखेज्जरासीणं पि तं चैव । णवरि सत्तण्णं क० अवट्ठि०-अवत्त० ज० ए०, उ० संखेज्जसम० । आउ० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि०-अवत्त० ज० ए०, उ० संखेज्जसम० ।

श्रेणिसे उतरते समय सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। आयुक्रमके सब पद एकेन्द्रिय आदि सब जीवोके सम्भव होनेसे उनका भी काल सर्वदा कहा है। यहाँ काययोगी आदिमें ओषप्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनका कथन ओषके समान जानने की सूचना की है। सामान्य तिर्यञ्च आदिमें अन्य सब प्ररूपणा तो ओषके समान बन जाती है। मात्र इनमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं होता। मात्र लोभकपाय मोहनीय कर्मकी अपेक्षा इसका अपवाद है।

१३८. आदेशसे नारकियोंमें सात कम के भुजगार और अल्पतरपदका काल सर्वदा है। अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। आयुक्रमके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार सब असंख्यात राशियोंमें जानना चाहिए। संख्यात राशियोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। केवल इतनी विशेषता है कि सात कर्मके अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। आयुक्रमके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है।

विशेषार्थ—नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका एक जीवकी अपेक्षा यद्यपि जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है फिर भी नाना जीवोंकी अपेक्षा ये पद सदा काल नियमसे पाये जाते हैं, इसलिए इनका काल सर्वदा कहा है। इनमें अवस्थितपदका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चालू उपदेराके अनुसार ग्यारह समय कहा है। यदि नाना जीवोंकी अपेक्षा इस कालका विचार करते हैं तो वह कम से कम एक समय और अधिक से अधिक आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ सात कर्मोंके अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल आवलि के असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। आयुक्रमके भुजगार और अल्पतरपदका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। किन्तु आयुक्रमका सदा बन्ध नहीं होता, इसलिए नाना जीवोंकी अपेक्षा इस कालका विचार करनेपर वह जघन्यरूपसे एक समय और उत्कृष्ट रूपसे पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि नाना जीव कमसे कम एक समयके लिए इन पदोंके धारक हो और दूसरे समयमें, अन्य पदवाले हो जावे यह भी सम्भव है और निरन्तर क्रमसे नाना जीव यदि अन्तर्मुहूर्त अन्तर्मुहूर्त कालतक इन पदोंके साथ आयुबन्ध करे तो उस सब कालका जोड़ पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है, इसलिए यहाँ आयुक्रमके उक्त पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यहाँ आयुक्रमके अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और

१. ता० प्रती सव्वद्धा । ठि (अवट्ठि) ज० ए०, आ० प्रती सव्वद्धा । अवट्ठि० अवत्त० ज० ए० इति पाठः ।

१३९. बादरपुढे०-आउ०-तेउ०-वाउ०-पत्ते०-पञ्ज० पंचिं० [तिरि०अप०भंगो । वेउन्वियमिं सत्तणं कं भुजं] ज० अंतो^१, उ० पलिं असं० । आहार० अहणं भुजं-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठिं आउ० अवत्तं ज० ए०^२, उ० संखे० । आहारमिं सत्तणं कं भुजं ज० उ० अंतो०^३ । आउ० दोपदा० आहारकायजोगिर्भंगो ।

एवं कालं समत्तं^४

उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि नाना जीव संख्यात संख्यात समय तक अन्तरके बिना यदि उक्त पदको प्राप्त होते हैं तो वह सब काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है। असंख्यात संख्यावाली अन्य मार्गणाओंमें यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र जिन मार्गणाओंमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद है उनमें इसका काल ओषके समान कहना चाहिए। कारण स्पष्ट है। संख्यात संख्यावाली मार्गणाओंमें भी यह काल इसी प्रकार कहना चाहिए। जो विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया ही है।

१३९. बादर पृथिवीकायिकपर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिकपर्याप्त, बादर वायुकायिकपर्याप्त और बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिकपर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च-अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगारपदका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। आहारककाययोगी जीवोंमें आठ कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदका और आयुक्रमके अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। आयुक्रमके दो पदोंका भङ्ग आहारककाययोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें आठों कर्मोंके सम्भव पदोंका जो काल प्राप्त होता है वही बादर पृथिवीकायिकपर्याप्त आदि जीवोंमें बन जाता है, इसलिए यह काल पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान कहा है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगारपदका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कह आये हैं। नाना जीव यदि एक साथ इस मार्गणाको प्राप्त हों और फिर न प्राप्त हों तो नाना जीवोंकी अपेक्षा भी इस मार्गणामें-उक्त पदका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है। तथा लगातार अन्तर्मुहूर्त अन्तर्मुहूर्तके भीतर निरन्तर रूपसे यदि नाना जीव वैक्रियिकमिश्रकाययोगी होते रहें तो उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ इस पदका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। आहारककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इस योगमें आठों कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। आठों कर्मोंके अवस्थितपदका और आयुक्रमके अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय इसलिए कहा है, क्योंकि इस योगके धारक जीव संख्यात होते हैं और वे लगातार संख्यात समय तक ही होते हैं। आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार-

१. ता०जा०प्रत्योः पंचिं० 'ज० अंतो० इति पाठः। २. ता०प्रतौ अवत्तं (?) ज० ए० इति पाठः। ३. आ०प्रतौ ज० ए०, उ० अंतो० इति पाठः। ४. ता०प्रतौ एवं कालं समत्तं इति पाठो नास्ति।

अंतराणुगमो

१४०. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सत्तण्णं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० णत्थि अंतरं । अवत्त० ज० ए०, उ० वासपुध० । आउ० चत्तारिपदा णत्थि अंतरं । एवं ओघमंगो कायजोगि^१-ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति णेदव्वं । एवं चेव तिरिक्खोघं एहं^२दिय०-पंचका०-ओरालि०-मि०-णलुंस०-कोधादि०-मदि०-सुद०-असंज०-तिणिले०-अव्वमव-मिच्छा०-असण्णि^३०-अणाहारग ति । णवरि सत्तण्णं क० अवत्त० णत्थि अंतरं । लोभे मोह० अवत्त० अत्थि ।

१४१. णिरएसु सत्तण्णं क० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० ज० ए०, उ० सेटीए असं० । आउ० भुज०-अप्प०-अवत्त० पगदिअंतरं । अवट्ठि० ज० ए०,

पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कह आये हैं । अब यदि नाना जीव भी निरन्तर इस योगको प्राप्त हो तो उन सबके कालका योग भी अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं होगा, इसलिए इस योगमें सात कर्मोंके भुजगारपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । आहारक-मिश्रकाययोगमें आयुकर्मके भुजगार और अवक्तव्य ये दो पद होते हैं । इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल यहाँ आहारककाययोगी जीवोंके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तराणुगम

१४०. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आवेश । ओघसे सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षष्टकत्वप्रमाण है । आयुकर्मके चारो पदोका अन्तरकाल नहीं है । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भन्य और आहारक जीवोमे जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, एकैन्द्रिय, पाँच स्थावरकायिक, औदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेख्यावाले, अमन्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है तथा लोभकषायमे मोहनीयकर्मका अवक्तव्यपद है ।

विशेषार्थ—पहले ओघसे और ओघके अनुसार उक्त मार्गणाओंमे कालका स्पष्टीकरण कर आये हैं । यहाँ अन्तरका स्पष्टीकरण उसे ध्यानमे रखकर कर लेना चाहिए । उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षष्टकत्वप्रमाण होनेसे यहाँ सात कर्मोंके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षष्टकत्वप्रमाण कहा है, इतना यहाँ विशेष स्पष्टीकरण समझ लेना चाहिए ।

१४१. नारकियोमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । आयुकर्मके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका अन्तर काल प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके

१. ता० प्रती अंत०.....[एवं ओघमंगो] कायजोगि इति पाठः । २. ता० प्रती अव्वमव० असण्णि इति पाठः ।

उ० सेढीए असं० । एवं असंखेजरासीणं संखेजरासीणं । वादरपुढ०^१ओउ०-तेउ०-
वाउ०-पत्तेय०पञ्जत्त० पंचि०तिरि०अप०भंगो । वेउन्वि०सि० सत्तणं क० भुज०
ज० ए०, उ० वारसमुहु० । एदेण सेसाणं पगदिअंतरं णेदच्चं याव सण्णि चि ।

एवं अंतरं समत्तं ।

भावाणुगमो

१४२. भावाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० अट्टणं० भुज०-अप्य०-
अवाट्ठि०-अवत्त०बंधगा चि को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग चि
णेदच्चं ।

असंख्यातवे भागप्रमाण है ! इसी प्रकार असंख्यात राशि और संख्यात राशियोंमें जानना चाहिये । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है वैक्रियकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । इस अन्तर कथनसे शेष मार्गणाओंमें संज्ञी मार्गणा तक प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान अन्तरकाल जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें सात कर्मोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है किन्हींके भुजगार-रूप और किन्हींके अल्पतररूप होता है, इसलिये यहाँ सात कर्मोंके इन पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है । अब रहा यहाँ इन कर्मोंका अवस्थितपद सो वह निरन्तर नहीं होता । कभी एक समयके अन्तरसे भी हो जाता है और कभी योगस्थानोंके क्रमसे जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे होता है, इसलिये इसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । आयुर्कर्मके अवस्थितपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र इसके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर जैसा प्रकृतिबन्धमें अन्तर कहा है उस प्रकार घटित कर लेना चाहिये, क्योंकि जब आयुर्कर्मका बन्ध होता है तभी ये पद होते हैं यहाँ अन्य जितनी असंख्यात और संख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ हैं उनमें उक्त विशेषताओं के साथ अन्तरपरूबणा जाननी चाहिये । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त आदिमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग वन जानेसे इसकी अन्तरपरूबणा उनके समान जाननेकी सूचना की है । वैक्रियकमिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है, इसलिये इसमें सात कर्मोंके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त कहा है । इसी प्रकार अपनी-अपनी विशेषताको जानकर अन्तरकाल अन्य सब मार्गणाओंमें जानना चाहिये ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

भावानुगम

१४२. भावानुगमका अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठों कर्मोंके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कौन-सा भाव है ? औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

१. आ० प्रती असंखेजरासीणं । वादरपुढ० इति पाठः । २. ता०प्रती एवं अंतरं समत्तं इति पाठो नास्ति, आ०प्रती एवं अंतरं णेदच्चं इति पाठः ।

अप्पावहुआणुगमो

१४३. अप्पावहुगं दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० अणत्तु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । एवं कायजोगि-ओरालि०-लोभक० मोह० अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति । एदेसिं आउ० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० ।

१४४. णिरएसु सत्तणं क० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । आउ० ओघं । एवं सव्वणिरय-सव्वतिरिक्ख०-सव्वअपज्ज०-देवा याव' सहस्सार ति एइंदि०-विगल्लिदि०-पंचका०-ओरालि० मि०-वेउन्वि०-इत्थि०-पुरिस०-णल्लुस०-कोधादि०-४-मदि०-सुद०-विभंग०-संजजदासंजद०-असंजद०-[पंचले०-अब्भवसि०-] वेदग^१०-सासण०-सम्मामि०-मिच्छा०-असणि ति ।

१४५. मणुसेसु सत्तणं क० सव्वत्थो० अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु०^२ । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । आउ० ओघं । एवं पंचि०-नस०-२-पंचमण०-पंचवचि०-

अल्पवहुत्वानुगम

१४३. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके अवक्तव्य-पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तरगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, मोहनीयकर्मकी अपेक्षा लोभकषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोमे जानना चाहिए । इनमे आयुकर्मके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ।

१४४. नारकियोमे सात कर्मोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आयुकर्मका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब अपर्याप्त, सामान्य देव, सहस्रार कल्पतकके देव, एकैन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावरकायिक, औदारिक-मिश्रकाययोगी, वैकियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मर्याज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, संयतासंयत, असंयत, पाँच लेश्यावाले, अभव्य, वेदक-सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिये ।

१४५. मनुष्योंमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आयुकर्मका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार पञ्चैन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, आभिनवोधिकज्ञानी, श्रुत-

१. आ०प्रतौ अप्पज्ज० सव्वदेवा याव इति पाठः । २. ता०प्रतौ असंज०...[सहस्र०] वेदग० आ० प्रतौ असंजद० वेदग० इति पाठः । ३. ता०प्रतौ सव्वत्थो० [अवत्त०] अवट्ठि० असं०गु०, आ०प्रतौ सव्वत्थो० अवट्ठि०, अवत्त० असं० गु० इति पाठः ।

आभिणि-सुद-ओधिणा०-चक्खु०-ओधिदं०-[सुक०]-सम्मा०-[खइग०] उवसम०-सण्णि ति । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । णवरि संखेज्जं कादव्वं । एवं सव्वदेवाणं संखेज्जरासीणं । अवगद० सव्वत्थो० अवत्त० । अवट्ठि० संखे०गु० । अप्प० संखे०गु० । भुज० विसे० । एवं सुहुमसं० । अवत्त० णत्थि । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं ।

एवं भुजगारवंधो समत्तो

पदणिक्खेवे समुक्कित्तणा

१४६. एत्तो पदणिक्खेवे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि-समुक्कित्तणा सामिच्चं अप्पावहुणे ति । समुक्कित्तणा दुवि०-ज० उ० । उ० प० । दुवि०-ओघे०^१ आदे० । ओघे० अट्ठण्णं क० अत्थि उक्कस्सिया वड्ढी उक्कस्सिया हाणी उक्कस्सय-मवट्ठणं । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं । णवरि वेउ०मि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारग ति^२ अत्थि उ० वड्ढी ।

१४७. जह० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० अट्ठण्णं क० अत्थि जह० वड्ढी० जह० हाणी जह० अवट्ठणं । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं । णवरि वेउ०मि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारग० अत्थि जह० वड्ढी ।

जानी, अवधिहानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्लछेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सही जीवोंमें जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ संख्यात करना चाहिए। इसी प्रकार शेष सब देव और संख्यात राशियोंमें जानना चाहिए। अपगतवेदी जीवोंमें अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए।

इस प्रकार भुजगारबन्ध समाप्त हुआ ।

पदनिक्षेप समुत्कीर्तना

१४६. आगे पदनिक्षेपका प्रकरण है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पत्रहुत्व। समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वैक्रियकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें उत्कृष्ट वृद्धि है।

१४७. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे आठों कर्मोंको जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वैक्रियकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जघन्य वृद्धि है।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

१. आ०प्रती समुक्कित्तणा दुवि० ओघे० इति पाठः । २. ता०प्रती आहारमि० [कम्मइ०] आहारग ति, आ०प्रती आहारमि० कम्मइ० आहारग ति इति पाठः ।

१४८. सामित्ताणुगमेण दुवि०—ज० उ० । उ० पग० । दुवि०—ओधे० आदे० । ओधे० [छ० क०] उक्कस्सिया वड्डी कस्स ? यो सत्तविधबंधगो तप्पाओग्गजहण्णादो जोगट्टाणादो उक्कस्सयं जोगट्टाणं गदो [छन्विध-] बंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? यो छन्विधबंधगो उक्कस्सजोगी मदो देवो जादो तदो तप्पाओग्ग-जहण्णए जोगट्टाणे पडिदो तस्स उ० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स ? यो छन्विध-बंध० उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए जोगट्टाणे पडिदो तदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उ० अवट्टाणं । उक्कस्सगादो जोगट्टाणादो पडिभग्गो यम्हि तप्पाओग्ग-जहण्णए जोगट्टाणे पडिदो तदो जोगट्टाणं थोवरं । तप्पाओग्गजहण्णगादो जोग-ट्टाणादो उक्कस्सयं जोगट्टाणं गच्छदि तं जोगट्टाणं असं०गु० । एदमुक्कस्सयं^१ मवट्टाण-साधणपदं ।

१४९. मोह० उक्क० वड्डी कस्स ? यो अट्टविधबंधगो तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगट्टाणादो उक्कस्सयं जोगट्टाणं गदो तदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? यो सत्तविधबंधगो उक्कस्सजोगी मदो सुहुमणिगोदजीव-अपज्जत्तए^२ उववण्णो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उ० हाणी । उक्क० अवट्टाणं

१४८. स्वामित्वाणुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे छः कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर छ प्रकारके कर्मोंका बन्धक हुआ है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है ? जो छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगवाला जीव मरकर देव हुआ । अनन्तर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा । अनन्तर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उत्कृष्ट योगस्थानसे प्रतिभग्न होकर जिस तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा । उससे वह योगस्थान स्तोकर है । तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको जाता है वह योगस्थान असंख्यातरुणा है । यह उत्कृष्ट अवस्थानका साधनपद है ।

१४९. मोहनीयकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जीव मरकर तथा सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करता हुआ जो उत्कृष्ट योग-

१. ता०प्रती उक्कस्सयं [जोगट्टाणं बंधगो जादो तस्स उक्कस्सिया वड्डी] । उ० हा० कस्स इति पाठः । २. ता०प्रती जोगट्टाणं.....[थोवरं] तप्पाओग्ग—इति पाठः । ३. आ०प्रती एवमुक्कस्सयं इति पाठः । ४. ता०प्रती सुहुमणिगोदजीवए^२, इति पाठः ।

कस्स ? जो सत्तविधबंधगो उक्कस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए जोगट्ठाणे पदिदो अट्ठविधबंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्ठाणं ।

१५०. आउ० उक्क० वड्डी' कस्स ? यो अट्ठविधबंधगो तप्पा०जहण्णगादो जोगट्ठाणादो उक्कस्सजोगट्ठाणं गदो तस्स उ० वड्डी । उ० हाणी कस्स ? जो उक्क०-जोगी पडिभग्गो तप्पा०जहण्णए जोगट्ठाणे पदिदो तस्स उ० हाणी । तस्सेव से काले उ० अवट्ठाणं । एवं ओधभंगो कायजोगि-लोभक०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

१५१. गिरएसु सत्तण्णं क० उ० वड्डी कस्स ? यो अट्ठविधबंधगो तप्पाओग्ग-जहण्णगादो जोगट्ठाणादो उ० जोगट्ठाणं गदो तदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उ० हाणी कस्स ? यो सत्तविधबंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए जोगट्ठाणे पदिदो अट्ठविधबंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । आउ० ओधं । एवं सच्चरिय-सच्चदेव-वेउत्वि०-आहार०-विभंग०-परिहार०-संजदासंज०-सम्मामि० ।

१५२. तिरिक्खेसु सत्तण्णं० उ० वड्डी कस्स ? यो अट्ठविधबंधगो तप्पा०जह०-जोगट्ठाणादो उ० जोगट्ठाणं गदो तदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उ० वड्डी । उ०

वाला जीव प्रतिभन होकर तथा तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला हो गया वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

१५०. आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट योगवाला जीव प्रतिभन होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इस प्रकार ओषके समान काययोगी, लोभकषायी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

१५१. नारकियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करता हुआ उत्कृष्ट योगवाला जीव प्रतिभन होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । आयुर्कर्मका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार सब नारकी, सब देव, वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी, विभङ्गहानी, परिहारविशुद्धिसचत, संयतासंयत और सन्न्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

१५२. तिरिच्छोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी

हाणी कंसस ? यो सत्तविधबंधगो उक्कस्सजोगी' मदो सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तएस्सु उववण्णो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स ? यो सत्तविधबंधगो उक्कस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए जोगट्ठाणो पदिदो तदो अट्ठविधबंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्ठाणं । [आउ० ओघं] । एवं तिरिक्खोघं णत्तुंस०-कोधादि०२-मदि०-सुद०-असंज०-तिण्णिले०-अब्भव०-मिच्छा०-असण्णि त्ति । पंचिदि०तिरि०३ सत्तणं क० वड्ढि-अवट्ठाणं तिरिक्खोघं । हाणी कस्स ? यो अण्ण० सत्तविधबंधगो.....।

अप्पावहुगं

१५३.....संभवेण' ओरा०मि० सत्तणं क० ओघं । णवरि असंखेज्जगुणहाणी उवरि असंखेज्जगुणवड्ढी असंखेज्जगु० । आउ० ओघं । अवगद० सत्तणं क० सच्चत्थो० अवट्ठि० । अवत्त० संखेज्जगु० । असंखेज्जभागवड्ढि-हाणी दो वि तु० संखेज्जगु० । संखेज्जभागवड्ढि-हाणी दो वि तु० संखेज्जगु० । संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी दो वि तु० संखेज्जगु० । असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु० । असंखेज्जगुणवड्ढी विसेसा० । एवं एदेण शीजेण

है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है? जो सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करता हुआ उत्कृष्ट योगवाला जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवोंमें उत्पन्न हुआ वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है? जो सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगवाला जीव प्रतिभग्न होकर और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। आयु-कर्मका भङ्ग ओषके समान है। इस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान नपुंसकवेदी, क्रोधादि तीन कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेइयावाले, अभग्न्य, मिथ्यादृष्टि और असंखी जीवोंमें जानना चाहिए। पञ्चन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें सात कर्मोंकी वृद्धि और अवस्थानका स्वामी सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो अन्यतर जीव प्रतिभग्न होकर और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है.....।

अल्पबहुत्व

१५३.....सम्भव होनेसे औद्धारिकमिश्रकाययोगियोमें सात कर्मोंका भंग ओषके समान है। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानिके ऊपर असंख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणी है। आयुकर्मका भङ्ग ओषके समान है। अवगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके अवस्थित पदवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवक्तव्यपदवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिवाले जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिवाले जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव विशेष

१. ता०प्रती-बंधगो [अत्र तादृपत्रमेकं विवद्व्य.....] संभवेण, आ० प्रती बंधगो ' संभवेण इति पाठः ।

याव अणाहारग ति णेदव्वं । एवं अप्पावहुवं समत्तं ।

एवं वड्ढिवंधो समत्तो

अज्ञवसाणसमुदाहारो पमाणाणुगमो

१५४. अज्ञवसाणसमुदाहारे ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि—पमाणाणु-
गमो अप्पावहुगे ति । पमाणाणुगमेण णाणावरणीयस्स असंखेज्जाणि पदेसवंधट्ठाणाणि
जोगट्ठाणोहिंतो संखेज्जदिमाणुत्तराणि । अट्ठविधबंधगेण ताव सन्वाणि जोगट्ठाणाणि
लट्ठाणि । तदो सत्तविधबंधगस्स उक्कस्सगादो अट्ठविधबंधगस्स उक्कस्सगं सुद्धं । सुद्ध-
सेसं यावदियो भागो अधिट्ठित्तो^१ जोगट्ठाणं तदो सत्तविधबंधगेण विसेसो लट्ठो । एवं
सत्तविधबंधगस्स छत्तिबंधगेण उच्चणिदा । एदेण कारणेण णाणावरणीयस्स असंखे-
ज्जाणि पदेसबंधट्ठाणाणि जोगट्ठाणोहिंतो संखेज्जदिमाणुत्तराणि । एवं सत्तणं कम्मणं ।

एवं पमाणाणुगमे ति समत्तं ।

अप्पावहुआणुगमो

१५५. अप्पावहुवं०—सञ्चत्थो० णाणावरणीयस्स जोगट्ठाणाणि । पदेसबंधट्ठाणाणि
विसेसाधियाणि । एवं सत्तणं कम्मणं । आउगस्स जोगट्ठाणाणि पदेसबंधट्ठाणाणि
सरिसाणि । एदेण कारणेण आउगस्स अप्पावहुवं णत्थि ।

एवं अप्पावहुवं समत्तं ।

अधिक हैं । इसप्रकार इस वीज पदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक अल्पबहुत्व ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

अध्यवसानसमुदाहार प्रमाणानुगम

१५४. अध्यवसानसमुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये दो अनुयोगद्वार होते हैं—
प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व । प्रमाणानुगमकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्मके असंख्यात प्रदेशबन्ध-
स्थान हैं जो योगस्थानोंसे संख्यातवें भागप्रमाण अधिक हैं । आठ प्रकारके कर्मोंके बन्धक
जीवने सब योगस्थान प्राप्त किये हैं । उससे सात प्रकारके बन्धकके उच्छ्रष्टसे आठ प्रकारके
बन्धकका उच्छ्रष्ट शुद्ध है । तथा इस शुद्धसे शेष जितना भाग योगस्थानको प्राप्त हुआ है उससे
सात प्रकारके कर्मोंके बन्धकने विशेष प्राप्त किया है । इसी प्रकार सात प्रकारके बन्धकका छह
प्रकारके कर्मोंके बन्धकने प्राप्त किया है । इस कारणसे ज्ञानावरणीय कर्मके असंख्यात प्रदेशबन्ध-
स्थान हैं जो योगस्थानोंसे संख्यातवें भागप्रमाण अधिक हैं । इसी प्रकार सात कर्मोंके विषयमें
जानना चाहिए ।

इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ ।

अल्पबहुत्वानुगम

१५५. अल्पबहुत्व—ज्ञानावरणीय कर्मके योगस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे प्रदेशबन्ध-
स्थान विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार सात कर्मोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । आयुर्कर्मके योग-
स्थान और प्रदेशबन्धस्थान समान हैं । इस कारण आयुर्कर्म की अपेक्षा अल्पबहुत्व नहीं है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ

१. ता०प्रतौ अदित्तित्तो इति पाठः ।

जीवसमुदाहारो जीवपमाणाणुगमो

१५६. जीवसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुबे अणियोगद्वाराणि—जीवपमाणाणु-गमो अप्पावहुगे त्ति । जीवपमाणाणुगमेण सञ्चत्थोवा सुहुमस्स अपज्जत्तयस्स जहण्णयं पदेसबंधङ्गाणं । वादरस्स अपज्जत्तस्स जहण्णयं पदेसबंधङ्गाणं संखेज्जगुणं । एवं यथायोगं तथा पदेसग्गं णेदव्वं ।

एवं जीवपमाणाणुगमो समत्तो ।

अप्पावहुगाणुगमो

१५७. अप्पावहुगं तिविधं—जहण्णयं उक्कस्सयं जहण्णुक्कस्सयं चेदि । उक्कस्सए पगदं—सञ्चत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । अणुक्कस्सपदेसबंधगा जीवा अणंतगुणा । एवं अणंतरासीणं सञ्चाणं । एवं असंखेज्जरासीणं पि । णवरि असंखेज्जगुणं कादव्वं । एवं संखेज्जरासीणं पि । णवरि संखेज्जगुणं कादव्वं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

१५८. जह० पगदं० । अहुणं क० सञ्चत्थोवा जहण्णपदेसबंधगा जीवा । अजहण्णपदे० जीवा असं०गु० । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि संखेज्जरासीणं संखेज्जगुणं कादव्वं ।

१५९. जहण्णुक्कस्सए पगदं । सञ्चत्थोवा अहुणं क० उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । जह०पदे० जीवा अणंतगुणा । अजहण्णमणु०पदे० जीवा असं०गु० । एवं ओधमंगो

जीवसमुदाहार जीवप्रमाणानुगम

१५६. जीवसमुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये दो अनुयोगद्वार होते हैं—जीवप्रमाणानु-गम और अल्पबहुत्व । जीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्तकके जघन्य प्रदेशबन्धस्थान सबसे स्तोक है । उससे वादर अपर्याप्तकके जघन्य प्रदेशबन्धस्थान संख्यातगुणा है । इस प्रकार योगके अनुसार प्रदेशात्र जानना चाहिए ।

इस प्रकार जीवप्रमाणानुगम समाप्त हुआ ।

अल्पबहुत्वानुगम

१५७. अल्पबहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्योत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इसी प्रकार सब अनन्त राशियोमें जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार असंख्यात राशियोमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणा करना चाहिए । तथा इसी प्रकार संख्यात राशियोमें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

१५८. जघन्यका प्रकरण है । आठ कर्मोके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अजघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यात राशियोमें संख्यातगुणा करना चाहिए ।

१५९. जघन्य उत्कृष्टका प्रकरण है । आठ कर्मोके प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक

तिरिक्खोवं कायजोगि-ओरालि०-ओरा०मि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहार'०-अणाहारग ति ।

१६०. पोरइएसु सत्तणं क० सव्वत्थो० जह०पदे० जीवा । उक्क०पदे० जीवा असं०गु० । अजहण्णमणु०पदे० जीवा असं०गु० । आउ० सव्वत्थो० उक्क०पदे० जीवा । जह०पदे० जीवा असं०गु० । अजहण्णमणु०पदे० जीवा असं०गु० । एवं सव्व-णिरयाणं देवाणं याव सहस्सार ति । आणद याव अवरइदा ति तं चेव । णवरि आउ० सव्वत्थो० उक्क०पदे० जीवा । जह०पदे० जीवा संखे०गु० । अजहण्णमणु०पदे० जीवा संखेज्जगु० ।

१६१. मणुसेसु ओघं । णवरि असंखेज्जगुणं कादव्वं । एवं एइंदि०-विगल्लिंदि०-पंचिं०-तस०२-पंचका०-इत्थि-पुरिस०-सण्णि ति । एवं पंचिं०तिरि०३ । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सत्तणं क० ओघं । णवरि संखेज्जगुणं कादव्वं । मोहणी० सव्वत्थो० जह०-पदे० जीवा । उक्क०पदे० जीवा संखे०गु० । अजहण्णमणु०पदे० जीवा संखे०गु० ।

१६२. सव्वअपज्जत्त० तसाणं थावराणं च णिरयभंगो । [सव्वइसिद्धि०]

जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार ओघके अनुसार सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक-काययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंचत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेइयावाले, मव्य, अमव्य, मिथ्याइष्टि, असंज्ञी आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

१६०. नारकियोमे सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उरुहृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुक्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आयुकर्मके उक्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य-अनुक्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य देव और सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । आनत कल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मके उक्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुक्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

१६१. मनुष्योंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशषता है कि असंख्यातगुणा करना चाहिए । इसी प्रकार एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच स्थावरकायिक, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और संज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चविक में जानना चाहिए । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोमे सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । मोहनीय कर्मके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उरुहृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुक्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

१६२. त्रस और स्थावर आदि सब अपर्याप्तकोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है ।

सव्वत्थो^१ सत्तण्णं कं जहंपदे० जीवा । उक्कंपदे० जीवा संखेज्जगु० । अजहण्णमणुंपदे० जीवा संखेज्जगु० । आउ० आणदभंगो ।

१६३. पंचमण०-पंचवचि० अट्टण्णं कं सव्वत्थो० उक्कंपदे० जीवा । जहंपदे० जीवा असंगु०^२ । अजहण्णमणुंपदे० जीवा असंगु० । [वेउत्वि०-] वेउत्वि०-मि०-तेउ०-पम्म०वेदग०-सासण०णिरयभंगो । आहार० अट्टण्णं कं सव्वत्थो^३ जंपदे० जीवा । उक्कंपदे० जीवा संखे०गु० । [अजहण्णमणुंपदे० जीवा संगु०] । आहारमि० अट्टण्णं कं सव्वत्थो० उक्कंपदे० जीवा । जहंपदे० जीवा संखे०गु० । अजहण्णमणु० पदे० जीवा संखे०गु० । एवं अवगद०-मणपज्ज०-संज०-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुम० ।

१६४. विभंग० अट्टण्णं कं सव्वत्थो० उक्कंपदे० जीवा । जहंपदे० जीवा असंगु० । अजहण्णमणुंपदे० जीवा असंगु० । आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं कं मणुसोवं । मोह० सव्वत्थो० जंपदे० जीवा । उक्कंपदे० जीवा असंगु० । अजहण्णमणुंपदे० जीवा असंगु० । एवं ओधिदं०-सुक्क०-सम्मा०-सइग०-उवसम० । पवरि

सर्वार्थसिद्धिमें सात कर्मोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। आयुकर्मका भङ्ग आनत कल्पके समान है।

१६३. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। [वैकिक्रियकाययोगी,] वैकिक्रियक-मिश्रकाययोगी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है। आहारककाययोगी जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार अपगतवेदी, मत्तःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि-संयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए।

१६४. बिभङ्गज्ञानी जीवोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान है। मोहनीयके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, शुक्कलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि शुक्कलेश्या और क्षायिक-

१. ता०प्रती तसाणं च णिरयभंगो सम्भवो० इति पाठः । २. ता०प्रती जी० ज० जसंगु० इति पाठः । ३. ता०प्रती आहार० अट्ट० अट्टण्णं (?) सव्वत्थो० इति पाठः ।

सुक०-खड्ग० आउ० आणदभंगो । छण्णं क० सन्वत्थो० उक्क०पदे० जीवा । जह०-
पदे० जीवा संखे०गु० । अजहण्णमणु०पदे० जीवा असं०गु० । संजदासंजदा देवभंगो ।
चक्खु० तसपज्जत्त भंगो । सम्माभि० मणजोगिभंगो । एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

एवं मूलपगदिपदेसबंधो समत्तो ।

२ उत्तरपगदिपदेसबंधो

१६५. एत्तो उत्तरपगदिपदेसबंधे पुच्चं गमणीयं भागाभागसमुदाहारो । अद्वविध-
बंधगस्स यो णाणावरणीयस्स एक्को भागो आगदो चदुधा विरिक्को । आभिणिबोधिय-
णाणावरणीयस्स एक्को भागो । एवं सुद०-ओधिणा०-मणपज्ज० । तत्थ यं तं पदेसग्गं
सव्वघादिपत्तं तदो एककेक्कस्स णाणावरणीयस्स सव्वघादीणं पदेसग्गस्स चदुभागो त्ति
णादव्वो । यो दंसणावरणीयस्स भागो आगदो सो तिधा विरिक्को । चक्खु-
दंसणावरणीयस्स एक्को भागो । एवं अचक्खुदं०-ओधिदं० । तत्थ यं तं पदेसग्गं
सव्वघादिपत्तं तदो एककेक्कस्स दंसणावरणीयस्स सव्वघादिपदेसग्गस्स तिभागो त्ति
णादव्वो । यदि णाम एदाओ वैव तिण्णि पगदीओ भवेज्जसु सेसाओ छण्णपगदीओ ण भवेज्जसु
तदो चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं० सव्वघादिपदेसग्गस्स तिभागभेत्तो भवे । तथा विधिणा

सम्यग्दृष्टि जीवोमें आयुर्कर्मका भङ्ग आनतकल्पके समान है । तथा छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका
बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे
हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । संयतासंयत
जीवोंमें देवोंके समान भङ्ग है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है ।
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार मूलप्रकृतिप्रदेशबन्ध समाप्त हुआ ।

२ उत्तरप्रकृतिप्रदेशबन्ध

१६५. आगे उत्तरप्रकृतिप्रदेशबन्धमें सर्वप्रथम भागाभागसमुदाहार जानने योग्य है—
आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवको जो ज्ञानावरणीय कर्मका एक भाग प्राप्त होकर
चार भागोंमें विभक्त हुआ है उनमेंसे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्मका एक भाग है ।
इसी प्रकार श्रुतज्ञानावरणीय, अबधिज्ञानावरणीय और मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मोंके विषयमें
जानना चाहिए । वहाँ पर जो प्रदेशाप्त सर्वधातिपनेको प्राप्त है उसमेंसे इन चारमेंसे एक एक
ज्ञानावरणीयके लिये सर्वधातियोंके प्रदेशाप्रका चौथा भाग जानना चाहिए । जो दर्शनावरणीयका
भाग आया है वह तीन भागोंमें विभक्त हुआ है । उनमेंसे चक्षुदर्शनावरणीय कर्मको एक भाग
मिला है । इसी प्रकार अचक्षुदर्शनावरणीय और अबधिदर्शनावरणीयके लिये एक-एक भाग जानना
चाहिए । वहाँ जो प्रदेशाप्त सर्वधातिपनेको प्राप्त है उसमेंसे इन तीनमें एक-एक दर्शनावरणीयके
लिये सर्वधाति प्रदेशाप्रका तीसरा भाग जानना चाहिये । यदि ये तीन प्रकृतियों ही हों, शेष
छह प्रकृतियों न हों तो चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण और अबधिदर्शनावरणके लिये सर्व-
धाति प्रदेशाप्रका तीसरा भाग होवे किन्तु यथाविधि अन्य छह प्रकृतियों भी हैं । चक्षुदर्शना-
वरण, अचक्षुदर्शनावरण और अबधिदर्शनावरणमेंसे प्रत्येकके लिए सर्वधाति प्रदेशाप्रका तीसरा

छप्पगदीयो च अस्थि । चक्रु ०-अचक्रु-ओधिदं० सच्चवादिपदेसग्गस्स तिभागो । एवं सच्चवाहि छहि पगदीहि तस्सि च तिष्णं पगदीणं इतरस्सिं छण्णं पगदीणं यं पदेसग्गं तं पदेसग्गं तद्देहो चेव भागो णादच्चो । यद्देहो विष्णा वि छहि पगदीहि ण हु णवभागो चि णादच्चो ।

१६६. अण्णदरवेदणीए एगो भागो आगदो सो समयपवद्धस्स अट्टमभागो चि णादच्चो । यो मोहणीयस्स भागो आगदो सो दुधा विरिक्को-कसायवेदणीए एक्को भागो णोकसायवेदणीए एक्को भागो । यो कसायवेदणीए भागो आगदो सो च्चदुधा विरिक्को-कोध-संजलणाए एक्को भागो । एवं माणसंज०-मायसंज० लोमसंज० । तत्थ यं तं पदेसग्गं सच्चवादिपत्तं तदो एक्किस्से संजलणाए कसायवेदणीयस्स सच्चवादिपदेसग्गस्स च्चदुभागो चि णादच्चो । यद्देहो एक्किस्से संजलणाए कसायवेदणीयस्स सच्चवादिपदेसग्गस्स भागो तद्देहो इतरस्सिं वारसण्णं कसायाणं मिच्छत्तस्स च भागो णादच्चो । अण्णदरणोकसायवेदणीए यो भागो आगदो सो समयपवद्धस्स अट्टमभाग-दुभाग-पंचभागो चि' णादच्चो । अण्णदरआउगे यो भागो आगदो, सो समयपवद्धस्स अट्टमभागो चि णादच्चो । च्चदुष्णं पि पगदीणं एक्को चेव भागो ।

१६७. च्चदुष्णं गदीणं एक्को चेव भागो । पंचण्णं जादीणं एक्को चेव भागो । पंचण्णं सरीराणं एक्को चेव भागो । एवं छस्संटाणाणं तिष्णिअंगोवंगणं छस्संघणाणं एक्को चेव भागो । वण्ण-रस-गंध-पस्स-अगु०-उप०-पर-उस्सा०-आदाउजो०-णिमि०-

भाग मिलता है । यह सब छह प्रकृतियोंके साथ उन तीन प्रकृतियोंका तथा इतर छह प्रकृतियोंका जो प्रदेशाप्र है उस प्रदेशाप्रका उन प्रकृतियोंके अनुसार ही भाग जानना चाहिये । छह प्रकृतियोंके बिना जो भाग तीन प्रकृतियोंको मिलता है वह नौ भाग नहीं है ऐसा यहाँ जानना चाहिये ।

१६६. अन्यतर वेदनीयके लिये जो एक भाग आया है वह समयप्रबद्धका आठवाँ भाग है ऐसा जानना चाहिये । जो मोहनीयका भाग आया है वह दो भागोंमें विभक्त है—कषायवेदनीयके लिये एक भाग और नोकषायवेदनीयके लिये एक भाग । जो कषायवेदनीयके लिये भाग आया है वह चार भागोंमें विभक्त होता है । क्रोधसंज्वलनके लिए एक भाग । इसी प्रकार मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनके लिये एक एक भाग । वहाँ जो प्रदेशाप्र सर्वघातिपनेको प्राप्त हुआ है उसमेंसे एक संज्वलन कषायके लिये प्राप्त हुए सर्वघाति प्रदेशाप्रके चार भाग होते हैं ऐसा यहाँ जानना चाहिये । एक संज्वलन कषायके लिये सर्वघाति प्रदेशाप्रका जो भाग मिलता है उतना इतर वारह कषाय और मिथ्यात्वका भाग जानना चाहिए । अन्यतर नोकषायवेदनीयके लिये जो भाग आया है वह समयप्रबद्धके आठवें भागके आधेमेंसे पाँचवाँ भाग जानना चाहिये । चारों ही आयुओंके लिये एक ही भाग मिलता है ।

१६७. चारों गतियोंके लिये एक ही भाग मिलता है । पाँच जातियोंके लिये एक ही भाग मिलता है । पाँच शरीरोंके लिये एक ही भाग मिलता है । इसी प्रकार छह संस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग और छह संहननोंके लिये एक एक भाग ही मिलता है । वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, अगुरुलु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, निर्माण, तीर्थङ्कर और स्वर नाम-

तित्थयरणामा एवं पत्तेयं पत्तेयभागो । चटुण्णं आणुपुब्बियाणं दोण्णं विहायगदीणं तसादिदसयुगलाणं एक्केको चेव भागो । यो अण्णदरगोदे भागो आगदो सो समय-पवद्धस्स अट्टमभागो त्ति णादव्वो । यो अण्णदरे अंतराद्दग्गे भागो आगदो सो समय-पवद्धस्स अट्टमभाग० पंचमभागो त्ति णादव्वो ।

एवं भागाभागं समत्तं

चतुर्वीसअणिओगद्वाराणि

यं सव्वघादिपत्तं सगकम्मपदेसाणंतिमो भागो ।

आवरणाणं चटुधा तिधा च तत्थ पंचधा विग्घे ।

मोहे दुधा चटुद्धा पंचधा वा पि वज्झमाणीणं ।

वेदणीयाउगगोदे य वज्झमाणीणं भागो से ।

१६८. एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि चटुवीसमणियोगद्वाराणि—ट्टाणपरूवणा सव्वबंधो णोसव्वबंधो एवं मूलपगदीए तथा णेदव्वं ।

कर्म इनमेंसे प्रत्येकके लिये इसी प्रकार एक एक भाग मिलता है । चार आनुपूर्वी, दो विद्यायोगति और त्रसादि दस युगलोके लिये एक एक ही भाग मिलता है । अन्यतर गोत्रकर्मके लिये जो भाग आया है वह समयप्रवद्धका आठवाँ भाग जानना चाहिये । जो अन्यतर अन्तरायके लिये भाग आया है वह समयप्रवद्धके आठवें भागका पाँचवाँ भाग जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ आठों कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंमें प्रदेशबन्धके भागाभागका विचार किया गया है । गोमन्टसार कर्मकाण्डके प्रदेशबन्ध प्रकरणमें इस भागाभागका विशेष विचार किया है, इसलिये इसे वहाँसे जान लेना चाहिये । यहाँ उसका बीजरूपसे विचार किया है ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

चौवीस अनुयोगद्वार

जो अपने कर्मप्रदेशोंका अनन्तवाँ भाग सर्वघातिपत्तेको प्राप्त है उससे अतिरिक्त शेष द्रव्य आवरण कर्ममें चार और तीन प्रकारका है । अन्तरायकर्ममें पाँच प्रकारका है । मोहनीय कर्ममें बंधनेवाली प्रकृतियोंका दो प्रकारका, चार प्रकारका और पाँच प्रकारका है । जो वेदनीय, आयु और गोत्र कर्ममें भाग है वह बंधनेवाली प्रकृतियोंका है ।

१६८. इस अर्थपदके अनुसार वहाँ ये चौवीस अनुयोगद्वार होते हैं—स्थानपरूपणा, सर्व-बन्ध और नोसर्वबन्ध इत्यादि मूलप्रकृतिबन्धमें जिस प्रकार कहे हैं उस प्रकार जानने चाहिये—

विशेषार्थ—यहाँ किस कर्मको किस प्रकारसे विभाग होकर द्रव्य मिलता है इस बीज-पदका दो गाथाओ द्वारा निर्देश किया है । ये दो गाथाएँ श्वे०कर्मप्रकृतियोंमें भी उपलब्ध होती हैं । उनका आशय यह है कि प्रदेशबन्धके होने पर जो द्रव्य मिलता है उसका अनन्तवाँ भाग सर्वघाति द्रव्य है और शेष बहुभाग देशघाति द्रव्य है । यहाँ देशघाति द्रव्यके विभागका मुख्यरूपसे विचार किया है । तात्पर्य यह है कि ज्ञानावरणको जो देशघाति द्रव्य मिलता है वह चार भागोंमें विभक्त हो जाता है । जो क्रमसे आभिनिबोधिकज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, और मनःपर्ययज्ञानावरणमें विभक्त हो जाता है । दर्शनावरणको जो द्रव्य मिलता है वह चक्षुदर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, और अबधिदर्शनावरण रूप होकर तीन

ट्टाणपरूवणा

१६९. ट्टाणपरूवणा दुविधा—योगट्टाणपरूवणा चैव पदेसबंधपरूवणा चैव । एदाओ दो परूवणाओ मूलपगदिमंगो कादव्वो ।

सव्व-णोसव्वपदेसबंधआदिपरूवणा

१७०. यो सो सव्वबंधो णोसव्वबंधो उक्क० अणुक्क० जह० अजह० णाम एदे यथा मूलपगदिपदेसबंधो तथा कादव्वं । णवरि एदेसिं छण्णं पि बंधगणं णिरएसु यो सो सव्वबंधो णोसव्वबंधो णाम तस्स इसो णिद्दोसो-पंचणा०-चदुदंसणा०-सादावे०-अट्टक०-पुरिसि०-दोगदि-पंचिं०-तिणिसरीर-हुंडसं०-ओरा०अंगो०-अप्पसत्थ०४-दोआणु०-उज्जो०-दोविहा०-तसादि०४-थिरादिछयुग०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० किं सव्वबंधो णोसव्वबंधो ? णोसव्वबंधो । सेसाणं किं सव्वबंधो ? [सव्वबंधो] णोसव्वबंधो । सव्वाणि पदेसबंधट्टाणाणि बंधमाणस्स सव्वबंधो । तदूणं बंधमाणस्स णोसव्वबंधो । एदाओ चैव पगदीओ किं उक्क० अणु० ? अणुक्क०बंधो । सेसाणं किं उक्क० अणु० ? [उक्कस्स-

भागोंमें बट जाता है । अन्तराय कर्मका द्रव्य पाँच भागोंमें बट जाता है । मोहनीयके द्रव्यके मुख्य दो भाग होते हैं—कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय । कषायवेदनीयका द्रव्य चार भागोंमें और नोकषायवेदनीयका द्रव्य पाँच भागोंमें बन्धके अनुसार विभक्त हो जाता है । वेदनीय, आयु और गोत्र इनके उत्तर भेदोंमेंसे एक कालमें एक एक प्रकृतिका ही बन्ध होता है, इसलिये इन कर्मोंको मिलनेवाला द्रव्य बंधनेवाली उस उस प्रकृतिकी सम्पूर्ण मिल जाता है । यह बीजपद है । इसके अनुसार आगे सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध आदि २४ अधिकारोंके द्वारा उत्तरप्रकृतिप्रदेशबन्धका विचार किया जाता है ।

स्थानप्ररूपणा

१६९. स्थानप्ररूपणा दो प्रकार की है—योगस्थानप्ररूपणा और प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणा । ये दो प्ररूपणाएँ मूलप्रकृतिबन्धके समान करनी चाहिए ।

सर्वबन्ध-नोसर्वप्रदेशबन्ध आदि प्ररूपणा

१७०. जो सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अनुत्कृष्टबन्ध, जघन्यबन्ध और अजघन्यबन्ध है ये जैसे मूलप्रकृतिप्रदेशबन्धमें कहे हैं उसप्रकार इनका विवेचन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन छहो बन्धकोमेंसे नारकियोंमें जो सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध है उसका यह निर्देश है—पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, आठ कषाय, पुरुषवेद, दो गति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आन्तुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि चार, स्थिर आदि छह युगल, निमोण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका क्या सर्वबन्ध है या नोसर्वबन्ध है ? नोसर्वबन्ध है । शेष प्रकृतियोंका क्या सर्वबन्ध है या नोसर्वबन्ध है ? सर्वबन्ध है और नोसर्वबन्ध है । सब प्रदेशबन्ध स्थानोंका बन्ध करनेवालेके सर्वबन्ध होता है और उससे न्यूनका बन्ध करनेवालेके नोसर्वबन्ध होता है । इन्हीं प्रकृतियोंका क्या उत्कृष्टबन्ध होता है या अनुत्कृष्टबन्ध होता है । इन्हीं प्रकृतियोंका क्या उत्कृष्टबन्ध होता है या अनुत्कृष्टबन्ध होता है ? उत्कृष्टबन्ध होता है

बंधो अणुकस्सबंधो ।] सउकस्सयं पदेसग्गं बंधमाणस्स उकस्सबंधो । तदूणं बंधमाणस्स अणुकस्सबंधो । णिरएसु सव्वपगदीणं किं जह० अजह० ? अजहणुणबंधो । णवरि तित्थ० ज० अज० । एवं याव अणाहारग त्ति षोदव्वं एदाणि अणियोगहारणि ।

सादि-अणादि-ध्रुव-अद्भुवबंधपरूवणा

१७१. यो सो सादि० अणादि० ध्रुवबंध० अद्भुव० णाम तस्स दुवि०— ओषे० आदे० । ओषे० पंचणा०-छदंस०-वारसक०-भय-दु०-पंचंत० उ० जह० अजह० प०बंधं किं सादि०४ ? सादि० अद्भुव० । अणु० किं सादि०४ ? सादि० अणादि० ध्रुव० अद्भुवबंधो वा । सेसाणं पगदीणं उक्क० अणु० जह० अजह० किं सादि०४ ? सादि० अद्भुव० । एवं अचक्खु०-भवसि० । णवरि भवसि० ध्रुव० णत्थि । सेसाणं णिरयादि याव अणाहारग त्ति सव्वपगदीणं सादि० अद्भुवबंधो ।

और अनुत्कृष्टबन्ध होता है । अपने उत्कृष्ट प्रदेशाप्रका बन्ध करनेवालेके उत्कृष्टबन्ध होता है । उससे न्यूनका बन्ध करनेवालेके अनुत्कृष्टबन्ध होता है । नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका क्या जघन्यबन्ध होता है या अजघन्यबन्ध होता है ? अजघन्य बन्ध होता है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य बन्ध होता है और अजघन्यबन्ध होता है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक ये अनुयोगद्वार ले जाने चाहिए ।

सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवप्रदेशबन्धपरूवणा

१७१. जो सादिवन्ध, अनादिवन्ध, ध्रुवबन्ध और अध्रुवबन्ध है उसका निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, सुगुप्ता और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध क्या सादि, अनादि, ध्रुव या अध्रुव है ? सादि और अध्रुव है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध क्या सादि, अनादि, ध्रुव या अध्रुव है ? सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध क्या सादि, अनादि, ध्रुव या अध्रुव है ? सादि और अध्रुव है । इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोंमें ध्रुवभङ्ग नहीं है । नारकियोंसे लेकर अनाहारक तक शेष मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंका सादि और अध्रुवबन्ध है ।

विशेषार्थ—मूलमें कही गई ध्रुवबन्धनी पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध गुणप्रतिपन्न जीवोंके होता है । उससे पहले उनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए तो इन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अनादि है और इन प्रकृतियोंका उत्कृष्टके बाद पुनः अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सादि है । तथा भव्योंकी अपेक्षा वह अध्रुव है और अभव्योंकी अपेक्षा ध्रुव है । इस प्रकार पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके सादि आदि चारों विकल्प बन जाते हैं । किन्तु इनके उत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्यबन्धके ये चारों विकल्प न होकर केवल सादि और अध्रुव ये दो ही विकल्प होते हैं, क्योंकि ये तीनों प्रकारके बन्ध कादाचित्क होते हैं । इनके सिवा अन्य जितनी प्रकृतियाँ हैं उनके उत्कृष्ट आदि चारों पद कादाचित्क होनेसे उनमें सादि और अध्रुव ये दो ही विकल्प बनते हैं । यह ओष परूपणा है जो अचक्षुदर्शनी और भव्यमार्गणमें सम्भव है इसलिए इन दो मार्गणाओंमें ओषके समान उक्त परूपणा जाननेकी सूचना की

१. ता-आ०प्रत्योः सादि-अणु०-ध्रुवबंध० इति पाठः । २. ता०प्रतो सादि० ४ अद्भुव० इति पाठः ।

सामित्तपरूवणा

१७२. सामित्तं दुविधं—जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०—ओधे० आदे० । ओधे० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-जस०-उच्चा०-पंचंत० उक्कस्सपदेसबंधो कस्स ? अण्णद० सुहुमसंप० उवसम०^१ खवगस्स वा छव्विधबंधगस्स उक्क०जोगि० उक्कस्सपदेसबंधे वट्ठ० । थीणगिद्धि०-३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णउंस०-पीचा० उक्क० पदे०बंधो कस्स ? अण्ण० चदुग० पंचि० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज्जतीहि पज्जत्तगदस्स सत्तविध० उक्क०जोगि० उ०पदे० वट्ठ० । णिहापयलाहस्सरदि-अरदि-सोग-भय-दु० उक्क० प०वं कस्स ? अण्ण० चदुगदि० सम्मादि० सव्वाहि पज्ज० सत्तविध० उक्क०जो० उक्क०पदे० वट्ठ० । असादा० उ० प०वं^२ क० ? अण्ण० चदुग० सण्णस्स सम्मा० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० सत्तविध० उक्क०जो उक्क०पदे० वट्ठ० । अपच्चक्खाणा०४ उ० प०वं^३ क० ? अण्ण० चदुग० असंज० सम्मा० सव्वाहि, पज्ज० सत्तविध० उक्क०जो उक्क० वट्ठ० । पच्चक्खाणा०४ उ०प० क० ?

है । मात्र भव्यमार्गणामे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्टपदका ध्रुव भङ्ग नहीं बनता, क्योंकि भव्य होनेसे इनके सब प्रकारका बन्ध अध्रुव ही होता है । शेष सब मार्गणार्थे कादाचित्क हैं, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट आदि पद कादाचित्क होनेसे सादि और अध्रुव कहे हैं ।

स्वामित्वप्ररूपणा

१७२. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला, उत्कृष्ट योगसे युक्त और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित अन्यतर उपशामक और क्षपक सूक्ष्मसाम्परायिक सयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तालुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला, उत्कृष्ट योगसे युक्त और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित अन्यतर चार गतिका पंचेन्द्रिय सन्धी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । निर्द्रा, प्रचला, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला, उत्कृष्ट योगसे युक्त और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित अन्यतर चार गतिका सन्ध्यदृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । असातावेदनीयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला, उत्कृष्ट योगसे युक्त और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित अन्यतर चार गतिका संज्ञी सन्ध्यदृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव असातावेदनीयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । अपत्याख्यानावरण चारके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला, उत्कृष्ट योगसे युक्त और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित अन्यतर चार गतिका असंयतसम्यग्दृष्टि

१. आ०प्रतौ सुहुमसंप० अण्णद० उवसम० इति पाठः । २. ता०प्रतौ असादा० उ० [जो०]

अण्ण० दुग्गदि० संजदासंजद० सत्तविध० उक्क०जो० उक्क० वट्ट० । कोधसंज० उ०प०
 क० ? अण्ण० अणियट्ठि० उवसा० खवग० मोहणीयस्स चदुविध० उक्क०जो० । एवं
 माण०-माया०-लोभ० । णवरि मोह० तिविध-दुविध-[एग] बंधगस्स उक्क०जोगि० । एवं
 पुरिस० । णवरि मोह० पंचविधबंध० उक्क०जोगि० । णिरयाउ० उ० प०वं० क० ?
 अण्ण० दुग्गदि० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० अट्टविध० उक्क०जो० । तिरिक्खाउ०
 उ० प०वं० क० ? अण्ण० चदुग० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० अट्टविध० उक्क०
 जोगि० । मणुसाउ० उ० प०वं० क० ? अण्ण० चदुग्गदि० सण्णि० मिच्छा० सम्मादि०
 मन्वाहि पज्ज० अट्टविध० उक्क०जोगि० । देवाउ० उ० प०वं० क० ? अण्ण० दुग्गदि०
 सण्णि० मिच्छा० सम्मादि० सव्वाहि पज्ज० अट्टविध० उक्क०जोगि० । णिरयाग्गदि-
 णिरयाणुपु०-अप्पसत्थवि०-दुस्सर० उ० प०वं० क० ? अण्ण० दुग्गदि० पंचि०
 सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० अट्टावीसदिणामाए सह सत्तविधबंध० उक्क०जोगि० ।

जीव अप्रत्याख्यानावरण चारके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । प्रत्याख्यानावरण चारके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला, उद्भ्रष्ट योगसे युक्त और उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें वर्तमान अन्यतर दो गतिका संयतासंयत जीव प्रत्याख्यानावरण चारके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । क्रोधसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? मोहनीय कर्मकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर अनि-
 दृष्टिकरण उपशामक और क्षपक जीव क्रोध संज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है, इसी प्रकार मान, माया और लोभसंज्वलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका, दो प्रकृतियोंका और एक प्रकृतिका बन्ध करता है और उत्कृष्ट योगसे युक्त है वह क्रमसे इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो मोहनीय कर्मकी पाँच प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा है और उत्कृष्ट योगसे युक्त है वह पुरुष-
 वेदके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । नरकायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव नरकायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका संज्ञी मिथ्या-
 दृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीव देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । नरकगति, नरकगत्यानु-
 पूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला

तिरिक्त्वा०-एहंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्त्वाणु०-अगु०-उ० प०-
 थावर०-वादर०-सुहुम०-अपज्ज०-पत्ते०-साधार०-अथिरादिपंच०-णिमि० उ० प०वं० क० ?
 अण्ण० दुग्गदि० पंचिं० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० तेवीसदिणामाए सह सत्तविध०
 उक्क०जोगिस्स । मणुस०-चदुजादि-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-मणुसाणु०-त्तस० उ०
 प०वं० क० ? अण्ण० दुग्गदि० पंचिं० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० पणुवीसदि-
 णामाए सह सत्तविध० उक्क०जोगि । देवग०-वेउळ्वि० समचदु०-वेउळ्वि०अंगो०-
 देवाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे० उ० पदे०वं० क० ? अण्ण० दुग्गदि० पंचिं०-
 सण्णि० मिच्छादि० सम्मा० सव्वाहि पज्ज० अट्टावीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०-
 जो० । आहार०२ उ० प०वं० क० ? अण्ण० अप्पमत्त० तीसदिणामाए सह सत्तविध०
 उ०जो० । चदुसंठा०-चदुसंघ० उ० प०वं० क० ? अण्ण० चदुग० पंचिं० सण्णि०
 मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उक्क०जोगि । वज्जरिस०
 उ० प०वं० क० ? अण्ण० चदुग० पंचिं० सण्णि० मिच्छा० सम्मा० सव्वाहि पज्ज०
 एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । पर०-उत्सा०-पज्ज०थिर०-सुभ० उ०

और उत्कृष्ट योगसे युक्त दो गतिका संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामण-
 शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगु रुलपु, उपघात, स्थावर, वादर, सूक्ष्म,
 क्षपर्ष्याप्त, प्रत्येक, साधारण, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन
 है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मों का
 बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव
 उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर आहो-
 पाङ्ग, असम्प्राप्त्याप्त पाटिकासंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और त्रसके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन
 है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी पचीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका
 बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव
 उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। देवगति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान,
 वैक्रियिकशरीर आहोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके
 उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी अट्टाईस
 प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर
 दो गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
 प्रदेशबन्धका स्वामी है। आहारकद्विकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ?
 नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट
 योगसे युक्त अन्यतर अग्रमत्तसंबन्ध जीव आहारकद्विकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी
 है। चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है। सब पर्याप्तियोंसे
 पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला
 और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके
 उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। वज्रर्षभनाराचसंहननके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ?
 सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध
 करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि और
 सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त,

प०वं० क० ? अण्ण० तिगदि० पंचि० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० पणुवीसदि-
णामाए सह सत्तविध० उ०जो० । आदाउज्जो० उ० प०वं० क० ? अण्ण० तिगदि०
पंचि० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० छव्वीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० ।
तित्थ० उ० प०वं० क० ? अण्ण० मणुसस्स सम्मादि० सव्वाहि पज्ज० एगुणतीसदि-
णामाए सह सत्तविध० उ०क०जोगिस्स ।

१७३. आदेसेण षेरइएसु पंचणा०-सादासाद०-उच्चा०-पंचंत० उ० प०वं०
क० ? अण्ण० मिच्छा० सम्मा० सव्वाहि पज्ज० सत्तविध० उ०जो० । थीणगिदि०-३-
मिच्छ०-अणंताणु०-४-इत्थि०-णवुंस०-णीचा० उ० प०वं० क० ? अण्ण० मिच्छा०
सव्वाहि पज्ज० सत्तविध० उ०जो० । छदंसणा०-वारसक०-सत्तणोक० उ० प०वं० क० ?
अण्ण० सम्मा० सव्वाहि पज्ज० सत्तविध० उ०जो० । तिरिक्खाउ० उ० प०वं० क० ?
अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० अट्ठविध० उ०जो० । एवं मणुसाउ० । णवरि सम्मा०

स्थिर और शुभके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी पचीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आतप और उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य सम्यग्दृष्टि जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

१७३. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यास्व, अनन्तालुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसीप्रकार मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामित्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आठ कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि नारकी मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

मिच्छा० अट्टविध० उ०जो० । तिरिक्खु०-पंचसंठा०-पंचसंध०-तिरिक्खाणु०-अप्पसत्थ-
वि०-दूभग-दुस्सर-अणादे० उ० प०वं० क० ? अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० एगुण-
तीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । मणुस०-पंचि०-तिणिसरी०-समचट्टु०-ओरा०-
अंगो०-वज्ज रि०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ०-त्तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-
नुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि० उ० प०वं० क० ? अण्ण० सम्मा० मिच्छा०
सव्वाहि पज्ज० एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । उज्जो० उ० प०वं०
क० ? अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० तीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । तित्थ०
उ० प०वं० क० ? अण्ण० सम्मा० सव्वाहि पज्ज० तीसदिणामाए सह सत्तविध०
उ०जो० । एवं पढन० विदिय० तदिय० । चउत्थीए याव छट्ठि चि एवं चेव । णवरि
तित्थ० वज्ज । सत्तमाए णिरयोवं । णवरि मणुसगदि-मणुसाणु० उ०प०वं० क० ?
अण्ण० सम्मा० एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । उच्चा० उ० प०वं० क० ?
अण्ण० सम्मा० सत्तविध० उ०जोगिस्स ।

१७४. तिरिक्खेसु पंचणा० सादासाद० उच्चा०-पंचंत० उ० प०वं० क० ? अण्ण०

तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वा, अप्रगल्त विहायोगति, दुर्भंग,
दुस्वर और अनादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुवा,
नामकर्मकी उत्तरीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट
योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।
मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियाति, तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, आदारीक आहोपाह्न, वज्रवर्ष-
नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, अगुहलुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,
स्विर, अस्विर, श्रुभ, अश्रुभ, सुभग, सुत्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और निर्माणके
उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुवा, नामकर्मकी उत्तरीस
प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर
सन्त्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।
उद्योगके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुवा, नामकर्मकी
तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर
मिथ्यादृष्टि नारकी उद्योगके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्करप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका
स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुवा, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात
प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सन्त्यग्दृष्टि
नारकी तीर्थङ्करप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार चौथी पृथिवीसे छठवीं पृथिवी
तीसरी पृथिवीमें जानना चाहिए । इसी प्रकार चौथी पृथिवीसे छठवीं पृथिवी
तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन पृथिवियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोटकर कहना
चाहिए । सातवीं पृथिवीमें सामान्य नारकियोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि
मनुष्यगति, और मनुष्यगत्यानुपूर्वके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उत्तरीस
प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर
सन्त्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । उच्चोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका
स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर
प्रत्यग्दृष्टि नारकी उच्चोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

१७४. तिर्यञ्चामि पांच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, उच्चोत्र और पांच

पंचि० सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सन्वाहि पज्ज० सत्तविध० उ०जो० । थोणगिद्विदंडओ ओघं० । छदंसणा०-पुरिस०-छण्णोको० उ० प०वं० क० ? अण्ण० सम्मा० सन्वाहि पज्ज० सत्तविध० उ०जो० । अपच्चक्खणाण० ओघं० । अट्टक० उ० प०वं० क० ? अण्ण० संजदासंज० सत्तविध० उ०जो० । तिण्णं आउ० उ० प०वं० क० ? अण्ण० पंचि० सण्णि० मिच्छा० अट्टविध० उ०जो० । देवाउ० उ० प०वं० क० ? अण्ण० सम्मादि० मिच्छा० अट्टविध० उ०जो० । गिरियगदिदंडओ तिरिक्खगदिदंडओ मणुसगदिदंडओ देवगदिदंडओ [चदुसंठा०-पंचसंघ०] ओघं० । पर०-उस्ता०-पज्जत्त०-थिर-सुभ-जस० मणुसगदि-भंगो । आदाउज्जो० ओघं० । एवं पंचि० तिरि० ३ ।

१७५. पंचि० तिरि० अपज्ज० पंचणा०-णवदंसणा-सादासाद०-मिच्छ०-सोत्तसक०-णवणोको०-दोगोद०-पंचंत० उ० प० क० ? अण्ण० सण्णि० सत्तविध० उ०जो० । दोआउ० उ० प०वं० क० ? अण्ण० सण्णि० अट्टविध० उ०जो० । तिरिक्खगदिदंडओ उ० प०वं० क० ? अण्ण० सण्णि० तेवीसदिणामाए^१ सह सत्तविध०

अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। स्थानगृह्णितदण्डकका भङ्ग ओघके समान है। छह दर्शनावरण, पुरुषवेद और छह नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है। सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्टयोगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। अप्रत्यास्थानावरण चारका भंग ओघके समान है। आठ कषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सयतासंयत तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। तीन आयुओंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च तीन आयुओंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। नारकगतिदण्डक, तिर्यञ्चगतिदण्डक, मनुष्यगतिदण्डक और देवगतिदण्डक चार संस्थान और पांच संघनन का भङ्ग ओघके समान है। परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और यशः कीर्तिका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है। आतप और उद्योतका भङ्ग ओघके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकर्में इसी प्रकार जानना चाहिए।

१७५. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकर्मोंसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। दो आयुओंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर संज्ञी जीव दो आयुओंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगतिदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी वैईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध

१. ता०प्रती-सम्माभि० मिच्छा० इति पाठः । २. ता०प्रती अण्ण० सण्णि० तेत्तीसदिणामाए आ०-प्रती अण्ण० तेत्तीसदिणामाए इति पाठः ।

उ०जो० । मणुसगदि-चदुजादि-ओरालि०अंगोवंग-असंपत्त०-मणुसाणु०-पर०-
उत्सा०-त्तस०-पञ्ज०-थिर-सुभ-जसगित्ति० उ० प०वं० क० ? अण्णदर० सण्णि०
पणुवीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । पंचसंठा०-पंचसंध०-सुभग-दोसर-
आदे० उ० प०वं० क० ? अण्ण० सण्णि० एणुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०-
जो० । [दोविहा० उ० प०वं० क० ? अण्ण० सण्णि० अहावीसदिणामाए सह सत्त-
विध० उ०जो० ।] आदाउजो० ओधं । एवं सव्वअपञ्जत्तगार्णं तसार्णं थावराणं
च एइंदि०-विगालिं०-पंचकायाणं च । णवरि अप्पप्पणो जादी कादव्वा । एइंदिएसु
बादरपञ्जत्तगस्स ति बादरे पञ्जत्तगस्स ति सुहुमे पञ्जत्तगस्स ति विगालिंदिए
पञ्जत्तगस्स ति तस-पंचिंदिएसु सण्णि ति भाणिदव्वा ।

१७६. मणुसेसु णाणावरणदंडओ ओधं । सम्मादिड्डिपाओग्माणं पि ओधं ।
सेसाणं पंचि०तिरि०भंगो । णवरि सव्वासिं मणुसो ति ण भाणिदव्वं ।

१७७. देवेसु पंचणा०दंडओ थोणगि०दंडओ छदंस०दंडओ दोआउ०^२
णिरयोधं । तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-
अणु०४-थावर-बादर-पञ्ज०-पत्ते०-थिरादितिणियुग०-दूमग०-अणा०-णिमिण० उ०

करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्त दण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर अङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तप्राप्तिकासंनहन, मनुष्य-
गत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, त्रस, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका
स्वामी कौन है ? नामकर्मकी पञ्चीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला
और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।
पाँच संस्थान, पाँच संनहन, सुभग, दो स्वर और आदेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ?
नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे
युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । दो विहायोगतिके
उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मों-
का बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेश-
बन्धका स्वामी है । आतप और उद्योतका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार त्रस और स्थावर
सब अपर्याप्तकोंमें तथा एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना
चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी जाति भ्रमनी चाहिए । मात्र एकेन्द्रियोमें बादर
पर्याप्तक, बादरोमें पर्याप्तक, सूक्ष्मोंमें पर्याप्तक, विकलेन्द्रियोमें पर्याप्तक तथा त्रस और पञ्चेन्द्रियोमें
संज्ञी जीव स्वामी है ऐसा कहना चाहिए ।

१७६. मनुष्योंमें ज्ञानावरणदण्डक ओघके समान है । सम्यग्दृष्टिप्रप्त्योन्य प्रकृतियोंका
भङ्ग भी ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है । इतनी विशेषता
है कि सब प्रकृतियोंका स्वाभित्व कहते समय मनुष्य ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

१७७. देवोंमें पाँच ज्ञानावरणदण्डक, स्थानयुद्धिदण्डक, छह दर्शनावरणदण्डक और दो
आयुओंका भङ्ग सामान्य नारिक्योंके, समान है । तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर,
तैजसशरीर, कामंशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अयुरुत्थुचतुष्क,
स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, अनादेय और निर्माणके उत्कृष्ट-

प०वं० क० ? अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० पणुवीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । मणुस०पंचिं०-समचदु०-ओरा०अंगो०-वज्जरी०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-तस०-सुभग-सुस्सर-आदे० उ० प०वं० क० ? अण्ण० सम्मा० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । चदुसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उ० प०वं० क० ? अण्ण० मिच्छा० एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । आदाउज्जो० उ० प०वं० क० ? अण्ण० मिच्छादि० छव्वीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । तित्थ० गिरयभंगो । एवं भवण०-वाण०-जोदिसि० । गवरी तित्थ० वज्ज । सोधम्मीसाणे देवोर्धं । सणक्कुमार याव सहस्सर त्ति पेरइगभंगो । आणद याव णवगेवज्जा त्ति सहस्सारभंगो । गवरी तिरिक्ख०-उज्जो० वज्ज । अणुदिस याव सव्वइ त्ति पंचणा०-छदंसणा०-सादासाद०-वारसक०-सत्तणोक०-उच्चा०-पंचंत० उ० प०वं० क० ? अण्ण० सव्वाहि प० सत्तविध० उ०जो० । मणुसाउ० उ० प०वं० क० ? अण्ण० अइविध० उ०जो० । मणुस०-पंचिंदि०-तिण्णिंसीरी०-समचदु०-ओरा०-अंगो०-वज्जरी०-वण्ण० ४-मणुसाणु०-अगु० ४-पसत्थवि०-तसादि० ४-थिरादिदिण्णियु०-

प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्र-संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुखर और आदेशके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सन्धगृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आतप और उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषो देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर स्वामित्व कहना चाहिए । सौधर्म और पेशान कल्पमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । आनत से लेकर नौ त्रैवेयक तकके देवोंमें सहस्रार कल्पके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्करगतिद्विक और उद्योतको छोड़कर कहना चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, बारह कथाय, सात नोकथाय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त

सुभग-सुस्तर-आदेय-णिमिण० उक्त० पदे०वं० क० ? अण्ण० सन्वाहि पञ्ज० पञ्जच०
एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । एवं तिथ्यकरणामाए पि । णवरि
तीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० ।

१७८. पंचि०२ ओघं । णवरि सण्णि त्ति भाणिदव्वा^१ । तस-तसपञ्जत्तगाणं
ओघं । णवरि अण्णदरस्स पंचिदिय त्ति सण्णि त्ति भाणिदव्वा ।

१७९. पंचमण०-त्तिणिवचि० ओघं । णवरि सण्णि त्ति पञ्जत्त त्ति ण
भाणिदव्वं । वचिजो०-असच्च०मोस० ओघं । णवरि पंचि० सण्णि त्ति भाणिदव्वं ।
कायजोगि० ओघं ।

१८०. ओरालि० ओघं । णवरि दुगदि० तिरिक्ख० मणुस० । मणुसाउ०
मिच्छादि० उ०जो० । मणुसगदिदडए पर०-उस्सा०-पञ्ज०-थिर-सुभ० पणुवीसदि-
णामाए सह सत्तविध० उ०जो० । चहुसंठा०-पंचसंघ० उ० प०वं० क० ? अण्ण०
एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । ओरालियमि० पंचणा०-दोवेदणी०-
उच्चा०-पंचत्त० उ० प०वं० क० ? अण्ण० पंचि० सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सत्त-

विहायोगति, त्रसादि चार, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी जनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार तीर्थङ्कर नामकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामित्व भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त उक्त देव तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

१७८. पञ्चेन्द्रियद्विकमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संज्ञी ऐसा कहना चाहिए । त्रस और त्रसपर्याप्तकोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी स्वामी है ऐसा कहना चाहिए ।

१७९. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संज्ञी और पर्याप्त ऐसा नहीं कहना चाहिए । वचनयोगी और असत्यमृषावचन-योगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संज्ञी पंचेन्द्रिय कहना चाहिये । काययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

१८०. औदारिककाययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्च और मनुष्य इन दो गतियोंके जीवोंको स्वामी कहना चाहिये । मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट योगवाला मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है । मनुष्यगतदण्डक, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर और शुभके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी पचीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । चार संस्थान और पाँच संहननके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी जनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर जीव, उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके

विध० उ०जो० से काले सररीपञ्जतीहि जाहिदि ति । थीण०३-मिच्छ०-अर्णताणु०४-
इत्थि०-णवुंस०-णीचा० उ० प०वं० क० ? अण्णदर० सण्णि० मिच्छादि० उवरि
णाणा०भंगो । छदंसणा०-वारसक०-सत्तणोको उ० प०वं० क० ? अण्ण० सम्मा०
णाणा०भंगो । दोआउ० उ० प०वं० क० ? अण्ण० पंचिं० सण्णि० मिच्छा०
अट्टविध० उ०जो० । तिरिक्खगदिदंडओ मणुस०-चदुसंठा०-पंचसंघ०दंडओ ओरालिय-
कायजोगिभंगो । णवरि जसगिति० मणुसगदिदंडए भाणिदव्वं । आलाओ [अप-
सत्थवि० दुस्सर०] णवुंसगभंगो । देवग०-वेउव्वि०-ससचदु०-वेउव्वि०अंगो-देवाणु०-
पसत्थवि०-सुभग०-सुस्सर-आदे० उ० प०वं० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० वा
सम्मा० अट्टावीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० से काले सररीपञ्जतीहि गाहिदि
ति । आदाउजो० उ० प०वं० क० ? अण्ण० दुगदि० पंचिं० सण्णि० मिच्छा०
छन्वीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । उवरि णाणा०भंगो । तिथि० उ० प०वं०
क० ? अण्ण० मणुस० सम्मा० एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । उवरि
णाणा०भंगो ।

उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट
योगसे युक्त अन्यतर पंचेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जो कि अनन्तर समयमें
शरीर पर्याप्ति पूर्ण करेगा वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । स्थानगृद्धि
तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका
स्वामी कौन है ? अन्यतर संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है । यहाँ आगेके विशेषण ज्ञाना-
के समान जानने चाहिये । छह दर्शनावरण, बारह कपाय और सात नोकषायोंके उत्कृष्ट
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । शेष विशेषण ज्ञानावरणके
समान हैं । दो आयुओंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध
करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव दो आयुओंके उत्कृष्ट
प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीर्थञ्जगतिदण्डक, मनुष्यगतिदण्डक, चार संस्थान और पाँच संहनन-
दण्डकका भङ्ग औदारिककाययोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिको
मनुष्यगतिदण्डकमें कहना चाहिये । आलाप तथा अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका भङ्ग
नपुंसकवेदके समान है । देवगति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग,
देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और ध्यादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी
कौन है ? नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और
उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीर्थञ्ज और मनुष्य सम्यग्दृष्टि जो अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्ति को
पूर्ण करेगा वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आतप और उद्योतके उत्कृष्ट
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी छन्वीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका
बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि
जीव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इससे आगे ज्ञानावरणके समान
भङ्ग है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनवीस प्रकृतियोंके
साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य
सम्यग्दृष्टि तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । ऊपर ज्ञानावरणके समान भङ्ग है ।

१. आ० प्रती क० ? पंचिं० इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः पसत्थवि० पंचिं० सुभग इति पाठः ।

१८१. वेउन्वियका० पंचणा०-सादासाद०-उच्चा०-पंचंत० उ० प०वं० क० ?
 अण्ण० देवस्स वा णेरइयस्स वा सम्मा० मिच्छा० सव्वाहि पज्जतीहि० सत्तविध०
 उ०जो० । एवं थीणगिद्धिदंडओ । णवरि मिच्छा० भाणिदव्वं । छदंसणा०-नारसक०-
 सत्तणोक०दंडओ सम्मादि० भाणिदव्वं । तिरिक्खाउ० उ० प०वं० क० ? अण्ण०
 देवस्स वा णेरइयस्स वा मिच्छादि० अट्टविध० उ०जो० । मणुसाउ० उ०
 प० क० ? अण्ण० देव० णेरइयस्स वा सम्मा० मिच्छा० अट्टविध० उ०जो० ।
 तिरिक्खादिदंडओ देवोघं । देवग० मिच्छा० । मणुसग०-पंचि०-समचदु०-ओरा०
 अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु०-पसस्थवि०-तस०-[सुभग०-] सुस्सर-आदे० उ० प०वं०
 क० ? अण्ण० देव० णेर० सम्मा० मिच्छा० एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध०
 उ०जो० । चदुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसस्थवि०-दुस्सर० उ० प०वं० क० ? अण्ण०
 देव० णेरइ० मिच्छादिद्विस्स एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । आदा-
 उजो० उ० प०वं० क० ? अण्ण० देव० मिच्छा० छव्वीसदि० सह सत्तविध०
 उ०जो० । तित्थ० उ० प०वं० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० सम्मा० तीसदि-

१८१. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार स्थानगृद्धिदण्डकके विषयमें जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इनका उत्कृष्ट स्वामित्व मिथ्यादृष्टिके कहना चाहिये। छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषाय दण्डकका उत्कृष्ट स्वामित्व सम्यग्दृष्टिके कहना चाहिये। तिर्यञ्जायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी तिर्यञ्जायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव और नारकी मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्जातिदण्डकका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। मिथ्यादृष्टि देव उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके स्वामी हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर और आदिभके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी हैं। चार संस्थान, पाँच सहनन, अप्रशस्त विद्यायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी हैं। आतप और उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी हैं। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और

गामाए सह सत्तविध० उ०जो० । एवं वेडव्वियमि० । णवरि से काले सरीरपजत्ती गाहिदि त्ति ।

१८२. आहारका० पंचणा०-छदंसणा०-दोवेदणी०-चदुसंज०-सत्तणोक०-उच्चा०-पंचंत० उ० प०वं० क० ? अण्ण० सत्तविध० उ०जो० । देवाउ० उ० क० ? अण्ण० अहविध० उ०जो० । देवग० अट्टावीसं पगदीओ उ० प० क० ? अण्ण० अट्टावीसं सह सत्तविध० उ०जो० । तित्थि०^१ उ० प०वं० क० ? अण्ण० एगुण० सह सत्तविध० उ०जो० । एवं आहारमि० । णवरि से काले सरीरपजत्ती गाहिदि त्ति । एवं आउगवं० ।

१८३. कम्मइ० पंचणा०-सादासाद०-उच्चा०-पंचंत० उ० प०वं० क० ? अण्ण० चदुग० सण्णि० मिच्छा० सम्मा० सत्तविध० उ०जो० । थीणमिग्गिद्धिदंडओ छदंसणा०दंडओ उ० प०वं० क० ? अण्ण० मिच्छा० सम्मादि० यथासं० चदुग०

उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार वैकृतिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्ति पूर्ण करेगा उसे उत्कृष्ट स्वामित्व देना चाहिए।

१८२. आहारककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, दो वेदनीय, चार संव्वलन, सात नोकषाय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आहारककाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आहारककाययोगी जीव देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। देवगति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आहारककाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आहारककाययोगी जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो अनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा उसे स्वामित्व देना चाहिए। इसी प्रकार आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कहना चाहिए।

१८३. कर्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका संज्ञी, मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धिदण्डक और छह दर्शनावरणदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी और उत्कृष्ट योगवाला कर्मणकाययोगी क्रमसे अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव स्त्यानगृद्धिदण्डकके तथा सम्यग्दृष्टि जीव छह दर्शनावरण दण्डकके उत्कृष्ट प्रदेश-

१. आ०प्रतौ पंचंत० प० वं० क० ? अण्ण० सत्तविध० उ०जो० । तित्थि० इति पाठः ।

पंचि० सण्णि० उ०जो० । तिरिक्खगदिदंडओ मणुसगदिदंडओ चटुसंठा० चटुसंध०-
दंडओ ओषं । णवरि अप्पसत्थवि०-दुस्सरपविट्ट० । वज्जरि० ओषं । देवगदिदंडओ
दुगदि० सम्मादि० उ०जो० । पर०-उस्ता०-थिर-सुभ-जस० उ० प०वं० क० ?
अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० पणुवीसदि० सह सत्तविध० उ० जो० ।
आदाउज्जो० उ० प०वं० क० ? अण्ण० तिगदि० पंचि० सण्णि० मिच्छा०
छब्बीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । तित्थ० उ० प०वं० क० । अण्ण० मणुस०
सम्मादि० एणुणतीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० ।

१८४. इत्थि-पुरिसेसु पंचणा०-सादासाद०-उच्चा०-पंचत० उ० प०वं० क० ?
अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० सम्मादि० सत्तविध० उ०जो० । थोणगिद्धिदंडओ
तिगदि० सण्णि० मिच्छादि० सत्तविध० उक्क०जोगि० । णिहा-पयला-हस्स-
रदि-अरदि-सोग-भय-दु० उ० प० क० ? अण्ण० तिगदि० सम्मादि० सत्तविध०
उ० जो० । चटुदंस० उ० प०वं० क० ? अण्ण० दंसणावरणीयस्स चटुविध०
उ०जो० । अपच्चक्खा०४-पच्चक्खाणा०४-ओषं । चटुदंसंज० उ० प०वं० क० ?

बन्धका स्वामी है । तिर्यञ्जगतिदण्डक, मनुष्यगतिदण्डक और चार संस्थान व चार संहनन
दण्डकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें अप्रशस्तविहायोगति और
दुःस्वर को प्रविष्ट करके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए । वज्रर्षभनाराचसंहननका भङ्ग ओषके
समान है । देवगतिदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट योगवाला दो गतिका
सम्यग्दृष्टि जीव देवगतिदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । परधात, उच्छ्वास, स्थिर, शुभ
और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंके साथ
सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी
मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आतप और उद्योतके उत्कृष्ट
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी छब्बीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध
करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका पञ्चन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव
उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका
स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला
और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेश-
बन्धका स्वामी है ।

१८४. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय,
उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका
बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि और
सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । रयानगृद्धिदण्डकके उत्कृष्ट
प्रदेशबन्धका स्वामी सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगवाला तीन गतिका
संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव है । निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साके
उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट
योगसे युक्त तीन गतिका सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । चार
दर्शनावरणके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? दर्शनावरणीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध
करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी
है । अपत्याख्यानात्तरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका भङ्ग ओषके समान है । चार

अण्ण० पमत्त० अप्पमत्त० सत्तविध० उ०जो० । पुरिस० उ० प०वं० क० ? अण्ण०
अणियद्वि० मोह० पंचविध० उ०जो० । आउ० ओधं । णिरयगदिदंडओ तिरिक्ख-
गदिदंडओ मणुसगदिदंडओ देवगदिदंडओ ओधं । चदुसंठा०-चदुसंध० उ० प०वं०
क० ? अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० सत्तविध० उ०जो० । आहार०२ ओधं ।
वज्जरि० उ० प०वं० क० ? अण्ण० तिगदि० सम्मादि० मिच्छादि० एगुणतीसदि०
सह सत्तविध० उ०जो० । पर०-उस्सा०-पज्ज०-थिरसुह० उ० प०वं० क० ?
अण्ण० तिगदि० पणुवीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । आदाउज्जो० उ० प०वं०
क० ? अण्ण० तिगदि० छव्वीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । जस० उ० प०वं०
क० ? अण्ण० णामाए एगविध० उ०जो० । तित्थ० उ० प०वं० क० ? अण्ण०
मणुस० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० ।

१८५. णडुंसगे सत्तण्णं क० इत्थिभंगो । गेरइगगदि-मणुसगदि-तिरिक्खगदि-
दंडओ ओधं । देवगदिदंडओ च । पर०-उस्सा०-पज्ज०-थिरसुभ० दुगदियस्स चि

संवलनके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला और
उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेश-
वन्धका स्वामी है । पुरुषवेदके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? मोहनीय कर्मकी पाँच
प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर अनिर्वृत्तिकरण जीव पुरुषवेदके
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मका भङ्ग ओषके समान है । नरकगतिचतुष्कदण्डक,
तिर्यञ्चगतिदण्डक, मनुष्यगतिदण्डक और देवगतिदण्डकका भङ्ग ओषके समान है । चार
संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध
करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संहनी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । आहारकद्विकका भङ्ग ओषके समान है । वज्रर्षभनाराचसंहननके
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका
वन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव
उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । परधात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर और शुभके
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मको पच्चीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका
वन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
प्रदेशवन्धका स्वामी है । आतप और उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मको
छव्वीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त
अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । यशःकीर्तिके
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है । नामकर्मकी एक प्रकृतिका वन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट
योगसे युक्त अन्यतर जीव यशःकीर्तिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट
प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका
वन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य उक्त प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका
स्वामी है ।

१८६. नपुंसकोमे सात कर्मोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । नरकगतिदण्डक,
मनुष्यगतिदण्डक और तिर्यञ्चगतिदण्डकका भङ्ग ओषके समान है । तथा देवगतिदण्डक ओषके
समान है । परधात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर और शुभ इनके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दो
१४

भाण्डिद्वं । आदाउजो० दुगदि० मिच्छा० । सेसं इत्थिभंगो । अवगद० सत्तणं क० ओघभंगो ।

१८६. कोध०३ सत्तण क० इत्थिभंगो । णवरि चदुगदियो त्ति भाण्डिद्वं । कोधसंज० मोह० चदुविध० माणे मोह० तिविध० मायाए दुविध० । सेसं ओघ-भंगो । लोमे० ओघं ।

१८७. मदि०—सुद० पंचणा०—णवदंसणा०—दोवेदणीय—मिच्छ०—सोलसक०—णवणो०—दोगोद०—पंचंत० उ० प०बं० क० ? अण्ण० चदुगदि० पंचिं० सण्णि० सव्वाहि पज्ज० सत्तविध० उ०जो० । णिरय०—देवाउ० उ० प०बं० क० ? अण्ण० दुगदि० सण्णि० अट्टविध० उ०जो० । तिरिक्ख-मणुसाउ० उ० प० क० ? अण्ण० चदुगदि० पंचिं० सण्णि० अट्टविध० उ०जो० । दोगदि०—वेउच्चि०—समचदु०—वेउच्चि० अंगो०—दोआणु०—दोविहा०—सुभग-दोसर-आदे० उ० प० क० ? अण्ण० दुगदि० अट्टावीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । वज्जरि० उ० प० क० ? अण्ण० चदुगदि० पंचिं० सण्णि० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । सेसाणं पगदीणं ओघं । एवं

गतिके जीवको कहना चाहिए । आतप और उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी दो गतिका मिथ्यादृष्टि जीव है । शेष भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है ।

१८६. क्रोध आदि तीन कषायोंमें सात कर्मोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि चार गतिका जीव स्वामी है ऐसा कहना चाहिए । तथा मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला क्रोध संज्वलनके, मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला मानसंज्वलनके तथा मोहनीयकी दो प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला मायासंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । शेष भङ्ग ओषके समान है । लोभकषायमें ओषके समान भङ्ग है ।

१८७. मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पंचेन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । नरकायु और देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका संज्ञी जीव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पंचेन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त दो आयुओंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । दो गति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । वज्रर्षभनाराचसंहननके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मको उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पंचेन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार अभव्य, मिथ्यादृष्टि

अन्भव०-मिच्छा० । विभंग० मदि०भंगो । णवरि सण्णि त्ति ण भाणिदव्वं ।

१८८. आमिणि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंसणा०दंडओ ओवं । णिहा-पयला-असाद०-छण्णोक० उ० प० क० ? अण्ण० चदुगदि० सम्मा० सव्वाहि० सत्तविध० उ०जो० । अपच्चक्खा०४-पच्चक्खा०४-चदुसंजल०-पुरिस० ओधभंगो । मणुसाउ० उ० प० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० अट्टविध० उ०जो० । देवाउ० उ० प० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० अट्टविध० उ०जो० । मणुसगदिपंचगस्स उ० प० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । देवगदि-पंचि०-वेउळ्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउ०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अणु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरादि-तिण्णियु०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० उ० प० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० अट्टावीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । णवरि जस० ओघं । आहार०२-तित्थ० ओघं । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खइग०-उवसम० । मणपज्ज०-संज०-सामा०-छेदो०-परिहार०-संजदासंज० ओधिभंगो । णवरि अप्पपणो पगदीओ णादव्वाओ । सुहुमसंप० ओघं ।

जीवोंमें जानना चाहिये । तथा विभङ्गज्ञानी जीवोंमें मत्पज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनके स्वामित्वका कथन करते समय संज्ञो ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

१८८. अभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण और चार दर्शनावरणदण्डकका भङ्ग ओषके समान है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय और छह नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । अपत्याख्यानावरणचतुष्क, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार संखलन और पुस्ववेदका भङ्ग ओषके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव और नारकी मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर-तिर्यञ्च और मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवगति, पञ्चन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायो-गति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध का स्वामी कौन है ? नामकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने-वाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका भङ्ग ओषके समान है । आहारकाद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक-सम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक-संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियों जानना चाहिए । सूक्ष्मसाम्पराय-संयत जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है ।

१८९. असंजदसु पंचणा०पदमदंडओ चदुगदि० पंचि० सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उ०जो० । थीणगिद्धिदंडओ चदुगदि० पंचि० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पञ्ज० उ०जो० । छदंस०दंडओ चदुगदि० सम्मादि० उ०जो० । सेसाणं पगदीणं ओधं । चक्खुदंसं तसपञ्जत्तभंगो । अचक्खु० ओधं ।

१९०. किण्ण-णील-काउ० पंचणा०सादासाद०-उच्चा०-पंचंत० उ० प० क० ? अण्ण० तिगदि० सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उ०जो० । थीणगिद्धिदंडओ अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० सत्तविध० उ०जो० । छदंस०दंडओ तिगदि० सम्मा० सव्वाहि पञ्ज० सत्तविध० उ०जो० । गिरयाउ० उ० प० क० ? अण्ण० दुगदि० सण्णि० मिच्छा० अट्टविध० उ०जो० । तिरिक्खाउ० उ० प० क० ? अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पञ्ज० अट्टविध० उ०जो० । मणुसाउ० उ० प० क० ? अण्ण० तिगदि० सम्मा० मिच्छा० अट्टविध० उ०जो० । देवाउ० उ० प० क० ? अण्ण० दुगदि० सम्मा० मिच्छा० अट्टविध० उ०जो० । गिरयचदुदंडओ तिरिक्खगदिदंडओ मणुसगदिदंडओ देवगदिदंडओ संठाणदंडओ वज्जरिसभ-

१८९. असंयतोंमें पाँच ज्ञानावरण प्रथम दण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव है । स्थानगुद्धिदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव है । छद्म दर्शनावरणदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि जीव है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें ब्रह्म पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है ।

१९०. कृष्ण, नील और कापोतलेख्यामें पाँच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव एक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । स्थानगुद्धिदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव है । छद्म दर्शनावरणदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दृष्टि जीव है । नरकायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । नरकगतितुष्कदण्डक, तिर्यञ्चगतितुष्कदण्डक, मनुष्यगतितुष्कदण्डक, देवगतितुष्कदण्डक, संस्थानदण्डक, वज्रभ्रमनाराचसंहननदण्डक और परघातव

दंडओ परयाद-उजोवदंडओ णवुंसगभंगो । णवरि जस० थिरभंगो' । तित्थ ओधं ।

१९१. तेउ० पंचणा०-दोवेदणी०-उच्चा०-पंचंत० उ० प० क० ? अण्ण० तिगदि० सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उ०जो० । धीणणि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि० उ० प० क० ? अण्ण० तिगदि० मिच्छा० सत्तविध० उ०जो० । छदंस०-सत्तणोक्क० उ० प० क० ? अण्ण० तिगदि० सम्मा० सत्तविध० उ०जो० । अपच्च-क्खण०४ तिगदि० असंज० । पच्चक्खण०४ ओधं । चदुसंज० उ० प० क० ? अण्ण० पमत्त० अप्पमत्त० सत्तविध० उ०जो० । णवुंस०-णीचा० उ० प० क० ? अण्ण० देव० मिच्छा० सत्तविध० उ०जो० । तिरिक्खण० उ० प० क० ? अण्ण० देवस्स मिच्छा० अट्ठविध० उ०जो० । मणुसाउ० उ० प० क० ? अण्ण० मिच्छा० सम्मा० अट्ठविध० उ०जो० । देवाउ० उ० प० क० ? अण्ण० दुगदि० सम्मा० अट्ठविध० उ०जो० । तिरिक्खगदिदंडओ आदाउजो० सोधम्मभंगो । मणुस०-ओरा०-

उद्योत दण्डकका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका भङ्ग स्थिर प्रकृतिके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है ।

१९१. पीतलेश्यानें पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । स्थानगुह्यत्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धोत्तुष्क और खीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । छह दर्शनावरण और सात नोकषायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण चारके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी तीन गतिका असंयत सम्यग्दृष्टि जीव है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ओधके समान है । चार संवत्सरेके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । नपुंसकवेद और नीचगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीर्थञ्जायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव तीर्थञ्जायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका सम्यग्दृष्टि जीव देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीर्थञ्जगतिदण्डक और आतप उद्योतका भङ्ग तीर्थर्षे कल्पके समान है । मनुष्यगति, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और

अंगो०-वज्ररि०-मणुसाणु० उ० प० क० ? अण्ण० देव० सम्मा० मिच्छा० एगुण-
 तीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । देवग०^१-पंचि०-वेउच्चि०-समचदु०-वेउच्चि०-
 अंगो०-देवाणु०-पसत्थवि०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे० उक्कस्स० प० कस्स ? अण्ण०
 दुगदि० सम्मादिट्ठि० मिच्छादिट्ठि० अट्ठावीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० ।
 आहार०२-तित्थ० ओधं । चदुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उ० प०
 क० ? अण्ण० देव० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । एवं पम्माए ।
 णवरि इत्थि०-णडुंस०-णीचा० देवस्स मिच्छादिट्ठि० उ०जो० । तिरिक्ख-पंचसंठा०-
 पंचसंघ^२०-तिरिक्खाणु०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० देव० मिच्छा० एगुण-
 तीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । मणुसगदिणामाए उ० प० क० ? अण्ण० देवस्स
 सम्मा० मिच्छा० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । देवग०-पंचिदि०-वेउच्चि०-
 तेजा०-क०-समचदु०-वेउच्चि०-अंगो०-वण्ण००४-देवाणु०-अगु००४-पसत्थवि०-तस००४-
 थिरादितिण्णियु०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० उ० प० क० ? अण्ण० दुगदि०

मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवगति, पञ्चेन्द्रिय-जाति, बौद्धिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, बौद्धिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर और आदेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नाम-कर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आहारकादिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है । चार सस्थान, पाँच सहनन, अप्रशस्त विद्यायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पद्म-लेत्र्यामें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी उत्कृष्ट योगवाला मिथ्यादृष्टि देव है । त्रियेञ्जगति, पाँच सस्थान, पाँच सहनन, त्रियेञ्जगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विद्यायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव है । मनुष्यगति नामकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव मनुष्यगतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, बौद्धिकशरीर, तैजसशरीर, कामिणशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, बौद्धिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायो-गति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणके उत्कृष्ट प्रदेश-बन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध

१. ता०आ० प्रत्योः उ०जो० । णिमि० देवग० इति पाठः ।

२. ता०प्रतौ तिरिक्ख० पंचसंघ० इति पाठः ।

सम्मा० मिच्छा० अट्ठावीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०जो० । आहार०२-तित्थ० ओघं । उज्जो० देव० तीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० ।

१९२. सुक्काए पंचणा०-[चदु०-] दंसणा०दंडओ ओघं । थीणगि०३-मिच्छ० अणंताणु०४ तिगदि० मिच्छा० सत्तविध० उ०जो० । णिहा-पयला-छण्णोक्क० उ० प० क० ? अण्ण० तिगदि० सम्मा० सत्तविध० उ०जो० । असाददंडओ तिगदि० सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उ०जो० । अपच्चक्खणाण०४-पच्चक्खणाण०४-चदुसंज०-पुरिसं ओघं । मणुसाउ० देवस्स सम्मा० मिच्छा० अट्ठविध० उ०जो० । देवाउ० दुगदि० सम्मा० मिच्छा० अट्ठविध० उ०जो० । मणुसगादिपंचग०^१ उ० प० क० ? अण्ण० देव० सम्मा० मिच्छा० वा एगुणतीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । देवगदि-पंचिं०-वेउत्वि०-तेजइगादिदंडओ पम्माए भंगो । णवरि जस० ओघं । आहार०२-तित्थ० ओघं । पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादे० उ० प० क० ? अण्ण०

करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

१९२. शुक्कलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरणदण्डक ओघके समान है । स्त्यान-गृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी सात प्रकार कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव है । निद्रा, प्रचला और छह नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । असातावेदनीयदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीव है । अप्रत्याख्यानानावरणचतुष्क, प्रत्याख्यानानावरणचतुष्क, चार संवत्सन और पुरुषवेदका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव है । देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त दो गतिका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंसे साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैकिकिकशरीर और तैजसशरीर आदि दण्डकका भङ्ग पद्मलेश्याके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका भङ्ग ओघके समान है । आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धको स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका

१. ता०प्रती मणुसाउ० देवस्स० सम्मा० मिच्छा० अट्ठविध० उ०जो० । मणुसगादिपंचग० इति पाठः ।

मिच्छादि० आणदभंगो । इत्थि०-पुरिस०-णीचा० पम्मभंगो । भवसिद्धिया० ओषं ।

१९३ वेदगे.पंचणा०-छर्दंस०-सादासाद०-सत्तणोक्क०-उच्चा०-पंचंत० उ० प० क० ? अण्ण० चदुगदि० सत्तविध० उ०जो० । अपच्चक्खाण०४-पच्चक्खाण०४ ओषं । चदुसंज० पसत्त० अप्पमत्त० सत्तविध० उ०जो० । सेसा० ओधिभंगो । जस० थिरभंगो ।

१९४. सासण० छण्णं क० चदुगदि० उ०जो० । दो आउ० चदुग० अट्टविध० उ०जो० । देवाउ० दुगदि० अट्टविध० उ०जो० । दोगदि०-ओरा०-चदुसंठा०-ओरा०-अंगो०-पंचसंध०-दोआणु०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० क० ? अण्ण० चदुग० ऊणत्तीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । देवग०-पंचि०-वेउ०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउ०-अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-जस०४-थिरादितिणियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० उ० प० क० ? अण्ण०-दुगदि० अट्टावीसदि० सह सत्तविध०

स्वामी है जिसका भङ्ग आनतकल्पके समान है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नीचगोत्रका भङ्ग पदाछेदयके समान है। भव्यामे ओषके समान भङ्ग है।

१९३. वेदकसम्यग्दष्टि जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असाता-वेदनीय, सात नोकषाय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और प्रत्यख्यानावरण चतुष्कका भङ्ग ओषके समान है। चार संज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त संयत जीव है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। यज्ञःकीर्तिका भङ्ग स्थिरप्रकृतिके समान है।

१९४. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमें छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी उत्कृष्ट योगवाला चार गतिका जीव है। दो आयुओंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त चार गतिका जीव है। देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त दो गतिका जीव है। दो गति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट

उ०जो० । उज्जोव० उ० प० क० ? अण्ण० चहुगदि० तीसदिणामाए सह सच्चविध० उ०जो० ।

१९५. सम्मामिच्छा० लुण्णां क० उ० प० क० ? अण्ण० चहुगदि० सच्चविध० उ०जो० । मणुसगदिपंचग० देव० गेरइ० एगुणतीसदि० सह सच्चविध० उ०जो० । सेसं दुगदि० अट्ठावीसदि० सह सच्चविध० उ०जो० ।

१९६. सण्णी० ओघं । णवरि थीणग्गिद्धिदंडओ अण्ण० चहुगदि० मिच्छादि० पञ्चत्त० सच्चविध० उ०जो० । एवं सन्वारणं । असण्णीसु पंचणा०दंडओ उ० प० क० ? अण्ण० पंचिं सन्वाहिं सच्चविध० उ०जो० । एवं सन्वारणं । आहारा० ओघं । अणाहारा० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्कस्ससामिच्चं समत्तं ।

१९७. जह० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०णवदंसणा०-दोवेदणी०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक्क०-णीचुच्चागो०-पंचत्त० ज० प० क० ? अण्ण० सुहुमणिगोदजीवअपञ्चत्तगस्स^१ पढमसभयतमभवत्थस्स जहण्णजोगिस्स जहण्णए

प्रदेशबन्धका स्वामी है । उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

१९५. सन्धमिध्याहृष्टि जीवोंमें छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी नामकर्मकी जननीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव और नारकी है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी नामकर्मकी अट्ठारह प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त दो गतिका जीव है ।

१९६. संज्ञी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्थानगृद्धि दण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पर्याप्त मिथ्याहृष्टि जीव है । इसी प्रकार सत्र कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए । असंज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर पञ्चेन्द्रिय जीव उक्त दण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार सत्र कर्मोंका उत्कृष्ट स्वामित्व समझना चाहिए । आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अनाहारकोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

१९७. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनोय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, नीचगोत्र, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य योगसे युक्त और जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ

१. आ०प्रतौ -णिगोदभपञ्चत्तगस्स इति पाठः ।

पदेसबंधे वड्डमाणगस्स । गिरय-देवाऊणं ज० प० वं० क० ? अण्ण० असण्णि० पंचिं०
घोडमाणगस्स अट्टविधवं० जह०जो० ज० प० वं० वड्ड० । तिरिक्खाउ०-मणुसाउ० ज०
प० क० ? सुहुमणिगोदजीवअपज्ज० खुद्दामवग्गहणतदियतिभागस्स पढमसमए^१
आउगवंधमाणस्स जह०जो० । गिरयग०-गिरयाणु० ज० प० क० ? अण्ण० असण्णि०
पंचिं० घोडमाण० अट्टावीसदि० सह अट्टविध^२० ज०जो० । तिरिक्ख०-चटुजादि-
ओरा०-त्तेजा०-क०-छस्संठा०-ओरा०-अंगो०-छस्संघ०-वण्ण००४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-
उज्जोव-दोविहायगदि-तस०४-थिरादिछयुग०-णिमि० ज० प० क० ? अण्ण० सुहुम-
णिगो०अपज्ज० पढमसमयआहारगस्स पढमसमयतत्त्ववत्थस्स तीसदिणामए सह सत्त-
विध० ज०जो० । मणुसग०-मणुसाणु० ज० प० क० ? अण्ण० सुहुमणि० अपज्ज०
पढमस०तत्त्ववत्थ० एगुणतीसदि० सह सत्तवि० ज०जो० । देवग०-वेउ०-वेउ०अंगो०-
देवाणु० ज० प० क० ? अण्ण० मणुस० असंज० पढमस०तत्त्वव० एगुणतीसदि०
सह सत्तविध० ज०जो० । एइदि०-आदाव-थावर० ज० प० क० ? अण्ण० सुहुमणि०

सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।
नरकायु और देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध
करनेवाला, जघन्य योगसे युक्त और जघन्य प्रदेशबन्धमें अवस्थित अन्यतर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय
घोटकमान जीव उक्त दो आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? भुल्लकभवग्रहणके तृतीय भागके पहले समयमें आयु
कर्मका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव उक्त दो
आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विके जघन्य प्रदेश-
बन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध
करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय घोटकमान जीव उक्त प्रकृतियों
के जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, चार जाति, औदारिकशरीर, वैजसशरीर,
कार्मणशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानु-
पूर्वी, अगुरुल्लयुचतुष्क, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह युगल और
निर्माणके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके
कर्मोंका बन्ध करनेवाला, जघन्य योगसे युक्त, प्रथम समयवर्ती आहारक और प्रथम समयवर्ती
तद्भवस्थ अन्यतर सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी
है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्विके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी
उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त
प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ अन्यतर सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य
प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर अङ्गोपाङ्ग और देव-
गत्यानुपूर्विके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके
साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त प्रथम समयवर्ती
तद्भवस्थ अन्यतर असयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।
एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी

पढमस०तम्भव० छन्वीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । आहार०२ ज० प० क० ?
अण्ण० अप्पमत्त० एकत्तीसदि० सह अट्टविध० घोडमाण० ज०जो० ।
सुहुम०-अपज्ज०-साधार० ज० प० क० ? अण्ण० सुहुम० अपज्ज० पढमस०तम्भव०
पणुवोसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । तित्थ० ज० प० क० ? अण्ण० देव० णेरह०
पढमस०तम्भव० तीसदि० सह सत्तविध० ज०जो०^१ ।

१९८. णेरहएसु पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेदणी०-मिच्छ०-सोसकसा०-णवणोको-
दोगोद०-पंचंत० ज० प० क० ? अण्ण० असण्णिपच्छागदस्स पढमस०तम्भव०
जह०जो० । तिरिक्खाउ० ज० प० क० ? अण्ण० घोडमाण० अट्टविध० ज०जो० ।
मणुसाउ० ज० प० क० ? अण्ण० मिच्छा० सम्मा० अट्टविध० घोडमाण० ज०जो० ।
तिरिक्ख०-पंचि०-तिण्णिसरीर-छस्संठा०-ओरा०-अंगो०-छस्संघ०-अण्ण०४-तिरिक्खाणु०-
अगु०४-उजो०-दोविहा०-तस४-थिरादिज्जुगु०^२-णिमि० ज० प० क० ? अण्ण०
असण्णिपच्छा० पढमस०आहार० पढम०तम्भव० तीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० ।

छन्वीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मको इकतीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और घोटकमान जघन्य योगसे युक्त अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त दो प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मको पच्चीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ अन्यतर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण जीव उक्त तीन प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्करप्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ अन्यतर देव और नारकी तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

१९८. नारकियोमै पौच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य योगवाला और असंज्ञियोमैसे आकर उत्पन्न हुआ प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ अन्यतर नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोडमान जीव तिर्यञ्चायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और घोडमान योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि और सन्यन्दृष्टि जीव मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्जगाति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगात्यानुपूर्वी, अगुरुल्लुचतुष्क, उद्योत, दो विहायो-गति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह युगल और निर्माणके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? असंज्ञियोमैसे आकर उत्पन्न हुआ प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी तीस

मणुस०-मणुसाणु० तिरिक्खगदिमंगो । णवरि एगुणतीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० ।
 तित्थ० ज० प० क० ? अण्ण० असंजद० पढम०आहार० पढम०तन्भव० तीसदि०
 सह सत्तविध० ज०जो० । एवं पढमाए । विदियाए तदियाए सव्वपगदीर्णं ज० प०
 क० ? अण्ण० मिच्छा० पढम०आहार० पढम०तन्भव० ज०जो० । तित्थ० ज० प०
 क० ? अण्ण० असंज० घोलमा० तीसदि० सह अट्टविध० ज०जो० । आउ०
 णिरयोधं । चउत्थीए पंचमीए छट्ठीए तं चेव । णवरि [तित्थयरं वज्ज० । सत्तमीए एवं
 चेव । णवरि] मणुस०-मणुसाणु० ज० प० क० ? अण्ण० असंज० घोलमा० एगुण-
 तीसदि० सह सत्तवि० जह०जो० । उच्चा० ज० प० क० ? अण्ण० असंज०
 घोलमा० ज०जो०^२ ।

१९९. तिरिक्ख०-एइंदि०-सुहुम०-पज्ज०-अपज्ज०-पुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०
 तेसिं च सुहुमपज्जत्तापज्ज०-वणप्फदि-णिगोद-सुहुमपज्जत्तापज्ज०-कायजोगि०-असंज०^३-

प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्विका भङ्ग तीर्थङ्कगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जघन्य योगसे युक्त जीवके यह स्वामित्व कहना चाहिए । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसीप्रकार पहली पृथ्वीमे जानना चाहिए । दूसरी और तीसरी पृथिवीमे सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथमसमयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि घोलमान जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । चौथी, पाँचवीं और छठी पृथिवीमे वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए । सातवीं पृथिवीमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्विके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि घोलमान जीव उक्त दो प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि जीव उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

१९९. तीर्थञ्च, एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय सूक्ष्म और उनके पर्याप्त अपर्याप्त, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीव तथा उनके सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक और निगोद तथा उनके सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त, काययोगी, असंयत,

१. ता०प्रती बोध० एगुणतीसं० इति पाठः । २. ता०प्रती बोध० ज०जो० इति पाठः ।

३. ता०भा०प्रत्योः काजोगि यद्दु'सं कोधादि ः असंज० इति पाठः ।

अचक्खु० भवसि० आहार० ओघं ।

२००. पंचि० तिरि० पञ्जत्ता० ओघं । णवरि असण्णि० पढम० आहार० पढम० तब्भव० ज० जो० । दोआउ० घोळमाण० अट्टविध० ज० जो० । तिरिक्ख० मणुसाउ० ज० प० क० ? अण्ण० असण्णिअपञ्ज० खुदाभ० तदियतिभागस्स पढमसमयबंधयस्स ज० प० वट्टमा० । देवगदि० ४ ज० प० क० ? अण्ण० असंज० सम्मादि० पढमस० आहार० पढम० तब्भव० अट्टावीसदि० सह सत्त विध० ज० जो० । पञ्जत्तेसु चटुण्णं आउ० ज० प० क० ? अण्ण० असण्णि० घोळमाणस्स^१ अट्टवि० ज० जो० । पंचि० दि० तिरिक्खजोणिणीसु तं चेव । णवरि वेउव्वियछ० ज० प० क० ? अण्ण० असण्णि० घोडमा० अट्टावीसदि०^२ सह अट्टविध० ज० जो० । पंचि० तिरि० अपञ्ज० ओघं । णवरि असण्णिपंचि० दि० यस्स त्ति भाणिदव्वं । एवं सव्व-अपञ्जत्तयाणं । णवरि थावर० अप्पप्पणो जादीसु वादरणिगोदस्स त्ति पढमस० तब्भव० जहण्णजोगिस्स त्ति भाणिदव्वं ।

२०१. मणुसेसु छण्णं ज० प० क० ? अण्ण० असण्णिपच्छागदस्स पढमस०-

अचक्षुदर्शनी, मन्य और आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

२००. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और उनके पर्याप्तकोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंज्ञी जीव जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । दो आयुओंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोळमान जीव है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? क्षुल्लक भवग्रहणके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला और जघन्य प्रदेशवन्धमें अवस्थित अन्यतर असंज्ञी अपर्याप्त जीव उक्त दो आयुओंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी अन्यतर अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । मात्र पर्याप्तकोंमें चार आयुओंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंज्ञी घोळमान तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिक ँहके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंज्ञी घोळमान जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके जघन्य स्वमिश्रव कहना चाहिए । इसी प्रकार सब अपर्याप्तकोमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि स्थावरोंमें अपनी अपनी जातिमें तथा वादर निगोदमें प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगवाले जीवके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए ।

२०१. मनुष्योंमें छह कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? असंज्ञियोंमेंसे आकर उत्पन्न हुआ, प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और

१. ता० प्रतौ घोळमाणस्स इति पाठः । २. आ० प्रतौ अण्ण० अट्टावीसदि० इति पाठः ।

आहार० पदमस०तन्भव० ज०जो० । गिरयाउ० ज० प० क० ? अण्ण० मिच्छा०
 घोलमाण० अट्टवि० ज०जो० । तिरिक्ख०-मणुसाउ० ज० प० क० ? अण्ण०
 अपज्ज० खुदाभ० तदियतिभाग० पदमसमयआउगवंध० ज०जो० । देवाउ० ज० प०
 क० ? अण्ण० मिच्छा० सम्मा० घोलमा० अट्टविध० ज०जो० । गिरयग०-गिरयाणु०
 ओर्धं । असण्णि च्चि [ण] भाणिदव्वं । तिरिक्खगदिदंडओ मणुसगदिदंडओ एहंदिय-
 दंडओ सुहुमदंडओ ओर्धं । णवरि सव्वाणं असण्णिपच्छागदस्स च्चि भाणिदव्वं ।
 देवगदि०४-तित्थ० ज० प० क० ? अण्ण० सम्मादि० पदम०आहार० पदम०-
 तन्भव० एगुणतीसदि० सह० सत्तविध० ज०जो० । आहार०२ ओर्धं । एवं पज्जत्तगाणं
 पि । णवरि तिरिक्ख०-मणुसाउ० ज० प० क० ? अण्ण० मिच्छा० घोल० ज०-
 जो० । देवाउ० सम्मादि० मिच्छादि० घोल० । मणुसिणीसु एवं चैव । णवरि देव-
 गदि०४-आहारदुग-तित्थ० ज० प० क० ? अण्ण० अप्पमत्त० एक्कतीसदि०^२

जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । नरकायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि धोलमान मनुष्य नरकायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? क्षुल्लकभवग्रहणके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे आयुकर्मका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर अपर्याप्त मनुष्य उक्त दो आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि धोलमान मनुष्य देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । नरकगति और नरकगत्यातुपूर्विका भङ्ग ओषके समान है । मात्र असंज्ञी ऐसा नहीं करना चाहिए । तिर्यञ्चगतिदण्डक, मनुष्यगतिदण्डक, एकेन्द्रियजातिदण्डक और सूक्ष्मदण्डकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि इन सबका जघन्य स्वामित्व असंज्ञियोंमेंसे आकर उत्पन्न हुए मनुष्यके कहना चाहिए । देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है । प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्रवस्थ, नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आहारकद्विकका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्तकर्मों जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि धोलमान जघन्य योगवाला जीव उक्त दो आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि धोलमान जीव है । मनुष्यनिधोमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? इकतीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव

१. ता०आ०प्रत्योः मिच्छा० सोलस० अट्टवि० इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः अण्ण० अप्पज्जत्त० एक्कतीसदि० इति पाठः ।

सह अद्वि०^१ ज०जो० । मणुस०अपञ्ज० पंचणा०णवदंसणा०दोवेद०मिच्छ०-
सोलसक०णवणोक०दोगो०पंचंत० ज० प० क० ? अण्ण० असण्णिपच्छागदस्स त्ति
भाणिदव्वं । एवं सव्वपगदीणं । दोआउ० खुहा० ओधं ।

२०२. देवेसु णिरयोधं । णवरि एइंदि०आदाव-थावर० ज०^२ प० क० ? अण्ण०
असण्णिपच्छा० पढम०तभव० छव्वीसदि० सचवि० ज०जो० । एवं भवण०वाण० ।
तित्थ० वज्ज० । जोदिसि० तं चेव । णवरि पढमसमयतभवत्थस्स त्ति भाणिदव्वं ।

२०३. सोधम्मीसाण० पंचणा०दोवेदणी०उच्चा०पंचंत० ज० प० क० ?
अण्ण० सम्मा० मिच्छा० पढम०आहार० पढम०तभव० ज०जो० । णवदंस०-
मिच्छ०-सोलसक०णवणोक०णीचा० ज० प० क० ? अण्ण० मिच्छा० पढम०
ज०जो० । दोआउ० णिरयमंगो । तिरिक्ख०पंचसंठा०पंचसंध०-तिरिक्खाणु०उज्जो०-
अप्पसो^३-दुमग-दुस्सर-अणादे० ज० प० क० ? अण्ण० मिच्छा० पढम० तीसदि० सह

उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्य अपर्याप्तकौमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? असंखियोंमेसे आकर उत्पन्न हुआ अन्यतर मनुष्य अपर्याप्त उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ऐसा यहाँ कहना चाहिए । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका जघन्य स्वामिरव कहना चाहिए । दो आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ओधके समान क्षुत्लक भवग्रहणके तृतीय त्रिभागका प्रथम समयवर्ती जीव है ।

२०२. देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियजाति आतप और स्थावरके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? असंखियोंमेसे आकर उत्पन्न हुआ, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए । किन्तु इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर स्वामित्व कहना चाहिए । ज्योतिषियोंमें वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थके कहना चाहिए ।

२०३. सौधर्म और पेशानकरूपमें पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सन्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय और नौचगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है । तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्मग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नाककर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि

१. ता०जा०प्रत्योः सह सचवि० इति पाठः । २. ता०प्रतौ आदा० याव० ज० इति पाठः ।

३. ता०प्रतौ तिरिक्खाणु० उ०जो० । अप्प० इति पाठः ।

सचविध० ज०जो० । मणुस०२-तित्थ० ज० प० क० ? अण्ण० सम्मादि० पढम० तीसदि० सह सचवि० ज०जो० । [एइंदियदंडओ० जोदिसिभंगो० ।] पंचि०-तिण्णिसरीर-समचदु०-ओरा०अंगो०^१-वज्जरित्त०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-त्तस०४-थिरादितिण्णियु०-सुभग-सुत्सर-आदे०-णिमि० ज० प० क० ? अण्ण० सम्मा० मिच्छा० पढम० तीसदि० सह सचवि० ज०जो० । सणकुमार याव सहस्सार ति एवं चैव । णवरि थावरतिगं वज्ज ।

२०४. आणद याव उवरिमगेवजा ति सहस्सारभंगो । णवरि तिरिक्खाड०-तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-एज्जो० वज्ज । मणुस०-पंचि०-तिण्णिसरीर-समच०-ओरा०-अंगो०^१-वज्जरि०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ०-त्तस०४-थिरादितिण्णियु०-सुभग-सुत्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ० ज० प० क० ? अण्ण० सम्मादि० पढम० तीसदि० सह सचवि० ज०जो० । पंचसंठाणदंडओ ज० प० क० ? अण्ण० मिच्छा० पढमस० एगुणतीसदि० सह सचवि० ज०जो० । अणुदिस याव सवडु चि पंचणा०-

उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिद्विद्धि और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवत्य, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सन्यद्दृष्टि उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रियजातिदृष्टकका भङ्ग ज्योतिष देवोंके जनान है । पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक-शरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुत्वर, आदेय और निर्माणके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवत्य, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सन्यद्दृष्टि और निध्यादृष्टि उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । सनकुमारसे लेकर सहस्वार कल्पकके देवोंके इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्थावरत्रिकको छोड़कर जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए ।

२०४. आनतसे लेकर उपरिन प्रवैयकत्वके देवोंके सहस्वार कल्पके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्गायु, तीर्थश्रगति, तीर्थश्रगत्यानुपूर्वी और उद्योतको छोड़कर जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरस्र-संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरु-लघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुत्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्करके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवत्य, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सन्यद्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । पाँच संस्थानदृष्टकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवत्य नामकर्मकी जनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर निध्यादृष्टि उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । अनुदिशसे

१. ता०प्रती तिण्णिसरी० समक० ओरा०अंगो०, आ०प्रती तिण्णिसरीर सुहुन० ओरा०अंगो० इति पाठः । २. आ०प्रती तिण्णिसरीर ओरा०अंगो० इति पाठः ।

छदंस०-दोवेद०-[वारसक०-सत्तणोक०-] उच्चा०-पंचंत० ज० प० क० ? अण्ण० पढम० ज०जो० । आउ० ज० प० क० ? अण्ण० घोलमाण० अहविध० ज०जो० । मणुसगदिदंडओ आणदसंगो ।

२०५. सब्बवादारणं सब्बाणं ओधं । णवरि अप्पप्यणो जादी भाणिदव्वं । सब्ब-पज्जत्तगाणं दोआउ० घोलमाण० अहविध० ज०जो० । एवं विगल्लिंदियाणं । पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त० ओधं । णवरि असण्णि त्ति भाणिदव्वं । पज्जत्ते^१ आउ० पंचि-तिरि०पज्जत्तसंगो । तस० ओधं । णवरि वेईदियस्स त्ति भाणिदव्वं । एवं पज्जत्तयस्स । दोआउ० असण्णि० घोलमाण० ज०जो० । दोआउ० वेईदिं घोल० । अपज्जत्तगस्स अपज्जत्तसंगो । णवरि वेईदिं पढम० ज०जो० । दोआउ० अपज्ज० वेईदिं भाणिदव्वं ।

२०६. पंचमण०-तिण्णवचि० पंचणा०-सादासाद०-उच्चा०-पंचंत० ज० प० क० ? अण्ण० चटुग० सम्मा० मिच्छा० घोलमा० अहविध० ज०जो० । णवदंस०-

लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, दो वेदनीय, वारह कषाय, नौ नोकषाय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर जीव स्वामी है । आयुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव आयुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिदण्डकका भङ्ग आनत कल्पके समान है ।

२०५. सब वादरोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी जाति कहनी चाहिये । सब पर्याप्तकोंमें दो आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव है । इसी प्रकार विकलेन्द्रियोंमें जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें असंज्ञी जीव जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । पर्याप्तकोंमें आयुकर्मका भङ्ग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंके समान है । त्रसोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी द्वीन्द्रिय जीव है ऐसा कहना चाहिए । इसी प्रकार त्रस पर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । मात्र दो आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी घोलमान जघन्य योगवाला असंज्ञी जीव है । तथा अन्य दो आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी घोलमान द्वीन्द्रिय जीव है । इनके अपर्याप्तकोंमें अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगसे युक्त द्वीन्द्रिय जीव जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । दो आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी अपर्याप्त द्वीन्द्रिय जीवको कहना चाहिए ।

२०६. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि घोलमान जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । नौ दर्शना-

मिच्छा०-सोलसक०-णवणो०-णीचा० ज० प० क० ? अण्ण० चदुगदि० मिच्छा०
घोल० अट्टविध० ज०जो० । गिरयाउ० ज० प० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस०
मिच्छा० घोलमा० अट्टविध० ज०जो० । तिरिक्खाउ० ज० प० क० ? अण्ण०
चदुग० मिच्छा० अट्टविध० ज०जो० । मणुसाउ० ज० प० क० ? अण्ण० चदुग०
सम्मा० मिच्छा० अट्टविध० ज०जो० । देवाउ० ज० प० क० ? अण्ण० दुगदियस्स
सम्मा० मिच्छा० घोल० अट्टविध० ज०जो० । गिरयगदिदुगं ज० प० क० ?
अण्ण० दुगदि० घोल० अट्टावीसदि० सह अट्टविध० ज०जो० । तिरिक्ख०-पंचसंठा०-
पंचसंध०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादे० ज० प० क० ? अण्ण०
चदुगदि० घोल० तीसदि० सह अट्टविध० ज०जो० । मणुसगदिदुग०-तित्थ० ज० प०
क० ? अण्ण० देव० णेरह० सम्मा० तीसदि० सह अट्टविध० ज०जो० । देवगदिदुगं
ज० प० क० ? अण्ण० मणुसस्स सम्मा० एगुणतीसदि० सह अट्टविध० ज०जो० ।
एइदि०-आदाव-थाव० ज० प० क० ? अण्ण० तिगदि० छव्वीसदि० सह अट्टविध०

करण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नी नोकपाय और नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि घोलमान जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । नरकायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य मिथ्यादृष्टि घोलमान जीव उक्त प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यञ्चायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव मनुष्यायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि घोलमान जीव देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । नरकगतिद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका घोलमान जीव उक्त दो प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, पंच संस्थान, पंच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःखर और अनादेयके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोलमान जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिद्विक और तीर्थङ्कर-प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवगतिद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि मनुष्य देवगतिद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रिजगति, आतप और स्वावरके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त

ज०जो० । तिण्णिजादि० ज० प० क० ? अण्ण० दुग्गदि० तीसदि० सह अट्ठविध० ज०जो० । पँचि०ओरा०समचट्ठ०ओरा०अंगो०वज्जरी०वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादितिण्णियु०सुभग०सुस्सर०आदे०णिमि० ज० प० क० ? अण्ण० चट्ठग० सम्मा० मिच्छा० तीसदि० सह अट्ठविध० घोल० ज०जो० । वेउव्वि०-आहार०तेजा०क०-दोअंगो० ज० प० क० ? अण्ण० अप्पमत्त० एकत्तीसदि० सह अट्ठवि० घोल० ज०जो० । सुहुम०अपज्ज०साधार० ज० प० क० ? अण्ण० दुग्गदि० पणुवीसदि० सह अट्ठविध० ज०जो० ।

२०७. वचिजो०असच्चमोस० पंचणा०णवदंस०दोवेद०मिच्छ०सोलसक०-णवणोक्क०दोमो०पंचंत० ज० प० क० ? अण्ण० वेहंदि० अट्ठविध० घोल० ज०जो० । सेसाणं दंडगणं णाणावरणमंगो । णवरि वेउव्विपल्लं जोणिणि०मंगो । दोआउ०-आहारदुगं ओर्ध । तित्थ० ज० प० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० तीसदि० सह अट्ठविध० ज०जो० ।

अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीन जातिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, समचतुरस्रस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदिय और निर्माणके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला और घोलमान जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर और दो आज्ञोपाङ्गके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी इकतीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और घोलमान जघन्य योगसे युक्त अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधोरणके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

२०८. वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और घोलमान जघन्य योगसे युक्त अन्यतर द्वीन्द्रिय जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । शेष दृण्डकोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकषट्कका भङ्ग योनिनी जीवोंके समान है । आयुचतुष्क और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

१. ता०प्रतौ-तिण्णियु० सुभग-सुभग० इति पाठः । २. ता०प्रतौ आहार० २ तेनाक०, आ०प्रतौ आहारदुगं तेजाक० इति पाठः । ३. आ०प्रतौ जोणिणिमंगो । आउ० इति पाठः ।

२०८. ओरालिंका० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणो०-दो] गोद०-पंचंत० ज० प० क० ? अण्ण० सुहुमणिगोदजीवस्स पढमसमय-सरीरपञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदस्स ज०जो० सत्तविध० । णिरय०-देवाउ० ओघं । तिरिक्ख-मणुसाउ० ज० प० क० ? अण्ण० सुहुमणिगोद० अट्टविध० ज०जो० । णिरय०-णिरयाणु० ओघं । देवगदिपंचग० ज० प० क० ? अण्ण० मणुस० असंज० पढमसमय-सरीरपञ्जत्तीहि पञ्ज० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । सेसाणं दंडगादीणं णाणा०भंगो । ओरालियमि० ओघं । णवरि देवगदिपंचग० ज० प० क० ? अण्ण० मणुस० सम्मा० पढम०तवभव० ज०जो० एगुणतीसदि० सह सत्तवि० ।

२०९. वेउच्चियका० पंचणा०-सादासाद०-उच्चा०-पंचत० ज० प० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० सम्मा० मिच्छा० पढमसमयसरीर^१पञ्जत्तीए पञ्जत्तगदस्स ज०जो० । णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणो०-णीचा० ज० प० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छा० पढमसमयपञ्ज^२ ज०जो० । तिरिक्खाउ० ज० प० क० ? अण्ण० देव०

२०८. औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनिय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयमें शरीरपर्याप्तिसे पर्याप्त हुआ, जघन्य योगसे युक्त और सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। नरकायु और देवायुका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव उक्त दो आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विका भङ्ग ओघके समान है। देवगतिपञ्चकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयमें शरीरपर्याप्तिसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य असंयतसम्बन्धदृष्टि उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। शेष दण्डक आदिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्ववस्थ, जघन्य योगसे युक्त और नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर असंयतसम्बन्धदृष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है।

२०९. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हुआ और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्बन्धदृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव व नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती पर्याप्त और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध

१. ता०आ०प्रत्योः पढमसमयतवभवसरीर- हृति पाठः । २. ता०प्रती पढमसरीर (समय) पञ्ज० हृति पाठः ।

गोरह० मिच्छा० घोल० अट्टविध० ज०जो० । मणुसाउ० ज० प० क० ? अण्ण० देव० गोरह० सम्मा० मिच्छा० घोल० अट्टविध० ज०जो० । तिखिक्ख०-पंचसंठा०-पंचसंध०-तिखिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादे० ज० प० क० ? अण्ण० देव० गोरह० मिच्छा० पढम०सरीरपज्ज० पज्जत्त० तीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । मणुस०-मणुसाणु०-तित्थ ज० प० क० ? अण्ण० देव० गोरह० सम्मा० पढमस० सरीरपज्जत्तीहि पज्ज० तीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । एइंदिय-आदाव-थावर० ज० प० क० ? अण्ण० देव० मिच्छा० पढमस० सरीरपज्ज० छब्बीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । पंचि०-तिणिणिसरीर-समचहु०-ओरा०अंगो०-वज्जरि०-वण्ण०४-अशु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादितिणिणियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० ज० प० क० ? अण्ण० देव० गोरह० सम्मा० मिच्छा० पढमस०सरीरपज्ज० तीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । एवं वेउ०मि० पढमसमयतम्भवत्थ० ।

२१०. आहारका० पंचणा०-छदंसणा०दंडओ देचार० ज० प० क० ? अण्ण०

करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि धोलमान देव और नारकी तिर्यञ्चायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है। मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव व नारकी धोलमान जीव उक्त आयुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्ररास्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती शरीरपर्याप्तिसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मका तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मका तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती शरीरपर्याप्तिसे पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी छब्बीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है। पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुस्रसंस्थान, औदारिकआज्ञोपाज्ञ, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती शरीरपर्याप्तिसे पर्याप्त हुआ नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव व नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार वैकिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें प्रथम समयमें तद्भवत्थ हुए जीवके कहना चाहिए।

२१०. आहारकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण और छह दर्शनावरणण्डक तथा देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला, जघन्य

घोल० अट्टविध० ज०जो० पढमस०सरीरपञ्ज० । एवं हस्स-रदि० । अरदि-सोग० ज० प० क० ? अण्ण० पढमस०सरीरपञ्ज० ज०जो० सत्तविध० । देवगदिदंडओ ज० प० क० ? अण्ण० पढमस०सरीरपञ्ज० एगुणतीसदि० सह अट्टविध० ज०जो० । एवं अथिर-असुभ-अजस० । णवारि सत्तविध० ज०जो० । एवं आहारमि० ।

२११. कम्मह० पंचणा०-णवदंस०दंडओ सुहुमणि० ज०जो० । तिरिक्खगदि-दंडओ तस्सेव तीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । एवं सच्चदंडगं । देवगदि०४ ज० प० क० ? अण्ण० मणुस० असंज० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । तित्थ० ज० प० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० तीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० ।

२१२. इत्थिवेदेसु पंचणा०दंडओ ज० प० क० ? अण्ण० असण्णि० पढमस० ज०जो० । आहारदुग्ग-तित्थ० मणुसि०भंगो । सेसाणं जोणिणभंगो । एवं पुरिसेसु । णवारि देवगदि०४ ज० प० क० ? अण्ण० मणुस० पढमसमयतभव० असंज० एगुणतीसदि०

योगसे युक्त और प्रथमसमयवर्ती शरीर पर्याप्तिये पर्याप्त हुआ अन्यतर घोलमान जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार हास्य और रतिका जघन्य स्वामिर। जानना चाहिए। भरति और शोकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती शरीरपर्याप्तिये पर्याप्त हुआ, जघन्य योगसे युक्त और सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव उक्त दो प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। देवगतिदण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती शरीर पर्याप्तिये पर्याप्त हुआ, नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर जीव उक्त दण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार अस्थिर, अशुभ और अथवाःकीतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामित्व जानना चाहिए। इतना विशेषता है कि सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त जीव इन प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए।

२११. कार्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण और नौ दर्शनावरण दण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सूक्ष्म निगोदिया जीव है। तिर्यञ्जगतिदण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सूक्ष्म निगोदिया जीव है। इसी प्रकार सब दण्डकोंका जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। तीर्थङ्करप्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव और नारकी तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है।

२१२. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणदण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंज्ञी जीव उक्त दण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। आहारकादिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भद्र मनुष्यिनियोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भद्र तिर्यञ्जयोनिनी जीवोंके समान है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, असंयतसम्यग्दृष्टि, नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके

सह सत्तवि० ज०जो० । तित्थि० ज० प० क० ? अण्ण० देव० पढमसमय० तीसदि० सह सत्तवि० ज०जो० । णवुंसगेसु ओघं । णवरि वेउव्वियल्लक्कं जोणिणिभंगो । तित्थि० णेरइ० पढम० तीसदि० सह सत्तवि० ज०जो० । अवगद० सत्तण्णं० ज० प० क० ? अण्ण० घोळ० सत्तविघ० ज०जो० । णवरि संजलणाणं चदुविधवंधगस्स चि माणिदन्वं । कोधादि०४ ओघं ।

२१३. मद्दि०सुद० सच्च्वाणं ओघं । णवरि वेउव्वियल्लक्कं जोणिणिभंगो । एवं अब्भव०मिच्छा० । विभंगे^१ पंचणा०दंडओ ज० चदुग० घोळमा० अहविघ० ज०जो० । दोआउ० जह० दुगदिय० घोळमाण० अडुविघ० ज०जो० । दोआउ० चदुगदिय० घोळमाण० अडुविघ० ज०जो० । वेउव्वियल्ल० ज० तिरि० मणु० घोळ० अहावीसदि० सह अडुविघ० ज०जो० । तिरिख्वगदिदंडओ ज० प० क० ? चदुग० घोळ० तीसदि० सह अहविघ० ज०जो० ।

कर्मोंका वन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है। नपुंसकों में ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकषट्कका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर नारकी है। अपगतवेदी जीवोंमें सात प्रकारके कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोळमान जीव उक्त कर्मोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि संवल्लनोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी मोहनीयके चार प्रकारका वन्ध करनेवाला जीव है ऐसा कहना चाहिए। क्रोधादि चार कषयवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है।

२१३. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकषट्कका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनिर्णयोंके समान है। इसी प्रकार अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणदण्डके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोळमान जीव है। दो आयुओंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका घोळमान जीव है। शेष दो आयुओंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोळमान जीव है। वैक्रियिकषट्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी नामकर्मकी अट्हाईस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोळमान तिर्यञ्च और मनुष्य है। तिर्यञ्चगतदण्डके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोळमान जीव है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्विके जघन्य प्रदेशवन्धका

मणुस०-मणुसाणु० ज० प० क० ? अण्ण० चहुग० घोल० एगुणतीसदि० सह अट्ट-
विध० ज०जो० । एहंदि०-आदाव०-थावर० ज० प० क० ? अण्ण० तिगदि०
छब्बीसदि० सह अट्टविध० ज०जो० । तिण्णिजादीणं ज० प० क० ? दुगदि० तीसदि०
सह अट्टविध० ज०जो० । सुहुम०-अपज्ज०-साधा० ज० प० क० ? अण्ण० दुगदि०
पणुवीसदि० सह अट्टविध० ज०जो० ।

२१४. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-छदंसणा०-दोवेद०-वारसक०-सत्तणोक०-
उच्चा०-पंचंत० ज० प० क० ? अण्ण० चहुगदि० असंजद० पढमस०त्वभव० सत्तवि०
ज०जो० । मणुत्ताउ० ज० प० क० ? अण्ण० देव० णेरह० घोल० अट्टवि० ज०जो० ।
देवाउ० ज० तिरिक्ख० मणुस० घोल० अट्टवि० ज०जो० । मणुसग०-पंचि०-तिण्णि-
सरीर-समचहु०-ओरा०-अंगोवंग०-वज्जरिस०-वण्ण०-४-मणुसाणु०-अगुरु०-४-पसत्थवि०-
तस०-४-थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ० ज० प० क० ?
अण्ण० देव० णेर० पढमस०त्वभव० तीसदि० सह सत्तवि० ज०जो० । देवगदि०-४
ज० प० क० ? अण्ण० मणुस० असंज० पढम०त्वभव० एगुणतीसदि० सह सत्तवि०

स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोलमान जीव है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी छब्बीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीन जातियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव है ।

२१४. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, दो वेदनीय, वारह कषाय, सात नोकषाय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका असंयतसम्यग्दृष्टि उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान देव और नारकी मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य घोलमान जीव है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्र-वर्षभनाराचसंहनन, वर्षचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-चतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्करके जघन्य प्रदेश-बन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध

ज०जो० । आहारदुर्गं ज० प० क० ? अण्ण० अप्पमत्त० एकत्तीसदि० सह
अड्ढवि० घोळ० ज०जो० । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खइग० ।

२१५. मणप० पंचणा०^१-ऊदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-उच्चा०-पंचंत०दंडओ
देवाउ० ज० प० क० ? अण्ण० घोळ० अड्ढवि० ज०जो० । असादा०-अदि-सोग०
ज० प० क० ? अण्ण० पमत्त० घोळ० सत्तविध० ज०जो० । पुरिस०-हस्सरदि-
भय०-हु० ज० प० क० ? अण्ण० पमत्त० अप्पमत्त० अड्ढविध० घोळ० ज०जो० ।
देवग०-पंचिं०-समचदु०-वण्ण०४-देवाणुपु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिर-सुभ-
सुभग-सुस्सर-आदे०जस०-णिमि०-तित्थ० ज० प० क० ? अण्ण० पमत्तापमत्त० घोळ०
एगुणतीसदि० सह अड्ढवि० ज०जो० । वेउ०-आहार०-तेजा०-क०-दोअंगो० ज० प०
क० ? अण्ण० अप्पमत्त० घोळ० एकत्तीसदि० सह अड्ढवि० ज०जो० । अथिर-
असुभ-अजस० ज० प० क० ? अण्ण० पमत्त० घोळ० ऊणत्तीसं सह सत्तवि०
ज०जो० । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार० । सुहुमसं० छण्णं क० ज० प० क० ?

करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य देवगतिचतुष्कके जघन्य
प्रदेशबन्धका स्वामी है । आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी
इकतीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और घोलमान जघन्य योगसे
युक्त अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार
अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

२१६. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार
संचलन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायदण्डक तथा देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन
है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । असातावेदनीय, अरति और शोकके जघन्य
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे
युक्त अन्यतर घोलमान प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके
कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृ-
तियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवगति, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क,
देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, प्रसचतुष्क, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर,
आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नाम-
कर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त
अन्यतर घोलमान प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी
है । वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर और दो आङ्गोपाङ्गोंके जघन्य प्रदेश-
बन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी इकतीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध
करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके जघन्य प्रदेशबन्धका
स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला
और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत घोलमान जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेश-
बन्धका स्वामी है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धि

१. आ० प्रती खइग० । मणुस० पंचणा० इति पाठः ।

अण्ण० घोल० छन्विध० ज०जो० ।

२१६. संजदासंज० पंचणा०दंडओ घोल० अडुविध० ज०जो० । असादा०-अरदि-सोग० जह० घोल० सत्तविध० ज०जो० । देवारु० ज० प० क० ? अण्ण० घोल० अडुविध० ज०जो० । देवगदिदंडओ जह० घोल० एगुणतीसदि० सह अडुविध० ज०जो० । अथिर-असुम-अजस० ज० प० क० ? अण्ण० घोल० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० ।

२१७. चक्खु० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासाद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक्क०-दोगोद०-पंचंत० ज० प० क० ? अण्ण० चटुरिदि० पढम०आहार० पढमस०-तवभव० ज०जो० । एवं सव्वदंडगणं एसेव आलापो । वेउव्वि०-आहारदुग-तित्थ० ओघं ।

२१८. क्रिण्ण-णील-काउ० ओघं । णवरि देवगदि०४ जहण्ण० मणुस० असंज० पढम०आहार० पढम०तवभव० अट्टावीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० ।

संयत जीवोंमें जानना चाहिए । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

२१६. संयतासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणदण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान संयतासंयत जीव है । असातावेदनीय, अरति और शोकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव है । देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवगतिदण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव है । अस्थिर, अशुभ और अयशःकीतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है ।

२१७. चक्षुदर्शनी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चतुरिन्द्रिय जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार सभी दण्डकोका यही आलाप है । वैकियिकद्विक, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

२१८. कृष्ण, नील और कापोतलेश्यामें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और

तित्थ० ज० मणुस० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । काऊए तित्थ० ज० प० क० ? अण्ण० णेरइ० पढम०आहार० पढमतवभव० तीसदि० सह सत्तवि० ज०जो० । देवगदि०४ ज० मणुस० असंज० [पढम०आहार० पढम०तवभव०] एगुणतीसदि० सह सत्तवि० ज०जो० ।

२१९. तेउ० पंचणा०सादासाद०उच्चा०पंचंत० ज० प० क० ? अण्ण० दुगदि० सम्मा० मिच्छा० पढम०आहार० पढम०तवभव० सत्तवि० ज०जो० । णवदंस० मिच्छ०सोलसक०णवणोक०णीचा० ज० प० क० ? अण्ण० देव० मिच्छा० पढम०आहार० पढम०तवभव० ज०जो० । देआउ० देवभंगो० देवाउ० जह० दुगदि० सम्मा० मिच्छा० घोल० अडुविध० ज०जो० । तिरिक्ख०- पंचसंठा०पंचसंध० तिरिक्खाणु०उज्जो०अप्पसत्थ०दूमग०दुस्सर०अणादे० जह० प० क० ? अण्ण० देव० मिच्छा० पढम०तवभव० तीसदि० सह सत्तवि० ज०जो० । मणुस०मणुसाणु०-तित्थ० ज० प० क० ? अण्ण० देव० सम्मादि० तीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० ।

जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी नामकर्मकी जनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य है । मात्र कापीतलेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर नारकी उक्त प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । तथा देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी जनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य है ।

२१९. पीतलेश्यामे पाँच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिके सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय और नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । दो आयुओंका भङ्ग देवोंके समान है । देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त दो गतिके सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव है । तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव है । एकैन्द्रियजाति, आतप और स्थावरदण्डक तथा

एइंदिय-आदाव-थावरदंडओ पंचिदियदंडओ सोधम्मभंगो । देवगदि०४ जह० मणुस० असंज० [पढमतम्भव०] एगुणतीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । [आहारदुर्ग ओघभंगो] एवं पम्माए । णवरि एइंदिय-आदाव०-थावरं वल्ल । सुकाए आणद-भंगो । णवरि देवाउ०-देवगदि०४-[आहारदुर्ग] पम्म भंगो ।

२२०. वेदगे पंचणा०-छदंसणा०-सादासाद०-चारसक०-सत्तणोक०-उच्चा०-पंचंत० ज० प० क० ? अण्ण० दुगदि० पढम०तम्भव० ज० जो० । एवं सेसाणं पि ओधि-भंगो । णवरि दुगदियस्स त्ति भाणिदव्वं । मणुसगदिदंडओ देवस्स त्ति भाणिदव्वं ।

२२१. उवसम० पंचणा०दंडओ ज० प० क० ? अण्ण० देवस्स [पढम-]आहार०^१ पढम०तम्भव० सत्तवि० ज०जो० । देवगदि०४ ज० प० क० ? अण्ण० मणुस० धोल० एगुणतीसादि० सत्तविध० ज०जो० । आहारदुर्ग देवगदिभंगो । णवरि एक्क-त्तीसदि० । सेसं ओधिभंगो । णवरि णियदं देवस्स कादव्वं ।

२२२. सासण० पंचणा०पढमदंडओ तिगदि० पढम०आहार० पढम०तम्भव०

पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकका भङ्ग सौधर्मकल्पके समान है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी उन्तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य है । आहारकद्विकका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार पद्मालेश्यामे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरको छोड़कर इनमें जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए । शुक्लालेश्यामे आनतकल्पके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवायु, देवगतिचतुष्क और आहारिकद्विकका भङ्ग पद्मालेश्याके समान है ।

२२०. वेदकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय बारह कषाय, सात नोकषाय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंका भी अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ दो गतिका जीव स्वामी है ऐसा कहना चाहिए । तथा मनुष्यगतिदण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी देव है ऐसा कहना चाहिए ।

२२१. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणदण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उन्तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर धोलमान मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आहारकद्विकका भङ्ग देवगति के समान है । इतनी विशेषता है कि नामकर्मकी इकतीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके इसका जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए । शेष भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि जघन्य स्वामित्व नियमसे देवके कहना चाहिए ।

२२२. सासादनसम्यक्त्वमे पाँच ज्ञानावरणदण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी प्रथम

१. ता० प्रती देवस० (स्स०) आहार०, आ० प्रती देव० सम्मा० आहार० इति पाठः ।

ज०जो० । तिरिक्ख-मणुसाउ० ज० प० क० ? अण्ण० च्हुगु० घोल० अट्टविध०
ज०जो० । देवाउ० ज० प० क० ? अण्ण० दुगदि० घोल० अट्टविध० ज०जो० ।
देवगदि० जह० दुगदि० घोल० अट्टावीसदि० सह अट्टविध० ज०जो० । तिरिक्ख-
गदिदंडओ जह० तिगदि० पढम०तब्भव० तीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० । एवं
मणुस०-मणुसाणु० जह० एगुणतीसदि० ज०जो० ।

२२२. सम्मामि० पंचणा०दंडओ जह० च्हुगदि० घोल० सत्तविध० ज०जो० ।
मणुसगदिदंडओ जह० देव० षेरइ० ऊणचीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० ।
देवगदि०४ ज० प० क० ? अण्ण० दुगदि० अट्टावीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० ।

२२४. सण्णीसु पंचणा०-णवदंस०-दोवेदणी०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-
दोगो०-पंचंत० ज० प० क० ? असण्णिपच्छा० पढम०तब्भव० सत्तविध० ज०जो० ।
दोआउ० मणजोगिभंगो । तिरिक्ख-मणुसाउ० ज० प० क० ? अण्ण० दुगदियस्स
खुहामवग्गहणत्तदियत्तिभागस्स पढमसमए आउगवंधमा० अट्टविध० ज०जो० ।

समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योगवाला अन्यतर तीन गतिका जीव है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोलमान जीव उक्त दो आयुओंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका घोलमान जीव देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका घोलमान जीव है । तिर्यञ्चगतिदण्डके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका जीव है । इसी प्रकार मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त तीन गतिका जीव है ।

२२३. सम्यग्मिध्यात्वमें पाँच ज्ञानावरणदण्डके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव है । मनुष्य-गतिदण्डके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव और नारकी है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है ।

२२४. संज्ञियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गौत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और जघन्य योगसे युक्त असंज्ञियोंमेंसे आकर स्सयन्न हुआ जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । दो आयुओंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? श्रुत्वक भवग्रहणके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमें आयुकर्मका बन्ध करनेवाला आठ प्रकारके

वेउव्वियल्ल० आहारदुग्ग-तित्थ० ओधं। सेसाणं दंडमाणं णाणा०भंगो। असण्णि-
पच्छागदस्स त्ति भाणिट्ठवं। असण्णो० ओधो। णवरि वेउव्वियल्ल०
जोणिणिसंघो। अणाहार० कम्मइगभंगो। एवं जहण्णसामित्तं समत्तं।

एवं सामित्तं समत्तं।

कालाणुगमो

२२५. कालाणुगमेण दुवि०-जह० उक्क० च। उक्क० पगदं। दुवि०-ओघे०
आदे०। ओघे० पंचणा०-छदंस०-वारसक०-भय-दु०-पंचंत० उक्कस्सपदेसवंधो केवचिरं^१
कालादो होदि ? जह० एग०, उक्क० वे सम०। अणु० प०वं०कालो केवचिरं० ?
अणादियो अपज्जवसिदो अणादियो सपज्जवसिदो सादियो^२ सपज्जवसिदो। यो सो सादियो
सपज्जवसिदो तस्स इमो णिदेसो-जह० एग०, उक्क० अद्धपोग्गल०। ओघेण सव्वासिं^३
उक्क० पदे०कालो जह० एग०, उक्क० वेस०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अर्णताणु०४-ओरा०-
तेजा०-क०-वण्ण०^४-अगु०४-उप०-णिमि० अणु० ज० ए०, उ० अर्णतकालमसंखे०।

कर्मोंके बन्धसे सम्पन्न और जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। वैकिक्रियकपटक, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। शेष दण्डकोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनका स्वामित्व कहते समय असंज्ञियोंमेंसे आकर उत्पन्न हुए जीवके कहना चाहिए। असंज्ञियोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें वैकिक्रियकपटकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनियोंके समान है। अनाहारकोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ।

कालानुगम

२२५. कालानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका कितना काल है ? अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सात काल है। उनमेंसे जो सादि-सान्त काल है उसका यह निर्देश है—जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। आगे भी ओघसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरूलपु, उपघात और निर्माणके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति,

१ ता० प्रती वंधो काले केवचिरं इति पाठः। २ आ० प्रती अपज्जवसिदो सादियो इति पाठः।

३ ता० प्रती अद्धपोग्गल०। सव्वासिं इति पाठः। ४ आ० प्रती तेजा० वण्ण०४ इति पाठः।

सादासाद०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग०-चदु आउ०-णिरयगदि-चदु जादि-
आहार०-पंचसंठा०-आहारंगोवंग-पंचसंध०-णिरयाणु०-आदाउजो०-अप्पसत्थवि०-थावर-
सुहुम-अपज्ज०-साधार०-थिराथिर-सुभासुम-दूभग-दुस्सर-अगादे०-जस०-अजस० अणु०
ज० ए०, उ० अंतो० । पुरिस० अणु० ज० ए०, उ० वेळावढि० सादि० दोहि पुव्व-
कोडीहि सादिरेगं । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० अणु० ज० ए०, उ० असंखेज्जा
लोगा । मणुस०-वज्जरि०-मणुसाणु० अणु०^३ ज० ए०, उ० तेत्तीसं० । देवगदि०^४ अणु०
ज० ए०, उ० तिणिण पलि० सादि० पुव्वकोडि तिभागेण अंतोमुहुत्तणेण^३ । पंचिं-पर०-
उस्सा०-त्तस०^४ अणु०^५ ज० ए०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं० । समचदु०-
पसत्थवि०-सुमग-सुस्सर-आदे०-उक्वा० अणु० ज० ए०, उ० वेळावढिसाग० सादि०
दोहि पुव्वकोडीहि सादिरेगं तिणिण पलि० दे० अंतोमुहुत्तणे ङणाणि । ओरालि०-अंगो०
अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० अंतोमुहुत्त० सत्तमाए णिक्खमंतस्स ।
तित्य० अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सादि० दोहि पुव्वकोडी० वासपुधत्तूणाहि
सादिरेयाणि ।

अरति, शोक, चार आयु, नरकगति, चार जाति, आहारकशरीर, पाँच संस्थान, आहारक
आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अश्रस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म,
अपर्याप्त, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और
अयशःकीर्तिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।
पुरुषवेदके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो पूर्वकोटि
अधिक दो छयासठ सागर है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके अनुत्कृष्ट प्रदेश-
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । मनुष्यगति,
वर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल
एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तकम पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पत्य है ।
पञ्चोन्द्रियजाति, परघात, उच्छवास और त्रस चतुष्कके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल एक सौ पचासी सागर है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति,
सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल दो पूर्वकोटि अधिक तथा तीन पत्य और अन्तर्मुहूर्त कम दो छयासठ सागर है । औदारिक
आङ्गोपाङ्गके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त
अधिक तेतीस सागर है । यह अन्तर्मुहूर्त अधिक काल सातवीं पृथिवीसे निकलने वाले जीवके
जानना चाहिए । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल वर्षपृथक्त्व कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानारचरणादि तथा अन्य प्रकृतियोंका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अपने अपने योग्य सामग्रीके मिलने पर उत्कृष्ट योगसे होता है और

१ ता० प्रती दूभग अगादे० इति पाठः । २ ता० प्रती मणुसाणु० अणु० अणु० इति पाठः ।

३ ता० प्रती अंतोमुहुत्ते (तू) णेण, अ० प्रती अंतोमुहुत्तेण इति पाठः । ४ आ० प्रती तस०^४ अणु^४
अणु० इति पाठः । ५ ता० आ० प्रत्योः एगुणतीसदि० इति पाठः ।

इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय हैं, अतः यहाँ पाँच ज्ञानावरणादि सभी १२० प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी अपेक्षा विचार करनेपर प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि तीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध यथासम्भव गुणप्रतिपन्न जीवके होता है, इसलिये जो अभव्य है उनके सदा काल इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता रहता है, क्योंकि ये ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं। भव्योमे अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके दो विकल्प बनते हैं—अनादि-सान्त और सादि-सान्त। अनादि-सान्त विकल्प उन भव्य जीवोंके होता है जो इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध किये बिना या अपनी अपनी बन्धव्युच्छिन्ति होते समय उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करके ही मुक्तिके पात्र हो जाते हैं और सादि-सान्त विकल्प उन भव्य जीवोंके होता है जो अपने अपने उत्कृष्ट स्वामित्वके योग्य पूरी सामग्रीके मिलनेपर उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करके पुनः अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने लगते हैं। इनमेंसे यहाँ अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके सादि-सान्त विकल्पके जघन्य और उत्कृष्ट कालका विचार किया है। यह तो हम पहले ही लिख आये हैं कि इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध गुणप्रतिपन्न जीवके होता है, इसलिए अपने अपने उत्कृष्ट स्वामित्वके योग्य स्थानमे इनका एक समयके अन्तरालसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कराके मध्यमें एक समयके लिए अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करावे। इस प्रकार बन्ध कराने पर इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है। तथा अर्धपुद्गलके प्रारम्भमें उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कराकर बादमें कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करानेपर इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्बन्धी सादि-सान्त विकल्पका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। स्थानगृह्णितिक आदि द्वितीय दण्डकमें कही गई प्रकृतियों ध्रुवबन्धनी हैं। यद्यपि इनमे औदारिकशरीर प्रकृति भी सम्मिलित है पर एकेन्द्रियोंमें इसकी प्रतिपक्ष प्रकृति वैक्रियिकशरीरका बन्ध न होनेसे यह भी ध्रुवबन्धनी है, इसलिए पाँच ज्ञानावरणादिके समान इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका भी जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है। ज्ञानावरणादिके साथ इन प्रकृतियोंका कुल काल इसलिए नहीं कहा है, क्योंकि इन स्थानगृह्णितिक तीन आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मिथ्यादृष्टि जीव करता है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके कालके ज्ञानावरणादिके समान अनादि-अनन्त आदि तीन विकल्प न होकर केवल एक सादि-सान्त विकल्प ही सम्भव है। सातावेदनीय आदिका जघन्य बन्ध काल एक समय और उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है, इसके कई कारण हैं। एक तो सातावेदनीय आदि अधिकतर सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका जघन्य और उत्कृष्ट उक्त काल बन जाता है। दूसरे चार आयु, आहारकद्विक और आपत्कद्विक सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ नहीं भी हैं। तब भी ये अन्तर्मुहूर्तसे अधिक काल तक नहीं बँधती और एक समयके अन्तरसे इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तृतीय आदि यथासम्भव गुणस्थानोंमें पुत्रपेदेका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल दो पूर्वकोटि अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण कहा है। इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय दो स्पष्ट ही है, क्योंकि एक समयके अन्तरसे इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध हो और मध्यमें एक समयके लिए अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध हो यह सम्भव है और यह सप्रतिपक्ष प्रकृति होनेसे एक समयके लिए इसका बन्ध होकर दूसरे समयमें स्त्रीवेद या नपुंसकवेदका बन्ध होने लगे यह भी सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है। आगे अन्य प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय उक्त दो हेतुओंको ध्यानमें रख कर जहाँ जो सम्भव हो उसके अनुसार घटित कर लेना चाहिए, इसलिए आगे उसका हम पुनः पुनः निर्देश नहीं करेंगे। तिर्यञ्जगति आदि तीन प्रकृतियोंका अनिनकायिक और वायुकायिक

२२६. षोडशसु पंचणा०-गवर्दस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तिरिक्ख०-पंचिं-
ओरा०-तेजा०-क०-ओरा०श्रंगो०-वण्णा०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०-
णीचा०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० तेचीसं० । दो-
षेदणी०-इत्थि०-गजुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोआउ०-पंचसंठा०-पंचसंध०-उजो०-
अप्पसत्थवि०-थिरादितिणियु०-दूमग-दुस्सर-अणादे० उ० ज० ए०, उ० वेसम० ।

जीवोंमें निरन्तर बन्ध होता है और इनकी कायस्थिति असंख्यता लोकप्रमाण है, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यता लोकप्रमाण कहा है । सर्वार्थसिद्धिमें मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है और सर्वार्थसिद्धिमें आयु तेतीस-सागर है, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । सम्यग्दृष्टि मनुष्यके देवगतिचतुष्कका ही बन्ध होता है । किन्तु इसके मनुष्यायुका बन्ध सम्यक्त्व अवस्थामें नहीं होता, इसलिए पूर्वकोटिका आयुवाले किसी मनुष्यके प्रथम त्रिभागमें मनुष्यायुका बन्ध कराकर वेदकपूर्वक क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न करावे और आयुके अन्तमें मरण कराकर तीन पत्यकी आयुवाले मनुष्योंमें ले जावे । इस प्रकार करानेसे अन्तर्मुहूर्त कम पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पत्य काल प्राप्त होता है । यतः इतने काल तक इसके निरन्तर देवगतिचतुष्कका बन्ध होगा, अतः देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त कालप्रमाण कहा है । एकसौ पचासी सागर काल तक पञ्चैन्द्रियजाति आदिका निरन्तर बन्ध होता है इसका पहले हम अनेक वार निर्देश कर आये हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त कालप्रमाण कहा है । पुरुषवेदके समान सम्यग्दृष्टिके समचतुरस्र संस्थान आदि प्रकृतियोंका भी निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश-बन्धका उत्कृष्ट काल भी दो पूर्वकोटि अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण तो कहा ही है । साथ ही भोगभूमिमें पर्याप्त होने पर निरन्तर इन्हीं प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इसलिए उक्त कालमें कुछ कम तीन पत्यप्रमाण काल और जोड़ा है । नरकमें औदारिक आङ्गोपाङ्गका निरन्तर बन्ध तो होता ही है । साथ ही ऐसा जीव वहाँसे निकलनेके बाद भी अन्तर्मुहूर्त काल तक इसका बन्ध करता है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतीस सागर कहा है । कोई एक मनुष्य है जिसने आठ वर्षका होनेके बाद तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ किया । उसके बाद इतना समय कम एक पूर्वकोटि कालतक वह यहाँ उसका बन्ध करता रहा । इसके बाद मरा और तेतीस सागरकी आयुवाला देव हो गया । फिर वहाँसे आकर पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ । फिर वर्षप्रथक्त्व काल शेष रहने पर क्षपकश्रिण कर आरोहण कर केवलज्ञानी हो गया । इस प्रकार वर्षप्रथक्त्व कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर काल तक निरन्तर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । यहाँ प्रारम्भके अबन्धके आठ वर्ष और अन्तके अबन्धका वर्षप्रथक्त्व इन दोनोंको मिलाकर वर्षप्रथक्त्व काल कम किया गया है ।

२२६. नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चैन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक-आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलयुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । दो वेदनीय, खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, दो आयु, पाँच संस्थान,

अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । पुरिस०-मणुस०-समचदु०-वज्ररि०-मणुसाणु०-पसत्थ०-
सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ०
तेत्तीसं० देख० । तित्थ० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० तिणिण
साग० सादि० पलि० असंखे०भागे० सादि० । एवं सत्तमाए । उवरिमासु छसु पुढवीसु
एसेव भंगो । णवरि अप्पणो द्विदी भाणिदव्वा । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा०-
उ० अणु० सादभंगो ।

पाँच संहनन, उद्योत, अग्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भंग, दुःस्वर और अनादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरक्षसंस्थान, बर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्न्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तीन सागर है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । ऊपरकी छह पृथिवियोंमें यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल सातावेदनीयके समान है ।

विशेषार्थ—नरकमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय तथा उत्कृष्ट काल दो समय जैसा ओषमें घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके जघन्य काल एक समयके विषयमें भी ओषप्ररूपणाके समय काफी प्रकाश डाल आये हैं । उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए । अब रहा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल सो उसका खुलासा इस प्रकार है—नरकमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियों भ्रुवबन्धिनी हैं । मात्र तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं । फिर भी सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके ये भी भ्रुव-बन्धिनी हैं और सातवें नरककी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । दो वेदनीय आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त जिस प्रकार ओषप्ररूपणाके समय घटित करके बतला आये हैं वही प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिये । सम्भ-गृष्टि नारकीके पुरुषवेद आदि तीसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध होता है और सातवें नरकमें सम्भक्त्व सहित जीवका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका तीसरे नरक तक ही बन्ध होता है । उसमें भी साषिक तीन सागरकी आयुवाले जीव तक ही इसका बन्ध सम्भव है, इसलिये यहाँ इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल पत्न्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तीन सागर कहा है । सब प्रकृतियोंका यह काल सातवीं पृथिवीकी मुख्यतासे कहा है, इसलिये सातवीं पृथिवीमें इसी प्रकार जाननेकी सूचना की है । अन्य छह पृथिवियोंमें प्रकृतियोंका इसी प्रकार विभाग करके काल कहना चाहिये । मात्र सर्वत्र कालका प्रमाण अपनी अपनी स्थितिकी ध्यानमें रखकर कहना चाहिए । इतनी

२२७. तिरिक्खेसु पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरा०-तेजा०-
क०-वण्ण०-४-अणु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज०
ए०, उ० अणंतका० । दोवेदणी०- छण्णोक०-चदुआउ^१०-दोगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-
ओरा०-अंगो०-ऊसंध०-दोआणुपु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावरादि०-४-अथिरादि-
तिण्णियुग०-दूमग-दुस्सर-अणादे० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ०
अंतो० । पुरिस०-देवग०-वेउव्वि०-समचदु^२०-वेउ०-अंगो-देवाणु०-पसत्थवि०-सुमग-सुस्सर-
आदे०-उच्चा० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० ।
तिरिक्ख०-तिरिक्खालु०-पीचा० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ०
असंखेज्जा लोगा । पंचि०-पर०-उत्सा०-त्तस०-४ उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु०
ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० सादि० ।

विशेषता है कि तिर्यञ्जगतिद्विक और नीचगोत्र ये तीन छटे नरक तक सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिये इन नरकोंमें इनका काल असातावेदनीयके समान घटित कर लेना चाहिये । साथ ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध तीसरे नरक तक ही होता है, इसलिये इसके कालका विचार प्रारम्भके तीन नरकोंमें ही करना चाहिये ।

२२९. तिर्यञ्जोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अणुरूप, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्तकाल है । दो वेदनीय, छह नोकपाय, चार आयु, दो गति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, ब्रह्म सहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि तीन युगल, दुर्भंग, दुःस्वर और अनादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेद, देवगति, वैक्रियिकशरीर, समचतुर्लसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पत्य है । तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है ।

विशेषार्थ—यहां व आगेकी मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य व उत्कृष्ट काल और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल पहलेके समान जानना चाहिए । पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धनी प्रकृतिया हैं और एकेन्द्रियोंमें औदारिकशरीर भी ध्रुवबन्धनी प्रकृति है, इसलिये तिर्यञ्जोमें इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त कालप्रमाण

१. आ०प्रती 'छण्णोको दो आउ०' इति पाठः । २. आ०प्रती 'देवग० समचदु०' इति पाठः ।

२२८. पंचि०तिरि०३ पंचणा०-णवदंस०-मिच्छु०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-
क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ० ओषं । अणु० सन्वाणं ज० ए०, उ०
तिणिण पलि० पुव्वकोटिपुधत्तं । साददंडओ तिरिक्खोषं । णवरि तिरिक्खु०३-ओरालियं
च पवडुं । पुरिसदंडओ पंचिदियदंडओ तिरिक्खोषं । णवरि पंचि०तिरि०जोगिणीसु
पुरिसदंडओ तिणिणपलि० दे० ।

कहा है, क्योंकि तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है। दो वेदनीय भादि कुछ सप्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं और कुछ अध्रुवबन्धनी प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्गुह्य कहा है। सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्चोंमें पुरुषवेद आदिका नियमसे बन्ध होता है और तिर्यञ्चोंमे सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल तीन पत्य है, इसलिये यहां इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल तीन पत्य कहा है। अग्निकायिक व वायुकायिक जीव तिर्यञ्चगतिद्विक व नीचगोत्रका नियमसे बन्ध करते हैं और इनकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिये यहां इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। भोगभूमिमे पञ्चेन्द्रियजाति आदिका बन्ध तो होता ही है। साथ ही जो तिर्यञ्च मर कर भोगभूमिमे जन्म लेते हैं उनके अन्तर्गुह्य पहलेसे इनका नियमसे बन्ध होने लगता है, इसलिये इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है।

२२८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैनसशरीर, कामशरीर, वर्णचतुष्क, अग्ररुलु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका सब प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। सातावेदनीयदण्डक का भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इस दण्डकमे तिर्यञ्चगतित्रिक और औदारिकशरीरको प्रविष्ट कर लेना चाहिए। पुरुषवेददण्डक और पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोमे पुरुषवेददण्डकका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिककी कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है, इसलिये इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरणादिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल एक प्रमाण कहा है, क्योंकि ये सब ध्रुवबन्धनी प्रकृतियां हैं, इसलिये इतने काल तक इनका निरन्तर अनुत्कृष्ट बन्ध होना सम्भव है। यहां सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा इन तिर्यञ्चोंमें तिर्यञ्चगतित्रिक और औदारिकशरीर सप्रतिपक्ष प्रकृतियां ही जाती हैं, इसलिये इन्हें सातावेदनीयदण्डकके साथ गिनाया है। सामान्य तिर्यञ्चोंमे पुरुषवेददण्डक और पञ्चेन्द्रियजाति दण्डकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी मुख्यता से ही कहा है, इसलिये इसे सामान्य तिर्यञ्चोंके सामान जानने की सूचना की है। मात्र पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमे पुरुषवेददण्डकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहनेका कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव मर कर इन तिर्यञ्चोंमें नहीं उत्पन्न होता और अपर्याप्त अवस्थामे अन्य सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी बन्ध होता है, इसलिये इन तिर्यञ्चोंमें पुरुषवेद आदि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य ही प्राप्त होता है।

२२९. पंचिदि०तिरि०अपञ्ज० सव्वपगदीणं उ० ज० ए०, उ० वे सम० ।
अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । एवं सव्वअपञ्जत्तगाणं तसाणं थावरारणं च सव्वसुहुम-
पञ्जत्तगाणं च ।

२३०. मणुस०३ पंचणा०णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-फ०-
वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । एवं सव्वेसिं
उकस्समं । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० पुव्वकोडिपुधत्तं । पुरिस०-देवगदि-
पंचिदि०-वेउव्वि०-समचदु०-वेउव्वि०-अंगो०-देवाणु०- पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-
सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० सादि० पुव्वकोडि-
तिभाणेण० । तित्थ० अणु० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी० दे० । सेसाणं अणु० ज०
ए०, उ० अंतो० । णवरि मणुसिणीसु पुरिसदंडओ जोणिणिभंगो ।

२२९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तकोमे तथा सब सूक्ष्म पर्याप्तकोमे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां जितनी मार्गणाओका निर्देश किया है उन सबकी कायस्थिति अन्त-
मुहूर्तप्रमाण है; इसलिए इनमें यहां बंधनेवाली सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट
काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है ।

२३०. मनुष्यत्रिकमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनवरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय,
जुगुप्सा, वैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्त-
रायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । इसी
प्रकार सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल जानना चाहिए । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिप्रयत्न अधिक तीन पल्य है । पुरुषवेद,
देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर समचतुरस्रस्थान, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग,
देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और
उच्चोत्रके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त
कम पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी
विशेषता है कि मनुष्यनियोमे पुरुषवेददण्डकका भङ्ग तिर्यञ्चयोनिनी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमे सब भ्रुवबन्धिनी प्रकृतियों कहीं हैं और मनुष्योकी उत्कृष्ट
कायस्थिति पूर्वकोटिप्रयत्न अधिक तीन पल्य है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिके अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है । मनुष्य और मनुष्यपर्याप्तकोमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट
काल अन्तर्मुहूर्त कम पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है और ऐसे मनुष्योके पुरुषवेद
आदिका नियमसे बन्ध होता है, इसलिए इन दो प्रकारके मनुष्योमे पुरुषवेद आदिके अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त कालप्रमाण कहा है । पर मनुष्यनियोमे सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल
तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान है, इसलिए इनमे पुरुषवेद आदिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल
तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल

२३१. देवेसु पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-मणुस०-पंचिदि०-
तिण्णिसरीर-समचदु०-ओरा०-अंगो०-वज्जरी०-वण्ण०-४-मणुसाणु०-अगु०-४-तस०-४-
पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वेसम० ।
अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० । थीणगिद्धि०-३-मिच्छ०-अणंताणु०-४ उक्क० ओघं ।
अणु० ज ए०, उ० एककीसं० । सेसाणं उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज०
ए०, उ० अंतो० । एवं सव्वदेवाणं अप्पणो ङ्घिदी षेदव्वा ।

२३२. एहंदिएसु धुवियाणं तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-पीचा० उ० ज० ए०,
उ० वेसम० । एवं सव्वाणं उक्कस्सपदेसबंधो । अणु० ज० ए०, उ० असंखेजा लोणा ।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है यह स्पष्ट ही है । पर यह उत्कृष्ट काल जिस भवमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ होता है उस भवकी अपेक्षा से जानना चाहिए । यहां मनुष्योंके भी तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका निर्देश किया है । इससे ज्ञात होता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध जिस भवमें प्रारम्भ होता है उस भवमें उसका उदय नहीं होता, क्योंकि तीर्थङ्कर स्त्रीवेदी नहीं होते ऐसा प्रमाण पाया जाता है । अन्य सातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है ।

२३१. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, प्रशस्त-विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेश, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओषके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सब देवोंमें अपनी अपनी स्थिति जाननी चाहिये ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंमें पाँच ज्ञानावरणादि कुछ प्रकृतियों

तो ध्रुवबन्धिनी हैं ही । पुरुषवेद आदि जो कुछ प्रकृतियों शेष रहती हैं सो सम्यग्दृष्टिके वे भी ध्रुवबन्धिनी हैं और सर्वार्थसिद्धिमें आयु तेतीस सागर है । देवोंमें इतने काल तक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिये यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । स्थानगृद्धि आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता और मिथ्यादृष्टि जीव नौवें श्रेयिक तक ही होते हैं, इसलिये इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल इकतीस सागर कहा है । शेष प्रकृतियों या तो सप्रतिपक्ष हैं या अध्रुवबन्धिनी हैं, अतः उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । सब देवोंमें यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिये । मात्र जिन देवोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसे ध्यानमें रखकर यह काल लाना चाहिये । साथ ही नौ श्रेयिक तकके देवोंमें प्रथम दण्डक और दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके कालमें कोई अन्तर नहीं रहता है ।

२३२. एकेन्द्रियोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तथा तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय

सेसाणं उक्क० अणु० अपज्जत्तभंगो । वादरे धुवियाणं अणु० ज० ए०, उ० अंगुल० असंखे० । तिरिक्ख०-तिरिक्खणु०-णीचा० अणु० ज० ए०, उ० कम्मट्ठिदी० । वादरपज्ज० संखेज्जाणि वाससह० धुवियाणं तिरिक्खणदिदितियस्स च । सेसाणं अपज्जत्तभंगो । सुहुम० धुविगाणं तिरिक्खणदिदितियस्स च उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० सेदीए असंखेज्जदि० । सेसाणं पगदीणं अपज्जत्तभंगो । एवं सव्व-सुहुमाणं । विगालिदि० धुवियाणं उ० ज० ए०, उ० वेसम० । एवं सव्वार्णं उक्कस्स-पदेसवंधो० । अणु० ज० ए०, उ० संखेज्जाणि वाससह० । सेसाणं अप्पज्जत्तभंगो ।

है। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है। वादर जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। वादर पर्याप्तक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और तिर्यञ्जगतित्रिकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और तिर्यञ्जगतित्रिकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल जगभ्रैणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है। इसी प्रकार सब सूक्ष्म जीवोंमें जानना चाहिए। विकलेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अपनी अपनी अन्य योग्यताओंके साथ वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव करते हैं और एकेन्द्रियोंमें इनका उत्कृष्ट अन्तर काल असंख्यात लोकप्रमाण है। इसका यह अभिप्राय हुआ कि जब तक एकेन्द्रिय जीव वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त नहीं होता तब तक वह ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध ही करता रहता है, इसलिये तो एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तथा अग्निकायिक और वायुकायिक जीव अपनी कायस्थितिके भीतर निरन्तर तिर्यञ्जगतित्रिकका बन्ध करते हैं, इसलिये एकेन्द्रियोंमें इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। वादर एकेन्द्रियोंके उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। यह सम्भव है कि इस कालके भीतर ये जीव ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते रहें, इसलिये इनमें वक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। पर वादर एकेन्द्रियोंमें वादर अग्निकायिक और वादर वायुकायिक जीवोंकी कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है, इसलिये वादर एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्जगतित्रिकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण कहा है। वादर पर्याप्तकोंकी और इनमें अग्निकायिक व वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण है, इसलिये वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके और तिर्यञ्जगतित्रिकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका

२३३. पंचिदिएसुर पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोत्सक०-भय-दु०-तेजा०-
क०-वृष्णा०-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । एवं सव्याणं उ०
पदेसर्वधो० । अणु० ज० ए०, उ० सागरोवमसह० पुव्वकोट्टिपुधत्ते० । पञ्चत्ते० अणु०
ज० ए०, उ० सागरोवमसदपुधत्तं । साददंडओ मूलोधं । पुरिसदंडओ ओधं ।
तिरिक्ख०-ओरालि०-ओरालि०अंगो'०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० ए०, उ० तेत्तीसं०
सादि० अंतोमूहुत्तेण सादि० । मणुसगदिदंडओ देवगदिदंडओ पंचिदियदंडओ
समचदु०दंडओ तित्थयरं च ओधं ।

उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति तो असंख्यात लोक प्रमाण है। पर इनमें पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है, इसलिए सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें उनकी और उनमें पर्याप्तकोंकी कायस्थितिको ध्यानमें रख कर ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल न कह कर योगस्थानोंको ध्यानमें रख कर उत्कृष्ट काल कहा है, क्योंकि यह सम्भव है कि जो योग इनमें उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका कारण हो वह क्रमसे अन्य सब योगोंके होनेके बाद ही प्राप्त हो और सब योगस्थान जगश्रणिके असंख्यातवर्ष भागप्रमाण हैं, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके और तिर्यञ्जगतित्रिकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल जगश्रणिके असंख्यातवर्ष भागप्रमाण कहा है। सूक्ष्म पृथिविकायिक आदि जीवोंमें यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। विकलत्रयोंकी कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है। यहां जितनी मार्गणाए गिनाई हैं उन सबमें शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है यह स्पष्ट ही है।

२३३. पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल है। पञ्चेन्द्रियोंमें अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्स्वर्ग आंधक एक हजार सागर है। पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग मूलोचके समान है। उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग मूलोचके समान है। पुरुषवेददण्डकका भङ्ग ओषधके समान है। तिर्यञ्जगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगतिदण्डक, देवगतिदण्डक, पञ्चेन्द्रियजातिदण्डक, समचतुरस्रसंस्थान दण्डक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषधके समान है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण काल तक ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है। इन दोनों मार्गणाओंमें तिर्यञ्जगति आदि पाँच प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सातवें नरकमें और वहाँसे निकलनेपर अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतीस सागर कहा है। दण्डकोमें व फुटकर रूपसे कही गई शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके कालका विचार ओषध प्ररूपणाके समय जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं उस प्रकारसे यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए।

२३४. पुढवि०-आउ०-नेउ०-वाउ० ध्रुवियाणं उ० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० असंखेजा लोगा । वादरे कम्मड्ढिदी० । पज्जत्तेसु संखेजाणि वाससहस्साणि । वणप्फदि० एइंदियभंगो । वादरवणप्फदिपत्तेय-णिगोदजीवाणं पुढविकाइयभंगो । सेसं अपज्जत्तभंगो ।

२३५. तस-तसपज्जत्त० ध्रुवियाणं पढमदंडओ उ० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० सगड्ढिदी० । सेसाणं पंचिदियभंगो ।

२३६. पंचमण०-पंचवचि० सव्वपगदीणं उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । एत्तं मणजोगिभंगो वेउव्वि०-आहारका०-कोधादिचटुक्क-

२३४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके कालका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । इनके वादरोमें कर्मस्थिति-प्रमाण है । इनके बादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है । वनस्पतिकायिकोमे एकैन्द्रियोंके समान भङ्ग है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और वादर निगोद जीवोंमें पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है । इन सबमें शेष भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक आदि चारोंकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । बादर पृथिवीकाय आदि चारोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है और इनके पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है । वनस्पतिकायिकोंकी कायस्थिति अनन्तकालप्रमाण है । पर इनमें अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध यदि निरन्तर हो तो असंख्यात लोकप्रमाण काल तक ही होगा । कारणका विचार एकैन्द्रियमार्गणाकी ररूपणाके समय कर आये हैं, इसलिए इनमें एकैन्द्रियोंके समान भङ्ग कहा है । वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और वादर निगोद जीवोंकी कायस्थिति वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है, इसलिये यहाँ इन जीवोंका भङ्ग पृथिवीकायिक जीवोंके समान कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२३५. त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई ध्रुववाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है ।

विशेषार्थ—त्रसोंकी कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक दो हजार सागर और त्रस-पर्याप्तकोंकी कायस्थिति दो हजार सागर है । इतने काल तक इनके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण कहा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है यह स्पष्ट ही है ।

२३६. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार मनोयोगी जीवोंके समान वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, अपगतवेदी, सूक्ष्म-

अवगदवेद-सुहुमसंप०-उचसम०-सम्मामि० ।

२३७. कायजोगीसु पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० अणंतकालमसं० । तिरिक्ख०२-णीचा० उ० अणु० ओघं । सेसाणं पगदीणं मणजोगिभंगो' ।

२३८. ओरालिका० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसकसा०-भय-दु०-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० चावीसं वस्ससहस्साणि देसु० । तिरिक्खगदिदंडओ उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० तिणिण वाससहस्साणि देसु० । सेसाणं मणजोगिभंगो ।

साम्परायसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन सब मार्गाणाओंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे इनमें सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२३७. काययोगी जीवोंमें पौंच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पौंच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । तिर्यञ्चगतिद्विक और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—काययोगी जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त कालप्रमाण है । इनमें इतने काल तक प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है । ओघसे तिर्यञ्चगतिद्विक और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जो काल कहा है वह यहाँ भी सम्भव है, इसलिए इनका भङ्ग ओघके समान कहा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है ।

२३८. औदारिककाययोगी जीवोंमें पौंच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है । तिर्यञ्चगतिदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्षप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगीका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्षप्रमाण है, इसलिए इस योगवाले जीवोंमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । तथा वायुकायिक जीवोंमें औदारिककाययोगीका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम तीन हजार वर्षप्रमाण है, इसलिए यहाँ तिर्यञ्चगतिदण्डकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम तीन हजार वर्ष कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२३९. ओरोलियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-देवग०-
चत्तारिसरीर-वेउच्चि०-अंगो०-व्रणण०-देवाणु०-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० उ०
ज० उ० ए०^१ । अणु० ज० उ० अंतो० । सेसाणं पगदीणं उ० ज० उ० ए० ।
अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । आउ० ओघं । एवं वेउच्चियमि०-आहारमि० ।

२४०. कम्मइग०^२ एइंदियपगदीणं उ० ज० उ० ए०^३ । अणु० ज० ए०, उ०
तिणिण सम० । तसपगदीणं उ० ज० उ० ए० । अणु० ज० ए०, उ० वेसम० । अघवा
देवगदिपंचगज्जाणं सव्वपगदीणं उ० ज० उ० ए० । अणु० ज० ए०, उ० तिणिणसम० ।

२३९. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, चार शरीर, वैक्रियिकशरीर आह्नोपाह्न, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेश-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। आयुकर्मका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी तथा आहारक-मिश्रकाययोगी जीवोमे जानना चाहिए।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्रकाययोगमे दो आयुओंको छोड़कर सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध शरीरपर्याप्त पूर्ण होनेके अनन्तर पूर्व समयमें होता है, इसलिए ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके साथ अन्य प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। किन्तु प्रथम दण्डकमे कही गई ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंका यहाँ शेष अन्तर्मुहूर्त काल तक अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए यहाँ ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेश-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा इनके सिवा बंधनेवाली परा-वर्तमान प्रकृतियों है, इसलिए उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। यहाँ दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है, क्योंकि आयुकर्मका भङ्ग त्रिमागमें या मरणसे अन्तर्मुहूर्त पूर्व होता है और जो औदारिकमिश्रकाययोगी आयुका बन्ध करता है वह लब्धपर्याप्त होता है, इसलिए यहाँ ओघके समान उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल प्राप्त होनेमे कोई बाधा नहीं आती। वैक्रियिकमिश्र-काययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे इसी प्रकार अपनी अपनी प्रकृतियोंका काल घटित हो जाता है, इसलिए उनमे औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है।

२४०. कर्मणकाययोगी जीवोमे एकेन्द्रिय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। त्रसप्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अथवा देवगतिपञ्चकको छोड़कर सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है।

१. आ०प्रतौ 'उ० ज० ए०' इति पाठः । २. ता०श्रा०प्रत्योः 'आहारमि० असादभंगो । कम्मइग०'
इति पाठः । ३. आ०प्रतौ 'उ० ज० ए०' इति पाठः ।

२४१. इत्थिवेदे पंचणाणावरणादिपढमदंडओ उ० ज० ए०, उ० वेसम० ।
अणु० ज० ए०, उ० पलिदो०सदपुधत्तं । सादासाद०-छण्णोक्क०-चदुआउ०-दोगादि-
चदुजादि-आहारदुग-पंचसंठा०-पंचसंध०-दोथाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-
थिराद्रित्तिण्णियु०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु०
ज० ए०, उ० अंतो० । पुरिस०-मणुस०-पंचिदि०-समचदु०-ओरा०अंगो०-वज्जरि०-

विशेषार्थ—यहां सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अपने अपने स्वामित्वके योग्य स्थानमें एक समयके लिए होना है, इसलिए सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। परन्तु अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके कालके विषयमें दो सम्प्रदाय हैं। प्रथमके अनुसार जो एकेन्द्रियोंके विग्रहगतिमें बंधनेवाली प्रकृतियाँ हैं उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है, क्योंकि अधिकसे अधिक तीन विग्रह एकेन्द्रियोंमें ही सम्भव हैं। तथा जो केवल त्रसोमें बंधनेवाली प्रकृतियाँ हैं उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है, क्योंकि त्रसोमें अधिकसे अधिक दो विग्रह ही होते हैं। दूसरे सम्प्रदायके अनुसार देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आज्ञोपाज्ञ और तीर्थङ्कर इन पाँच प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय ही है, क्योंकि इनका बन्ध करनेवाले जीव कार्मणकाययोगमें अधिकसे अधिक दो समय तक ही रहते हैं। किन्तु शेष प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। यहाँ यह तो स्पष्ट है कि जिनका एकेन्द्रियोंके कार्मणकाययोगमें बन्ध नहीं होना उनका यह काल कैसे बनता है यह विचार-एकेन्द्रियोंके कार्मणकाययोगमें बन्ध नहीं होना उनका यह काल कैसे बनता है यह विचार-णीय है। साधारण नियम यह है कि जो जिस जातिमें उत्पन्न होता है उसके यदि वह सम्यग्दृष्टि नहीं है तो अन्तर्मुहूर्त पहलेसे उस जातिसम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्ध होने लगता है। पर अन्यत्र भी मरणके बाद विग्रहगतिमें यह नियम नहीं रहता ऐसा इस कथनसे स्पष्ट होता है। इसलिए एकेन्द्रियोंके विग्रहगतिमें तिर्यञ्चगतिसम्बन्धी और मनुष्यगतिचतुष्क और सभी प्रकृतियोंका बन्ध हो सकता है यह इस कथनका तात्पर्य है। देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिको इस नियमका अपवाद रखा है सो उसका कारण यह है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका तो सदैव सम्यग्दृष्टिके ही बन्ध होता है, अतः कार्मणकाययोगमें भी इसका बन्ध करनेवाले जीवके अधिकसे अधिक दो विग्रह हो सकते हैं। और देवगतिचतुष्कका कार्मण-काययोगमें केवल मनुष्य और तिर्यञ्च सम्यग्दृष्टिके ही बन्ध होगा, इसलिए यहाँ भी अधिकसे अधिक दो विग्रह ही सम्भव हैं। यही कारण है कि इन पाँच प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका दूसरे सम्प्रदायके अनुसार भी उत्कृष्ट काल दो समय कहा है।

२४१. स्त्रीवेदमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सौ पत्य पृथक्त्वप्रमाण है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, छह नोकपाय, चार आयु, दो गति, चार जाति, आहारक्राइक, पाँच संस्थान, पाँच सहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अग्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरक्ष

मणुसाणु०-पसत्य०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ०
पणवण्णं पलि० देह्ण० । देवगदि०४ उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि०
देह्ण० । ओरोलि०-पर०-उस्सा०-वादर-पज्जत्त-पत्ते० उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ०
पणवण्णं पलि० सादि० । तित्थ० उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० पुच्चकोडी
देह्णणाणि ।

२४२. पुरिसेसु पंचणाणावरणादिपढमदंडओ सादादिविदियदंडओ^१ इत्थिभंगो ।
णवरि सगट्टिदी० । पुरिस० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । एवं सच्चाणं उक्क० पदैस-
बंधो । अणु०-ज० ए०, उ० वेह्खावट्टि० सादि० दोहि पुच्चकोडीहि० । देवगदि०४

संस्थान, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है । औदारिकशरीर, परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पल्य है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पल्यपृथक्त्वप्रमाण होनेसे इसमें पाँच ज्ञानावरणादि भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल सौ पल्यपृथक्त्व-प्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदिमें कुछ सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं और कुछ अप्रुदबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । सम्यग्दृष्टि देवीके पुरुषवेद आदिका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य कहा है । उत्तम भोगभूमिमें पर्याप्त होने पर मनुष्यनीके देवगति चतुष्कका नियमसे बन्ध होता है, इसलिए यहाँ देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है । देवीके और वहाँसे च्युत होने पर मिथ्यादृष्टि जीवके अन्तर्मुहूर्त काल तक औदारिकशरीर आदिका बन्ध सम्भव है, इसलिए औदारिकशरीर आदिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पल्य कहा है । मनुष्यनी आठ वर्षकी होकर सम्यक्त्व हो जल्पन्नकर तीर्थङ्कर प्रकृतिका एक पूर्वकोटि कालके अन्त तक निरन्तर बन्ध कर सकती है, इसलिए यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है ।

२४२. पुरुषोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डक और सातावेदनीय आदि द्वितीय दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि प्रथम दण्डकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय वह अपनी कायस्थितिप्रमाण कहना चाहिए । पुरुषवेदके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो पूर्वकोटि अधिक दो छथासठ सागर है ।

पंचिदियदंडओ समचदु०दंडओ तित्थ० ओषं । णवरि पंचिदियदंडओ अणु० उ० तेवद्धि-
सागरोवमसदं । मणुसगदिपंचग० अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सागरो ।

२४३. णजुंसगे पढमदंडओ विदियदंडओ तिरिक्ख०३ तिरिक्खोषं । पुरिसदंडओ
सत्तमभंगो । देवगदि०४ अणु० ज० ए०, उ० पुव्वकोडो दे० । पंचि०-ओरा०अंगो०
पर०-उत्सा०-त्तस०४ उक्कत्सं ओषं । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० दोहि
अंतोमुत्तेहि सादि० । ओरा०अंगो० एगमुहुत्तेहि सादि० । तित्थ० अणु० ज० ए०, उ०
तिणिसाम० सादि० ।

देवगतिचतुष्क, पञ्चेन्द्रियजातिदण्डक समचतुरस्रसंस्थानदण्डक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग
ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका
उत्कृष्ट काल एक सौ त्रेसठ सागर है । मनुष्यगतिपञ्चकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल
एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—यहां पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकके कालमें स्त्रीवेदी जीवोंकी
अपेक्षा जो विशेषता है उसका निर्देश मूलमें किया ही है । तात्पर्य यह है कि पुरुषवेदकी
उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है और पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धनी प्रकृतियों
हैं, इसलिए इनके अनुरद्ध प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण जानना
चाहिए । सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंमें जैसा वतलाया है वह यहाँ
भी वैसा ही है । कारण स्पष्ट है । पुरुषवेदका निरन्तर बन्ध ओषके दो पूर्वकोटि अधिक
दो छयासठ सागर घतला आये हैं वह पुरुषवेदी जीवोंमें अविकल घटित हो जाता है,
इसलिए यहाँ भी इसके अनुरद्ध प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त काल प्रमाण कहा है । देवगति
चतुष्क, पञ्चेन्द्रियजातिदण्डक, समचतुरस्रसंस्थानदण्डक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषके
समान है यह स्पष्ट ही है । मात्र पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट
काल ओषसे जो एक सौ पचासी सागर कहा है उससेसे बाईस सागर कम हो जाता है,
क्योंकि छठे नरकके बाईस सागर इससेसे न्यून हो जाते हैं, अतः यहाँ इस दण्डकके
अनुरद्ध प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल एकसौ त्रेसठ सागर कहा है । सर्वार्थसिद्धिमें मनुष्यगति
पञ्चकका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है ।

२४३. नपुंसकवेदमें प्रथम दण्डक, द्वितीय दण्डक और तिर्यञ्जगतित्रिकका भङ्ग
सामान्य तिर्यञ्जोके समान है । पुरुषवेददण्डकका भङ्ग सातवीं पृथिवीके समान है । देव-
गतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम
एक पूर्वकोटि है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास और त्रस-
चतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका भङ्ग ओषके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल
एक समय है और उरद्ध काल दो अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतीस सागर है । मात्र औदारिक
शरीरआङ्गोपाङ्गका यह काल एक अन्तर्मुहूर्त अधिक है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट प्रदेश-
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है ।

विशेषार्थ—सामान्य तिर्यञ्जोमें प्रथम और द्वितीय दण्डक तथा तिर्यञ्जगतित्रिकका
जो काल कहा है वह अविकल नपुंसकवेदमें बन जाता है, इसलिए इनका भङ्ग सामान्य
तिर्यञ्जोके समान जाननेकी सूचना की है । सम्यग्दृष्टि मनुष्य पर्याप्त नपुंसकवेदीके देवगति-
चतुष्कका निरन्तर बन्ध होता रहता है और इनमें सम्यक्त्वका काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है,

२४४. मदि० सुद० पंचणा० दंडओ तिरिक्ख० ३ पंचिदियदंडओ णुंसगभंगो । सादासाद० सत्तणोक० चटुआउ० गिरियग० चटुजा० पंचसंठा० छस्संघड० - गिरियाणु० आदाउज्जो० अप्पसत्थ० थावरादि० ४-थिरादितिण्णियु० दूमग-दुस्सर-अणादे० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । मणुसगदि० २ उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं सादि० अंतोमुहुत्ते० णिक्खमंतस्स । देवगदि० ४-समचटु० पसत्थ० सुभग-सुस्सर-आदे० उच्चाणो० उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० दे० । एवं अग्गवसि० मिच्छा० ।

इसलिए यहाँ देवगतिचतुष्के अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। सातवे नरकमें पञ्चेन्द्रियजाति आदिका निरन्तर बन्ध तो होता ही है। साथ ही वहाँ जानेके पूर्व अन्तर्मुहूर्त काल तक और वहाँसे निकलनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका बन्ध होता है, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल दो अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतीस सागर कहा है। मात्र औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नरकमें जानेके पूर्व बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके उत्कृष्ट कालमें एक अन्तर्मुहूर्त कम कर दिया है। तीसरे नरकमें साधिक तीन सागर काल तक तीर्थङ्कर प्रकृतिका निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है।

२४४. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणदण्डक, तिर्यञ्चगतित्रिक और पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, चार आयु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, छह संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यगतिद्विकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल निकलनेवालेका अन्तर्मुहूर्त अधिक इकतीस सागर है। देवगतिचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चागोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि दण्डक, तिर्यञ्चगतित्रिक और पञ्चेन्द्रियजाति दण्डकका जो काल कहा है वह यहाँ अविकल घटित हो जाता है, इसलिए यह नपुंसकवेदी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। सातावेदनीय आदि प्रकृतियों सब परावर्तमान हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध नौवें प्रवेयकमें और वहाँसे निकलने पर अन्तर्मुहूर्त काल तक होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतीस सागर कहा है। उत्तम भोगभूमिमें पर्याप्त होने पर कुछ कम तीन पत्य तक देवगतिचतुष्क आदिका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीव मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी ही होते हैं, इसलिए इनका भङ्ग मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है।

२४५. विभंगे पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क० - ओरा०अंगो०-वण्ण०४-तिरिक्खणु०-अणु०४-त्तस०४-णिमि०-पोचा०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० तेचीसं० दे० । मणुसगदि०२ उक० ओवं । अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० दे० । सेसाणं मणजोगिभंगो ।

२४६. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-उदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु० वण्ण०४-अणु०४-पसत्थ०-त्तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । एवं सव्वाणं उक० । अणु० ज० ए०, उ० छावड्डिसाग० सादि० । सादासाद०-चदुणोक०-दोआउ०-आहारदुग-थिरादितिण्णियु० अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । अपक्खसाण०४-तित्थ० अणु० ज० ए०, उ० तेचीसं० सादि० । पक्खसाण०४ अणु० ज० ए०, उ० वादालीसं० सादि० । मणुस-

२४५. विभंगज्ञानमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, चोल्ह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । मनुष्यगतिद्विकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओचके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगा जोवोके समान है ।

विशेषार्थ—नरकमे विभंगज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । इतने काल तक पाँच ज्ञानावरणादिका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । नीचं त्रैवेयकमे विभंगज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर है । इतने काल तक यहाँ मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर कहा है । शेष प्रकृतियों परावर्तमान है, इसलिए उनका भंग मनोयोगी जीवोके समान जाननेकी सूचना है ।

२४६. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अचधिज्ञानी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संव्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्ररास्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोक्रपाय, दो आयु, आहारशरीरद्विक और स्थिर आदि तीन युगलके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अपत्याख्यानावरण चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

गदिपंचग० अणु०^१ ज० ए०, उ० तेत्तीसं० । देवगदि०४ उक्क० अणु० ओघं । एबं ओधिदं०-सम्मा० ।

२४७. मणपज्ज० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-गुरिस०-भय-दु०-देवगदि-पंचिदि०-वेउक्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेक्वि०-अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आद्दे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उ०।ज० ए०, उ० बेसम० ।

साधिक न्यालीस सागर है । मनुष्यगतिपञ्चकके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—आमिनिबोधिकज्ञान आदि तीन ज्ञानोंका उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि अधिक छयासठ सागर है । यही कारण है कि यहाँ पर पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर कहा है । सातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है इसका पहले अनेक बार सुलासा कर आये हैं । सर्वार्थसिद्धिमें और बहोंसे निकलकर मनुष्य होने पर संयमासंयम या संयम ग्रहण करनेके पूर्वतक जीव अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध करता रहता है और श्रेणि आरोहण करके आठव गुणस्थानके अन्ततक तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करता रहता है । यह काल साधिक तेतीस सागर होता है, इसलिए यहाँ इन पाँच प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध संयमासंयम गुणस्थानतक प्रारम्भके पाँच गुणस्थानोंमें होता है, पर यहाँ आमिनिबोधिकज्ञान आदिका प्रकरण है, इसलिए यहाँ यह देखना है कि केवल सम्यक्त्वके साथ और सम्यक्त्व व संयमासंयमके साथ जीव अधिकसे अधिक कितने काल तक रहता है । केवल सम्यक्त्वके साथ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है इस बातका उल्लेख तो हमने इसी विशेषार्थके प्रारम्भमें किया ही है । किन्तु सम्यक्त्वो जीव कहीं केवल सम्यक्त्वके साथ और कहीं सम्यक्त्व व संयमासंयमके साथ लगातार यदि रहता है तो उस कालका योग साधिक बयालीस सागर होता है, इसलिए यहाँ प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक बयालीस सागर कहा है । सर्वार्थसिद्धिमें मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक शरीर आज्ञोपाङ्ग और ब्रह्मर्षभनाराच संहनन इन पाँच प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । ओघसे देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जो काल कहा है वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसलिए यह भङ्ग ओघके समान कहा है । अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंका काल आमिनिबोधिकज्ञानी आदिके ही समान है, इसलिए इनका भङ्ग आमिनिबोधिकज्ञानी आदिके समान कहा है ।

२४७. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है ।

१. ता०प्रतौ 'मणुसगदिपंचग० मणुसगदिपंचग० (?) अणु०' इति पाठः ।

अणु० ज० ए०, उ० पुण्वकोडो० [देवणा । सादासाद०-इस्स-रदि-अरदि-सोग-
देवाउ०-आहारस०-आहार-अंगो०थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० उ० ज० ए०, उ०
बेसम० । अणु० ज० ए०, उ० अंतोमु० । एवं संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार० ।]...

अन्तराणुगमो

२४८.कस्सभंगो । देवगदि०४ जह० गण्थि अंतरं । अज० जह० एम०,
उक० तेत्तीसं सादि० । एहंदिथदंडओ उकस्सभंगो । एदाणं दंडगाणं उकस्साणुकस्स-
बंधातो विसेसो । जहण्णपदेसबंधंतरं जह० अंतो० । सेसं पुरिसं । तित्थं ओधं ।

२४९. णडुंसगे धुवियाणं [जह०] जह० खुदाभवग्गहणं समऊणं, उक०
असंखेजा लोगा । अज० जह० उक० ए० । थीणगिद्धि०३ दंडओ^१ जह० णाणा०भंगो ।
अज० अणुकस्सभंगो । सादासाद०-पंचणोक०-पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-

अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, देवायु, आहारकशरीर, आहारकशरीर आङ्गोपाङ्ग, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना-संयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए इसमें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । सातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । संयत आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ यहाँ गिनाई हैं उनका उत्कृष्ट काल भी कुछ कम एक पूर्वकोटि है और मनःपर्ययज्ञानके समान ही इन मार्गणाओमें प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इसलिए इनकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

अन्तरानुगम

२४८.उत्कृष्टके समान भङ्ग है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । एकेन्द्रियदण्डकका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इन दण्डकोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धसे विशेष जानना चाहिये । जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष पुरुषवेदके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है ।

२४९. ननुंसकवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम झुल्लकभवंग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । स्थानगुद्धि तीन दण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकषाय, पञ्चोन्द्रियजाति, समचतुरस्र

२. ता०५ तौ 'पुण्वकोडि०' । [अत्र तादपत्रचतुष्टयं विनष्टम्]..... इति निर्दिष्टम् । आ०
प्रतावपि १८३, १८४, १८५, १८६, संख्याङ्कितताडपत्राणि विनष्टानीति सूचना वर्तते ।

१. आ०प्रतौ उक्क० थीणगिद्धि३दंडओ इति पाठः ।

तस०४-थिरादितिणियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे० जह० णाणावरणभंगो । अज० जह० ए०, उक्क० अंतो । अट्टकसा०-णिरयग०-मणुसग०-आहारदुग-तिण्णिआ०-दोआणु०-उच्चा० जह० अज० ओघं । देवाउ० मणुसि०भंगो । देवगदि०४ जह० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडिदिभारं देसू । अज० जह० एग०, उक्क० अणंतकाल० । ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि० जह० णाणा०भंगो । अज० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू । तित्थ० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो ।

संस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर और आदेयके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषाय, नरकगति, मनुष्य-गति, आहारकद्विक, तीन आयु, दो आनुपूर्वी और उरुचगोत्रके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध का अन्तर ओघके समान है । देवायुका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और वज्रभ्रमनाराचसंहननके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । तीर्थङ्कप्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म अपर्याप्त निगोद जीवके भवग्रहणके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण कहा है, क्योंकि दो क्षुल्लक भवोंके प्रथम समयमें जघन्य प्रदेशबन्ध होनेपर उक्त अन्तर काल प्राप्त होता है । तथा सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिए यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । इनका जघन्य प्रदेशबन्धका काल एक समयमात्र है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । स्थानगुद्धि तीन दण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामित्व ज्ञानावरणके समान होनेसे इसके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल उसके समान कहा है और इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर जो अनुत्कृष्ट के समान कहा है सो उसका यही अभिप्राय है कि इसके अनुत्कृष्टके समान अजघन्य प्रदेशबन्धका भी जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर वन जाता है । सातावेदनीय आदिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी यथायोग्य ज्ञानावरणके समान होनेसे इनके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल उसके समान कहा है । तथा इनका जघन्य बन्धान्तर एक समय और उत्कृष्ट बन्धान्तर अन्तर्मुहूर्त होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । नपुंसकवेदी जीवोंमें आठ कषाय आदिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामित्व ओघके समान होनेसे तथा यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ओघके समान प्राप्त होनेसे वह ओघके समान कहा है सो वह विचार कर जान लेना चाहिए । तथा मनुष्यिनियोंमें देवायुके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जो अन्तर कहा है वह यहाँ नपुंसकवेदियोंमें भी वन जाता है, इसलिए उसे मनुष्यिनियोंके समान जाननेकी

२५०. अवगदवे० सध्वपगदीणं जह० अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

२५१. क्रोधकसा० पंचणा०-सचदंसणा०-मिच्छ०-सौलसक०-पंचंत० जह०
णत्थि अंतरं । अज० जह० उक० एग० । णिहा-पयलादोवेदणी०-णवणो०-तिणिगगदि-
पंचजादि-तिणिगसरीर-छस्संठा०-ओरा०अंगो०-छस्संघ०-वण्ण०४- तिणिगआणु०-अगु०४-
आदाउजो०^१-दोविहा०-त्सादिदसयुग०-णिमि०-तित्थ०-दोगो० जह० णत्थि अंतरं ।
अज० जह० ए०, उक० अंतो० । दोआउ० जह० अज० णत्थि अंतरं । दोआउ०-

सूचना की है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी अनन्तर अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला असंज्ञी नपुंसक जीव होता है । यतः यह आयुबन्धके समय ही सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण कहा है । तथा इनका बन्ध एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है और अनन्त कालके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालप्रमाण कहा है । औदारिक-शरीर आदि तीन प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी यथायोग्य ज्ञानावरणके समान होनेसे इनके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा इनका नपुंसकवेदी जीवोंमें कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम एक पूर्वकोटिके अन्तरसे बन्ध सम्भव है इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । नपुंसकोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध नरकमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे सम्भव है, इसलिए इसके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इसके जघन्य प्रदेशबन्धके समय अजघन्य प्रदेशबन्ध नहीं होता, इसलिए इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर तो एक समय कहा है और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जो नपुंसकवेदी मनुष्य द्वितीयादि नरकोंमें उत्पन्न होता है उसके अन्तर्मुहूर्त कालतक तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

२५०. अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ घोलमान जघन्य योगसे जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव होनेसे जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । मात्र अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपशान्तमोहमें ले जाकर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त नहीं है ।

२५१. क्रोधकषायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । निद्रा, प्रचला, दो वेदनीय, नौ नोकषाय, तीन गति, पाँच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, तीन आयुपूर्वा, अगुरुल्लुचतुष्क, आवप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल, निर्माण, तीर्थङ्कर और दो गोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो आयुओंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । दो आयु और आहारकद्विकका भङ्ग मनयोगी

१. ता०प्रती 'तिणिगआणु०४ (१) अगु०४ आदाउजो०' इति पाठः ।

आहारदुग्गं मणजोगिभंगो । णिरयगदिदुग्गं जहं अजं जहं एं, उक्कं अंतरं । माणे पंचणां-सत्तदंसणां-मिच्छं-पणारसकं-पंचंतं जहं णत्थि अंतरं । अजं जहं उक्कं एगं । सेसाणं कोधभंगो । मायाए पंचणां-सत्तदंसणां-मिच्छं-चोद्दसकं-पंचंतं जहं णत्थि अंतरं । अजं जहं उक्कं एं । सेसाणं कोधभंगो । लोभेपंचणां-सत्तदंसणां-मिच्छं-वारसकं-पंचंतं जहं णत्थि अंतरं । अजं जहं उक्कं एगं^२ । सेसाणं कोधभंगो ।

जीवोके समान है । नरकगतिद्विकके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मानकषायमे पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग क्रोधकषायवालेके समान है । मायाकषायमे पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, चौदह कषाय और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग क्रोधकषायवाले जीवोके समान है । लोभकषायमे पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग क्रोधकषायवाले जीवोके समान है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिका तथा दूसरे दण्डकमें कही गई चिद्रा आदिका क्रोधकषायके कालमे दो बार जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा प्रथम दण्डकमे कही गई पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध होते समय अजघन्य प्रदेशबन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । तथा चिद्रादिदण्डकमें दो वेदनीय, नौ नोकषाय, तीन गति, पाँच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, छह सहनन, दो बिहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्र ये तो अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं तथा शेष चार प्रकृतियोंकी आठवें गुणस्थानमे बन्धव्युच्छित्ति होकर और अन्तर्मुहूर्तमे क्रोधकषायके कालमे ही मरकर देव होनेपर पुनः इनका बन्ध होने लगता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । यहाँ सब प्रकृतियोंका यह जघन्य अन्तर एक समय, एक समय बन्ध न कराके या मध्यमे एक समयके लिए जघन्य बन्ध कराके ले आना चाहिए । तिर्यञ्जयु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे ही सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष दो आयु और आहारकद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध धोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनका मनोयोगी जीवोंके समान अन्तर कथन बन जानेसे वह उनके समान कहा है । नरकगतिद्विकका एक तो धोलमान जघन्य योगसे जघन्य प्रदेशबन्ध होता है । दूसरे ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है । मान, माया और लोभकषायवाले जीवोमे सब प्रकृतियोंके जघन्य और

१. ता०प्रती 'जं उं एं सेसाणं । कोधभंगो' आ०प्रती 'जहं एं उक्कं एं । सेसाणं कोधभंगो' इति पाठः । २. आ०प्रती 'अजं जहं एगं उक्कं एगं' इति पाठः ।

२५२. मदि-सुदे ध्रुवियाणं जह० जह० खुदाभवगहणं समऊणं, उक्क० असंखेजा लोगा । अज० जह० उक्क० ए० । दोवेदणी०^१-छण्णोक०-पंचिदि०-समच०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०-ध-थिरादितिणियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे० जह० णाणावरण-भंगो । अज० जह० ए०, उक्क० अंतो० । णवुंस०-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो-छस्संघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा जह० णाणावरणभंगो । अज० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलि० देसू० । दोआउ०-वेउव्वियछ० जह० अज० जह० एग०, उक्क० अणंतका० । तिरिक्ख०-मणुसाउ०-मणुसगादि०३ ओवं । तिरिक्ख०३ जह० णाणावरणभंगो । अज० जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं साग० सादि० दोहि मुहुत्तेहि सादि० । चटुजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्ज०-साघा० जह० णाणावरणभंगो । अज० जह० एगसमयं, उक्क० तेत्तीसं सादि० दोहि मुहुत्तेहि सादिरेगं । एवं अब्भवसि०-मिच्छा० ।

अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र इनमें क्रमसे एक दो और चार रूपायको कम करके यह अन्तरकाल कहना चाहिए, क्योंकि मानमें क्रोधके, मायामे क्रोध और मानके तथा लोभमें चारोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त बन जाता है ।

२५२. मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम झुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात-लोकप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । दो वेदनीय, छह नोकषाय, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायो-गति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर और आदेयके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेद, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक-शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहननन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यप्रमाण है । दो आयु और वैक्रियिक छहके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालप्रमाण है । तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और मनुष्यगतित्रिकका भंग ओषके समान है । तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो मुहूर्त अधिक इकतीस सागर है । चार जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो मुहूर्त अधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार अभन्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम और द्वितीय दण्डकका स्पष्टीकरण जिस प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंमे कर आये हैं उस प्रकार कर लेना चाहिए । तीसरे दण्डकमे कही गई नपुंसकवेद आदिके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान ही है । तथा ये सब एक तो

१, आ०प्रती 'जह० ए० उक्क० अंतो० । दोवेदणी०' इति पाठः ।

२५३. विभंगे पंचणा०-गवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-
वणा०-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० जह० जह० एग०, उक० छम्मासं देसणं । अज०
जह० एग०, उक० चचारिसम० । दोवेदणी०-सत्तणोक०-दोगदि-यइदि०-पंचिदि०-
ओरालि०-छस्संठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संधं०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउजो०-दो-
विहा०-तस-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-धिरादित्तिणिण्यु०-दोगो० जह० जह० एग०, उक०
छम्मासं देसणं । अज० जह० एग०, उक० अंतो० । दोआउ० मणजोगिभंगो । दोआउ०
देवभंगो । वेउविद्यउक-तिणिणजादि-सुहुम-अपज्ज०-साधार० जह० अज० जह० एग०,
उक० अंतो० ।

परावर्तमान प्रकृतियों हैं। दूसरे भोगभूमिमें पर्याप्त होने पर इनका बन्ध नहीं होता, इस-
लिये इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम
तीन पत्य कहा है। नरकायु. देवायु और वैक्रियिकषट्कका जघन्य प्रदेशबन्ध एक तो
घोलमान जघन्य योगसे होता है। दूसरे एकेन्द्रिय और विकलत्रय जीव इनका बन्ध नहीं
करते, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ तिर्यञ्चगति आदिका बन्ध नौवें प्रवेयकमें
और वहाँ जानेके पूर्व तथा निकलनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक नहीं होता, इसलिये इनके
अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतीस सागर कहा है। चार-
जाति आदिका बन्ध सातवें नरकमें और वहाँ जानेके पूर्व तथा निकलनेके बाद एक एक
अन्तर्मुहूर्त तक नहीं होता, इसलिये इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो अन्तर्मुहूर्त
अधिक तेतीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

२५३. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय,
भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, षषघात, निर्माण और
पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
कुछ कम छह महीना है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। दो वेदनीय, सात नोकषाय, दो गति, एकेन्द्रियजाति,
पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो-
आनुपूर्वी, परवात, उच्छ्वास, आतप, उद्योतं, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, वादर, पर्याप्त,
प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगल और दो गोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। दो व्यायुओंका भङ्ग मनोयोगी
जीवोंके समान है। दो आयुओंका भङ्ग देवोंके समान है। वैक्रियिकषट्क, तीन जाति,
सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय
है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुक्रमके बन्धके समय
घोलमान जघन्य योगसे होता है। यह जघन्य प्रदेशबन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे
भी हो सकता है और कुछ कम छह महीनाके अन्तरसे भी हो सकता है, इसलिए इनके
जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना
कहा है। यहाँ इतना विवेक जानना चाहिए कि यद्यपि यह जघन्य प्रदेशबन्ध चारों
गतियोंमें होता है पर इसका उत्कृष्ट अन्तर नरक और देवगतियों ही सम्भव है, क्योंकि

२५४. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-छदंसणा०-सादासाद०-चसंदुज०-सत्तणो-
क०-पंचंत० जह० जह० वासपुधत्तं समऊणं, उक्क० छावट्टि० सादि० । अज० जह०
एग०, उक्क० अंतो० । अडुक्क० जह० जह० वासपुधत्तं समऊणं, उक्क० छावट्टि०
सादि० । अज० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी दे० । दोआउ० उक्कत्सभंगो । मशुसगदि-
पंचग० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० वासपुध०, उक्क० पुव्वकोडी दे० ।
देवगदि०४ जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेचीसं साग० सादि० ।
पंचिदि०-नेजा०-क०- समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादितिण्णियु०-

अन्तर्दुर्हृत्से अधिक काल तक इस ज्ञानका प्राप्ति उन्हीं दो गतियोंमें सम्भव है। आगे जिन प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका यह अन्तर कहा है वहाँ यह इसी प्रकार धरित कर लेना चाहिए। तथा धोलमान योगका जघन्य काल एक समय है और उक्कट्ट काल चार समय है। इसलिए इनके काल तक पाँच ज्ञानावरणादिका निरन्तर जघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उक्कट्ट अन्तर चार समय कहा है। दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उक्कट्ट अन्तर अन्तर्दुर्हृत् कहा है। नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशवन्ध भी धोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उक्कट्ट अन्तर अन्तर्दुर्हृत् तथा अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उक्कट्ट अन्तर चार समय मनोयोगी जीवोंके समान कहा है। तथा शेष दो आयुओंका जघन्य प्रदेशवन्ध भी धोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उक्कट्ट अन्तर कुछ कम छह महीना देवोंके समान कहा है। यहाँ यद्यपि इन दो आयुओंका जघन्य प्रदेशवन्ध चारों गतियोंमें होता है पर इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका उक्कट्ट अन्तर मनुष्यगति और देवगतिमें सम्भव नहीं है, इसलिए यह सब अन्तर देवोंके समान कहा है। वैश्विकपदक आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं और इनका जघन्य प्रदेशवन्ध धोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उक्कट्ट अन्तर अन्तर्दुर्हृत् कहा है।

२५४ आभिनित्रोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सादावेदनीय, असादावेदनीय, चार संव्वलन, सात नोकषाय और पाँच अन्तराद्यके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वर्षपृथक्त्वप्रमाण है और उक्कट्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कट्ट अन्तर अन्तर्दुर्हृत् है। आठ कषायोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वर्षपृथक्त्वप्रमाण है और उक्कट्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कट्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है। दो आयुओंका भङ्ग उद्दृष्टके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है और उक्कट्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्दुर्हृत् है और उक्कट्ट अन्तर साधिक तेवीच सागर है। पञ्चोद्वयजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरक्षत्तंस्थान, वर्णचतुष्क, अयुस्सुवचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुत्वर,

सुभग-सुस्तर-आदे०-णिमि०-तित्थि०-उच्चा० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०,
उक० अंतो० । आहारदुगं जह० जह० एग०, उक० पुव्वकोडितिभागं देघणं । अज०
जह० ए०, उक० तेत्तोसं सादि० । एवं ओधिदं-सम्मा० ।

आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध तद्भवस्थ जीवके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा है, क्योंकि किसी उक्त ज्ञानवाले जीवने मनुष्यभक्तके प्रथम समयमें जघन्य प्रदेशबन्ध किया और वर्षपृथक्त्व काल तक जीवन धारणकर मरा और देव होकर वहाँ भी भवके प्रथम समयमें जघन्य प्रदेशबन्ध किया तो इस प्रकार यह जघन्य अन्तरकाल उपलब्ध हो जाता है। तथा इनके जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर कहनेका कारण यह है कि इतने काल तक कोई भी जीव उक्त ज्ञानोंके साथ रहकर प्रारम्भमें और अन्तमें यथायोग्य उक्त कर्मोंका जघन्य प्रदेशबन्ध कर सकता है। आगे अन्य जिन प्रकृतियोंका यह अन्तरकाल कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। इन प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध एक समय तक होता है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और उपशान्तसीहमें पाँच ज्ञानावरणादिका तथा छठे गुणस्थानके आगे लौटकर वहाँ भानके पूर्व मध्य कालमें असातावेदनीय आदिका यथायोग्य अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका संयतासंयत आदिके और प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका संयत आदिके अधिकसे अधिक कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ दो आयुओंसे मनुष्यायु और देवायु ती गई हैं। इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर इन मार्गणामोंमें जो प्राप्त होता है वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए यहाँ यह उत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है। मनुष्यगतिपञ्चकका जघन्य प्रदेशबन्ध उसी प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ देव और नारकोंके होता है जो तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध कर रहा है। ऐसा जीव पुनः देव और नारकी नहीं होता, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। पञ्चेन्द्रियजाति आदिके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालके निषेधका यही कारण जानना चाहिए। सम्यग्दृष्टि मनुष्य मनुष्यगतिपञ्चकका बन्ध नहीं करता और इसकी जघन्य आयु वर्षपृथक्त्वप्रमाण और कर्मभूमिकी अपेक्षा उत्कृष्ट आयु पूर्वकोटिप्रमाण होती है, इसलिए यहाँ मनुष्यगतिपञ्चकके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रमसे उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ उत्कृष्ट अन्तरकाल देशोन कहा है सो कारण जानकरकहना चाहिए। देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध ऐसा प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ मनुष्य करता है जो तीर्थङ्कर प्रकृतिका भी बन्ध कर रहा है। यतः ऐसा मनुष्य नियमसे उस भवमें तीर्थङ्कर होकर मोक्ष जाता है, अतः यहाँ देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा उपशमश्रेणियोंमें अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध नहीं होता और जो जीव उपशमश्रेणियोंमें अन्तर्मुहूर्त तक इनका अवन्धक होकर मर कर तेतीस सागर आयुके साथ देव होता है उसके साधिक

२५५. मणपञ्ज० असाद०-अरदि-सोग-अथिर-अमुभ-अजस० जह० जह० एग०,
उक० पुव्वकोडी दे० । अज० जह० एग०, उक० थंतो । देवाउ० उक०ससभंगो ।
सेसाणं जह० जह० एग०, उक० पुव्वकोडितिभागं दे० । अज० जह० एग०, उक०
थंतो । एवं संजदा० । एवं चैव सामाह०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद० । णवरि-
धुविय-तित्थ०^१ अज० जह० एग०, उक० चत्तारिस० ।

तेतीस सागर काल तक इनका वन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। पञ्चन्द्रिय-जाति आदिका एक समयके अन्तरसे जघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव है और उपशमश्रेणिमें अन्तर्मुहूर्त तक इनका वन्ध न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। आहारकद्विकका जघन्य प्रदेशवन्ध आयुवन्धके साथ घोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग-प्रमाण कहा है। तथा एक समयके लिये धीचमें जघन्य प्रदेशवन्ध होने पर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है और साधिक तेतीस सागर तक आहारकद्विकका वन्ध न हो यह भी सम्भव है, इसलिये इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। अवधिदर्शनी और सम्बन्धप्रतिमें यह अन्तर प्ररूपणा इसी प्रकार घटित कर लेनी चाहिए।

२५५. मनःपर्ययतानी जीवोंमें असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर अशुभ और अयशःकीतिके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। देवायुका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार संयत जीवोंमें जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार सामाधिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियों और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है।

विशेषार्थ—यहाँ असातावेदनीय आदिका जघन्य प्रदेशवन्ध घोलमान जघन्य योगसे होता है। यह सम्भव है कि इस प्रकारका योग एक समयके अन्तरसे हो और मनःपर्ययज्ञानके उत्कृष्ट कालके भीतर प्रारम्भमें और अन्तमें ही मध्यमें न हो, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है। तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध भी एक समयके अन्तरसे सम्भव है और छठेसे आगेके गुणस्थानोंमें जाकर तथा वहाँसे लौटकर छठे गुणस्थान तक आनेमें लगनेवाले अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर इनका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण होता है। वह अन्तर यहाँ भी सम्भव है, इसलिए यहाँ इसका भङ्ग उत्कृष्टके समान कहा है। शेष प्रकृतियोंके

२५६. असंजदे पंचणा०-छर्दसणा०-वारसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-
अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० जह० जह० खुदाभ० समऊ०, उक० असंखेजा लोगा ।
अज० जह० उक० एग० । धीणगिद्धि०३दंडओसाददंडओतिणिज्जादिदंडओ तित्थ०-
दंडओ णवुंस०-चहुआड०-वेडवियळ०-मणुस०३ ओघभंगो । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो ।
अचक्खु०-भवसि० ओघं ।

२५७. ङ्णिण-णील-काऊ० पंचणा०-छर्दसणा०-वारसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-
वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक० एग० ।

जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर और उत्कृष्ट अन्तर असातावेदनीयके समान ही घटित कर लेना चाहिए । मात्र इनके जघन्य प्रदेशबन्धके उत्कृष्ट अन्तरमें फरक है । वात यह है कि इनका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुर्कर्मके बन्धके समय ही होता है, इसलिए इसका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । संयत जीवों में भी सब प्रकृतियोंका यह अन्तरकाल घटित हो जाता है, इसलिए उनके कथनको मनःपर्ययज्ञानियोंके समान जाननेकी सूचना की है । सामायिकसंयत आदि मार्गणाओंमें भी यह अन्तरकाल बन जाता है, इसलिए उनके कथनको भी मनःपर्यय-ज्ञानियोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इन मार्गणाओंमें जो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों हैं उनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय ही प्राप्त होता है. इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । यहाँ यह वात ध्यानमें लेनेकी है कि सामायिक संयम और छेत्रोपस्थापनासंयम यद्यपि नौवें गुणस्थान तक होते हैं और इसके पूर्व आठवें व नौवें गुणस्थानमें कुछ प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति हो लेती है, पर एक तो ऐसे जीवके नौवें गुणस्थानके आगे उक्त दो संयम नहीं रहते दूसरे नौवें गुणस्थानमें मरण होने पर भी उक्त दो संयमों का अभाव ही जाता है, इसलिए इन संयमोंमें अन्तरकालको प्राप्त करनेके लिए उपशम-श्रेणि पर आरोहण नहीं कराना चाहिए और इसलिए इन संयमोंमें जिन प्रकृतियोंका छूटे और सातवें गुणस्थानमें नियमसे बन्ध होता है वे सब इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों जान लेनी चाहिए ।

२५६. असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम झुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । त्यानगृद्धित्रिकदण्डक, सातावेदनीयदण्डक, तीन जातिदण्डक, तीर्थङ्करप्रकृतिदण्डक, नपुंसकवेद, चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग ओषके समान है । चक्षु-दर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । तथा अचक्षुदर्शनवाले और भज्य जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकके अन्तरकालका विचार जिस प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका कर आये हैं उस प्रकार कर लेना चाहिए । तथा शेष प्रकृतियोंके अन्तर कालका विचार ओषप्ररूपणाका स्मरण कर कर लेना चाहिए ।

२५७. कृष्ण, नील और कापोतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट

थीणगिद्धि० इदंडओ गिरयोधं । सादासाद०-पंचपो०-देवगदि-एइंदि०-यंचिदि०-ओरालि०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-आदाव-पसत्थ०-तसादिचदुयु०-थिरादितिण्णियु०-सुभग-सुस्सर-आदे० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । दोआउ०-तित्थ० मण०-भंगो । दोआउ० जह० णत्थि अंतरं । अज० गिरय-भंगो । गिरयगदिदुगं जह० एग० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो । वेउन्वि०-वेउन्वि०-अंगो० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० वाधीसं साग० सत्तारस० सत्तसाग० । णवरिं मणुसगदि०३ सादभंगो ।

अन्तरकाल एक समय है । स्थानगृद्धिन्निकदण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकषाय, देवगति, एकेन्द्रियजाति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रभनाराचसंहनन, देव-गत्यानुपूर्वी, परघात, उन्क्यास, आतप, प्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चार युगल, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर और आदेयके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेश-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो आयु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । दो आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नारकियोंके समान है । नरकगतिद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बाईस सागर, सत्रह सागर और सात सागर है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग साता वेदनीयके समान है ।

विशेषार्थ—उक्त तीन लेख्याओंमें पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव भवके प्रथम समयमें करता है । इस जीवके पुनः इस अवस्थाके प्राप्त करने पर लेख्या बदल जाती है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । सातावेदनीय आदिके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालके निषेध करनेका यही कारण है । तथा जब एक समय तक पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है तब अजघन्य प्रदेशबन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । स्थानगृद्धिन्निकदण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय आदि सब अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । नरकायु, देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर नारकियोंमें जैसा कहा है उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । नरकगतिद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध असंज्ञी जीव धौलमान योगसे आयुबन्धके समय करता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । तथा ये दोनों सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । वैक्रियिकद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ आहारक असंयत-

२५८. तैत्तिरीय पंचणा०-पंचत० जह० जह० पलि० सादि०, उक्क० वेसाग० सादि० । अज० जह० उक्क० एग० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णुसं०-तिरिक्ख०-एइदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु० - आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावर-दूमग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० वेसाग० सादि० । छद्दंसणा०-वारसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पचे०-णिमि०-तित्थि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० एग० । सादासाद०-उच्चा० जह० णाणा०भंगो । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो । पुरिस०-हस्सर-दि-अरदि-सोग-मणुसगदि-पंचिदि०-समचदु०-ओरालि०अंगो-वज्जरि०-मणुसाणु०-पसत्थ०-थिरादितिणियु०-सुभग-सुस्सर-आदे० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० ए०, उक्क० अंतो । दोआउ० देवभंगो । देवाउ०-आहारदुग० मणजोगिभंगो । देवगदि४

सम्यग्दृष्टि मनुष्य करता है, इसलिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा एक तो ये दोनों सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं। दूसरे नरकमें इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे बाईस सागर, सत्रह सागर और सात सागर कहा है। सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टि हीं भरता है और ऐसे जीवके वहाँसे निकलनेके बाद कृष्णलेश्याके कालमें वैक्रीयकद्विकका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ कृष्णलेश्यामें इन प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर बाईस सागर कहा है। यहाँ मनुष्यगतित्रिकका भी जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव भवके प्रथम समयमें करता है और ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका भङ्ग सातावेदनीयके समान बन जानेसे उनके समान कहा है।

२५८. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्थ है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, सोवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच सस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, लुगुप्सा, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगारुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और तीर्थङ्करके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल एक समय है। सातावेदनीय, असातावेदनीय और उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। पुरुषवेद, हास्य, रति अरति, शोक, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रभनाराचसहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुभग, सुस्वर और आदेयके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। दो आयुओंका भङ्ग देवोंके समान है। देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है।

जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० पत्ति० सादि०, उक्क० वेसाग० सादि० । ओरा० १
जह० अज० णत्थि अंतरं ।

२५९. पम्माए पढमदंडओ विदियदंडओ तेउ०भंगो । णवरि विदियदंडए०

अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । औदारिकशरीरके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध मनुष्य और देवके भवग्रहणके प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्यप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागरप्रमाण कहा है । और इनके जघन्य प्रदेशबन्धका यह एक समय काल अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल होनेसे वह जघन्य और उत्कृष्ट एक समय कहा है । स्थानगृद्धि आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ देवके होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इनके इस जघन्य प्रदेशबन्धके आगे पीछे अजघन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और पीतलेश्याके प्रारम्भमे च अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर इनका बन्ध किया और मध्यमे सम्यग्दृष्टि रहकर अबन्धकर रहा तो इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक दो सागर प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । छह दर्शनावरण आदिके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकाल का निषेध उसी प्रकार जान लेना चाहिए जिस प्रकार स्थानगृद्धि तीन आदिके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा यतः इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है; अतः इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । सातावेदनीय आदिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी पाँच ज्ञानावरणके ही समान कहा है इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल पाँच ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा ये सर्वातिपक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । पुरुषवेद आदिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ देव ही है, अतः इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा ये सब परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग देवके समान तथा देवायु और आहारकृत्तिकाका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है । देवगतित्वतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध असंयत सम्यग्दृष्टि मनुष्य जघन्य योगसे करता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा देवोंमे इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है । औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ देव करता है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है और देवों और नारकियोंमे इसकी कोई प्रतिपक्ष प्रकृति नहीं, इसलिए वहाँ इसका निरन्तर बन्ध होता रहता है । तथा मनुष्यों और तिर्यञ्चामे लेश्या बदलती रहती है, इसलिए पीतलेश्यामे अन्तरकाल सम्भव नहीं, इसलिए इसके अजघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका भी निषेध किया है ।

२५९. पद्मलेश्यामे प्रथम दण्डक और द्वितीय दण्डकका भङ्ग पीतलेश्याके समान है ।

एईदि०-आदाव-थावरं वज्ज । विदियदंडए^१ पंचिदिय-तसपविह । सादासाद०दंडओ य तेउ०भंगो । पुरिसदंडओ तेउ०भंगो । तिण्णिआउ०-देवगदि ४-आहारदुग ० तेउभंगो । णवरि अप्पप्पणो द्विदी भाणिदव्वा । ओरा०-ओरा०अंगो० जह० अज० णत्थि अंतरं ।

२६०. सुक्काए पंचणा०-दोवेदणी०-उच्चा०-यंचंत० जह० जह० अट्टारस साग० सादि०, उक्क० तेचीसं साग० समऊ० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । धीण-गिद्धि०-इदंडओ गेवज्जभंगो । छदंसणा०-चदुसंज०-सत्तणोक्क०-पंचिदि०-तेजा०-क्क० समचदु०-वज्जरि०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ० -तस०४-थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुत्तर-आदे०-णिमि०-तित्थ० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अट्टक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० एग० । मणुसाउ० देवभंगो । देवाउ० मणजोतिभंगो । मणुस०४ जह० अज० णत्थि अंतरं । देवगदि०४ जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेचीसं साग० सादि० । आहार०२ जह० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

इतनी विशेषता है कि दूसरे दण्डकमेंसे एकेन्द्रियजाति, आतप और स्यावरको कम कर देना चाहिए । तथा इसी दूसरे दण्डकमें पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसको प्रविष्ट करना चाहिए । साता-वेदनीय और असातावेदनीय दण्डकका भङ्ग पीतलेश्याके समान है । पुरुषवेददण्डकका भङ्ग पीतलेश्याके समान है । तीन आयु, देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकका भङ्ग पीतलेश्याके समान है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । औदारिकशरीर और औदारिकशरीर आङ्गीपाङ्गके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—पद्मलेश्यामें एकेन्द्रियजाति, आतप और स्यावरका बन्ध नहीं होता, इसलिए उन्हें कम करके उनके स्थानमें पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसको सम्मिलित किया है । शेष विचार सुगम है । मात्र पद्मलेश्यामें अन्तरका कथन करते समय पीतलेश्याकी स्थितिके स्थानमें पद्मलेश्याकी स्थिति कहनी चाहिए ।

२६०. सुक्कलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर साधिक अठारह सागर है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कम तेवीस सागर है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्थानगृह्णित्त्रिकदण्डकका भङ्ग प्रवेचकके समान है । छह दर्शनावरण, चार संवत्सन, सात नोकपाय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्जर्षभनाराचचंडनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलपुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुत्तर आदेय, निर्माण और तीर्थङ्करके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । साठ कषायोंके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है । देवायुका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । मनुष्यगतिचतुष्कके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल नहीं है । देवगति चतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेवीस सागर है । आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

१. ता०प्रतौ 'विदियदंडए' इति पाठः ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती आहारक और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ अन्यतर जीव है। इसका अभिप्राय यह है कि ऐसी योग्यता-वाला मनुष्य और देव अन्यतर जीव इन प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है, इसलिए इनका जघन्य अन्तर साधिक अठारह सागर और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कम तेतीस सागर कहा है। तात्पर्य यह है कि किसी जीवको आनत-प्राणतमे उत्पन्न करा कर जघन्य प्रदेशवन्ध करावे और वहाँसे मरनेपर मनुष्य भवके प्रथम समयमें जघन्य प्रदेशवन्ध करावे। ऐसी करनेसे जघन्य अन्तरकाल प्राप्त होता है। तथा किसी एक जीवको सार्थार्थसिद्धिमें उत्पन्न कराकर प्रथम समयमें जघन्य प्रदेशवन्ध करावे और वहाँसे मरनेपर मनुष्यमें उत्पन्न कराकर प्रथम समयमें पुनः जघन्य प्रदेशवन्ध करावे और ऐसा करके उत्कृष्ट अन्तर काल ले आवे। तथा जघन्य प्रदेशवन्धके समय अजघन्य प्रदेशवन्ध नहीं होता, और उपशमश्रुणिमें अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त देखकर वह उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनीय और असातावेदनीय सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिये इनका इस अपेक्षासे यह अन्तर ले खाना चाहिये। स्थानगृद्धि तीन दण्डकका भङ्ग प्रवैयकके समान विचार कर घटित कर लेना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकार प्रवैयकमें इन प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काल नहीं बनता और अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इतीस सागर प्राप्त होता है उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिये। छह दर्शनावरण आदिका जघन्य प्रदेशवन्ध यथायोग्य सन्मगष्टि या मिथ्याष्टि प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और प्रथम समयवर्ती आहारक देवके होता है, इसलिये इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा जघन्य प्रदेशवन्धके समय अजघन्य प्रदेशवन्ध नहीं होता और इनमेंसे कुछ सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं और कुछका आगे नौवें आदि गुणस्थानोंमें वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। आठ कषायोंके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालका अभाव तो छह दर्शनावरण आदिके समान ही जानना चाहिये। तथा इनके जघन्य प्रदेशवन्धके समय इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध नहीं होता इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल एक समय कहा है। मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान और देवायुका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है। मनुष्यगतित्तुष्कका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती आहारक और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ देव करता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तर काल का निषेध किया है। तथा शुक्ललेश्यावाले देवोंमें ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ नहीं हैं, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। देवगतित्तुष्कका जघन्य प्रदेशवन्ध ऐसा प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और आहारक मनुष्य करता है जो तीर्थङ्कर प्रकृतिका वन्ध कर रहा है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा नौवें गुणस्थानसे लेकर चौदहकर पुनः आठवें गुणस्थानमें आने तक इनका वन्ध नहीं होता और ऐसा जीव इनका वन्ध होनेके पूर्व मरकर यदि तेतीस सागरकी आयुवाला देव हो जाता है तो साधिक तेतीस सागर तक इनका वन्ध नहीं होता यह देखकर इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। आहारकद्विकका धोलमान जघन्य योगसे जघन्य प्रदेशवन्ध होता है और ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है।

२६१. खड्ग० पंचणा०—छदंसणा०—सादासाद०—चदुसंज०—सत्तणोक्क०—उच्चा०—
पंचंत० जह० जह० चदुरासीदिवाससहस्साणि समऊ०, उक्क० तेत्तीसं साग० समऊ० ।
[अज० ज० ए०, उक्क० अंतोसु०] । अड्क० जह० गाणा०भंगो । अज०
ओघभंगो । मणुसाउ० देवभंगो । देवाउ० मणुसभंगो^१ । मणुसगदिपंचग० जह०
अज० णत्थि अंतरं । देवगदि०४ जह० णत्थि अंतरं । अज० ओधिभंगो ।
पंचिदियजादिदंडओ आहार०२ ओधिभंगो ।

२६१. क्षाधिकसम्यक्त्वमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार संबलन, सात नोकषाय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम चौरासी हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कम तेतीस सागर है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोके जघन्य प्रदेशवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशवन्धका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग देवोके समान है और देवायुका भङ्ग मनुष्योंके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नहीं है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशवन्धका भङ्ग अविधिज्ञानी जीवोके समान है । पञ्चेन्द्रियजातिदण्डक और आहारकद्विकका भङ्ग अविधिज्ञानी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—जो क्षाधिकसम्यग्दृष्टि नरकमें या देवोंमें उत्पन्न होता है वह और वहाँसे आकर जो मनुष्य होता है वह भी अपने उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जघन्य प्रदेशवन्धके योग्य अन्य विशेषताओंके रहने पर जघन्य प्रदेशवन्धका अधिकारी होता है, इसलिए यहाँ पर पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम चौरासी हजार वर्ष और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कम तेतीस सागर कहा है । तथा जघन्य प्रदेशवन्धके समय अजघन्य प्रदेशवन्ध नहीं होता और उपशमश्रेणिमें कुछका और कुछका सातवे आदि गुणस्थानों में अन्तर्मुहूर्त काल तक वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । आठ कषायोके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काल पाँच ज्ञानावरणके समान ही घटित कर लेना चाहिए । तथा इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर जो ओघके समान कहा है सो जिस प्रकार ओघसे इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्राप्त होता है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान और देवायुका भङ्ग मनुष्योंके समान है यह स्पष्ट ही है । मनुष्यगतिपञ्चकका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती देव और नारकीके ही सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती ऐसा मनुष्य करता है जो तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध कर रहा है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अविधिज्ञानी जीवोके समान है यह स्पष्ट ही है । पंचेन्द्रियजातिदण्डक और आहारकद्विकका भङ्ग भी अविधिज्ञानी जीवोके समान है, इसलिए इनका अन्तर काल वहाँ देखकर घटित कर लेना चाहिए ।

१. आ०प्रतौ 'मणुसगदिभंगो' इति पाठः ।

२६२. वेदगे पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-उरुचा०-पंचंत० जह०
जह० वासपुधत्तं समऊ०, उक० छावद्विसाग० देस० । अज० जह० उक० एग० ।
सादासाद०-चदुणोक० जह० णाणा०भंगो । अज० जह० एग०, उक० अंतो० ।
दोआउ० उकससभंगो । मणुसगदिपंचगं ओधिभंगो । देवगदि०४ जह० णत्थि
अंतरं । अज० जह० पलिदो० सादि०, उक० तेत्तीसं० । पंचिदियदंडओ तित्थ०
जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक० एग० । आहारदुगं ओधिभंगो । थिरादि-
तिण्णियुग० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक० अंतो० ।

२६२. वेदकसम्यक्त्वमे पौंच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पौंच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वर्षपृथक्त्वप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, और चार नोकषायके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। दो आयुओंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर है। पञ्चन्द्रियजातिदण्डक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। आहारकद्रिकका भङ्ग अवधिज्ञानी जावोंके समान है। स्थिर आदि तीन युगलोकके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—यहाँपर पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध देव और मनुष्य पर्वार्थके प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिए तो इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वर्ष पृथक्त्वप्रमाण कहा है और वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल छयासठ सागर होनेसे उसके प्रारम्भमें और अन्तमें याग सामग्रीके मिलनेपर जघन्य प्रदेशबन्धके करानेपर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा जघन्य प्रदेशबन्धका यह एक समय काल अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। सातावेदनीय आदिके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा ये सप्रतिप्रक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। दो आयुओंका भङ्ग उत्कृष्टके समान और मनुष्यगतिपञ्चकका भङ्ग अवधि-ज्ञानी जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है। देवगति चतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले प्रथम समयवर्ती मनुष्यके सम्भव है, इसलिए इसके जघन्य प्रदेश-बन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा वेदकसम्यग्दृष्टिके मरकर देवोंमें स्पष्ट होनेपर वहाँ इनका बन्ध नहीं होता और ऐसे देवोंकी जघन्य आयु साधिक एक पल्पप्रमाण और उत्कृष्ट आयु प्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर कहा है। पञ्चन्द्रियजाति दण्डक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्ती ऐसे देव और नारकीके होता है जो तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध कर रहा है, इसलिए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध दूसरीवार प्राप्त न हो सकनेके कारण उसके अन्तर कालका निषेध किया है। तथा जघन्य प्रदेशबन्धका यह एक समय अजघन्य प्रदेशबन्धका

२६३. उवसम० अडुक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो । मणुसगदिपंचग० जह० अज० णत्थि अंतरं । देवगदिपगदीणं ज० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो । सेसाणं जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो ।

२६४. सासणे धुवि० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० एग० । तिण्णिआउ०

अन्तरकाल होता है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। आहारकद्विकका भङ्ग अवधिजानी जीवोंके जिसप्रकार घटित करके वतला आये हैं उसप्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालके निषेधका वही कारण है जो पञ्चेन्द्रियजाति वृण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालके निषेधके लिए दिया है। तथा ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है।

२६३. उपशमसम्यक्त्वमे आठ कषायोंके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नहीं है। देवगति आदि प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—आठ कषायोंका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती देवके सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तर कालका निषेध किया है। तथा इन आठ कषायोंकी बन्धव्युच्छित्तिके वाद् उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए पुनः इनका बन्ध अन्तर्मुहूर्तके पहले नहीं हो सकता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। मनुष्यगति पञ्चकका जघन्य प्रदेशवन्ध भी भवके प्रथम समयमें देवोंके सम्भव है और उसके वाद् अजघन्य प्रदेशवन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। देवगति आदि प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध धोलमान जघन्य योगसे मनुष्य करता है। यतः इनका जघन्य प्रदेशवन्ध एक समयके अन्तरसे भी बन सकता है और अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे भी बन सकता है। तथा जघन्य प्रदेशवन्धके समय अजघन्य प्रदेशवन्ध नहीं होता और उपशमश्रेणिमें अन्तर्मुहूर्त का उत्कृष्ट इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध भवके प्रथम समयमें देवोंके सम्भव है, इसलिए तो इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा इनमें जो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका तो जघन्य प्रदेशवन्धके समय अजघन्य प्रदेशवन्ध नहीं होता और यथास्थान इनकी बन्धव्युच्छित्तित होने पर पुनः उस स्थानमें आकर बन्ध करनेमें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है। तथा जो अध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका जघन्य बन्धान्तर एक समय और उत्कृष्ट बन्धान्तर अन्तर्मुहूर्त तो है ही, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है।

२६४. सासादनसम्यक्त्वमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। तीन आयुओंका भङ्ग मनीयोगी जीवोंके समान है। देवगतिचतुष्कके जघन्य और अजघन्य प्रदेश-

मणजोगिभंगो । देवगदि०४ जह० अज० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२६५. सम्मामि० धुविगाणं ज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० चचारिसमयं । सेसाणं जह० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२६६. सण्णीसु पंचणाणा०दंडओ जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०२ दंडओ जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० वेळावट्टि० देख्ठो । अट्टक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी दे० । इत्थि० जह० मिच्छ०भंगो । अज० जह० एग०, उक्क० ओघं । णवुंसगदंडओ

बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध तीन गतिके प्रथम समयवर्ती आहारक और तद्बन्ध जीवोंके सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है और इस जघन्य प्रदेशबन्धके समय अजघन्य प्रदेशबन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । तीन आयुओंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है । देवगति चतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध घोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध भक्के प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । किन्तु ये अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

२६५. सभ्यमिध्यात्वमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ घोलमान जघन्य योगसे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका मूलमें कहे अनुसार अन्तरकाल कहा है । शेष प्रकृतियों एक तो अध्रुवबन्धिनी हैं और दूसरे इनका जघन्य योगसे जघन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

२६६. सङ्घियोंमें षोडशनावरणदण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्थानगृह्णित तीन दण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो लथासठ सागर प्रमाण है । आठ कषायोंके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर ओषके समान है । नपुंसकवेददण्डका भङ्ग ओषके समान है । इतनी

ओधं । णवरि जह० णत्थि अंतरं । णिरयाउ-देवाउ० पंचिदियपञ्जत्तभंगो । तिरिक्ख-
मणुसाउ० जह० जह० खुदा० समऊ०, उक्क० कायड्ढिदी० । अज० जह० अंतो०,
उक्क० कायड्ढिदी० । णिरयगदि-णिरयाणु० जह० जह० एग०, उक्क० कायड्ढि० ।
अज० अणुक्क०-भंगो । तिरिक्ख०३ जह० णत्थि अंतरं । अज० ओधं । दोगदि-वेउन्वि०-
वेउन्वि०-अंगो-दोआणु०-उच्चा० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क०
तेत्तीसं० सादि० अंतोमुहुत्तेण । एइंदियदंडओ जह० णत्थि अंतरं । अज० ओधं ।
ओरा०-ओरा०-अंगो-वज्जरि० जह० णत्थि अंतरं । अज० ओधं । आहार०२ जह० जह०
एग०, उक्क० पुव्वकोडितिमहां दे० । अज० ज० ए०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं ।

विशेषता है कि इसके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल नहीं है । नरकायु और देवायुका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोके समान है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम झुल्लकभवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है । तिर्यञ्च-
रगतित्रिकके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ओधके समान है । दो गति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतास सागर है । एकेन्द्रियदण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल ओधके समान है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और 'वज्रवभनाराचसंहननके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल ओधके समान है । आहारकद्विकके जघन्य प्रदेश-
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग-
प्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है ।

विशेषार्थ—जो असंक्षियोमेसे आकर संक्षियोमे उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है । स्थानगुद्धि त्रिकदण्डक, आठ कषाय, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद दण्डके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालके निषेधका यही कारण जानना चाहिए । अपनी बन्धव्युच्छित्तिके बाद पाँच ज्ञानावरणादिका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । मिथ्यास्वका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागर प्रमाण है, इसलिए स्थानगुद्धि त्रिकदण्डके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । स्त्रीवेद अप्रबन्धनिनी प्रकृति है, इसलिए इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और उत्कृष्ट अन्तर ओधके समान है यह स्पष्ट ही है । इसी प्रकार नपुंसकवेदके अजघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ओधके समान घटित कर लेना चाहिए । नरकायु और देवायुका अन्तर यहां पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोकी सुख्यतासे ही घटित होता है, इसलिए इनका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोके समान कहा है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध झुल्लकभवके

२६७. असण्णीसु पदमदंडओ यदि०भंगो । चहुआउ०-मणुसगदि०३ तिरिक्खोव-

द्वितीय त्रिभागके प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम झुल्लक भवप्रहणप्रमाण कहा है और यह जघन्य प्रदेशबन्ध कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें यथासमय हो और मध्यमें न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है। एक वार आयुबन्ध हो कर पुनः आयुबन्धमें कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल लगता है तथा कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें विवक्षित आयुका बन्ध हो और मध्यमें अन्य आयुका बन्ध हो यह सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। नरकगतिद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध सही जीवके घोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए यह एक समयके अन्तरसे भी हो सकता है और कुछ कम कायस्थितिके अन्तर से भी हो सकता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। तथा इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जो एक सौ पचासी सागर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके अन्तरके समान कहा है सो वह यहाँ भी बन जाता है। तिर्यञ्जगतित्रिकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान ही है, इसलिए इसके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल ओषके समान कहनेका कारण यह है कि ओषसे जो इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ श्रेष्ठ सागर कहा है वह यहाँ भी बन जाता है। दो गति आदिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है। तथा एक तो ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं। दूसरे यहाँ साधिक तेतीस सागर काल तक इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। मात्र मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट अन्तर लानेके लिए नरकमें उत्पन्न कराना चाहिए। और देवगतिका उत्कृष्ट अन्तर लानेके लिए उपशमभ्रंश पर आरोहण करा कर और वहीं मृत्यु करा कर देवोंमें उत्पन्न कराना चाहिए। एफेन्द्रियजातिवृण्डके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी भी ज्ञानावरणके समान है, इसलिए इसके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है। तथा इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल जो ओषके समान कहा है सो ओषसे जो इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर बतलाया है वह यहाँ भी घटित हो जाता है। औदारिकशरीर आदिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान ही है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल ओषके समान कहनेका कारण यह है कि ओषसे जो इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पहर कहा है वह यहाँ भी बन जाता है। आहारकद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुबन्धके समय घोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण कहा है। तथा ये एक तो सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं और कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तसे यथा समय इनका बन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण कहा है।

२६७. असंक्षिधामे प्रथम वृण्डकका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवके समान है। चार आयु और मनुष्यरातित्रिकका भङ्ग, सामान्य तिर्यञ्जोके समान है। नैतिकिक छहके जघन्य

भंगो । वेउन्वि०छ० जह० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडित्तिभागं देसू० । अज० जह० एग०, उक्क० अणंतका० । सेसाणं जह० पाणा०भंगो । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० ।

२६८. आहारगेसु पंचणाणावरणपढमदंडओ जह० जह० खुदा० समऊ०, उक्क० अंगुल० असंखे० । अज० जह० ए०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि० ३दंडओ^१ णवुंसग-दंडओ जह० पाणा०भंगो । अज० ओघं । दोआउ०—दोगदि-दोआणु०-उच्चा० जह० अज० जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । णवरि मणुसगदि० जह० जह०

प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर-काल अनन्तकाल है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक-समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—असंखियोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान कहनेका कारण यह है कि मत्यज्ञानियोंमें प्रथम दण्डकके जघन्य प्रदेश बन्धका जो जघन्य अन्तर एक समय कम झुल्लक भव ग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण तथा अजघन्य प्रदेश-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय बतलाया है वह यहाँ भी घटित हो जाता है । असंखियोंमें तिर्यञ्चोकी प्रधानता है, इसलिए चार आयु और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग जैसा तिर्यञ्चोमें बतलाया है वैसा यहाँ भी जान लेना चाहिए । यहाँ वैक्रियिक छहका जघन्य प्रदेश बन्ध आयुबन्धके समय घोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्व कोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण कहा है । तथा एक तो जघन्य प्रदेशबन्धके समय अजघन्य प्रदेशबन्ध नहीं होता । साथ ही ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं । दूसरे एकैन्द्रिय और विकलेन्द्रिय पर्यायमें रहते हुए इनका अधिकसे अधिक अनन्तकाल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान होनेसे इनके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा ये सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

२६८. आहारकोने पाँच ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम झुल्लक भव ग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्थानगुद्धिन्निक दण्डक और नपुंसकवेददण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समान है । दो आयु, दो गति, दो आयुपूर्वा और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इतनी विशेषता है

१. ता०प्रतौ 'अंगुल० असंखे० । थीणगिद्धि० ३ दंडओ' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'ज० ज० अज०' इति पाठः ।

खुदा० समज० । तिरिक्खाउ०^१ जह० पाणा०भंगो । अज० ज० अंतो०, उक०, सागरोवमसदपुधत्तं । मणुसाउ० जह० अज० जह० अंतो०, उक० कायडिदी० । तिरिक्ख०^२ जह० पाणा०भंगो । अज० ओघं । देवगदि०^४ जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक० कायडि० । एईदि०दंडओ जह० पाणा०भंगो । अज० ओघं । ओरा०-ओरा०अंगो-वज्जरि० जह० पाणा०भंगो । अज० ओघं । आहार० २ जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक० अंगुल० असंखे० । तिथ्ठ० जह० णत्थि अंतरं अज० जह० एग०, उक० अंतो० । अणाहार० कम्मइयाभंगो ।

एघं अंतरं समत्तं ।

कि मनुष्य गतित्रिकके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम झुल्लक भव ग्रहण प्रमाण है । तिर्यञ्चायुके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है । मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समान है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । एकेन्द्रियजाति दण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समान है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग और वज्रपभनाराचसंहननके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समान है । आहारकदिकके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवे भागप्रमाण है । तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनाहारकोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—आहारकोंमें पाँच ज्ञानावरणादिकका जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव भवके प्रथम समयमें करता है और इधकी कायस्थिति अंगुलके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसलिये इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम झुल्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवे भागप्रमाण है । तथा जघन्य प्रदेशबन्धके समय इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध नहीं होता और बन्ध व्युत्थितिके बाद इनका यदि पुनः बन्ध हो तो अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, इसलिये इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । स्थानगृह्णिक दण्डक और नपुंसकवेद दण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ज्ञानावरणके ही समान होनेसे इनके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा स्थानगृह्णिक दण्डकके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर प्रमाण और नपुंसकवेद दण्डकके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्थ अधिक दो छयासठ सागर जैसा

१. ता०प्रती 'समज०' । पाणा० (?) तिरिक्खाउ०' प्रा०प्रती 'समज० । पाणा० तिरिक्खाउ०

ओषसे प्राप्त होता है वैसा यहाँ भी बन जाता है; इसलिए यहाँ यह ओषके समान कहा है। दो आयु आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध घोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है। मात्र मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म अपर्याप्त जीवके भवके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण कहा है। तथा अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमें यथासमय इनका बन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, क्योंकि एकेन्द्रिय पर्यायमे रहते हुए नरकायु, देवायु और नरकगतिद्विकका तथा अग्निकायिक और वायुकायिक पर्यायमे रहते हुए मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमे इन प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करारकर यह अन्तर ले आना चाहिए। तिर्यञ्चायुका जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म अपर्याप्त जीवके दो भवोंके तृतीय भागके प्रथम समयमे दो बार करानेसे इसके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमे करानेसे उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण आता है। ज्ञानावरणके जघन्य प्रदेशबन्धका यह अन्तर इतना ही है, इसलिए तिर्यञ्चायुके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान कहा है। तथा एक त्रिभागबन्धसे द्वितीय त्रिभागबन्धमे कमसे कम अन्तर्मुहूर्त का अन्तर होता है और आहारक जीव अधिकसे अधिक सौ सागरपृथक्त्व कालतक तिर्यञ्चायुका बन्ध न करे यह सम्भव है, इसलिए तिर्यञ्चायुके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण कहा है। एक बार मनुष्यायुका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध होकर पुनः होनेमें कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल और अधिकसे अधिक कायस्थितिप्रमाण काल लगता है, इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान होनेसे इनका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है। तथा इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रैसठ सागर ओषके समान यहाँ भी बन जाता है, इसलिए यह भङ्ग ओषके समान कहा है। देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ असंयतसम्यग्दृष्टि आहारक मनुष्य तीर्थङ्कर प्रकृतिके साथ करता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा ये एक तो परावर्तमान प्रकृतियों हैं और दूसरे कायस्थितिप्रमाण कालतक इनका बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। एकेन्द्रियजातिदण्डक और औदारिकशरीरत्रिकका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट है, क्योंकि जघन्य स्वामित्वकी अपेक्षा ज्ञानावरणसे इनमें कोई भेद नहीं है। तथा एकेन्द्रियजातिदण्डकके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर व औदारिकशरीरत्रिकके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य ओषके समान यहाँ भी बन जानेसे वह ओषके समान कहा है। आहारकशरीरद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध घोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त ओषके समान यहाँ बन जानेसे वह ओषके समान कहा है। तथा ये एक तो सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं। दूसरे जघन्य प्रदेशबन्धके समय अजघन्य प्रदेशबन्ध नहीं होता और कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमे इनका बन्ध हो और मध्यमे न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके

सण्णियासपरूवणा

२६९. सण्णियासं दुविधं—सत्थाणसण्णियासं चैव परत्थाणसण्णियासं चैव । सत्थाणसण्णियासं, दुवि०—जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० आभिणि० उक्क० पदेसबंधंतो सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-केवल० णियमा बंधगो णियमा उक्कस्सं । एवं एक्केक्कस्स । एवं पंचतराइगारणं ।

२७०. णिहाणिहाए उक्क० पदेशबंधं० पयलापयला-थीणगिद्धि० णियमा बंधगो णियमा उक्कस्सं । णिहा-पयल्लारणं णियमा बंधं० णियमा अणुक्क० अणंतभागूणं बंधदि । चट्ठदंसं० णियमा वं० णियमा अणु० संखेज्जदिभागूणं बंधदि । एवं पयलापयला-

असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तोर्थद्वार प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध देव और नारकी भवके प्रथम समयमें करता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा एक तो जघन्य प्रदेशबन्धके समय इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध नहीं होता । दूसरे उपशम-श्रेणिमें एक समयके लिए अबन्धक होकर दूसरे समयमें मरकर देव होने पर पुनः इसका बन्ध होने लगता है और उपशमश्रेणिमें अन्तर्मुहूर्त कालतक इसका बन्ध नहीं होता । या जो तीर्थद्वार प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जीव द्वितीयादि प्रथिवियोंमें मरकर उत्पन्न होता है उसके अन्तर्मुहूर्त काल तक इसका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । अनाहारक जीवोंका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवों के समान है यह स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

सन्निकर्षप्ररूपणा

२६९. सद्धि कर्ष दो प्रकारका है—स्वस्थान सन्निकर्ष और परस्थान सन्निकर्ष । स्वस्थान सन्निकर्ष दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । इसी प्रकार पाँच ज्ञानावरणोंमेंसे एक एकको मुख्य करके सन्निकर्ष होता है । तथा इसी प्रकार पाँच अन्तरायोंमेंसे एक एकको मुख्य करके सन्निकर्ष होता है ।

विशेषार्थ—इन कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी एक है और इनका एकसाथ बन्ध होता है, इसलिए पाँच ज्ञानावरणमेंसे किसी एकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होनेपर शेषका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है । तथा इसी प्रकार पाँच अन्तरायोंमेंसे किसी एकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होने पर शेषका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

२७०. निद्रानिद्राके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव प्रचलाप्रचला और स्थानगृद्धिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । निद्रा और प्रचलाका यह नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनन्तवे भाग न्यून अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । चक्षुदर्शनावरणादि चार दर्शनावरणोंका यह नियम बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवें भाग न्यून अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । इसी प्रकार प्रचलाप्रचला

शीणणि० । णिहाए उक्क० [वं] पयला णियमा वं० णियमा उक्कस्सं । चटुदंसं० णि० वं० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं वंधदि । एवं पयला । चक्खुदंसं० उक्क० वंधतो अचक्खुदंसं०-ओधिदंसं०-केवलदंसं० णियमा वं० णिय०' उक्कस्सं । एवं तिण्णिदंसणा० ।

२७१. सादा० उक्क० वंधतो असादस्स अवंधगो । असादा० उक्क० वंधतो सादस्स अवंधगो । एवं चटुण्णं आउगाणं दोण्णं गोदाणं च ।

२७२. मिच्छ० उक्क० वं० अणंताणु० णिय० वं० णिय० उक्क० । अट्टक०-

और स्त्यानगृद्धिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए । निद्राके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव प्रचलाका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । चार दर्शनावरणोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे सख्यातवे भाग न्यून अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए । चक्षुदर्शनावरणके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । इसी प्रकार तान दर्शनावरणोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष होता है ।

विशेषार्थ—प्रथम और द्वितीय गुणस्थानमे दर्शनावरणकी सब प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इसलिए निद्रानिद्राके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव बन्ध तो सबका करता है पर निद्रानिद्राके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जो स्वामी है वह मात्र प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धिके ही उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है, इसलिए निद्रानिद्राके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव इन दो प्रकृतियोंके ही उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । शेषका अपने अपने उत्कृष्ट प्रदेशबन्धको देखते हुए अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका ही बन्धक होता है । तृतीयादि गुणस्थानोंमें निद्रादिक और चक्षुदर्शनावरणचतुष्कका बन्धक होता है । उसमे भी निद्रादिकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी चार गतिका सम्यग्दृष्टि जीव है और चक्षुदर्शनावरण आदिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी अन्यतर सूक्ष्मसाम्परायिक जीव है, इसलिए निद्रादिकमेंसे किसी एकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होते समय अन्यतरका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है और चक्षुदर्शनावरणचतुष्कका अपने उत्कृष्टको देखते हुए नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है । मात्र इसके स्त्यानगृद्धित्रिकका बन्ध नहीं होता । तथा चक्षुदर्शनावरण आदिमेंसे सूक्ष्मसाम्परायमे किसी एकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होते समय शेष तीनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है । मात्र इसके निद्रादिक पाँचका बन्ध नहीं होता ।

२७१. सातावेदनीयके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव असातावेदनीयका अबन्धक होता है और असातावेदनीयके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव सातावेदनीयका अबन्धक होता है । इसी प्रकार चार आयु और दो गोत्रोंके विषयमे भी जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—दोनों वेदनीय, चारों आयु और दोनों गोत्रकर्म वे प्रत्येक परस्पर सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं । दोनों वेदनीयमेंसे किसी एकका बन्ध होनेपर अन्यका बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार चारों आयुकर्मों और दोनों गोत्रकर्मोंके विषयमें जानना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इनके सन्निकर्षका निषेध किया है ।

२७२. मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्कका

भय-दु० गिय० वं० गिय० अणु० अणंतभागूणं बंधदि । क्रोधसंज० गिय० वं० गिय० अणु० दुभागूणं बंधदि । माणसंज० सादिरैयदिवद्धभागूणं बंधदि । मायासंज० लोभसंज० गिय० वं० गिय०' अणु० संखेज्जगुणहीणं बंधदि । इत्थि०-णवुंस० सिया उक्कस्सं । पुरिस० सिया संखेज्जगुणहीणं बंधदि । हस्सरदि-अरदि-सोग० सिया अणंत-भागूणं बंधदि । एवं अणंताणुवं०४-इत्थि०-णवुंस० ।

२७३. अपच्चक्खाणकोध० उक्क० वं० तिणिक०-भय-दु० गिय० वं० गिय० उक्कस्सं । पच्चक्खाण०४ णि० वं० गिय० अणु० अणंतभागूणं बंधदि । चटुसंज० मिच्छत्तभंगो । पुरिस० णि० वं० णि० अणु० संखेज्जगुणहीणं बंधदि । चटुणोक्क० सिया वं० उक्क० । एवं तिणिकसा० ।

नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । आठ कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनन्तवे भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । मान सञ्चलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनन्तवें भाग हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी एक जीव है, इसलिए मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धको मुख्य करके जो सन्निकर्ष कहा है वह अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदको मुख्य करके भी बन जाता है । शेष कथन बन्धव्यवस्थाको जानकर घटित कर लेना चाहिए ।

२७३. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव तीन कषायों, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनन्तवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । चार संज्वलनका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । चार लोकषायोंका वह कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी एक जीव है, इसलिए इनका सन्निकर्ष एक समान कहा है । यहाँ पर जो चार संज्वलनोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान कहा है सो इसका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध

२७४ पच्चक्खाणकोथं वं० तिण्णिकं-भय-दु० णिय० वं० णिय० उक्क० ।
चदुसंजं-पुरिसं-चदुणोक्कं अपच्चक्खाणभंगो । एवं तिण्णिकसां ।

२७५. क्रोधसंजं उक्कं प० वं० माणसंजं णि० वं० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं
बंधदि । मायासंजं-लोभसंजं णि० वं० णि० अणु० संखेज्जगुणहीणं वंधदि ।
माणसंजं उक्कं पदे० वं० मायासंजं णि० वं० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं वंधदि ।
लोभसंजं णि० वं० णि० अणु० संखेज्जगुणहीणं वं० । मायाए उक्कं पदे० वं०
लोभं णि० वं० णिय० अणु० दुभागूणं वंधदि ।

२७६. पुरिसं उक्कं पदे० वं० क्रोधसंजं णियमा अणु० दुभागूणं^१ वंधदि ।

करनेवाले जीवके चार संज्वलनका सन्निकर्ष कहा है उसी प्रकार यहाँ पर अपत्याख्यानावरण
क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाले जीवके इनका सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसके
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनका
सन्निकर्ष नहीं कहा ।

२७४. प्रत्याख्यानावरण क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव प्रत्याख्यानावरण
मान आदि तीन कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनके
उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । चार संज्वलन, पुरुषवेद और चार नोकषायोंका भङ्ग अपत्या-
ख्यानावरणके समान है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे
सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी एक जीव है, इसलिए
इनका सन्निकर्ष एक समान कहा है । इसके मिथ्यात्व, प्रारम्भकी आठ कषाय, खीवेद और
नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनका सन्निकर्ष नहीं कहा ।

२७५. क्रोध संज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव मान संज्वलनका नियमसे
बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवे भाग हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । माया
संज्वलन और लोभसंज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट-
प्रदेशोंका बन्धक होता है । मानसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव माया-
संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवे भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक
होता है । लोभसंज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट
प्रदेशोंका बन्धक होता है । मायासंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव लोभ-
संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक
होता है ।

विशेषार्थ—क्रोधसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव शेष तीन संज्वलनो-
का, मानसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव माया और लोभ संज्वलनका तथा
मायासंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव लोभसंज्वलनका ही बन्ध करता है,
इसलिए यहाँ इसी अपेक्षासे सम्भव सन्निकर्ष कहा है । लोभसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध
करनेवाले जीवके अन्य प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए उसका अन्य किसीके साथ
सन्निकर्ष नहीं कहा ।

२७६. पुरुषवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव क्रोधसंज्वलनका नियमसे
बन्ध करता है जो नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । मानसंज्वलनका

१. सा०जा०प्रत्योः 'क्रोधसंजं णीज्जुच्चां भागूणं' इति पाठः ।

माणसंज० णियमा सादिरैयदिवड्डभागूणं वंधदि । मायासंज०-लोभसंज० णियमा संखेज्जगुणहीणं वंधदि ।

२७७. हसस० उक्क० पदे०बंधंतो अपच्चक्खाण०४ सिया^१..... ।

२७८.णियमा उक्क० । अट्टक०-भय-दुगुं० णि० वं० अणंतभागूणं वं० । क्रोधसंज० णि० वं० दुभागूणं वं० । माणसंज० णि० वं०^२ सादिरैयदिवड्डभागूणं वं० । मायासंज०-लोभसंज० णि० वं० णि० संखेज्जगुणहीणं वं० । इत्थि०-णणुंस० सिया० उक्क० । पुरिसि० सिया० संखेज्जगु० । चट्टणोक्क० सिया० अणंतभागूणं वंधदि । एधं अणंताणु०४-इत्थि०-णणुंस०^३ । अपच्चक्खाण०४-सत्तणोक्क०-चट्टसंज० मिच्छत्तभंगो । सेसाणं माणभंगो ।

नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे साधिक डेढ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है ।

विशेषार्थ—पुरुषवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव मोहनीयकी पुरुषवेदके साथ चार संज्वलन प्रकृतियोंका ही बन्ध करता है, इसलिए इसके इस दृष्टिसे सम्भव सन्निकर्ष कहा है ।

२७७. हास्यके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्धक होता है ।

२७८.नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । आठ कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनन्तवे भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । क्रोध संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । मानसंज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे साधिक डेढ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । चार नोकषायोका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनन्तवे भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, सात नोकषाय और चार संज्वलनका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मानकषायके समान है ।

१. अत्र '१८८ क्रमाङ्कं तादृशं विचष्टम् । २. आ०प्रती 'माणसंज० वं०' इति पाठः ।

३. ता०प्रती 'एवं अणंताणु० ४ । इत्थि० णणुंस०' इति पाठः ।

२७९. कोधसंज० उक्क० पदे०वं० माणसंज० णि० वं० णि० संखेज्जदि-
भागूणं वं० । दोण्णं संज० णि० वं० संखेज्जगुणहीणं वं० । माणसंज० उक्क० पदे०-
वं० दोसंज० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं वं० । मायासंज० उक्क० पदे०वं० लोभसंज०
णि० वं० णि० उक्क० । एवं लोभसंजल० । सेसं ओधं । लोभे ओधं ।

२८०. मदि०- [सुद०] सत्तण्णं क० अपज्जत्तभंगो । णामपगदीणं पंचिंदिय-
तिरिक्खभंगो । एवं विभंगे अक्खव०-मिच्छा०-असण्णि० ।

२८१. आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं कम्मणं ओधं । मणुसगदि० उक्क० पदे०-
वं० पंचिदि०-त्तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-
आदे०-णिमि णि० वं० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं वं० । ओरा०-ओरा०अंगो०-
वज्जरी०-मणुसाणु० णि० वं० णि० उक्क० । थिरादिदिट्ठिण्युग० सिया संखेज्जदि-
भागूणं वं० । णवरि जस० सिया संखेज्जगुणहीणं वं० । एवं ओरा०-ओरा०अंगो०-
वज्जरी०-मणुसाणु० ।

२८२. देवगदि० उक्क० पदे०वं० पंचिदि०-समचदु०-वण्ण०४ देवाणु०-

२७९. क्रोधसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव मानसंज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । दो संज्वलनोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । मानसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव दो संज्वलनोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । माया-संज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव लोभसंज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । इसीप्रकार लोभसंज्वलनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष भंग ओधके समान है । लोभकषायवाले जीवोंमें ओधके समान भङ्ग है ।

२८०. मत्यज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग अपर्याप्त जीवोंके समान है । नामप्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है । इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी, अमन्व्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए ।

२८१. आभितिवोर्धकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओधके समान है । मनुष्यगतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस-शरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होकर भी संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ-नाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२८२. देवगतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्र-

अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं० णि० उक्क० ।
 वेउव्वि०-तेजा०-क्क०-वेउव्वि०-अंगो० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
 आहार०२-थिरादिदोयुग०-अजस० सिया० उक्क० । जस० सिया^१ संखेज्जगुणहीणं ।
 देवगदिमंगो पंचिदि०-समचटु०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादि-
 पंच०-णिमि० ।

२८२. वेउव्वि० उक्क० पदे०वं० देवगदि याव णिमि० णि० वं० णि०
 उक्क० । थिरादिदोयुग०-अजस०^२ सिया० संखेज्जगुणहीणं वं० । एवं तेजा०-क्क०-
 वेउव्वि०-अंगो ।

२८४. आहार० उक्क० पदे०वं० देवगदि०-पंचिदि०-समचटु०-[आहारअंगो०]
 वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच०-णिमि० णि० उक्क० । जस०
 णि० वं० संखेज्जगुणहीणं । वेउव्वि०-तेजा०-क्क०-वेउव्वि०-अंगो० णि० वं० संखेज्जदि-

संस्थान, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेश और निर्माणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातवै भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । आहारकद्विक, स्थिर आदि दो युगल और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष देवगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है ।

२८३. वैक्रियिकशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव देवगतिसे लेकर पूर्वमें कही गई निर्माण तककी प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । स्थिर आदि दो युगल और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । इसीप्रकार तैजसशरीर, कार्मणशरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

२८४. आहारकशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, आहारकआज्ञोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवै भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । इसीप्रकार आहारकशरीरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष

१ ता०आ०प्रत्यो. 'उक्क० । जस० सिया० उक्क० । जस० सिया०' इति पाठः । २. आ०प्रत्यो
 थिरादिदोयुगु० अजस^२ इति पाठः ।

भागपूर्णं वं० । एवं आहारअंगो० । अथिर-असुभ-अजस० वेउविवय०भंगो ।

२८५. तित्थ० उक्क० पदे०वं० देवगदिआदीणं संखेज्जदिभागपूर्णं वं० । जस० सिया संखेज्जगुणहीणं वं० । एवं मणपज्ज०-संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार०-संजदा-संजद०-ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सम्माभि० । णवरि सामाह०-छेदो० दंसणा० इत्थिभंगो । परिहार०-संजदासंजद-वेदग०-सम्माभि० जस० सच्चाणं सिया० उक्क० ।

२८६. असंजदेसु सत्तण्णं कम्ममाणं णिरयभंगो । णामाणं पंचिदियतिरिक्ख-भंगो । णवरि तित्थ० ओघं । किण्ण०-णील०-काउ० असंजदभंगो । तेउ० छण्णं कम्ममाणं णिरयभंगो । मिच्छ० उक्क०पदे०वं० अणंताणु०४ णि० वं० णि० उक्क० । वारसक०-भय-दुगुं० णि० अणंतभागुणं वं० । इत्थि०-णवुंस० सिया० उक्क० । पंचणोक० सिया० अणंतभागुणं वं० । [एवं अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०] । अपच्च-क्खाण०कोघ० उक्क० पदे०वं० तिण्णिक०-पुरिस०-भय-दु० णि० वं० णि० उक्क० । अट्टक० णि० वं० णि० अणंतभागुणं वं० । चटुणोक० सिया० उक्क० । एवं तिण्णि-

कहना चाहिए । अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष वैक्रियिकशरीरकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है ।

२८५. तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि प्रकृतियोंके संख्यातबे भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें दर्शनावरणका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोके समान है तथा परिहारविशुद्धि-संयत, संयतासंयत, वेदकसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें यशःकीर्तिका सभीमें कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है ।

२८६. असंयत जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । कृष्ण, नील और कापोतलेश्यामें असंयतोंके समान भङ्ग है । पीतलेश्यामें छह कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्क का नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । बारह कषाय, भय, और जुगुप्साका नियमसे अनन्तबे भाग न्यून अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । पाँच नोकषायोका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे अनन्तबे भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अत्याख्यानावरण क्राधके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव तीन कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । आठ कषायोका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे

कसा० । पचक्खाणकोध० उक्क० पदे०वं० तिण्णिकसा०-पुरिस०-भय-दु० णि० वं०
 णि० उक्क० । च्दुसंज० णि० वं० णि० अणु० अणंतभागूणं वं० । च्दुणोक०
 सिया० उक्क० । एवं तिण्णिक० । कोधसंज० उक्क० पदे०वं० तिण्णिसंज०-
 पुरिस०-भय-दुगुं० णि० वं० णि० उक्क० । च्दुणोक० सिया० उक्क० । एवं
 तिण्णिसंज० । पुरिस० उक्क० पदे०वं० अपचक्खाण०४-च्दुणोक० सिया० उक्क० ।
 पचक्खाण०४ सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । च्दुसंज० णि० वं० णि० तं० तु०
 अणंतभागूणं वं० । [भय-दु० णि० वं० णि० उक्क०] । एवं छण्णोक० ।

२८७. तिरिक्ख० उक्क० पदे०वं० सोधम्म० एहंदिदंडओ आदि
 पणुवीसदिणामए सह ताओ सव्वाओ सण्णिकासेदव्वाओ । मणुसग० उक्क० पदे०
 वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-पल्लत्त-पत्ते०-णिमि० णि०

अनन्तर्वे भागहीन अनुक्कष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । चार नोकषायोंका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उक्कष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । इसी प्रकार अपत्या-
 स्थानावरण मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । प्रत्यास्थानावरण
 क्रोधके उक्कष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव प्रत्यास्थानावरण मान आदि तीन कषाय,
 पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनके उक्कष्ट प्रदेशोंका
 बन्ध करता है । चार संज्वलनकषायोका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अनन्तर्वे भाग-
 हीन अनुक्कष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । चार नोकषायोंका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध
 करता है तो नियमसे इनके उक्कष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । इसी प्रकार प्रत्यास्थानावरण
 मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । क्रोधसंज्वलनके उक्कष्ट प्रदेशों-
 का बन्ध करनेवाला जीव मान आदि तीन संज्वलन, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे
 बन्ध करता है जो नियमसे इनके उक्कष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । चार नोकषायोंका कदाचित्
 बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे इनके उक्कष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । इसी
 प्रकार मान आदि तीन संज्वलनोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पुरुषवेदके उक्कष्ट
 प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव अपत्यास्थानावरणचतुष्क और चार नोकषायोंका कदाचित्
 बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे इनके उक्कष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है ।
 प्रत्यास्थानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनके उक्कष्ट
 प्रदेशोका भी बन्ध करता है और अनुक्कष्ट प्रदेशोंका भी बन्ध करता है । यदि अनुक्कष्ट प्रदेशों-
 का बन्ध करता है तो नियमसे अनन्तर्वे भागहीन अनुक्कष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । चार
 संज्वलनकषायोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनके उक्कष्ट प्रदेशोंका भी बन्ध करता है और
 अनुक्कष्ट प्रदेशोंका भी बन्ध करता है । यदि अनुक्कष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है तो नियमसे
 अनन्तर्वे भागहीन अनुक्कष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध
 करता है जो नियमसे उक्कष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । इसी प्रकार छह नोकषायोंकी मुख्यतासे
 सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

२८७. तिर्यङ्गगतिके उक्कष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाले जीवके सौधर्मके एकेन्द्रियदण्डकमे
 कही गई नामकर्मकी पञ्चीस प्रकृतियोंके साथ उन सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष करना
 चाहिए । मनुष्यगतिके उक्कष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति,
 भौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त,
 अक्षेक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे सख्यातर्वे भागहीन अनुक्कष्ट

बं० संखेजदिभागूणं वं० । समचदु०-हुंडसं०-पसत्थ०-थिरादिपंचयुग०-सुस्सर० सिया
 संखेजदिभागूणं वं० । चदुसंठा०-छस्संध०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० सिया० उक्क० ।
 ओरा०अंगो०-मणुसाणु०-[तस०] णि० वं० णि० उक्क० । एवं मणुसाणु० । देव-
 गदि० उक्क० पदे०वं० पंचिदि०-समचदु०-देवाणु०-पसत्थ०-तस०-सुभग-सुस्सर-आदे०
 णि० वं० णि० उक्क० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० णि० वं० णि० तं० तु० संखेजदि-
 भागूणं वं० । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-बादरतिण्णि०'-णिमि० णि० वं० णि०
 संखेजदिभागूणं वं० । आहार०२ सिया० उक्क० । थिरादितिण्णियु० सिया संखेजदि-
 भागूणं वं० । एवं पंचिदि०-समचदु०-देवाणु०-पसत्थ०-तस०-सुभग-सुस्सर-आदे० ।
 वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० देवगदिभंगो । णवरि आहार०२ वज्ज । आहार०२ देव-
 गदिभंगो । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० णि० वं० णि० संखेजदिभागूणं वं० । णग्गोघ०
 उक्क० पदे०वं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-पसत्थ०-थिरादिपंचयु०-पुस्सर०

प्रदेशोंका बन्ध करता है। समचतुरस्त्रसंस्थान, हुण्डसस्थान, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि
 पाँच युगल और सुस्वरका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे
 संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है। चार संस्थान, छद्द संहनन, अप्रशस्त
 विहायोगति और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट
 प्रदेशोंका बन्ध करता है। औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और त्रसका नियमसे
 बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी
 मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। देवगतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय-
 जाति, समचतुरस्त्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर और
 आदेयका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है।
 वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके
 उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट
 प्रदेशोंका बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है।
 तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर आदि तीन और निर्माणका
 नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है।
 आहारकशरीरद्विकका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट
 प्रदेशोंका बन्ध करता है। स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध
 करता है तो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है। इसी प्रकार
 पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्त्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर
 और आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर
 आङ्गोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष देवगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जानना
 चाहिए। इतनी विशेषता है कि आहारकद्विकको छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए।
 आहारकद्विककी मुख्यतासे सन्निकर्ष देवगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जानना
 चाहिए। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो इनका
 नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानके उत्कृष्ट
 प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि

१. आ०प्रती 'अगु० बादर तिण्णि' इति पाठः । २. ता०प्रती 'एवं पंचि० । समच०' इति पाठ ।
३. ता०प्रती 'आदे० वेउन्वि०' इति पाठः । ४. आ०प्रती 'पदे०वं० तिरिक्खाणु०' इति पाठः ।

सिया संखेज्जदिभागुणं बं० । मणुस०-छस्संघ०-मणुसाणु०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० सिया० उक्क० । ओरा०अंगो० णि० बं० णि० उक्क० । सेसं णि० बं० णि० संखेज्जदिभागुणं^१ बं० । एवं तिण्णिसंठा०-ओरा०अंगो^२०-छस्संघ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० । तित्थ^३० ओघं० ।

२८८. एवं पम्माए । णवरि तिरिक्खु० उक्क० पदे०बं० पंचिदि०-तेजा०-फ०-वण्ण०-अगु०-तस०-णिमि० णि० बं० णि० संखेज्जदिभागुणं बं० । ओरा०-ओरा०अंगो०-तिरिक्खाणु० णि० बं० णि० उक्क० । पंचसंठा०-छस्संघ०-अप्पसत्थ०-दुमग-दुस्सर-अणादे० सिया० उक्क० । समचदु^४०-पसत्थ०-थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० संखेज्जदिभागुणं बं० । एवं तिरिक्खाणु०-मणुस०^२ । देवगदि० उक्क० पदे०बं० पंचिदि०-समचदु०-वण्ण०-देवाणु०-अगु०-पसत्थ०-तस०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० बं० णि० उक्क० । वेउच्चि०-तेजा०-फ०-वेउच्चि०अंगो० णि० बं० तं० त् संखेज्जदिभागुणं

पाँच युगल और सुस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो संख्यातवे भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । मनुष्यगति, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे संख्यातवे भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । इसी प्रकार तीन संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तीर्थङ्गप्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओषके समान है ।

२८८. पीतलेइयाके समान पद्मलेइयामे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि विर्यञ्जगतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे संख्यातवे भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । पाँच संस्थान, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय का कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है जो संख्यातवे भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । इसी प्रकार तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । देवगतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्लुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । वैकियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर और वैकियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे

१. ता०प्रती 'सं णि० बं० णि० णि० बं० णि० (?) संखेज्जदिभागं' इति पाठः । २. ता०प्रती 'एवं तिण्णं संठां १ ओरा०अंगो०' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'दुस्सर० तित्थं' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'उक्कं समचदु' इति पाठः । ५. ता०आ०प्रत्योः 'तिरिक्खाणु० मणुसाणु० मणुसं' इति पाठः ।

बं० । आहार०२-थिरादितिण्णियुग० सिया० उक्क० । एवमेदाओ एकमेकस्स उक्कसाओ कादन्वाओ । ओरा० उक्क० बं० दोगदिपंचसंठा०-छस्संघ०-दोआणु०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादे० सिया० उक्क० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-त्स०४-णिमि० णि० बं० संखेज्जदिभागूणं बं० । ओरा०अंगो० णि० बं० णि० उक्क० । समचदु०-पसत्थ०-थिरादितिण्णियु०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० संखेज्जदिभागूणं बं० । एवं ओरा०अंगो' पंचसंठा०-ओरा०अंगो०-छस्संघ०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादे० ।

२८९. सुक्काए सत्तण्णं कम्मणं ओवं । मणुसग० उक्क० [पदे०] वं पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-त्स०४-णिमि० णि० बं० संखेज्जदिभागूणं वं । ओरा०-ओरा०अंगो०-मणुसाणु० णि० बं० णि० उक्क० । समचदु०-पसत्थ०-थिरादि-दोयु०-सुभग-सुस्सर-आदे०-अज० सिया संखेज्जदिभागूणं वं० । जस० सिया० संखेज्जगुणहीणं वं० । पंचसंठा०-छस्संघ०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादे० सिया०

बन्ध करता है । जो इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । आहारकद्विक और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । इसी प्रकार इनका परस्पर उत्कृष्ट सन्निकर्ष करना चाहिए । औदारिकशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, पाँच संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । इस प्रकार औदारिकशरीरके समान पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२८९. शुक्ल लेइयामें सात कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है । मनुष्यगतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो संख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । पाँच संस्थान, छह संहनन,

१. आ०प्रतौ 'पूर्वं ओरा०अंगो' इति पाठः ।

२. आ०प्रतौ 'थिरादिदोआयुः' इति पाठः ।

उक्त० । एवमेदाओं एकमेकस्त उक्तस्सियाओं काद्विग्याओं । देवगदिसंयुक्ताओं पम्भंगो । सासणे सत्तणं क० मदि०भंगो । सेसं पम्माए भंगो । अणाहार० कम्मइगमंगो ।

एवं उक्तस्ससत्याणसणिकासो समत्तो ।

२९०. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओषे० आदे० । ओषे० आभिणि० जह० पदे० बंधंतो चदुणाणा० णि० वं० णि० जहण्णा । एवमणमण्णस्त जहण्णा । एवं णवदंसणा०—पंचंत० । दोवेदणी०^१—चदुआउ०—दोगोद० उक्तस्सभंगो ।

२९१. मिच्छ० जह० पदे०वं० सोलसक०—भय-दु० णि० वं० णि० जहण्णा । सत्तणोको सिया० वं० जहण्णा । एवं सोलसक०—णवणोको० एवमेकमेकस्त जहण्णा ।

अप्रशस्त विद्यायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । इसी प्रकार इनका परस्पर उत्कृष्ट सन्निकर्ष करना चाहिए । देवगदिसंयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग पद्मलेइयाके समान है । सासादन सन्यक्त्वमें सात कर्मोंका भङ्ग मत्स्यजानी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पद्म-लेइयाके समान है । अनाहारक जीवोंमें कार्यणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

२९०. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे आभिनिवोधिकर्जानावरणके जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनके जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करता है । इसी प्रकार इनका परस्पर जघन्य सन्निकर्ष कहना चाहिए । इसी प्रकार नौ दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य सन्निकर्ष जानना चाहिए । दो वेदनीय, चार आयु और दो गोत्रका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—पाँचों ज्ञानावरणके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी एक जीव है, इसलिए इनमेंसे किसी एकका जघन्य प्रदेशबन्ध होते समय अन्यका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध होता है । यही कारण है कि सबका जघन्य सन्निकर्ष एक साथ कहा है । नौ दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी भी पाँच ज्ञानावरणके समान है । इसलिए इनका जघन्य सन्निकर्ष भी पाँच ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । दो वेदनीय, चार आयु और दो गोत्र ये प्रत्येक कर्म परस्परमें सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं । इनका उत्कृष्टके समान जघन्य सन्निकर्ष नहीं बनता, इसलिए इनका भङ्ग उत्कृष्टके समान कहा है ।

२९१. मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनके जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करता है । सात नोकषायोंका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करता है । इसी प्रकार सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका परस्पर जघन्य सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२९२. गिरयग० जह० पदे०वं० पंचिदि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-हुंड०-
वेउच्चि०-अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिछ०-णिमि० णि० वं०
णि० अज०' असंखेज्जगुणंमहियं वंधदि । गिरयाणु० णि० वं० णि० जहण्णा ।
एवं गिरयाणु० ।

२९३. तिरिक्ख० जह० पदे०वं० चदुजादि-छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा०-
थिरादिछयुग० सिया वं० जह० । ओरा०-तेजा०-क०-ओरा०अंगो०-वण्ण०४-तिरि-
क्खाणु०-अगु०४-उज्जो०-तस०४-णिमि० णि० जहण्णा । एवं तिरिक्खाणु० ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व आदि छब्बीस प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी भी एक ही जीव है, इसलिए इनका जघन्य सन्निकर्ष एक समान कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि ध्रुवबन्धनी प्रकृतियोंका तो सर्वत्र नियमसे सन्निकर्ष कहना चाहिए और सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका यथासम्भव विकल्पसे सन्निकर्ष कहना चाहिए । उसमें भी तीन वेद, रति-अरति और हास्य-शोक इनमेंसे एक एक प्रकृतिको मुख्य करके सन्निकर्ष कहते समय अपनी अपनी सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंको छोड़कर ही सन्निकर्ष कहना चाहिए । उदाहरणार्थ तीन वेदोंमेंसे जब किसी एक वेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहा जाय तब अन्य दो वेदोंको छोड़कर ही सन्निकर्ष कहना चाहिए । इसी प्रकार रति-अरति तथा हास्य-शोकके विषयमें भी जानना चाहिए, क्योंकि तीन वेदोंमेंसे किसी एक वेदका, रति-अरतिमेंसे किसी एकका और हास्य-शोकमेंसे किसी एकका बन्ध होनेपर उनकी प्रतिपक्षभूत अन्य प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता ऐसा नियम है ।

२९२. नरकगतिके जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चन्द्रियजाति, वैक्रियिक-शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे असंख्यातगुणे अधिक अजघन्य प्रदेशोंका बन्ध करता है । नरकगत्यानु-पूर्विका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करता है । इसीप्रकार नरकगत्यानुपूर्विकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी एक ही जीव है, इसलिए इनकी मुख्यतःसे सन्निकर्ष एक समान कहा है । नरकगतिके साथ बंधने वाली अन्य प्रकृतियोंका जघन्य सन्निकर्ष यथासम्भव उनके जघन्य स्वामित्वको देखकर जान लेना चाहिए ।

२९३. तिर्यञ्जगतिके जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव चार जाति, छह सस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उनके जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्विकी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । जो इनके जघन्य प्रदेशोंका नियमसे बन्ध करता है । इसीप्रकार तिर्यञ्जगत्यानुपूर्विकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्जगतिके जघन्य प्रदेशबन्धके साथ बंधनेवाली यहाँ जितनी प्रकृतियों गिनाई हैं उन सबके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी एक समान है, इसलिए यहाँ सन्निकर्ष तो सबका जघन्य ही कहा है । फिर भी यहाँपर केवल तिर्यञ्जगत्यानुपूर्विकी मुख्यतासे सन्निकर्ष

१. आ०प्रतौ 'णि० अजस०' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'अगु० ४ उच्चा० तस० ४ णिमि०' इति पाठः ।

२९४. मणुसग० जह० पदे०बं० पंचिदि०-ओरा०-तेजा०-क०-ओरा०अंगो०-
वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० बं० णि० अज० संखेज्जदिभागब्भहियं
वं० । छस्संठा०-च्छस्संघ०-दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० संखेज्जदिभागब्भहियं
वं० । मणुसाणु० णि० बं० णि० जहण्णा । एवं मणुसाणु० ।

२९५. देवगदि० जह० पदे०बं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचटु०-वण्ण०४-
अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० बं० णि० अज० असंखेज्ज-
गुणब्भहियं वं० । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-देवाणु० णि० बं० णि० जहण्णा ।
थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० असंखेज्जगुणब्भहियं वं० । तित्थ० णि०
संखेज्जभागब्भहियं वं० । एवं वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-देवाणु० ।

तिर्यञ्चगतिके समान जाननेकी सूचना की है, अन्य प्रकृतियोंकी मुख्यतासे उस प्रकारके सन्निकर्षके जानने की सूचना नहीं की है सो इसका जो भी कारण है उसका स्पष्टीकरण आगेके सन्निकर्षसे स्वयमेव हो जायगा ।

२९४. मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनके असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोका बन्ध करता है । छह संस्थान, छह सहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवें भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका बन्ध करना है । मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इसका जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी एक ही जीव है, इसलिए यहाँपर मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्षको मनुष्यगतिके समान जाननेकी सूचना की है ।

२९५. देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे असंख्यातगुणे अधिक अजघन्य प्रदेशोंका बन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे इनका असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे संख्यातवों भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसीप्रकार वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवगतिद्विक और वैक्रियिक शरीरद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी एक ही जीव है, इसलिए वैक्रियिकद्विक और देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष देवगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जाननेकी सूचना है ।

१. आ०प्रती 'तेजाकअंगो' इति पाठः । २. आ० प्रती 'अजस० असंखेज्जदिभागब्भहियं'

२९६. एहंदि० जह० तिरिक्खग०-ओरा०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-चादर-पज्जत्त-पत्ते०-दूभग०-अणादे०-णिमि० णि० वं० णि० अज० संखेज्जदि-भाग्ग्महियं वं० । आदाव० सिया० जह० । थावर० णि० वं० णि० जहण्णा । उज्जो० सिया० संखेज्जदिभाग्ग्महियं वं० । थिरादितिण्णयुग० सिया संखेज्जदि-भाग्ग्महियं वं० । एवं आदाव-थावर० ।

२९७. वीहंदि० जह० पदे०वं० तिरिक्ख०-ओरा०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरा०-अंगो०-असंप०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-उज्जो०-अप्पसत्थ०-तस०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णिमि० णि० वं० णि० जहण्णा । थिरादितिण्णयुग० सिया० जह० । एवं तीहंदि०-चदुरिदि० ।

२९८. पंचिदि० जह० पदे०वं० तिरिक्ख०-तिण्णिसरीर-ओरा०अंगो०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-उज्जो०-तस०४-णिमिणं^२ णि० वं० णि० जहण्णा ।

२९६. एकेन्द्रिय जातिक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक-शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगतः२तुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, चादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे संख्यातवर्षों भाग अधिक अजघन्य प्रदेशका बन्ध करता है । आतपका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थावरका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवर्षों भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवर्षों भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसीप्रकार आतप और स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियजातिके समान ही आतप और स्थावरके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है, इसलिए यहाँ पर आतप और स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष एकेन्द्रियजातिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जाननेकी सूचना की है ।

२९७. द्वीन्द्रियजातिक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुंडसंस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यातुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, अप्रशस्त विहाययोगति, त्रसचतुष्क, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसीप्रकार त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—द्वीन्द्रियजातिके स्थानमें एकवार त्रीन्द्रियजातिको रखकर और दूसरीवार चतुरिन्द्रियजातिको रखकर उसी प्रकार सन्निकर्ष कहना चाहिए जिसप्रकार द्वीन्द्रियजातिकी मुख्यतासे कहा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

२९८. पञ्चेन्द्रियजातिक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, तीन शरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यातुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, त्रसञ्चतुष्क

१. ता०प्रतौ 'दिवाणु० एहंदि' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'तस०णिमिणं' इति पाठः ।

छस्संठा०-इस्संघ०-दो०विहा०-थिरादिछुगुग० सिया० जहण्णा । एवं पंचिदि०भंगो
पंचसंठा०-पंचसंघ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज ति । ओरा०-तेजा०-क०-हुंड०-
ओरा०-अंगो०-असंघ०-वण्ण०४-अगु०४-उज्जो०-अप्पसत्थ०-त्स०४-थिरादितिण्णियुग०-
दूभग-दुस्सर-अणादे०-णिमिणं एवमेदे०' तिरिक्खगदिभंगो ।

२९९. आहार० जह० पदे०व० देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-
समचदु०-वेउव्वि० अंगो०-वण्ण४-देवाणु०-अगु० ४-पसत्थ-त्स० ४-थिरादिछु०-णिमि०-
त्तित्थ० णि० वं० णि० अज० असंखेज्जगुणवभहियं वं० । आहारंगो० णि० वं०
णि० जहण्णा । एवं आहार०अंगो० ।

और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका विकल्पसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसप्रकार पञ्चेन्द्रियजातिके समान पाँच संस्थान, पाँच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुत्तर और आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वग, अनादेय और निर्माण इस प्रकार इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष तिर्यञ्चगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यद्यपि पञ्चेन्द्रियजातिके जघन्य प्रदेशबन्धका जो स्वामी है वही तिर्यञ्च-
गतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है और यहाँ पर इन दोनोंकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके
समान अन्य जिन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्षके जाननेकी सूचना की है उनके जघन्य
प्रदेशबन्धका स्वामी भी वही जीव है फिर भी किस प्रकृतिका जघन्य बन्ध होते समय अन्य
किन किन प्रकृतियोंका किस प्रकारका बन्ध होता है इस बातका विचार कर यहाँ अन्य
प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्षके जाननेकी सूचना की है । तात्पर्य यह है कि पञ्चेन्द्रियजातिकी
मुख्यतासे जिस प्रकार अन्य प्रकृतियोंके साथ सन्निकर्ष होता है उस प्रकार पाँच संस्थान
आदि चौदह प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष बन जाता है, इसलिए उन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे
प्राप्त होनेवाले सन्निकर्षको पञ्चेन्द्रियजातिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जाननेकी
सूचना की है और तिर्यञ्चगतिकी मुख्यतासे जिस प्रकार अन्य प्रकृतियोंके साथ सन्निकर्ष होता
है उस प्रकार औदारिकशरीर आदि तीस प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष बन जाता है,
इसलिए उन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे प्राप्त होनेवाले सन्निकर्षको तिर्यञ्चगतिकी मुख्यतासे कहे
गये सन्निकर्षके समान जाननेकी सूचना की है ।

२९९. आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति,
वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग,
वर्णचतुष्क, देवगत्यालुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह
निर्माण और तीर्थङ्करका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य
प्रदेशबन्ध करता है । आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इसका
जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष
जानना चाहिए ।

३००. सुह्रम० जह० पदे०वं०^१ तिरिक्ख०-एइंदि०-ओग०-तेजा०-क०-हुंड०-
चण्ण०-ध-तिरिक्खाणु०-अगु०-ध-[पज्जत्त०-] थावर-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि० णि०
वं० णि० अजहण्णा संखेज्जभाग्ग्महिंयं वं० । पत्ते०-थिराथिर-सुभासुभ० सिया
संखेज्जदिभाग्ग्महिंयं वं० । साधा० सिया० जह० । एवं साधार० ।

३०१. अपज्ज० जह० पदे०वं० दोगदि-चट्टुजा०-दोआणु० सिया० संखेज्जदि-
भाग्ग्महिंयं वं० । ओराल्लिय याव णिमिणं ति णि० वं०^२ णि० संखेज्जदिभाग-
ग्महिंयं वं० ।

३०२. तित्थ० जह० पदे०वं० मणुस०-पंचिदि०-ओराल्लि०-तेजा०-क०-
समचट्टु०-ओराल्लि०-अंगो०-वज्जरि०-चण्ण०-ध-मणुसाणु०-अगु०-ध-पसत्थ०-तस०-ध-सुभग-
सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं० असंखेज्जगुणग्ग्महिंयं^३ वं० । थिरादितिण्णियुग०
सिया० असंखेज्जगुणग्ग्महिंयं वं० ।

विशेषार्थ—आहारकशरीर और आहारकशरीरआङ्गोपाङ्गके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी
एक ही जीव है; इसलिए इन दोनोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष एक समान कहा है ।

३००. सूक्ष्मप्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति,
औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी,
अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, स्थावर, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका नियमसे बन्ध
करता है जो नियमसे इनका संख्यातवर्ग भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । प्रत्येक,
स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो संख्यातवर्ग
भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । साधारणका कदाचित् बन्ध करता है । यदि
बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष
कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—सूक्ष्म और साधारण इन दोनों प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी
एक है और इन दोनोंका जघन्य प्रदेशवन्ध होते समय एक समान प्रकृतियोंका बन्ध होता है,
इसलिए इनकी मुख्यतासे एक समान सन्निकर्ष कहा है ।

३०१. अपर्याप्त प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव दो गति, चार जाति और
दो आनुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवर्ग भाग
अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । औदारिक शरीरसे लेकर निर्माण तककी प्रकृतियोंका
नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे संख्यातवर्ग भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है ।

३०२. तीर्थङ्करप्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति,
औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग,
वर्णभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति,
त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे
असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध
करता है ।

१. ता०प्रतौ 'ज० [प०] वं०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'णिमिणं तिण्णि वं०' इति पाठः ।
३. ता०शा०प्रत्योः 'असंखेज्जदिगुणग्ग्मदिच' इति पाठः ।

३०३. गिरएसु^१ सत्तण्णं क० ओर्घं । तिरिक्खगदिसंजुत्ताओ ओर्घं । मणुस०-
तित्थ० ओर्घं । एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि सत्तमाए मणुसमादिदुगं तित्थ०भंगो ।

३०४. तिरिक्ख०-पंचिदि०तिरिक्ख-पंचि०पञ्जत्तेसु^२ ओघभंगो । पंचिदि०-
तिरिक्खजोगिणीसु सत्तण्णं क० तिरिक्खगदिसंजुत्तदंडओ मणुसगदिदंडओ एहं दिय-
दंडओ सुहुमदंडओ ओघं । गिरय० जह० पदे०बं० वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-
गिरयाणु०^३ पि० बं० पि० जहण्णा । पंचिदियादि याव गिभिणं ति पि० बं०
असंखेज्जगुणब्भहियं वं० । एवं० गिरयाणु० । देवग० जह० पदे०बं० वेउव्वि०-
वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० पि० बं० पि० जहण्णा । पंचिदियादि याव गिभिणं ति
पि० बं० अज० असंखेज्जगुणब्भहियं बं० । एवं देवाणु० । वेउव्वि० जह०
पदे०बं० दोगदि०-दोआणु० सिया० जह० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-

३०३. नारकियोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है । तिर्यञ्चगति संयुक्त प्रकृतियोंका
भङ्ग ओषके समान है । मनुष्यगति और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार
सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगतिद्विकका
भङ्ग तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान है ।

विशेषार्थ—ओषमें जिस प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहा है उसी
प्रकार सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगतिद्विककी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए, क्योंकि सातवीं
पृथिवीसे इनका बन्ध भिद्य्याष्टि और सासादनसम्यग्ष्टि नहीं करते । शेष प्रकृतियोंका
सन्निकर्ष ओषग्रहपणाको देखकर और स्वामित्वका विचारकर घटित कर लेना चाहिए ।

३०४. सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त जीवोंमें
ओषके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग तथा तिर्यञ्चगति
संयुक्त दण्डक, मनुष्यगतिदण्डक, एकेन्द्रियजाति दण्डक और सूक्ष्मप्रकृतिदण्डकका भङ्ग ओषके
समान है । नरकगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर
आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनका जघन्य प्रदेश-
बन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तककी प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है
जो नियमसे इनका असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार नरक-
गत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये । देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला
जीव वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक शरीर आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता
है जो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । यह पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तककी
प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध
करता है । इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । वैक्रियिकशरीर-
का जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव दो गति और दो आनुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता
है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति,
तैजसशरीर, कामगशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे

१. ता०प्रतौ 'असंखेज्जगुणब्भ० व० ॥४॥ गिरयेसु' आ०प्रतौ 'संखेज्जगुणब्भदियं वं० ॥४॥
गिरएसु' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'तिरिक्ख० पंचिदि० तिरिक्ख०पञ्जत्तेसु' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ
'वेउ०अंगो । गिरयाणु०' इति पाठः । ४. आ०प्रतौ 'पंचिदियाव' इति पाठः ।

तस०४-णिमि० णि० वं० अज० असंखेज्जगुणब्भहियं वं० । समचदु०-हुंड०-
दोविहा०-थिरादिद्वयुग० सिया० असंखेज्जगुणब्भहियं वं० । वेउन्वि०अंगो० णि०
वं० णि० जहण्णा । एव वेउन्वि०अंगो० ।

३०५. पंचिदि०तिरि०अपज्ज० सन्वपगदीणं ओधमंगो । एवं सन्वअपज्जत्तगाणं
तसाणं सन्वएइ०दि०-विगल्लिंदिय-पंचकायाणं पज्जत्तापज्जत्तगाणं च ।

३०६. मणुस०३ओधमंगो । णवरि मणुसिणीसु तिरिक्खगदिदंडओ मणुसगदिदंडओ
एइ०दियदंडओ ओधं । णिरयग० जह० पदे०वं० पंचिदि०-तेजा०-क०-हुंड-वण्ण०४-अगु०
४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिद्व०-णिमि० णि वं० णि० अज० असंखेज्जगुणब्भहियं०
वं० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० णि० वं० अज० संखेज्जभागब्भहियं वं० । णिरयाणु०
णि० वं० णि० जह० । एवं० णिरयाणु० । देवगदि० जह० पदे०वं० पंचिदि०-
तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्वयुग०-णिमि० णि०
वं० णि० अज० असंखेज्जगुणब्भहियं वं० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० णि० वं०

बन्ध करता है । किन्तु इनका असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । सम-
चतुरस्रसंस्थान, हुण्डसंस्थान, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध
करता है । यदि बन्ध करता है तो वह इनका असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता
है । वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इसका नियमसे जघन्य
प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष
जानना चाहिए ।

३०५. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है ।
इसीप्रकार सब अपर्याप्त त्रसोमें तथा सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावर कायिकोमें
तथा इनके पर्याप्तकों और अपर्याप्तकोंमे जानना चाहिए ।

३०६. मनुष्योमे ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोमें तिर्यञ्च-
गतिदण्डक, मनुष्यगतिदण्डक और एकेन्द्रियजाति दण्डकका भङ्ग ओषके समान है ।
नरकगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,
हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि
छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका असंख्यातगुणा अधिक
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध
करता है । किन्तु वह इनका संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नरक-
गत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता
है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीका मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । देवगतिका जघन्य
प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान,
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेश-
बन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है ।
किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ।

तं तु० संखेजभागम्बहिर्यं वं० । आहार०-आहार०अंगो० सिया० जह० । देवाणु०-
तित्थ० णि० वं० णि० जहण्णा । एवं देवाणु०-तित्थ । आहार० जह० पदे०
वं० देवगदि-वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-देवाणु०-तित्थ० णि० वं० जह० । सेसाणं
णि० वं० णि० अज० असंखेजगुणम्बहिर्यं वं० ।

३०.७ देवेसु सत्तणं कम्माणं ओघं । तिरिक्खगदिदंडओ मणुसगदिदंडओ
एइंदियदंडओ ओघो । एवं भवण०-वाणवें-जोदिसि० ।

३०.८. सोधम्मीसाणेसु सत्तणं कम्माणं ओघो । तिरिक्ख० जह० पदे०वं०
पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-उजो०-
तस०४-णिमि० णि० वं० णि० जह० । छस्संठा३०-छस्संघ०-दोविहा०-
थिरादिछुगु० सिया० जह० । एवं तिरिक्खाणु०-उजो० । मणुस० जह० पदे०वं०
यंचिदि०-तिणिसरी०-समचट्टु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-वण्ण० ४-मणुसाणु०-अगु०४-
पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ० णि० वं० णि० [जह०] ।

यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवों भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । आहारकशरीर और आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिका मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । आहारकशरीर आङ्गोपाङ्ग, जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव देवगति, वैक्रियकशरीर, वैक्रियकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यात-गुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

३०.७. देवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिदण्डक, मणुगति-दण्डक और एकेन्द्रियजातिदण्डकका भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए ।

३०.८. सौधर्म और ऐशानकल्पके देवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यच-गतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामर्षणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश-बन्ध करता है । छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसीप्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मणुष्य-गतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षमनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मणुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरु-लघुचतुष्क, प्ररासत विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्कर प्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

१ ता.प्रती 'देवाणु० । तित्थ०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'भवण० भवण (?) वाणवें' इति पाठः । ३. ता.प्रती 'णि० ज० वृस्संठा०' इति पाठः ।

थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० जह० । एवं मणुसाणु०-तित्थ० ।
 पंचिदि०^१ जह० पदे०वं० दोगदि०-छस्संठा०-छस्संध०-दोआणु०-उज्जो०-दोविहा०-
 थिरादिछयुग०-तित्थ० सिया० जह० । ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-वण्ण०-४-
 अगु०-४-त्स०-४-णिमि० गिय० जह० । एवं पंचिदियभंगो ओरालि०-तेजा०-
 क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरी०-वण्ण०-४-अगु०-४-पसत्थ०-त्स०-४-थिरादितिणि
 युग०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० । णग्गोध० जह० पदे०वं० तिरिक्ख०-पंचिदि०-
 तिणिगसरीर-ओरा०-अंगो०-वण्ण०-४-तिरिक्खाणु०-अगु०-४-उज्जो०-त्स०-४-णिमि० णि०
 वं० णि० जह० । छस्संध०-दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० जह० । एवं णग्गोध-
 भंगो चदुसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दुभग-दुस्सर-अणादे० । सणकुमार^२ याव सहस्सर
 ति सोधम्मभंगो । णवरि एइंदियदंडओ वज्ज ।

३०९. आणद याव उवरिमगेवजा ति सत्तणं कम्माणं णिरयभंगो । मणुसग०
 जह० पदे०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरी०-

स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् वन्ध करता है ।
 यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । इसीप्रकार मनुष्य-
 गत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिका मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रियजातिका
 जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव दो गति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत,
 दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करना है ।
 यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । औदारिकशरीर,
 तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क
 और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता
 है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतु-
 रसंस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वर्णभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क,
 प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और
 निर्माणका मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानका जघन्य
 प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, औदारिकशरीरआज्ञोपाङ्ग,
 वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे
 वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । छह संहनन, दो विहायोगति
 और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका
 नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । इसीप्रकार न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानके समान चार
 संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुःस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे
 सन्निकर्ष जानना चाहिए । सनकुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें सौधर्म
 कल्पके देवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें एकेन्द्रियजातिदण्डकको छोड़कर
 यह सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३०९. आनत कल्पसे लेकर उपरिम ग्रैवैयक तकके देवोंमें सात कर्मों का भङ्ग नारकियोंके
 समान है । मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर,
 तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरसंस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वर्णभनाराच-

१. ता० प्रती 'तित्थ पचिदि०' इति पठः । २. ता० प्रती 'अणादे० सणकुमार' इति पाठः ।

वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ०-त्तस०४-सुभग-सुस्वर-आदेअ-णिमि०-त्तित्थ० णि०
 वं० णि० जहण्णा० । थिरादितिण्णियुग० सिया० जहण्णा । एवं मणुसगदि-
 भंगो पंचिदि० तिण्णिसरीर-समचट्टु०-ओरालि० अंगो०^१-वज्जरि०-वण्ण०४-मणुसाणु०-
 अगु०४-पसत्थ०-त्तस०४-थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुस्वर-आदे०-णिमि०-त्तित्थ० ।
 णग्गोध० जह० पदे०वं० मणुसगदि-पंचिदि० तिण्णिसरीर-ओरालि० अंगो०-
 वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०४-त्तस०४-णिमि० णि० वं० णि० अजह० संखेज्जदि-
 भागव्वमहियं० वं० । पंचसंघ०-अप्पस०-दूमग-दुस्सर-अणादे० सिया० जह० । वज्जरि०-
 पसत्थ०-थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुस्वर-आदे० सिया० संखेज्जदिभागव्वमहियं० वं० ।
 एवं णग्गोधभंगो चट्टुसंटा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादे० । अणुदिस याव
 सव्वह चि सत्तण्णं कम्ममाणं णिरयभंगो । णामाणं आणदभंगो ।

३१०. पंचिदि०-त्तस०२ ओघभंगो । पंचमण०-तिण्णिवचि० सत्तण्णं कम्मणं
 ओघो । णिरयमदि० जह० पदे०वं० पंचिदि० याव णिमिण चि अट्टावीसं० णि० वं०

संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,
 सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे प्रदेशबन्ध करता
 है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। स्थिर आदि तीन युगलका
 कदाचित् बन्ध करता है यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है।
 इसीप्रकार मनुष्यगतिके समान पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, सप्तचतुरस्र संस्थान, औदारिक-
 शरीरआङ्गोपाङ्ग, वर्णभेदनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क,
 प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और
 तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानका
 जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, औदारिकशरीर
 आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका
 नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य
 प्रदेशबन्ध करता है। पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्मग, दुस्वर और अनादेयका
 कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता
 है। वज्रपंभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर और
 आदेयका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातवां भाग
 अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान चार
 संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्मग, दुस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष
 जानना चाहिए। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके
 समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग आनतकल्पके समान है।

३१०. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विकमें ओषके समान भङ्ग है। पाँचों मनोयोगी और
 तीन वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है। नरकगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध
 करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माणतक अट्टाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता

१ आ० प्रत्तौ तिण्णिसरीर ओरालि० अंगो०' इति पाठः ।

२ आ० प्रत्तौ 'ओरालि० वण्ण ४-मणुसाणु०' इति पाठः ।

णि० संखेज्जभागम्भहियं वं० । णिरयाणु० णि० दं० णि० जह० । एवं णिरयाणु० ।
तिरिक्ख० जह० पदे०वं० ओरालि०-] ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-
अगु०४-उज्जो०-त्स०४-णिमि० णि० वं० णि० जह० । तेजा०-क० णि० वं० णि०
संखेज्जभागम्भहियं वं० । चटुजादि-छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा०-थिरादिछुग० सिया०
जह० । एवं तिरिक्खगादिभंगो हुंढ०-असंप०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-
अणादे० । मणुसग० जह० पदे०वं० पंचिदि०-ओरालि०-समचटु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-
वण्ण०४-मणुसाणु०-[अगु० ४-] पसत्थवि०-त्स०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०
णि० वं० णि० जह० । तेजा०-क० णि० वं० णि० संखेज्जभागम्भहियं वं० । थिरादि-
तिण्णियुग० सिया० जह० । एवं मणुसगादिभंगो मणुसाणु०-तित्थ० । देवग० जह०
पदे०वं० पंचिदि०-समचटु०-वण्ण०४ याओ पसत्थाओ णिमि०-तित्थ० णि० वं०
णि० अज० संखेज्जभागम्भहियं वं० । वेउच्चि०-तेजा०-क०-वेउच्चि०अंगो० णि० वं०
णि० तं० तु० संखेज्जभागम्भहियं वं० । आहार०२ सिया० जह० । एवं देवाणु० ।

है जो नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नरकगत्यानुपूर्वका नियमसे प्रदेशबन्ध करता है जो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार नरक-गत्यानुपूर्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु-चतुष्क, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर और कार्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगतिके समान हुण्डसंस्थान, असन्याप्तसूपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायो-गति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, बन्धर्षमनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु-चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर और कार्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार मनुष्यगतिके समान मनुष्य-गत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, इस प्रकार निर्माण पर्यन्त जितनी प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं उनका और तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर और वैक्रियिकशरीरआङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । आहारकादिकका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे

वेउव्वि० जह० पदे०वं० देवगदि०पंचिदि०-आहार०-तेजा०-क०-दोअंगो०-देवाणु०
णि० वं० णि० जह० । पंचिदियादि याव णिमिणं तित्थ० णिय० वं० अज० संखेज्जमाग-
ब्महियं वं० । एवं आहार० तेजा०-क०-दोअंगो० । पंचिदि० जह० पदे०वं० सोधम्म-
भंगो । णवरि तेजा०-क० णि० वं० णि० संखेज्जमागब्महियं वं० । तिण्णिजादि०
ओघं । णवरि तेजा०-क० णि० वं० णि० संखेज्जमागब्महियं । च्चदुसंठा०-चदुसंघ०
सोधम्मभंगो । णवरि तेजा०-क० णि० वं० संखेज्जमागब्महियं । वचि०-असच्चमोस०
ओघं । णवरि वेउव्वियुल्ल० पंचिदियजोणिभिंभंगो ।

३११. कायजोगि-ओरालिय० ओघो । ओरालियमि० ओघो । णवरि देवग०
जह० पदे०वं० वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु०-तित्थ० णि० वं० णि० जह० ।
पंचिदियादि याव णिमिणं त्ति णि० वं० णि० अज० असंखेज्जगुणब्महियं ।
थिरादितिण्णियुग० सिया० असंखेज्जगुणब्महियं । एवं वेउव्विय०४-तित्थ० ।

जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसीप्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, आहारक-
शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता
है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माणतककी
प्रकृतियोंका और तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका संख्यातवां भाग
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसीप्रकार आहारकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर
और दो आङ्गोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रियजातिके जघन्य प्रदेशोंका
बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग सौधर्मकल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि यह तैजस-
शरीर और कर्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तीन जातिका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता
है कि यह तैजसशरीर और कर्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे
संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । चार संस्थान और चार संहननका
भङ्ग सौधर्मकल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि तैजसशरीर और कर्मणशरीरका
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध
करता है । वचनयोगी और असत्यसृपावचनयोगी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी
विशेषता है कि इनमें वैक्रियिकषट्कका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान है ।

३११. काययोगी और औदारिककाययोगी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । औदारिक-
मिश्रकाययोगी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगतिका जघन्य
प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और
तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।
पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तककी प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे
असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य
प्रदेशबन्ध करता है । इसीप्रकार वैक्रियिकचतुष्क और तीर्थङ्करकी मुख्यतासे सन्निकर्ष
जानना चाहिए ।

३१२. वेउच्चियका० सत्तणं क० णामाणं^१ सोधम्मभंगो । एवं वेउच्चियमि० ।
आहार०-आहारमि^२० कोधसंज० जह० पदे०व^३० तिणिसंज०-पुरिस०-हस्सरदि-भय-
दुगुं० णि० वं० णि०जह० । एवमेदाओ एकमेकस्स जहण्णा । अरदि० जह० पदे०व^३०
चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु० णि० वं० णि० अज० संखेज्जदिभागम्भहियं० । सोग०
णि० वं० जह० । एवं सोग० । देवगदि० जह० पदे०व^३० पंचिदियादि याव णिमिण
त्ति णि० वं० णि० जहण्णा । एवं देवगदिभंगो^३ पसत्थाणं तित्थयरसहिदाणं । अथिर०
जह० पदे०व^३० देवगदिपसत्थाणं णि० वं० णि० अज० संखेज्जभागम्भहियं० ।
असुभ-अजस० सिया० जह० । सुभ-जस०-तित्थ० सिया० संखेज्जभागम्भहियं० । एवं
असुभ-अजस० । सेसाणं कम्मणं ओघं ।

३१३. कम्महगे सव्वाणं० ओघं । णवरि देवगदि० जह० पदे०व^३० वेउच्चि-
वेउच्चि०अंगो०-देवाणु० णि० वं० णि० जह० । तित्थ० णि० वं० संखेज्जदिभाग-

३१२. वैक्रियिकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी और नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग सीधर्म-
कल्पके समान है । इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । आहारककाय-
योगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें क्रोधसंवलनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला
जीव तीन संवलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो
इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर जघन्य
सन्निकर्ष जानना चाहिए । अरतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार संवलन,
पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । शोकका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे
जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसीप्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । देवगति-
का जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्चन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तककी प्रकृतियोंका
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार देवगतिके
समान तीर्थङ्करप्रकृति सहित प्ररास प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अस्थिर-
प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध
करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । अशुभ
और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे
जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । शुभ, यशःकीर्ति और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है ।
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता
है । इसीप्रकार अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष कर्मोंका
भङ्ग ओषके समान है ।

३१३. कार्मणकाययोगी जीवोंमें सब कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता
है कि देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग
और देवगत्यानुपूर्विका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता
है । तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक

१. ता०प्रती 'क० । णामाणं' इति पाठः । २. ता०प्रती 'वेउच्चियमि० आहार०-आहारमि०'
इति पाठः । ३. ता०प्रती 'जहण्णा । देवगदिभंगो' इति पाठः ।

म्हहियं० । सेसं पंचिदियादि याव णिमिण त्ति णि० वं० णि० अज० असंखेज्जगुण-
म्हहियं० । थिरादितिणियुग० सिया० असंखेज्जगुणम्हहियं । एवं देवगदि०४ ।

३१४. इत्थिवेदे० पंचिदियतिरिक्खजोणिभिंभो । णवरि० तित्थ० जह० वं०
आहार०२ सिया० जह० । सेसाणं देवगदि याव णिमिण त्ति णि० वं० असंखे-
गुणम्भ० । पुरिसेसु ओघभंगो । णवुंसंगेसु ओघभंगो । वेउच्चियल्ल० जोणिणिभंगो ।
अवगदवेदे ओघं । कोधादि०४-असंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-तिणिले०-भवसि०-
सग्णि-आहारग त्ति ओघं । णवरि किण्ण०-णील० तित्थ० जह० पदे०वं० देवगदि-
दुवं०' णि० असंखेज्जगु० । थिरादितिणियुग० सिया० असंखेज्जगुण० । कार०
तित्थ० जह० पदे०वं० मूलोघं ।

३१५. मदि०-सुद०-अम्भव०-मिच्छा०-असण्णि० पंचिदियतिरिक्खजोणिभिंभो ।
विभंगो वचिजोभिंभो । णवरि णिरयगदि० जह० पदे०वं० वेउच्चियदुगं णिरयाणु०
णि० जह० । पंचिदियादिसेसाणं णि० वं० संखेज्जभागम्हहियं० । एवं णिरयाणु० ।

अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तककी शेष प्रकृतियोंका नियमसे
बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।
स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे
असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसीप्रकार देवगतिचतुष्ककी मुख्यतासे
सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३१४. स्त्रीवेदमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है
कि तीर्थङ्करप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव आहारकद्विकका कदाचित् बन्ध करता
है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । देवगतिसे लेकर
निर्माण तकका शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । नपुंसकवेदी
जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । मात्र इनमें वैक्रियिकषट्कका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी
जीवोंके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । क्रोधादि चार कपायवाले,
असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, तान लेश्यावाले, भव्य, सङ्गी और आहारक जीवोंमें ओघके
समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यामे तीर्थङ्करप्रकृतिका जघन्य
प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव देवगतिद्विकका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे
असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य
प्रदेशबन्ध करता है । कापोतलेश्यामे तीर्थङ्करप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका
भङ्ग मूलोघके समान है ।

३१५. मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञो जीवोंमे पञ्चेन्द्रिय
तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान भङ्ग है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमे वचनयोगी जीवोंके समान
भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें नरकगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव वैक्रियिक-
द्विक और नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध
करता है । पञ्चेन्द्रियजाति आदि शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका

वेउव्वियदुगं एवं चेव । णवरि' दोगदि० सिया० जह० । दोविहा०-थिरादिच्छुगुग० सिया० संखेज्जभागम्भहियं० । देवगदि० जह० पदे०व'० वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० णि० जह० । सेसाओ पंचिदियादि याव' जसग्गि०-णिमिण त्ति णि० व'० णि० संखेज्जभागम्भहियं० ।

३१६. आसिणि०-सुद०-ओधि० सत्तण्णं० कम्माणं ओघं । मणुसगदि० जह० पदे०व'० मणुसगदिसंजुत्ताओ तीसिगाओ णि० वं० णि० जहण्णा । एवं तीसिगाओ एकमेकस्स जहण्णा । देवग० जह० पदे०व'० वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० णि० वं० णि० जह० । सेसाणं णि० वं० अज० संखेज्जभागम्भहियं० । एवं वेउव्वियदुगं देवाणु० । आहारदुगं ओघं' । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खड्ग०-वेदग०-उवसस०-सम्माणि० ।

३१७. मणपज्ज० सत्तण्णं कम्माणं आहारकायजोगिभंगो । देवगदि० जह० पदे०व'० पंचिदियादि याव णिमिण त्ति तित्थ'० णि० वं० णि० जह० । वेउव्वि०-

नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार वैक्रियिकद्विकको मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि यह दो गतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका वह नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर यशः-कीर्ति और निर्माणतक शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

३१६. आभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंसे सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगतिसंयुक्त तीस प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार तीस प्रकृतियोंको मुख्यतासे परस्पर जघन्य सन्निकर्ष जानना चाहिए । देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसीप्रकार वैक्रियिकद्विक और देवगत्यानुपूर्वीको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार अवधिदर्शनवाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंसे जानना चाहिए ।

३१७. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंसे सात कर्मोंका भङ्ग आहारककाययोगी जीवोंके समान है । देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माणतककी प्रकृतियोंका और तीर्थङ्कर प्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध

१. ता०प्रती 'चेव णवरि' इति पाठ । २. ता०प्रती 'पंचिदिय याव' इति पाठः । ३. आ०प्रती 'देवाणु० । चन्हु० ओघं' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'णिमिण त्ति । तित्थ०' इति पाठः ।

तेजा०-क०-वेउव्वि०अंगो^१० णि० वं० तं तु० संखेज्जभागवमहियं० । आहार०२
सिया^२० जह० । एवमेदाओ देवगदि० सह एकमेकस्स जहण्णाओ । अथि० जह०
पदे०वं० देवगदिधुविगाणं णि० संखेज्जभा० । असुम^३-अजस० सिया० जह० ।
सुम-जस० सिया० संखेज्जभागवमहियं० । एवं असुम-अजस० । एवं संजद-सामाह०-
छेदो०-परिहार० । एवं संजदासंज० । णवरि देवगदि० जह० पदे०वं० वेउव्विय०-
[वेउव्वियअंगो०-देवाणु०-] णि० वं० णि० जहण्णा । सुहुमसं० अवगद०भंगो ।

३१८. तेउ० सत्तण्णं^४ क० देवोषं । तिरिक्खगदिदंडओ^५ मणुसगदिदंडओ
पंचिदियदंडओ सोधम्मभंगो । देवगदिदंडओ आहार०२दंडओ^६ ओधिभंगो । एवं
पम्माए । णवरि एइदिय-आदाव-थावरं वज्ज । सुकाए सत्तण्णं क० देवभंगो । मणुस-
गदिदंडओ णगगोध०दंडओ आणदभंगो । देवगदिदंडओ तेउ०भंगो ।

करता है । वैकिक्रियकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर और वैकिक्रियकशरीर आज्ञोपाङ्गका नियमसे
बन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध
भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातवों भाग
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । आहारकद्विकका कदाचित् बन्ध करता है । यदि
बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इस प्रकार देवगति सहित
इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे परस्पर नियमसे जघन्य सन्निकर्ष करता है । अस्थिरप्रकृतिका
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि भ्रूषबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध
करता है जो इनका नियमसे संख्यातवों भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । अशुभ
और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य
प्रदेशबन्ध करता है । शुभ और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है
तो इनका नियमसे संख्यातवों भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार
अशुभ और अयशःकीर्तिका मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार संयत,
सामायिकसंयत, छेदोपरथापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए । तथा
इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संयतासंयतोंमें
देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव वैकिक्रियकशरीर, वैकिक्रियकशरीरआज्ञोपाङ्ग और
देवगत्यानुपूर्विका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।
सूक्ष्मसामान्यरायसयत जीवोंमें अपगतचेदी जीवोंके समान भङ्ग है ।

३१८. पीतलेश्यामें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । तिर्यञ्चगतिदण्डक,
मनुष्यगतिदण्डक और पञ्चन्द्रियजातिदण्डकका भङ्ग सौधर्मकरूपके देवोंके समान है । देवगति-
दण्डक और आहारकद्विकदण्डकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार पञ्चलेश्या-
में जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें पञ्चन्द्रियजाति, आतप और स्थावरको छोड़कर
सन्निकर्ष कहना चाहिए । शुक्ललेश्यामें सात कर्मों का भङ्ग देवोंके समान है । मनुष्यगतिदण्डक
और न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानदण्डकका भङ्ग आनतकरूपके समान है । देवगतिदण्डकका भङ्ग
पीतलेश्याके समान है ।

१. ताःप्रती 'वेउ० ते० वेउ०अंगो०' इति पाठः । २. आ०प्रती 'आहार०सिया०' इति पाठः ।
३. आ०प्रती '—धुविगाणंअसुम' इति पाठः । ४. आ०प्रती 'अवगदभंगो ।सत्तण्णं' इति
पाठः । ५. आ०प्रती 'तिरिक्खदंडओ' इति पाठः । ६. आ०प्रती 'देवगदिदंडओ २ दंडओ' इति पाठः ।

३१९. सासणे सत्तणं कं देवगदिभंगो । तिरिक्खगदिदंडओ मणुसगदि-
दंडओ ओषो । देवगदिं जहं पदे०वं० पंचिदियादि याव णिमिण त्ति णि० वं०
णि० अज्ज० असंखेज्जगुणम्महियं । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-देवाणु० णि० वं०
णि० जहं । एवं वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-देवाणु० ।

३२०. असण्णी० तिरिक्खोषं । णवरि वेउच्चियल्ल० जोणिणिसंगो । अणाहार०
कम्महंगमंगो ।

एवं जहण्णओ सत्थाणसण्णियासो समत्तो ।

३२१. परत्थाणसण्णियासं दुविधं—जहं उक्कं च । उक्कं पगं । दुवि०-
ओषे० आदे० । ओषे० आभिणि० उक्कं पदे०वं० चदुणा०-चदुदंसं०-सादा०-जसं०-
उच्चा०-पंचंतं० णि० वं० णि० उक्कं । एवमेदाओ एकमेक्कस्स उक्कस्सिगाओ ।

३२२. णिदाणिहाए उक्कं पदे०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतं० णि० वं०
णि० अणु० संखेज्जभागूणं वं० । पयलापयला-थीणगिद्धि-मिच्छं०-अणंताणु०४ णि०
वं० णि० उक्कं । णिदा-पयला-अट्टकं-भय-दु० णि० वं० णि० अणु० अणंत-
भागूणं० । सादा०-उच्चा० सिया० संखेज्जदिभागूणं । असादा०-इत्थि०-णुत्तंसं०-

३१९. सासादनसम्यक्त्वमें सात कर्मों का भङ्ग देवोंके समान है । तिर्यञ्चगतिदण्डक और मनुष्यगतिदण्डकका भङ्ग ओषके समान है । देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तककी प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आज्ञो-पाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३२०. असंक्षियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें वैक्रियिक छहका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार जघन्य स्वस्थान सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

३२१. परत्थानसन्निकर्ष दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इस प्रकार इनमेंसे किसी एकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होते समय अन्य सबका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है ।

३२२. निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध

वेउन्वियछ००-आदाव०-णीचा० सिया० उक्क० । कोधसंज० णि० वं० णि० अणु०
 दुभागूणं० । माणसंज० सादिरेयदिवङ्गभागूणं० । मायसंज०-लोभसंज० णि०वं० णि०
 अणु० संखेज्जगुणहीणं० । पुरिस०-जस० सिया० यदि वं० संखेज्जगुणहीणं० । हस्स-
 रदि-अरदि-सोग० सिया० णि० यदि वं० अणु० अणंतभागूणं० । दोगदि-पंचजादि-
 ओरालि०-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-दोविहा०-
 तसादिणवयुग०-अज्ज० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-
 उप०-णिमि० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जभागूणं० । एवं पयलापयला-थीणगिद्धि०-
 मिच्छ'०-अणंताणुवं०४ ।

३२३, णिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणाणा'०-चतुदंसणा०-पंचिदि०-तेजा०-क०-
 वण्ण०४-[अगु०४-] तस०४-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० अणु० संखेज्जदि-
 भागूणं० । पयला-भय-दु० णि० वं० णि० [उक्क०] । सादा०-मणुस०-ओरालि०-

करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, वैक्रियिकषट्क, आतप और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। क्रोधसंस्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मानसंस्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मायसंस्वलन और लोभसंस्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणा हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेद और यश कीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणा हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि नौ युगल और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तैजसशरीर, कामर्णशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका निरमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार प्रचलाप्रचला, स्थानपृद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तालुबन्धीचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये।

३२३. चिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामर्णशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क त्रसचतुष्क, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवर्ष भाग हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। प्रचला, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। सातावेदनीय मनुष्यगति, औदारिकशरीर,

१. आ.प्रसौ 'थीणगिद्धि ३ 'मिच्छ०' इति पाठः। २. आ.प्रसौ 'चतुणाणा०' इति पाठः।

ओरोलि०अंगो०-मणुसाणु०-थिराथिर-सुभासुम-अजस^१० सिया० संखेज्जदिभागूणं० ।
 असादा०-अपच्चक्खणाण०४-चदुणोको सिया० यदि वं० णि० उक्क० । पच्चक्खणाणा०४
 सिया० तं तु० अणंतभागूणं० । क्रोधसंज० णि० वं० दुभागूणं० । माणसंज०
 सादिनेयदिवहुभागूणं० । मायासंज०-लोभसंज०-पुरिस०-जस०] णि० वं० संखेज्ज-
 गुणहीणं० । देवगदि-वेउळ्वि०-वेउळ्वि०अंगो०-वज्जरि०-देवाणु०-तित्थ० सिया० तं
 तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । आहारदुगं सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । सम-
 चदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० वं० ।
 एवं पयत्ता० ।

३२४. असाद० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत०. णि० वं० णि०
 अणु० संखेज्जदिभागूणं वं० । धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-गणुंस०-
 गिरय०-गिरयाणु०-आदाव०-णीचा० सिया० उक्क० । णिद्दा-पयत्ता-भय-दु० णि० वं०

आज्ञोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, और अयशःकीर्तिका कदाचित्
 बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
 करता है । असातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध
 करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्याना-
 वरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है
 और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे अनन्त
 भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे
 दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो
 नियमसे साषिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंज्वलन, लोभसंज्वलन,
 पुरुषवेद और यशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन
 अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वज्रधर्म-
 नाराचसंहनन, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कुप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता
 है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट
 प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।
 आहारकद्धिकका कदाचित् करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है
 और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे
 संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग,
 सुखर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता
 है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे
 संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसीप्रकार प्रचला प्रकृतिकी मुख्यतासे
 सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३२४. असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार
 दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन
 अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचार, खीवेद,
 नर्पुंसकवेद, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है ।
 यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, भय, और

१. आ०प्रती 'सुभासुम जस० अजस०' इति पाठः । २. आ०प्रती 'पयत्ता । "उक्क०" इति पाठः ।

तं तु० अणंतभागूणं वं० । अट्टक०-चतुणोक० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० ।
 कौधसंज० णि० वं० दुभागूणं वं० । माणसंज० सादिरैयदिवङ्कभागूणं वं० । माया-
 संज०-सोभसंज० णि० वं० संखेज्जगुणहीणं वं० । पुरिस०-जस० सिया० संखेज्जगुण-
 हीणं वं० । तिणिगदि-पंचजादि-दोसरीर-छस्संटा०-दोअंगोवंग-छस्संध-तिणिगआणु०-
 पर०-उस्सा०-उजो०-दोविहा०-त्तसादिणवयुम०-अज०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदि-
 भागूणं वं० । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदि-
 भागूणं वं० । उच्चा० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

३२५. अपच्चवखाणकोध० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चतुदंस०-पंचिदि०-तेजा०-
 क०-वण्ण०४-अगु०४-त्तस०४-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
 णिद्दा-पयत्ता-तिणिगक०-भय-दु० णि० वं० णि० उक्क० । सादा०-मणुस०-ओरालि०-
 ओरालि०अंगो०-मणुसाणु०-थिराथिर-सुमासुभ-अजस० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभाग-
 हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। आठ कपाय और चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता
 है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी
 करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट
 प्रदेशबन्ध करता है। क्रोध संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे दो भागहीन
 अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मान संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे साधिक
 डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मायासञ्चलन और लोभसंज्वलनका नियमसे बन्ध
 करता है जो नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेद और यश-
 कीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट
 प्रदेशबन्ध करता है। तीन गति, पाँच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह
 संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि नौ युगल, अयश-
 कीर्ति और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेश-
 बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता
 है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तैजसशरीर, कामेशरीर,
 वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माण का नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका
 उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट
 प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। उच्चगोत्रका
 कदाचित् बन्ध करता है जो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

३२५. अप्रत्याख्यातावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण,
 चार दर्शनावरण, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामेशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क,
 त्रसचतुष्क, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका
 नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। निद्रा, प्रचला, तीन कषाय, भय
 और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।
 सातावेदनीय, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर, आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी,
 स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता

असाद०-चदुणोक० सिया० उक० । [पञ्चमखाणा०४ णि० वं० णि० अणंतभागूणं०]
 कोधसंज० दुभागूणं वं० । माणसंज० सादिरेयदिवङ्कभागूणं वं० । मायासंज०-लोम-
 संज०-पुरिसं० णि० वं० णि० संखेज्जगुणहीणं वं० । देवगदि-वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-
 देवाणु० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०
 णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । वज्जरिं० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं
 वं० । जसं० सिया० संखेज्जगु० । तिथि० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
 एवं तिण्णिकसा० ।

३२६. पञ्चमखाणकोध० उक० पदे०वं० पचना०-चदुदंसणा०-पंचिदि०-
 तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० संखेज्जदि-
 भागूणं वं० । णिदा-पयला-तिण्णिक०-भय-दु० णि० वं० णि० उक० । सादा०-

है तो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। असातावेदनीय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अनन्त भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मानसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मयासंज्वलन, लोम-संज्वलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरआङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानु-पूर्विका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभाग-हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। वज्जरिभनाराच संहननका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यात-गुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३२६. प्रत्याख्यानावरण कोधका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्षचतुष्क, अगुसल्लुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, लज्जगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। निद्रा, प्रचला, तीन कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। सातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो

थिराथिर-सुभासुम-अजस० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । असादा०-चटुणोक्क०-तित्थ०
सिया० उक्क० । देवगदि-वेउत्वि०-समचटु०-वेउत्वि०-अंगो०-देवाणु०-पसत्थ०-सुमग-
सुस्सर-आदे० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । चटुसंज०-पुरिस०-जस०
अपच्चक्खाणमंगो । एवं तिण्णिक० ।

३२७. क्रोधसंज० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-चटुदंसणा०-सादा०-जस०-उच्चा०
पंचंत० णि० संखेज्जदिभागूणं वं० । माणसंज० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
मायासंज० दुभागू० । लोभसंज० संखेज्जगु० ।

३२८. माणसंज० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-चटुदंसणा०-सादा०-मायासंज०-
जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं वं० । लोभसंज० णि० वं० संखेज्ज-
गुणहीणं वं० । एवं मायासंज० । णवरि लोभसंज० दुभागूणं वं० ।

इनका नियमसे सख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । असातावेदनीय, चार नोकषाय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देवगति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्त्रस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु यह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे सख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार सञ्चलन, पुरुषवेद और यशःकीर्तिका भङ्ग अप्रत्याख्यानावरणके समान है । अर्थात् अप्रत्याख्यानावरणके समय इनके साथ जिस प्रकारका सन्निकर्ष कह आये हैं उसी प्रकारका यहाँ पर भी जानना चाहिये । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन कषायोकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३२७. क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे सख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे सख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । लोभसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे सख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

३२८. मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, मायासंज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे सख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । लोभसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे सख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार मायासंज्वलनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह लोभसंज्वलनका दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

१ ता० आ० प्रत्योः 'चटुसंज० सादा०' इति पाठः ।

२ ता० ब्रह्मै 'मायसं० कृष्ण० (दुभागू०) लोभसंज०' इति पाठः ।

३२९. लोभसंज्ञं उक्तं पदे०व० पंचणा०-चदुदंसं-सादा०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० व० संखेज्जदिभागूणं व० ।

३३०. इत्थि० उक्तं पदे०व० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० णि० व० संखेज्जदिभागूणं व० । थीण-गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ णि० व० णि० उक्तं । णिहा०-पयत्ता०-अडुक्क०-भय०-दु० णि० अणंतभागूणं व० । सादा०-दोगदि०-ओरालि०-हुंड०-ओरालि०-अंगो०-असंप०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-थिराथिर०-सुभासुभ०-दूभग०-दुस्सर०-अणादे०-अजस०-उच्चा०-सिया० संखेज्जदिभागूणं व० । असादा०-देवग०-वेउच्चि०-वेउच्चि०-अंगो०-देवाणु०-णीचा० सिया० उक्तं । चदुसंज्ञं- [जस० णिहाणिहाए भंगो] । चदुणोक्क० सिया० अणंतभागूणं व० । पंचसंज्ञां^१-पंचसंघ०-पसत्थ०-सुभग०-सुस्सर०-आदे० सिया व० सिया अव० । यदि व० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं व० ।

३३१. णुत्तंसं उक्तं पदे०व० पंचणा०-चदुदंसं-पंचंत० णि० व० संखेज्जदि-

३२९. लोभसंज्ञलनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है ।

३३०. क्लीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क. अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । स्थानगृह्णित्तिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय और उगुप्ताका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । सातावेदनीय, दो गति, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तप्राप्तिका संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । असातावेदनीय, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । चार संज्ञलन और यशःकीर्तिका भङ्ग निद्रानिद्राके समान है । चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पाँच संस्थान, पाँच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो कदाचित् उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है और कदाचित् अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे संख्यात-भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है ।

३३१. नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन

^१ ता० भा० प्रत्यो 'चदुसंज्ञं ओघं । पंचसंज्ञां' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'पंचणा० चदुसंज्ञं पंचंतं' इति पाठः ।

भागूणं वं० । शीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुव०४ णि० वं० णि० उक्क० । णिहा-
पयला-अट्टक०-भयदु० णि० वं० णि० अपु० अणंतभागूणं वं० । सादा०-उच्चा०
सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । असादा०-णिरय०-वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-णिरयाणु०-
आदावणीचा^१० सिया उक्क० । चदुसंज० इत्थिभंगो । चदुणोक्क० सिया० अणंत-
भागूणं वं० । दोगदि-पंचजादि-ओरालि०-पंचसंठा-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-
पर०-उस्सा०-उच्चो०--अप्पसत्थ०-तसादि०४युगल-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-
अणादे०-अजस० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । [तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-
उप०-णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।] समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-
आदे० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । जस० सिया०^२ संखेज्जदिगुणहीणं वं० ।

३३२. पुरिस० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-जस०-उच्चा०-
पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं वं० । क्रोधसंज० दुभागूणं वं० । माणसंज० सादिरेयं

अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानवृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । असातावेदनीय, नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और नोचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संज्वलनका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । चार नोकपायोका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चार युगल, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और अयज्ञःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णोचतुष्क, अगुहलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यज्ञःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

३३२. पुंसवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, यज्ञःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मान संज्वलनका नियमसे

१. आ०प्रती 'आदाव णीचा०' इति पाठः । २. आ०प्रती 'संखेज्जदिभागूणं वं० सिया०'
इति पाठः ।

दिवहभागूणं वं० । मायासंज०-लोमसंज० णि० वं० संखेज्जगुणहीणं वंधदि ।
 ३३३. हस० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंस०- [उच्चा०-] पंचंत० णि०
 वं० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं वं० । णिहा-पयला-असादा-अपच्चक्खाण०-४ सिया०
 उक्क० । साद०-मणुस०-पंचिदि० - ओगलि०-तेजा०-फ०-ओरालि०-अंगो०-वण्ण०-४-
 मणुसाणु०-अणु०-४-तस०-४-थिरादिदोयुगल-अजस०-णिमि० सियां० संखेज्जदिभागूणं
 वं० । आहार०-२ सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । [चदुपच्चक्खाण०-] चदुसंज०-
 पुरिस० णिहाए भंगो । रदि-भय-दुगुं० णि० वं० णि० उक्क० । देवगदि-समचदु०-वेउव्वि०-
 वेउव्वि०-अंगो०-वज्जरि०-देवाणु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-तित्थ० सिया० तं तु०
 संखेज्जदिभागूणं वं० । जस० सिया० विट्ठाणपदिदं वंधदि संखेज्जहीणं संखेज्जगुणहीणं
 वा बंधदि । एवं रदि० ।

३३४. अरदि० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंस०-पंचिदि०-तेजा०-फ०-

बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।
 मायासंज्वलन और लोमसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे सख्यातगुण-
 हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

३३३. हास्यका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण,
 उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन
 अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका
 कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता
 है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामैणशरीर,
 औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क,
 स्थिर आदि द्यो युगल, अयशःकीर्ति और निर्माणका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध
 करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । आहारकद्विकका
 कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट
 प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागहीन
 अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार संज्वलन और पुरुषवेदका भङ्ग
 निद्राके समान है । रति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे
 उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करना है । देवगति, समचतुरस्त्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर
 आङ्गोपाङ्ग, बर्षभनाराचसंघटन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय
 और तीर्थङ्कर श्रक्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी
 करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका
 नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता
 है । यदि बन्ध करता है तो द्विस्थानपतित बन्ध करता है, कदाचित् संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट
 प्रदेशबन्ध करता है और कदाचित् संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार
 रतिकी, सुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिये ।

३३४. अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण,

१. ता०प्रतौ 'पंचणा० पंचंत०' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'पंचिदि० ओरालि० अंगो०' इति
 पाठः । ३. ता०भा०प्रत्योः 'रदि भयदुगुं' अरदि०' इति पाठः ।

वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं
 बं० । [साद०-मणुस०-ओरालि०-ओरालि-अंगो०-मणुसाणु०-थिराथिर-सुभासुभ-अजस०
 सिया०-संखेज्जदिभागूणं बं०] असाद०-अपच्चक्खाण०४ सिया० उक्क० । पच्चक्खाण०४
 सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । च्चदुसंज०-पुरिस०-[जस०] णिहाए भंगो ।
 णिहाए-पयला-[सोग०-] भय-दु० णि० वं० णि० उक्क० । देवग०-वेउच्चि०-
 वेउच्चि०-अंगो०-वज्जरि०-देवाणु०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
 समच्चदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं
 वं० । एवं सोगं ।

३३५. भय० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-च्चदुदंसणा०-उच्चा०-पंचंत० णि०
 वं० संखेज्जदिभागूणं वं० । णिहा-पयला-असाद०-अपच्चक्खाण०४-च्चदुणोक्क० सिया०
 उक्क० । सादा०-मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-[तेजा०-क०-] ओरालि०-अंगो०-वण्ण०४-

पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण,
 उच्चोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन
 अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर
 आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध
 करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।
 असातावेदनीय और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता
 है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता
 है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता
 है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता
 है । चार सञ्चलन, पुरुषवेद और यशःकीर्तिका भङ्ग निद्राके समान है । निद्रा, प्रचला, शोक
 भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।
 देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, देवगत्यानुपूर्वी और
 तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी
 करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे
 संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरस्रस्थान, प्रशस्त विहाःगति, सुभग,
 सुस्वर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता
 है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे
 संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष
 जानना चाहिए ।

३३५. भयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण,
 उच्चोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन
 अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और
 चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
 करता है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण-
 शरीर औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क,

१. आ०प्रती 'अपच्चक्खाण०४ सिया० तं तु० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० ।' इति पाठः ।

२. ता०प्रती 'एवं सोगं भय । ३३० वं०' इति पाठः ।

मणुसाणु०-अगु०४-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-अजस०-णिमि० सिया० संखेज्जदिभागूणं
बं० । जस हस्समंगो^१ । पच्चक्खाणु०४ सिया० तं तु० अणंतभागूणं^२ बं० । चदु-
संज०-पुरिस०-[जस०] णिहाए मंगो । दुगुं० णि० बं० णि० उक्क० । देवग०-
वेउव्वि०-आहार०-दुग-समचदु०-वेउव्विअंगो०-वज्जरि०-देवाणु०-पसत्थु० - सुभग-सुस्सर-
आदे०-तित्थु० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं बं० । एवं दुगुं० ।

३३६. णिरयाउ^३० उक्क० पदे०बं० पंचणा०-णवदंस०-असाद०-मिच्छ०-
चारसक०-णलुस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-णिरयग०-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-हुंड०-
वेउव्वि०-अंगो०-वण्ण०४-णिरयाणु०-अगु०४-अप्पसत्थु०-तस०४-अथिरदिदु०-णिमि०-
णीचा०-पंचंत० णि० बं० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं बं० । चदुसंज० णि० बं०
णि० संखेज्जगुणहीणं बं० । तिरिक्खाउ० उक्क० पदे०बं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-
चारसक०-भय-दु०-तिरिक्ख०-तिणिसरीर-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-णिमि०-
[णीचा०] पंचंत० णि० बं० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं बं० । दोवेद०-छण्णोको०-

स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अयशःकीर्ति और निर्माणका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। यशस्कीर्तिका भङ्ग हास्यकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है। प्रत्याख्यानावरण चारका कदाचित् बन्ध करता है। किन्तु उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश बन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार संव्वलन, पुरुषवेद और यशःकीर्तिका भङ्ग निद्राको मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है। जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। देवगति, वैक्रियिकशरीर, आहारकद्विक, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वज्रप्रभनाराच-संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३३६. नरकायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कषाय, नपुंसकवेद, भरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामगणशरीर, हुण्डसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्लघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार संव्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तिर्यञ्जायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्लघु, उपघात, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, छह नोकषाय, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक-

१. आ०प्रती 'हस्सरदिभंगो' इति पाठः । २. आ०प्रती 'सिया० अणंतभागूणं' इति पाठः ।

३. ता०प्रती 'एवं दुगु(यु)' । णिरयाउ०' इति पाठः ।

पंचजा०-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संध०-पर०-उस्सा०-आदाउजो०-दोविहा०-तसादि-
णवयुग०-अज० सिया० संखेजदिभागूर्णं वं० । चटुसंज० णि० वं० णि० अणु० संखेज-
गुणहीर्णं वं० । पुरिस०-जस० सिया० संखेजगुणहीर्णं वं० । मणुसाउ० उक्क^१०
पदे०वं० पंचणा०-छदंस०-अडुक०-भय-दु० - मणुस० - पंचिदि०-ओरालि०-तेजा-क०-
ओरालि०अंगो०-वण्ण००४-मणुसाणु०-अगु०-उप०-तस०-बादर०-पत्ते०-णिमि०-पंचंत०
णि० वं० णि० अणु० संखेजदिभागूर्णं वं० । थीणगिद्धि०३-सादासाद०-मिच्छ०-
अणंताणु००४-छणोको०-छस्संठा०-छस्संध०-पर०-उस्सा०-दोविहा०-पञ्जत्तापज्ज०-थिरादि-
पंचयुग०-अज०-तित्थ०-दोगो० सिया० संखेजदिभागूर्णं वं० । चटुसंज० णि० वं०
णि० संखेजगुणहीर्णं वं० । पुरिस०-जस० सिया० संखेजगुणहीर्णं बंधदि । देवाउ०
उक्क० पदे०वं० पंचणा०-छदंस०-सादावे०-हस्सरदि-भय-दु०-देवगदि-पंचि०-वेउव्वि०^२-
तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वण्ण००४-देवाणु०-अगु००४-पसत्थ०-तस००४-थिरादि-
पंच०-णिमि०-उच्चा०-यंचंत० णि० वं० णि० अणु० संखेजदिभागूर्णं वं० । थीण-
गिद्धि०३-मिच्छ०-चारसक०-इत्थि०-आहारदुग-तित्थ० सिया० संखेजदिभागूर्णं वं० ।

शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि नौ युगल और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संवलनका नियमसे बन्ध करता है ज इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कर्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धि तीन, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तालुबन्धी चार, छह नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, दो विहायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर आदि पाँच युगल, अयशःकीर्ति, तीर्थङ्कर और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करना है । चार सज्जलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देवायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देव-गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि पाँच, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, वादर कषाय, शोवेद, आहारकण्डिक और तीर्थङ्कर प्रकृति का कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे

१. आ०प्रतौ 'मणुसाणु० उक्क०' इति पाठः । २. ता०भा०प्रत्योः 'देवगदिपंच वेउव्वि०' इति पाठः ।

चदुसंजं० णि० वं० णि० संखेज्जगु० । पुरिसं० सिया० संखेज्जगु० । जसं० णि० संखेज्जगु० ।

३३७. णिरयगु० उक्कं० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंसं०-पंचंतं० णि० वं० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं वं० । थीणगिद्धि०३-असादं०-मिच्छं०-अणंताणु००४-णवुंसं०-णीचा० णि० वं० णि० उक्कं० । णिहा-पयला-अडुकं०-अरदि-सोग-भय-दु० णि० वं० णि० अणंतभागूणं वं० । चदुसंजं० मिच्छत्तभंगो । एवं सव्वाणं णामपगादीणं मिच्छत्त-पाओग्गाणं णामसत्थाणभंगो' । एवं णिरयाणु०-अप्पसत्थं०-दुस्सरं० ।

३३८. तिरिक्खं० उक्कं० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतं० णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं वं० । थीणगिद्धि०३-मिच्छं०-अणंताणुवं०४-णवुंसं०-णीचा० णि० वं० णि० उक्कं० । णिहा-पयला-अडुकं०-भय-दु० णि० वं० अणंतभागूणं वं० । सादा० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । असादा०-वादर-सुहुमं०-पत्ते०-साधारं० सिया० उक्कं० । चदुसंजं० मिच्छत्तभंगो । चदुणोकं० सिया० अणंतभागूणं वं० । णामाणं

संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो इसका संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

३३७. नरकगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धि तीन, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसक-वेद और नीचगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संज्वलनका भङ्ग मिथ्यात्व-के समान है । इसी प्रकार मिथ्यात्व प्रायोग्य सब नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग नामकर्मके स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार नरकात्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३३८. तिर्यञ्जगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना-वरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद और नीचगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । असातावेदनीय, वादर, सुहुम, प्रत्येक और साधारणका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संज्वलनका भंग मिथ्यात्वके

१. ता०प्रतौ मिच्छत्तपाओग्गाणं । णामसत्थाणभंगो' इति पाठः । २ ता०प्रतौ 'असादं० वारं सुहुमं' आ०प्रतौ 'असादा० वारसकं सुहुमं' इति पाठः ।

णि० संखेजदिभागूणं वं० । शीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ णि० वं० णि० उक्क० । गिद्दा-पयला-अट्टक०-भय-दु० णि० वं० अणु० अणंतभागूणं वं० । सादा०-उच्चा० सिया० संखेजदिभागूणं वं० । चदु संज० तिरिक्खगदिभंगो । पुरिस० सिया० संखेजगुणहीणं वं० । असादा०-इत्थि०-णवुस०-णीचा० सिया० उक्क० । चदुणोक्क० सिया० अणंतभागूणं वं० । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं तिणिणसंठा०-चदुसंघ० ।

३४४. वज्जरि० उक्क० पदे०बं० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत० णि० वं० संखेजदिभागूणं वं० । शीणगिद्धि०३-[असादा०-] मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुस०-णीचा० सिया० उक्क० । गिद्दा'-पयला०-अपच्चक्खाण०४-भय-दु० णि० वं० तं० तु० अणंतभागूणं वं० । सादा०-उच्चा० सिया० संखेजदिभागूणं वं० । पच्चक्खाण०४-णि० वं० अणंतभागूणं वं० । चदु संज० तिरिक्खगदिभंगो । पुरिस०-जस० सिया०

भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संबलनका भङ्ग तिर्यञ्चगतिकी मुख्यतासे कहे इनके सन्निकर्षके समान है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातरुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकषायोंका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार तीन संस्थान और चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३४४. वज्जरभन्ताराचसंहननका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनोवरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात-भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धि, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानु-बन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, अप्रत्यास्थानावरण चतुष्क, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्यास्थानावरणचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संबलनका भङ्ग तिर्यञ्चगतिकी मुख्यतासे कहे गये इनके सन्निकर्षके समान है । पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातरुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकषायोंका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट

संखेज्जगुणही० । चद णोक० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं । णामाणं सत्थाणभंगो ।
 ३४५. [तिथ्य०] उक्क० पदे० वं० पंचणा० चदु दंस० देवगदिपंचिदि०-
 वेउच्चि० तेजा० क० समचदु० वेउच्चि० अंगो० वण्ण० ४ देवाणु० अणु० ४ पसत्थ० तस०
 ४ सुभगसुस्सरआदे० णिमि० उच्चा० पंचंत० णि० वं० अणु० संखेज्जदिभागूणं
 वं० । णिहापयलाअसादा० अप्पच्चक्खाण० ४ हस्सरदिअरदिसोग० सिया० उक्क० ।
 सादावे० थिराथिरसुभासुभअजस० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । पच्चक्खाण० ४
 सिया० तं तु० अणंतभागूणं बंधदि । कोधसंज० दुभागूणं । माणसंज० सादिरैयं
 दिवहभागूणं । मायासंज० लोभसंज० पुरिस० णि० वं० णि० अणु० संखेज्जगुण-
 हीणं वं० । भयदु० णि० वं० उक्क० । जस० सिया० संखेज्जगुणहीणं वं० ।
 णीचा० णरुंसग० भंगो ।

३४६. णिरएसुआभिणि० उक्क० पदे० वं० चदुणा० पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० ।

प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है ।

३४५. तीर्थङ्कप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अणुत्तलधुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अनन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे इनका संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसंञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंञ्चलन, लोभसंञ्चलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुण-हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेदकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है । अर्थात् नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका अन्य प्रकृतियोंके साथ जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा है उसी प्रकार नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका अन्य प्रकृतियोंके साथ सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

३४६. नारकियेमें आभिनिबोधिकहानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार

१. आ० प्रती 'लोभसंज० णि०' इति पाठः ।

थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-उज्जो०-तित्थि०-[दोगोद०]
 सिया० वं० उक्क० । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० तं तु० अणंतभागूणं वं० ।
 पंचणोक० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । दोगदि-छस्संठा०-छस्संध०-दोआणु०-
 दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । पंचिदि०-तिण्णिसरीर-
 ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-अणु०४-तस०४-णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं
 वं० । एवं चट्टणाणा०-दोवेदणी०-पंचंत० ।

३४७. णिहाणिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-दोदंस०-मिच्छ०-अणंताणु०४-
 पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंसणा०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० णि०
 अणंतभागूणं वं० । दोवेदणी०-इत्थि०-णवुंस०-मणुस०-मणुसाणु०-उज्जो०-दोगोद०
 सिया० उक्क० । पंचणोक० सिया० अणंतभागूणं वंधदि । सेसाणं णामाणं आभिणि०-

ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, लीवेद, नपुंसकवेद, उद्योत, तीर्थङ्कर और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस-चतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार शेष चार ज्ञानावरण, दो वेदनीय और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३४७. निद्धानिद्धाना उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उद्योत और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी शेष प्रकृतियोंका भंग आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके

भंगो । णवरि तित्थयरं णत्थि । एवं दोदंसणा०-मिच्छ०-अणंताणुव'०४-इत्थि०-
णलुंस०-णीचा० ।

३४८. णिहाए उक्क० पदे०व' पंचणा०-पंचदंसणा०-चारसक०-पुरिस०-भय-द०-
उच्चा०-पंचंत० णि० व'० णि० उक्क० । दोवेदणी०-चदु णोक०-तित्थि० सिया० उक्क० ।
मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-वण्ण०४-
मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० व'० णि०
तं तु० संखेज्जदिभागूणं व'० । थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० तं तु०
संखेज्जदिभागूणं व'० । एवं पंचदंस०-चारसक०-सत्तणोक० ।

३४९. तिरिक्खाउ० उक्क० पदे०व'० पंचणा०-णवदंस० - मिच्छ०-सोलसक०-
भय-दु०-तिरिक्ख०-पंचिदि०-तिणिसरोर०-ओरा०अंगो०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-
तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० व'० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं व'० । दो-
वेद०-सत्तणोक०-छस्संठा०-छस्संच०-उज्जो०-दोविहा०-थिरादिह्युग० सिया० संखेज्जदि-

समान है । इतनी विशेषता है कि इसके तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३४८. निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, पाँच दर्शनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और तीर्थङ्कर-प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाज्ञ, वज्रधमनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अतुल्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अतुल्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार पाँच दर्शनावरण, वारह कषाय और सात नोकषायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३४९. तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, औदारिकशरीर आज्ञोपाज्ञ, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चोत्त्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, उद्योत, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो

भागूणं बं० । मणुसाउ०^१ उक्क० पदे०बं० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय-दु०-
मणुसग०-पंचिदि०-ओरालि०-तौजा०-क०-ओरालि० अंगो०-वण्ण०-मणुसाणु०-अगु०-
तस०-अणिमि०-पंचंत० णि० बं० णि० संखेज्जदिभागूणं बं० । थीणगिद्धि०३-दो-
वेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०-सत्तणोक०-छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा०-थिरादिअणुग०-
तित्थ०-दोगोद० सिया० संखेज्जदिभागूणं० ।

३५०. तिरिक्स०^२ उक्क० पदे०बं० पंचणा०-थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु-
बं०-अणीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंसणा०-वारसक०-भय-दु० णि० बं०
णि० अणंतभागूणं वं० । दोवेदणी०-इत्थि०-अणुसं० सिया० उक्क० । पंचणोक०
सिया० अणंतभागूणं^३ वं० । णामाणं सत्थाणमंगो । एवं तिरिक्खाणु०-उजो ।

३५१. मणुस० उक्क० पदे०बं० पंचणा०-पंचंत० णि० बं० णि० उक्क० ।
थीणगिद्धि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०-इत्थि०-अणुसं०-[दोगोद०] सिया०

इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सात नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल, तीर्थङ्कर और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

३५०. तिर्यञ्जगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी श्रद्धावियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३५१. मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थान-
गृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

१. ता०प्रती 'संखेज्जदिभागूणं । मणुसाउ०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'संखेज्जदिभागू० ।
[एतच्छिन्हान्तर्गतः पाठः ताडपत्रीयमूलप्रती पुनरुक्तोस्ति] । तिरिक्स इति पाठः । ३. आ०प्रती 'अणुसं०
सिया० अणंतभागूणं बं०' इति पाठः ।

उक० । छद्दसणा०-बारसक०-भय-दु० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० ।
पंचणोक० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । गामाणं सत्थाणमंगो ।

३५२. पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-
चण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ०-त्स०४-थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे०-
णिमि० हेड्डा उवरिं मणुसगदिमंगो । गामाणं सत्थाणमंगो । पंचसंठा०-पंचसंघ०
अप्पसत्थ-दुभग-दुस्सर-अणादे० हेड्डा उवरिं तिरिक्खगदिमंगो । गामाणं सत्थाणमंगो ।

३५३. तित्थ उक० पदे०वं० पंचणा०-छद्दसणा०-बारसक०-पुरिस०-भय-दु०-
उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक० । दोषेद०-चदुणोक० सिया० उक० । गामाणं
सत्थाणमंगो ।

३५४. उच्चा० उक० पदे०वं० पंचणा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक० ।
थीणगिद्धि०३-[दोषदपो०]-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णजुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-
अप्पसत्थ०दुभग-दुस्सर-अणादे०-तित्थि० सिया० उक० । छद्दस०-बारसक०-भय-दु०

छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु षह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नाम कर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है।

३५२. पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुहल्यु-चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और वादकी प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यगतिकी मुख्यतासे इन प्रकृतियोंका कहे गये सन्निकर्षके समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायो-गति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और वादकी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष तिर्यञ्जगतिकी मुख्यता कहे गये इन प्रकृतियोंके सन्निकर्षके समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष स्वस्थान सन्निकर्षके समान है।

३५३. तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है।

३५४. उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थानगुद्धिन्निक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तासुबन्धी चतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

णि० बं० णि० तं तु० अणंतभागूणं बं० । पंचणोक्क० सिया० तं तु० अणंतभागूणं बं० । मणुस०-पंचिदि०-ओरासि०-तेजा०-क०- [ओरालिअंगो०-] वण्ण०-४-मणुसाणु०-अगु०-४-त्स०-४-णिमि० णि० बं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं बं० । समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं बं० । एवं पढम-विदिय-तदिएसु । चउत्थि-पंचमि-छट्ठीए तित्थयरं वज्जणिरयोधो । णवरि मणुस०-२ एसिं आगच्छदि तेसिं णि० उक्क० ।

३५५. सत्तामाए आभिणि० उक्क० बं० चदुणा०-पंचंत० णि० बं० णि० उक्क० । थीणगिद्धि०-३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०-४-इत्थि०-णखुंस०-मणुस०-मणुसाणु०-उज्जो०-दोगोद० सिया० बं० उक्क० । छदंसणा० चारसक०-भय-दु० णि० बं० णि० तं तु० अणंतभागूणं बं० । पंचणोक्क० सिया० तं तु० अणंतभागूणं बं० ।

है। छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पाँच नोकषायोंका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्ष चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। समचतुरस्र सस्थान, वज्रवर्षमनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् सामान्य नारकियोंके समान प्रथम, द्वितीय और तृतीय पृथिवीमें जानना चाहिए। चतुर्थ, पञ्चम और षष्ठ पृथिवीमें तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिद्विक जिनके आती है उनके नियमसे उत्कृष्ट होती है।

३५५. सातवीं पृथिवीमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थानगुद्धि त्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उद्योत और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध

तिरिक्ख०-छस्संठा०-छस्संध०-तिरिक्खाणु०-दोविहा०-थिगदिछुयुग० सिया० तं तु०
संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-फ०-ओरालि०-अंगो०-वण्ण०-ध-
अगु०-ध-त्तस०-ध-णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं चटुणा०-
दोवेदणी०-पंचंत० ।

३५६. णिहाणिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-दोदंस०-मिच्छ०-अर्णताणु०-ध-
णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंस०-चारसक०-भय-दु० णि०
वं० णि० अर्णतभागूणं वं० । दोवेद०-इत्थि०-णवुंस०-उज्जो० सिया० उक्क० ।
पंचणोक० सिया० वं० अर्णतभागूणं वं० । तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-फ०-
ओरालि०-अंगो०-वण्ण०-ध-तिरिक्खाणु०-अगु०-ध-त्तस०-ध-णिमि० णि० वं० तं तु०
संखेज्जदिभागूणं वं० । छस्संठा०-छस्संध०-दोविहा०-थिरादिछुयुग० सिया० तं तु०

करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यञ्जगति, छह संस्थान, छह संहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिकशरीर आज्ञोपाज्ञ, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माण का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, दो वेदनीय और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

३५६. निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, चारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, खोवेद, नपुंसकवेद और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायोंका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यञ्जगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिकशरीर आज्ञोपाज्ञ, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट

संखेजदिभागूणं वं० । एवं थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अर्णताणुव००४-इत्थि-णवुंस०-णीचा० ।
 ३५७. णिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचदंस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-
 मणुस०-पंचिदि०-ओरोलि०-तेजा०-क०-समचदु० - ओरोलि०अंगो०-वज्जरि०-वण्ण०४-
 मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ०-त्स०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि०
 वं० णि० उक्क० । दोवेदणी०-चदुणोफ०-थिरादितिण्णियुग० सिया० उक्क० ।
 एवं पंच० [दंसणा०-] वारसक०-सत्तणोफ०-मणुसमादिदुगं० । सेसाणं चउत्थिभंगो ।
 णवरि मिच्छत्तपाओग्गाणं तिरिक्खगदिदुवं०^२ वा उक्का० ।

३५८. तिरिक्खेसु आभिणि० उक्क० पदे०वं० चदुणा०-पंचंत०^३ णि० वं० णि०
 उक्क० । थीणगिद्धि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अर्णताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-वेउत्थिव्यल्ल०-
 आदाव दोमोद० सिया० उक्क० । अपच्चक्खाण०४-पंचणोफ० सिया० तं तु० अर्णत-
 भागूणं वं० । [छदंस०-] अडक०-भय-दु० णि० वं० णि० तं तु० अर्णतभागूणं वं० ।

प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे सख्यातभागहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार स्थानगृद्धिक्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, ननुंसकवेद और नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३५७. निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, पाँच दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलपुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उरुचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय, और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इस प्रकार पाँच दर्शनावरण, बारह कषाय, सात नोकषाय और मनुष्यगतिद्विककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष प्रकृतियों का भङ्ग चौथी पृथिवीके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वप्रायोग्य प्रकृतियोंमें तिर्यञ्चगतिद्विक को उत्कृष्ट करना चाहिए ।

३५८. तिर्यञ्चोमे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धिक्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, ननुंसकवेद, वैक्रियिकषट्क, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय और जुगुप्सा का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन

१. ता०प्रती 'एवं पंचंत [व]० वारस०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'तिरिक्खगदिदुवं' इति पाठः ।
 ३. ता०प्रती 'चदुणोफ० पंचंत०' भा०प्रती 'चदुणोफ० पंचंत०' इति पाठः ।

दोगदि-पंचजादि-ओरालि०-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं चहुणा०-असादा०-पंचंत० ।

३५९. णिहाणिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-दोदंसणा०-मिच्छ०^१-अणंताणु०४-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० अणंतभागूणं वं० । दोवेदणी०-इत्थि०-णुत्तंस०-वेउत्थियल्ल०-आदाव-दोमोद० सिया० उक्क० । पंचणोक० सिया० अणंतभागूणं वं० । दोगदि-पंचजादि-ओरालि०-छस्संठा-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-दोविहा^२-तसादिदसयुग० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं दो दंस०-मिच्छ०-अणंताणु०४ ।

अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिक-शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत दो विहायोगति और त्रसादि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३५९. निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, वैक्रियिक छह, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दोगति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, दो विहायोगति, और त्रसादि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रयार दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१. ता०श्रा० प्रत्येः 'दोवेदणी० मिच्छ०' इति पाठः । २. श्रा०प्रतौ 'उस्सा० दोविहा०' इति पाठः ।

३६०. णिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचदंसणा०-पुरिस०-भय-दु०-देवग०-
वेउन्वि०-समचदु०-वेउन्वि०-अंगो०-देवाणु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा०-पंचंत०
णि० वं० णि० उक्क० । दोवेदणी०-अपच्चक्खाण०-ध-चदुणोक्क० सिया० उक्क० ।
अट्टक० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०-ध-
अगु०-तस०-ध-णिमि० णि० वं० अणु० संखेज्जदिभागूणं वं० । थिरादितिणियु०
सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं पंचदंस०-सत्तणोक्क० ।

३६१. सादा० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचंत० णि० वं० उक्क० । थीणगिद्धि०
३-मिच्छ०-अणंताणु०-ध-इत्थि०-णत्तुंस०-देवगदि०-ध-आदाव-दोगोद० सिया० उक्क० ।
खदंस०-अट्टक०-भय-दु० णि० वं० णि० तं तु० [अणंतभागूणं वं०] । अपच्चक्खाण०-ध-
पंचणोक्क० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । दोगदि-पंचजादि-ओरालि०-उस्संठा०-
ओरालि०-अंगो०-उस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०- [उज्जो०-] पसत्थ०-तस०-ध- [युग०-]
थिरादितिणियुग०-सुभग-सुस्वर०-आदे० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

३६०. निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, पाँच दर्शनावरण, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और चार नोकषायोंका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। आठ कषायोंका नियमसे बन्ध करता है किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, व्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे सख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार पाँच दर्शनावरण और सात नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३६१. सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थान-गृह्णित्त्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धोचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, देवगतिचतुष्क, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और पाँच नोकषायोंका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, छह सस्थान, औदारिक-शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परधात, उच्चास, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, व्रस-चतुष्क युगल, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है। यदि

तेजा०-क०-वण्ण०-अगु०-उप०-णिमि० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं
वं० । अप्पसत्थ०-दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । दूमग-अणादे० सिया०
तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

३६२. अपच्चखण्णकोध० उक्क० पदे०वं० णिहाए भंगो । णवरि अट्टक० णि०
वं० णि० अणंतभागूणं वं० । एवं तिण्णिक० ।

३६३. पच्चखण्णकोध० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-छदंसणा०-सत्तक०-पुरिस०-
भय-दु०-देवगदि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । सेसं णिहाए भंगो । एवं
सत्तणं कम्मार्णं ।

३६४. इत्थि० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-थीणगिद्धि०-३-मिच्छ०-अणंताणु-
वं०-उ-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंसणा०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० णि०
अणु० अणंतभागूणं वं० । दोवेदणी०-देवगदि०-दोगोद० सिया० उक्क० । चटुणोक्क०

बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तैजसशरीर, कामांशुशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। अग्रशस्त विद्यायोगति और दुस्वरका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दुर्भंग और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

३६२. अपत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग निद्राकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है। इतनी विशेषता है कि यह आठ कषायोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अपत्याख्यानावरण मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३६३. प्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सात नोकषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगतिचतुष्क, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। क्रोध भङ्ग निद्राकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि सात कर्मोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३६४. स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगुद्धिचिक्र, मिथ्यात्व, अनन्तालुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, देवगतिचतुष्क और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो

सिया० अर्णतभागूणं बं० । दोगदि-ओरालि०-हुंड०-ओरालि०-अंगो०-असंपच०-
दोआणु०-अप्पसत्थ०-थिरादितिणियुग-दूमग-दुस्सर-अणादे० । सिया० संखेज्जदिभागूणं
बं० । पंचिदि०-तैजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० बं० संखेज्जदि-
भागूणं बं० । पंचसंठा०-पंचसंघ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० तं तु० संखेज्जदि-
भागूणं बं० । उज्जो० सिया० संखेज्जदिभागूणं बं० ।

३६५. णउंस० उक्क० पदे०बं० हेट्ठा उवरिं इत्थि०अंगो० । णामाणं णिरयगदि०४-
आदाव०' सिया० उक्क० । दोगदि-पंचजादि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-
उस्ससंघ-दोआणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-तस०४-[युग०-] थिरादितिणियुग०-
दूमग-दुस्सर-अणादे० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं बं० । [तैजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-

इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार नोकषायोंका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असंप्राप्तसृष्ट्याटिकासंहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

३६५. नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जानना चाहिए। यह नामकर्मकी प्रकृतियोंसे नरकगति-चतुष्क और आतपका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक-शरीरआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क युगल, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त

उप०-णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।] समचदु०-पसत्थ०-सुभग-
सुस्तर-आदे० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

३६६. गिरयाउ० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-
सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दु०-णिरयगदिअट्टावीस-णीचा०-पंचंत० णि० वं०
णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं वं० । तिरिक्खाउ० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-
मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तिरिक्ख० - ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-
अगु०-उप०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
दोवेदणी०-सत्तणोक्क०-पंचजादि-छस्संठा०-ओरा०अंगो०-छस्संध०-पर०-उस्ता०-आदा-
उजो०-दोविहा०-त्तसादिदसयुग० सिया० वं० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं मणुसाउ०-
देवाउ० । गवरि अप्पप्पणो पगदीओ गादन्वाओ ।

३६७. णिन्यग० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-थीणगिद्धि०३-असादावे०-मिच्छ०-
अणंताणुव००४-णवुंस०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । रुदंरुणा०-चारसक०-
अरदि-सोग-भय-दु० णि० वं० णि० अणंतभागूणं वं० । णामाणं सत्थाण०भंगो । एवं
णिरयाणु०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० ।

विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभावहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

३६६. नरकायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति आदि अट्टाईस प्रकृतियों, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामर्णशरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलुपु, उपघात, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकरारी आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति और त्रसादि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार मनुष्यायु और देवायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियों जाननी चाहिए ।

३६७. नरकगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धिजिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, चारह कषाय, अरति, शोक, भय, और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वी, अप्ररास्त विहायोगति और दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३६८. तिरिक्ख० उक्क० पदे०बं० पंचणा०-थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-
अणंताणु०४-णसुंस०-णीचा०-पंचंत० णि० बं० णि० उक्क० । छदंसणा०-बारसक०-
भय-दु० णि० बं० णि० अणंतभागूणं बं० । दोवेदणी० सिया० उक्क० । चटुणोक्क०
सिया० बं० अणंतभागूणं बं० । णामाणं सत्थाण०भंगो । एवं तिरिक्खगदिभंगो
मणुसगदि-पंचजादि-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंढ०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-वण०४-
तिरिक्खाणु०-मणुसाणु०-अगु०४-आदाउज्जो०-त्स०४[युग०-] थिरादितिणियुग०-
दूमग-अणादे०-णिमि० । णवरि णामाणं अप्पणो सत्थाण०भंगो कादव्वो ।

३६९. देवगदि० उक्क० पदे०बं० पंचणा०-उच्चा०-पंचंत० णि० बं० णि०
उक्क० । थीणगिद्धि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि० सिया० उक्क० ।
छदंस०-अट्टक०-भय-दु० णि० बं० णि० तं तु० अणंतभागूणं बं० । अपच्चक्खाण०४-
पंचणोक्क० सिया० तं तु० अणंतभागूणं बं० । णामाणं सत्थाण०भंगो । एवं देवगदि-
भंगो वेउव्वि०-समचटु०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु०-पसत्थ-सुभग-सुस्सर-आदे० ।

३६८. तिर्यञ्जगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छद् दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकषायोंका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार तिर्यञ्जगतिके समान मनुष्यगति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, दृण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्त-पाटिकासहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क युगल, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, अनादेय और निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नाम कर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने-अपने स्वस्थान सन्निकर्षके समान जानना चाहिए ।

३६९. देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छद् दर्शनावरण, आठ कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क और पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इस प्रकार देवगतिके समान

३७०. णग्गोथं उक्कं पदे०वं० पंचणा०-थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणु०४-
पंचंत० णि० वं० णि० उक्कं । छदंस०-चारसक०-भयदु० णि० वं० णि० अणंतभागूणं
वं० । दोवेदणी०-इत्थि०-णवुंस०-दोगोद० सिया० उक्कं । पंचणोक० सिया० अणंत-
भागूणं वं० । णामाणं सत्थाण०भंगो । एवं तिण्णि०संठा०^१पंचसंधं ।

३७१. उच्चा० उक्कं पदे०वं० पंचणा०-पंचंत० णि० वं० उक्कं । थीणगिद्धि० ३-
दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-देवगदि०४-चदुसंठा०-पंचसंधं सिया०
उक्कं । छदंस०-अट्टक०-भयदु० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० ।
अपच्चक्खाण०४-पंचणोकसायं^२ सिया० अणंतभागूणं वं० । मणुस०-[ओरालि०-]
हुंड०-ओरालि०अंगो०-असंप०-मणुसाण०-अप्पसत्थं०-थिरादिदिण्णियुग०-दूभगदुस्सर-
अणादे० सिया० संखेज्जदिभागुणं वं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-त्रण्ण०४-अगु०४-त्तस०४-

वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायो-
गति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३७०. न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण,
स्त्यानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता
है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बाह्य कषाय, भय और जुगुप्साका
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है । दो वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि
बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायोंका कदाचित्
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार तीन
संस्थान और पाँच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

३७१. उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।
स्त्यानगृद्धिन्निक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, देवगति-
चतुष्क, चार संस्थान और पाँच संहननका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो
इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय और जुगुप्साका
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अन्तभागहीन
अनुरकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और पाँच नोकषायका कदाचित्
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है । मनुष्यगति, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तसु-
पाटिकासंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग,
दुःस्वर और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे
सख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका

१. ता०आ०प्रत्योः एवं चदुसंठा० इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'अपच्चक्खाण ४ चदुणोकसायं'
इति पाठः ।

णिमि० णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं वं० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्स-
आदे० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं पंचिदि०तिरिक्ख०३ ।

३७२. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० आभिणि० उक्क० पदे०वं० चट्टुणा०-णवदंस०-
मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । दोवेदणी०-सत्तणोक०-
आदाव-दोगो० सिया० उक्क० । दोगदि०-पंचजादि-छस्संठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-
दोआणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया० तं तु० संखेज्जदि
भागूणं वं० । ओरालि०-तेजा०-फ०-वण्ण०-अगु०-उप०-णिमि० णि० वं० णि०
तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं चट्टुणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-
सत्तणोक०-णीचा०-पंचंत० ।

३७३. इत्थि० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-
पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । दोवेद०-चट्टुणोक०-दोगोद० सिया० उक्क० । दोगदि-
हुंडसं०-असंपत्त०-दोआणु०-उज्जो०-थिरादितिणियुग०-दुभग-अणादे० सिया० संखेज्जदि-

नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रस्त विहायोगति,
सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका उत्कृष्ट
प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता
है तो इनका नियमसे संख्यानभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार
पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए ।

३७२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और
पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है ।
दो वेदनीय, सात नोकषाय, आतप और दो गोत्रका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध
करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान,
औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायो-
गति और त्रसादि दस युगलका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता ।
यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता
है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध
करता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और
निर्माणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और
अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे
संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, नौदर्शनावरण
दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३७३. स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो
इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और दो गोत्रका
कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता
है । दो गति, हुण्डसंस्थान, अस्म्राप्राप्तपाटिकासंहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर आदि तीन
युगल, दुर्भग और अनादेयका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे

भागूणं वं० । पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-
णिमि० णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचसंठा०-पंचसंध०-दोविहा०-सुभग-
दोसर-आदे० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं पुरिस० ।

३७४. तिरिक्ख्वाउ० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-
भय-दु०-तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-तिरिक्ख्वाणु०-अगु०-उप०-णिमि०-
णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं वं० । दोवेदणी०-सत्तणोक्क०-
[पंचजादि-] छसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संध०-पर०-उस्ता०-आदाउज्जो०-दोविहा०-
तसादिदसयुग० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं मणुसाउ० । णवरि पाओभाओ
पगदीओ कादन्वाओ ।

३७५. तिरिक्ख० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-
भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । दोवेद०-चट्टणोक्क० सिया० उक्क० ।
णामाणं सत्थाण०-अंगो । हेट्ठा उवरिं तिरिक्खगदिमंगो । इमाणं मणुसग०-पंचजादि-
तिणिणसरीर-हुंड०-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०४-आदाउज्जो०-

संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस चतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार पुरुष-वेदकी मुख्यतासे उत्कृष्ट सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३७४. तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्जगति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति और त्रस आदि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके प्रायोग्य प्रकृतियों करनी चाहिए ।

३७५. तिर्यञ्जगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और चार नोकषाय का कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । तथा इन प्रकृतियोंकी अपेक्षा नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्जगतिके समान है । इन मनुष्यगति पाँच जाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तपाटिकासंहनन,

तस०४[युग्-]:थिरादितिग्णियुग०-दूभग-अणादे०'-णिमि० णामार्ण०^२ अप्पप्पणो सत्थाण०भंगो । पंचसंठा-पंचसंघ०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०^३ हेढा उवरिं सो वेव भंगो । णवरि इत्थि०-पुरिस०-उच्चा० सिया० उक्क० ।

३७६. उच्चा० उक्क० पदे०व'० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-पंचंत० णि० व'० णि० उक्क० । दोवेद०-सत्तणोक०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दो-विहा०-सुभग-दोसर-आदेज्ज सिया० उक्क० । मणुस०-पंचिदि०-तिग्णिसरीर-ओरालि०-अंगो०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० व'० णि० संखेज्जदिभागू० । हुंड०-असंप०-थिरादितिग्णियुग०-दूभग-अणादे० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं सन्वअपज्जत्तार्णं सन्वएइंदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं । णवरि तेउ०-वाउ० मणुसगादि०३ वज्ज ।

३७७. मणुसा०३ ओघं । देवेसु आभिणि० उक्क० पदे०व' चटुणा०-पंचंत० णि० व'० णि० उक्क० । थीणगिद्धि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-

वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क युगल, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, अनादेय और निर्माण नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने अपने स्वस्थानके समान है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयकी मुख्यता पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका वही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, पुरुषवेद और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

३७६. उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, सात नोकषाय, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तास्तुपाटिकासंहनन, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त जीवोंके तथा सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगतित्रिकको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

३७७. तीन प्रकारके मनुष्योंमें ओघके समान भङ्ग है। देवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भातप, तीर्थङ्कर प्रकृति और दो गोत्रका

१. ता०भा०प्रत्वोः 'दूभग दुइसर अणादे०' इति पाठः । २. ता०प्रत्वौ 'णिमि० । णामार्णं' इति पाठः । ३. ता०प्रत्वौ 'सुभग दुइसर आदेज्ज' इति पाठः ।

णवुंसं-आदाव-तित्थं-दोगोदं सियां उक्कं । छदंसं-वारसकं-भय-दुं णिं वं
णिं तं तुं अणंतभागूणं वं । पंचणोकं सियां तं तुं अणंतभागूणं वं ।
दोगदि-दोजादि-छस्संठां-ओरालिं-अंगो-छस्संधं -दोआणुं-उज्जो - दोविहां-तस-
थावर-थिरादिच्चुगुं' सियां तं तुं संखेज्जदिभागूणं वं । ओरालिं-तेजां-कं-
वण्णं-४-अगुं-४-वादर-पज्जत्त-पत्ते-णिमिं णिं वं तं तुं संखेज्जदिभागूणं वं ।
एवं चहुणां-दोवेदं-पंचंतं ।

३७८. णिहाणिहाए उक्कं पदेवं पंचणां-दोदंसं-मिच्छं-अणंताणुं-४-
पंचंतं णिं वं णिं उक्कं । छदंसं-वारसकं-भय-दुं णिं वं णिं
अणुं अणंतभागूणं वं । दोवेदं-इत्थिं-णवुंसं-मणुसं-मणुसाणुं-आदाव-
णीचुच्चां सियां उक्कं । पंचणोकं सियां अणंतभागूणं वं । तिरिक्खं-
दोजादि-छस्संठां-ओरालिं-अंगो-छस्संधं-तिरिक्खाणुं-उज्जो - दोविहां-तस-थावर-

कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।
छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकपायका
कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता
है तो इनका नियमसे अनन्तभागाहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, दो जाति, छह
संस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस,
स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता ।
यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ।
यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर,
पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो
इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण,
दो वेदनीय और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३७८. निद्राननिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दो दर्शनावरण,
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय और जुगुप्साका
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो
वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुसकवेद, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आवप, नीचगोत्र और उच्चगोत्रका
कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।
पाँच नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग-
हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यग्भ्रगति, दो जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर
आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यग्भ्रगत्यानुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर और स्थिर आदि

थिरादिछयुग० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । ओरासि०-तेजा०-क०-
वण्ण०४-अगु०४-वाद्दर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं
वं० । एवं दोदंस०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवु०स०-णोचा० ।

३७९, णिद्दाए० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचदंस०-वारसक०-पुरिस०-भयदु०-
उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । सादासाद०-चदुणोको-तित्थ० सिया० उक्क० ।
मणुसग०-पंचिदि०-समचदु०-ओरा०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु०-पसत्थ०-तस०-सुभग०-
सुस्सर-आदे० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । ओरासि०-तेजा०-क०-
वण्ण०४-अगु०४-वाद्दर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं वं० । थिरादि-
तिणियुग० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं णिद्दाए मंगो पंचदंस०-वारसक०-
सत्तणोको ।

३८०, इत्थि० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-थीणगिद्धि०-३-मिच्छ०-अणंताणु०४-

छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करना है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वाद्दर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद और नोचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३७९, निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण, पौंच दर्शनावरण, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, चञ्चर्षभनाराचसदनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुखर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वाद्दर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इस प्रकार निद्राके समान पौंच दर्शनावरण, वारह कपाय और सात नोकपायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३८०, स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण, स्थानगुद्धिविक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका

१. आ०प्रतौ 'धावरादि छयुग०' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'पसत्थ० सुभग' इति पाठः ।

उत्तरपगदिपदेसवन्धे सण्णियास

पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० णि० अणंत-
भागूणं वं० । दोवेद०-मणुस०-मणुसाणु०-दोगोद० सिया० उक्क० । [चटुणोक० सिया०
अणंतभागूणं वं० ।] तिरिक्ख०-हुण्ड०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-थिरादितिण्णियुग०-दुभग-
अणादे० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचिदि०-ओरालि०-अंगो०-तस० णि० वं०
णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । ओरालि०-तेजा०-क०-वण्णा०-अगु०-अगु०-अगु०-अगु०-अगु०-
पञ्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचसंठा०-छस्संघ०-
दोविहा०-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदे० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

३८१. दोआउ० णिरयगदिभंगो ।

३८२. तिरिक्खग० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-थीणगिदि०-३-मिच्छ०-अणंताणु०-अणंत-
णुसं० णोचा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि०
णुसं० णोचा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । सादासाद० सिया० उक्क० । चटुणोक० सिया० अणंत-
भागूणं वं० । णामाणं सत्याण० भंगो । एवं तिरिक्खगदिभंगो एइदि०-तिण्णिसरी-

नियमसे उच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे अनन्तभागहीन अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय, मनुष्यगत, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । तिरिक्खागति, हुण्डसंस्थान, तिरिक्खागत्यानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीरआज्ञोपाङ्ग और त्रसका नियमसे अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पञ्चनियमसे संख्यातभागहीन अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । किन्तु वह इनका उच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्योस, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात-भागहीन अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पाँच संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, सुभग, सुस्सर, दुस्सर और आदेयका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । यदि अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है ।

३८१. दो आयुओंकी मुख्यतासे सन्निकर्षे जिल प्रकार नरकजातिमे नारकियोमे कह आवे हैं उस प्रकार है ।

३८२ तिरिक्खागतिका उच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, रसानुद्धिचिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नोचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । सातावेदनीय और असातावेदनीयका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । चार नोकषायका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुच्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इस प्रकार तिरिक्खागतिके समान एकैन्द्रियजाति

हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-आदाजुज्जो०-थावर'-वादर - पज्जत्त-पत्ते०-थिरादि-
तिण्णियुग०-दुभग-अणादे०-णिमिण त्ति ।

३८३. मणुस० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचंत^१० णि० वं० णि० उक्क० ।
थीणगिद्धि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णजुंस०-दोगो० सिया० उक्क० ।
छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागुणं वं० । पंचणोक्क०
सिया० तं तु० अणंतभागुणं वं० । णामाणं^३ सत्थाण०भंगो । एवं मणुसगदिभंगो
पंचिदि०-समचदु० - ओरालि०अंगो-वज्जरि० - मणुसाणु० - पसत्थि०-तस-सुभग-सुस्सर-
आदे० । णामाणं सत्थाण०भंगो ।

३८४. णग्गोध० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-तिण्णिदंस०-मिच्छ०-अणंताणु०४-
पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० णि० अणंत-
भागुणं वं० । दोवेदणी०-इत्थि०-णजुंस०-दोगोद० सिया० उक्क० । पंचणोक्क० सिया०

तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुल्लयुचतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, अनादेय और निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

३८३. मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थान-गृद्धिन्निक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकशायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करना है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इस प्रकार मनुष्यगतिके समान पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आह्नोपाह्न, वर्णभ्रमनाराचसहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर और आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

३८४. न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकशायका कदाचित्

१. आ०प्रती 'अगु ४ थावर' इति पाठः । २. ता०प्रती 'प० वं० पंचंता० (पचणा०) पचत०' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'अणंतभागु० । पंचणोक्क० सिया० तं तु० अणंतभागु०' [चिह्नान्तरगर्तपाठः पुनरुक्तः प्रतीयते] । णामाणं इति पाठः ।

अणंतभागूणं वं० । णामाणं सत्थाण० भंगो । एवं णग्गोधभंगो तिण्णिसंठा०^१ पंचसंध०
अप्पसत्थ० दुस्सर० ।

३८५. तिथ्य०^२ उक्क० पदे० वं० पंचणा० छदंस० चारसक० पुरिस० भयदु०
उच्चा० पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । सादासाद० चदुणोक्क० सिया० उक्क० । णामाणं
सत्थाण० भंगो ।

३८६. उच्चा० उक्क० पदे० वं० पंचणा० पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । थीण-
गिद्धि० ३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु० ४-इत्थि०-णवुंस०-अप्पसत्थ०-चदुसंठा०-पंच-
संध०-दुभग-दुस्सर-अणादे०-तिथ्य० सिया० उक्क० । छदंस०-चारसक०-भयदु० णि०
वं० णि० तं तु० अणंतभागणं वं० । पंचणोक्क० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० ।
मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-अंगो०-मणुसाणु०-तस० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं
वं० । ओरालि०-तेजा०-ऊ०-वण्ण० ४-अगु० ४-चादर० ३-णिमि० णि० वं० णि०

बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार न्यग्रोध-परिमण्डल सस्थानके समान तीन संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहोयोगति और दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३८५. तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है।

३८६. उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थानगृह्णिक, दो वेदनीय, सिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अप्रशस्त विहायोगति, चार संस्थान, पाँच संहनन, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और तीर्थङ्कर प्रवृत्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और त्रसका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेशशरीर, वर्षीचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादरात्रिक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन

१. ता० प्रती 'णग्गोधभंगो । तिण्णिसंघ' इति पाठ । २. ता० प्रती 'दुस्सर० तिथ्य०' इति पाठः ।

संखेज्जदिभागूणं वं० । समचदु०-वज्जरी०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० वं० तं
तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । हुंढसं०-थिरादितिण्णियु० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
एवं भवण०-वाणवें०-जोदिसि० । णवरि तित्थ० वज्ज । मणुस०-मणुसाणु० एसिं
आगच्छदि तेसिं सिया०' उक्क० ।

३८७. सोधम्मीसाणे देवोधं । सणकुमार याव सहस्सर ति णियोधं । आणद
याव णवगेवजा ति^३ सहस्सरभंगो । णवरि तिरिक्खगदि०४ वज्ज । अणुदिस याव
सव्वद ति आभिणि०^५ उक्क० पदे०वं० चट्टणा०-छदंस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-
उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । दोषेद०-चट्टणोक्क०-तित्थ० सिया० उक्क० ।
मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरी०-वण्ण४-
मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं० णि० तं तु०

अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरस्रस्थान, वज्रपमनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । हुण्डसंस्थान और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् सामान्य देवोंके समान भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर सन्निकर्ष करना चाहिए । तथा मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वा जिनके आती हैं उनके कदाचित् बन्ध होता है और कदाचित् बन्ध नहीं होता । यदि बन्ध होता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है ।

३८७. सौधर्म और ऐशानकरूपसे सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । सनत्कुमारसे लेकर सहस्त्रार कलरतकके देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । आनतकल्पसे लेकर नौ त्रैवेयक-तकके देवोंमें सहस्त्रारकल्पके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगतिचतुष्करो छोड़कर सन्निकर्ष करना चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें आभिनिवाधिक-ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकदारी, तैजसशरीर, कामेशशरीर, समचतुरस्रस्थान, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, वज्रपमनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघु-चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

१. ता०प्रती 'तेसिं सा (सि) या०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'णवकेवेज्ज ति' इति पाठः ।
३. ता०प्रती 'सव्वदत्ति । आभिणि०' इति पाठः ।

संखेज्जदिभागूणं वं० । थिरादितिणियुगं० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

३८८. मणुसाउ० उक्क० पदे०वं० धुविगार्णं० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं वं० । सादा०छयुग०-तित्थ० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

३८९. मणुसगदि० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-छदंस०-चारसक०-पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । सादासाद०-चदुणोक्क० सिया० उक्क० । णामार्णं सत्थाण०भंगो० । एवं मणुसगदिभंगो सन्वाणं णामार्णं ।

३९०. तित्थ० उक्क० पदे०वं० हेड्डा उवरि मणुसगदिभंगो । णामार्णं अप्पण्या सत्थाण०भंगो ।

३९१. पंचिदि०-तस-पज्जत्त-पंचमण०-पंचवचि०-फायजोगि० ओघभंगो । ओरालियफायजोगि० मणुसगदिभंगो । ओरालियमि० उक्क० पदे०वं० चदुणा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । थीणगिद्धि०-३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०-४-इत्थि०-णवुंस०-आदाव-तित्थ०-पोच्चुच्चा० सिया० उक्क० । छदंस०-चारसक०-भय-दु० णि०

भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार इस बीजपदके अनुत्तर नामकर्मके अतिरिक्त पूर्वोक्त सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

३८८. मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । साता आदि छह युगल अर्थात् साता-असाता, हास्य-शोक रति अरति, स्थिर आदि तीन युगल और तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात-भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

३८९. मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-वरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है । इस प्रकार मनुष्यगतिके समान नामकर्मकी यहां बंधनेवाली सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३९०. तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और वादकी प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने-अपने स्वस्थानसन्निकर्षके समान है ।

३९१. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी और काययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्यगतिके अर्थात् मनुष्योंके समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरण-का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धिरिक, दो वेदनीय, मिध्यास्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, आतप, तीर्थङ्कर, नीचगोत्र और उच्च-गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

व'० णि० तं तु० अणंतभागूणं व'० । पंचणो० सिया० तं तु० अणंतभागूणं व'० ।
 तिग्गिणगदि-पंचजादि-दोण्णिस्सरीर-उस्संठा०-दोअंगो०-उस्संघ० - तिग्गिणअणु०-पर०-
 उस्सा०-[उज्जो०-] दोविहा०-तसादिदसयुग० मिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं व'० ।
 तेजा०-क०-वण्ण०-अगु०-उप०-णिमि० णि० व'० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं
 व'० । एवं चट्टणा०-सादासाद०-पंचंत० ।

३९२. णिदाणिहाए उक्क० पदे० व'० पंचणा०-दोदंस०-मिच्छ०-अणंताणु०-४-
 पंचंत० णि० व'० णि० उक्क० । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० व'० णि० अणंत-
 भागूणं व'० । दोवेदणी०-इत्थि०-णजुंस०-आदाव०-दोगोद० सिया० उक्क० । पंचणो०-
 सिया० अणंतभागूणं व'० । दोगदि-पंचजादि-पंचसंठा०-ओराल्लि०-अंगो०-उस्संघ०-
 दोअणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-अप्पसत्थं०-तसादिचट्टयुग०-थिरादितिग्गिणजुग०-दूमग-

करता है ।-छह-दर्शनावरण, वारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है ।
 किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि
 अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।
 पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता
 है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट
 प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन
 गति, पाँच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आयुपूर्वी, परघात,
 उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति और त्रस आदि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है और
 कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और
 अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे
 संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर वर्णचतुष्क, अगुल्लयु,
 उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता
 है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका
 नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण,
 सातावेदनीय, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायकी मुत्पत्तासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

३९२. निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दो दर्शनावरण,
 मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका
 नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय और जुगुप्साका
 नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो
 वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध
 करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध
 करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता
 है । दो गति, पाँच जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आयुपूर्वी,
 परघात उच्छ्वास, उद्योत, अप्रसस्त विहायोगति, त्रस आदि चार युगल, स्थिर आदि तीन
 युगल, दुर्भंग, दुःस्वर और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं

दुस्सर-अणादे० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । तिण्णिशरीर-वण्ण०४-अगु०-
उप०-णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-
सुस्सर-आदे० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं दोदंस०-मिच्छ०-अर्णताणु०४-
णवुंस०-णीचा० ।

३९३. णिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचदंस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-
उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । दोवेदणी०-चदुणोक्क०-तित्थ० सिया० उक्क० ।
देवगदि०४-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं
वं० । पंचिदि०-तेजा०-क्क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० वं० संखेज्जदि-
भागूणं वं० । थिरादितिण्णियुग० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं पंचदंस०-
वारसक०-सत्तणोक्क० ।

३९४. इत्थि० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-धीणागिद्धि०३-मिच्छ०-अर्णताणु०४-
पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० णि० अणंत-

करता । यदि बन्ध करना है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद और नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

३९३. निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, पाँच दर्शनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और तीर्थङ्कर-प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देवगतिचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसत्तणक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करना है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार पाँच दर्शनावरण, वारह कषाय और सात नोकषायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

३९४. स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धि त्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

भागूणं वं० । दोवेदणी०-दोगोद० सिया० उक्क० । चट्टुणोक्क० सिया० अणंतभागूणं वं० । दोगदि-समचट्टु०-हुंड०-असंपत्त०-दोआणु०-उजो०-पसत्थ०-थिरादिपंचयुग०-सुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-वण्ण०-४-अगु०-४-तस०-४-णिमि० णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं वं० । चट्टुसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

३९५. आउ० अपज्जत्तभंगो । णवरि याओ पगदीओ बंधदि ताओ णियमा असंखेज्जगुणहीणं वं० सिया० संखेज्जगुणहीणं० ।

३९६. तिरिक्ख० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-थीणगिद्धि०-३-मिच्छ०-अणंताणु०-४-णवुंस०-णीचा०-पंचंत० णि० उक्क० । छट्टंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० अणंत-भागूणं वं० । दोवेदणी० सिया० उक्क० । चट्टुणोक्क० सिया० अणंतभागूणं वं० । णामार्ण सत्थाण०भंगो । एवं तिरिक्खगदिभंगो मणुस० । पंचजादि'-तिणिसरीर-पंचसंठा०-

करता है । दो वेदनीय और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, समचतुरस्रसंस्थान, हुण्डसंस्थान, असम्भाप्तास्रपाटिकासंहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि पाँच युगल और सुस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार सस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

३९५. आयुर्कर्मका भङ्ग अपर्थाप्त जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंको नियमसे बाँधता है उन्हें असंख्यातगुणहीन बाँधता है और जिन प्रकृतियोंको कदाचित् बाँधता है उन्हें संख्यातगुणहीन बाँधता है ।

३९६. तिर्यञ्जगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नमुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो वह इनका अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है । इसीप्रकार तिर्यञ्जगतिके समान मनुष्यगतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पाँच जाति, तीन

ओरालि० अंगो०-छस्संघ०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०४-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तसादि-
चदुयुगल०-थिरादितिणियुग०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णिमि० हेट्ठा उवरिं तिरिक्खगदि-
मंगो । णामाणं अप्पणो सत्थाण०भंगो । णवरि चदुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-
दुस्सर० इत्थि०-णवुंस०-उच्चा० सिया० उक्क० । पुरिस० सिया० अणंतभागुणं वं० ।
३९७. देवग० उक्क० वं० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-
उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । सादासाद०-चदुणोक० सिया० उक्क० ।
णामाणं सत्थाण०भंगो । एवं देवगदि० ४ ।

३९८. तित्थि० हेट्ठा उवरि देवगदिमंगो । णामाणं सत्थाण०भंगो ।

३९९. उच्चा० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० ।
थीणगिद्धि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-चदुसंठा०-पंचसंघ०-
अप्पसत्थ०-दुस्सर० सिया० उक्क० । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० णि० तं तु०
अणंतभागुणं वं० । पंचणो० सिया० तं तु० अणंतभागुणं वं० । मणुस०-ओरालि०-

शरीर, पाँच संस्थान, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी,
अगुरुलघुचतुष्क, आतप, लघोत, अप्रशस्त विहोगति, त्रस आदि चार युगल, स्थिर आदि तीन
युगल, दुर्भग, दुःस्वर अनादेय और निर्माणकी मुख्यतासे नामकर्मकी प्रकृतियोंके पूर्वकी और
वादकी प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है । तथा
नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने अपने स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इतनी विशेषता है
कि चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाला जीव स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो इनका
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है जो इसका नियमसे
अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

३९७. देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण,
वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता
है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और चार
नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार देवगति-
चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३९८. तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और
वादकी प्रकृतियोंका भङ्ग देवगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है । नामकर्मकी
प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

३९९. उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।
स्त्यानगुद्विक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद,
नपुंसकवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध
करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय
और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है
और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे
अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और

हुंड०-ओरालि०अंगो०-असंप०-मणुसाणु०-थिरादितिण्णियु०-दूभग-अणादे० सिया०
संखेज्जदिभागूणं वं० । देवगदि०४-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया०
तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । [पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०
णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं वं०] । तित्थ० सिया० उक्क० ।

४००. वेउच्चि०-वेउच्चि०मि० देचोघं । आहार०-आहारमि० सव्वडु०भंगो ।
णवरि अप्पणो पाओग्गाओ पगदीओ कादन्वाओ ।

४०१. कम्मह० आभिणि० उक्क० पदे०वं० चटुणा'०-पंचंत० णि० वं० णि०
उक्क० । श्रीणगिद्धि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णत्तुंस०-आदाव०-
दोगोद० सिया० उक्क० । छदंस०-चारसक०-भय-दु० णि० वं० तं तु० अणंतभागूणं
वं० । पंचणोक्क० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । तिण्णिगदि-पंचजादि-दोसरी-

कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका नियमसे
अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान,
आदारिकशरीर आद्वोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पृष्टिकासंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर आदि तीन
युगल, दुर्भग और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका
नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देवगतिचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान,
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध
नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क,
अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे
संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता
है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

४००. वैकिकिकषाययोगी और वैकिकिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सामान्य देवोंके
समान भङ्ग है । आहारकषाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके
देवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियाँ करनी चाहिए ।

४०१. कार्मणकाययोगी जीवोंमें आभिनिवोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व,
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वारह
कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी
करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका
नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध
करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता
है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका
नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन गति, पाँच जाति, दो शरीर,

छस्संठा०-दोअंगो०-छस्संध०-तिणिआणु०-पर०-उस्सा०-उजो०^१-दोविहा०-तसादिदस-
युग०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-
णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं चदु णाणा०-दोवेदणी०^२-पंचंत० ।

४०२. णिहाणिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-दोदसणा०-मिच्छ०-अणंताणु०४-
पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । एवं ओरालियमिस्स०भंगो ।

४०३. णिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचदंस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-
उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । दोवेदणी०-चदुणोको सिया० उक्क० ।
मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-मणुसाणु०-थिरादितिणियुग० सिया० संखेज्जदि-
भागूणं वं० । देवगदि०४-वज्जरि०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
[पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस४-णिमि० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं वं०]
समचदु०-पसत्थ० सुभग-सुस्सर-आदे० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं

छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, परधात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि दस युगल और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लु, उपधात और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, दो वेदनीय और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४०२. निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इस प्रकार यहाँ औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

४०३. निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, पाँच दर्शनावरण, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय-जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय और चार नोकपायका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । देवगतिचतुष्क, वज्रपर्मनाराचसहनन और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पञ्चन्द्रयजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका नियमसे वन्ध करता

१ आ०प्रती 'उस्सा० शादाउजो' इति पाठः । २. आ०प्रती 'चदुणोको दोवेदणी०' इति पाठः ।

व'० । एवं चतुदसं-चारसकं-सत्तणोकं ।

४०४. इत्थि० उक्कं पदे० वं० पंचणा०-थीणगिद्धि०३-मिच्छं०-अणंताणु०४-पंचंतं० णि० वं० णि० उक्कं । छदंसणा०-वारसकं-भय-दु० णि० वं० अणंतभागूणं वं० । दोषेदं-दोगोदं० सिया० उक्कं । चदुणोकं० सिया० अणंतभागूणं वं० । दोगदि-दोसंठा०-असंपत्तं०-दोआणु०-उज्जो०-पसत्थं०-थिरादितिणियुगं०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । चदुसंठा०-पंचसंघं०-अप्पसत्थं०-दुस्सरं० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । सेसाणं णियमा संखेज्जदिभागूणं वं० ।

४०५. तिरिक्खं० उक्कं पदे० वं० पंचणा०-थीणगिद्धि०३-मिच्छं०-अणंताणु०४-णनुंसं०-णीचा०-पंचंतं० णि० वं० णि० उक्कं । छदंसं०-वारसकं-भय-दु० णि० वं० णि० अणंतभागूणं वं० । दोषेदणी० सिया० उक्कं । चदुणोकं० सिया० अणंत-

है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार दर्शनावरण, बारह कषाय, और सात नोकषायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४०४. स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगुच्छ्रितिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और दो गोत्र का कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, दो संस्थान, असम्प्राप्तास्तपाटिकासंहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । शेष प्रकृतियोंका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

४०५. तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगुच्छ्रितिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानतन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार मनुष्यगतिनी,

भागूणं वं० । गामाणं सत्थाण०भंगो । एवं मणुसग० । पंचजादि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०पंचसंध०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो० -अप्पसत्थ०-तसादिचदु-युगल-थिरादितिणियुग०-दूमग-दुस्सर-अणादे० हेड्डा उवरिं० तिरिक्खगदिभंगो । णवरि चदुसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० इत्थि०-णवुंस०-उच्चा० सिया० उक्क० । पुरिस० सिया० अणंतभागूणं वं० । गामाणं सत्थाण०भंगो ।

४०६. देवग० उक्क० पदे०बं० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । दोवेदणी०-चदुणोक्क० सिया० उक्क० । वेउळ्वि०-समचदु०-वेउळ्वि०अंगो०-देवाणुपु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० णियमा उक्कसं । एवं देवगदिभंगो वेउळ्वि०-समचदु०-वेउळ्वि०अंगो०-देवाणु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० ।

४०७. तित्थि० उक्क० पदे०बं० हेड्डा उवरिं देवगदिभंगो । गामाणं सत्थाण०भंगो ।

४०८. उच्चा० उक्क० पदे०बं० पंचणा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । धीणगिद्धि०३-दोवेदणी०-मिच्छत्त०-अणंताणु०४-इत्थि०णवुंस०-चदुसंठा०-पंचसंध०-

मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। पाँच जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आवय, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चार युगल, स्थिरादि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे नामकर्मसे पूर्वकी और वादकी प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यङ्गतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है। इतनी विशेषता है कि चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव खीवेद, नपुंसकवेद, और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुष-वेदका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे अनन्तभागाहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है।

४०६. देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय और चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार देवगतिके समान वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष समझना चाहिए।

४०७. तिर्यङ्गप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और वादकी प्रकृतियोंका भङ्ग देवगतिकी मुख्यतासे इन प्रकृतियोंके कहे गए सन्निकर्षके समान है। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है।

४०८. उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थानगुह्यिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व. अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन,

अप्पसत्थ०-दुस्सर० सिया० उक्क० । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० तं तु०
अणंतभागूणं वं० । पंचणोक्क०^१ सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । पंचिदि०-तेजा०-
क०-वण्ण००४-अगु००४-तस००४-णिमि० णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
मणुस^२०-ओरालि०-हुंड०-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-मणुसाणु०-थिरादितिणियुम०-
दूमग-अणादे० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । देवगदि०४-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-
सुभग-सुस्सर-आदे०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

४०९. इत्थिवे० आभिणि० उक्क० पदे०वं० चट्टणा०-पंचंत० णि० वं० णि०
उक्क० । थीणगिद्धि०३-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-णिरय०-णिरयाणु०-आदाव०-तित्थ०-
दोगोद० सिया० उक्क० । णिहा-पयत्ता-अट्टक०-छण्णोक्क० सिया० तं तु० अणंत-
भागूणं वं० । चट्टसंज० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० । पुरिस०-जस०

अप्रशस्त विद्यायोगति और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेश बन्ध करता है। छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे इनका अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात-भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मनुष्यगति, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्रपाटिका संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर आदि तीन धुगल, दुर्भग और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। देवगतिचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त विद्यायो-गति, सुभग, सुस्वर आदेय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

४०९. स्त्रीवेदी जीवोंमें अभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, ननुंसकवेद, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थङ्कर और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। निद्रा, प्रचला, आठ कषाय और छह नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार संवत्स्रनका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और

१. ता०था०-सत्थोः 'वं०' चट्टणोक्क०' इति पाठः । २. था०प्रती 'अणंतभागूणं वं० मणुस०'
इति पाठः ।

सिया० तं तु० संखेजगुणहीणं वं० । तिण्णिगदि-पंचजादि-पंचसरीर-छस्संठा०-
तिण्णिअंगो०-छस्संध०-वण्ण०४-तिण्णिआणु०-अगु०४-उज्जो०-दोविहा०-त्तसादिणवयुग०-
अजस०-णिमि० सिया० तं तु० संखेजदिभागूणं वं० । एवं चटुणा०-पंचंत० ।

४१०. णिहाणिहाए उक्क० पदे०वं० तिरिक्खगदिभंगो । णवरि पुरिस०-जस०
सिया० संखेजगुणहीणं० वं० । एवं दोदंस०-मिच्छ०-अणंताणु०४ ।

४११. णिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पयला०-भयद्दु०-पंचंत० णि० वं०
णि० उक्क० । चटुदंस० णि० वं० अणंतभागूणं वं० । सादासाद०-अपच्चक्खाण०४-
चटुणोक्क०-वज्जरी०-तित्थ० सिया० उक्क० । पच्चक्खाण०४ सिया० तं तु० अणंत-
भागूणं वं० । चटुसंज० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० । पुरिस० णि०

अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन गति, पाँच जाति, पाँच शरीर, छह संस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, तीन आनु-पूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि नौ युगल, अयशःकीर्ति और निर्माणका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए ।

४१०. निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग तिर्यञ्चगतिमे इस प्रकृतिकी मुख्यतासे कहे गये मन्त्रिकर्षके समान है । इतनी विशेषता है कि यह पुरुषवेद और यशः-कीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणा होन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए ।

४११. निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, प्रचला, भय, जुगप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध करता है । चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्त-भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क, चार नोकपाय, वज्रपंभनाराच संहनन और तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करना है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । संत्वलनचतुष्क का नियमसे बन्ध करता है । जो उत्कृष्ट भी करता है और अनुत्कृष्ट भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट करता है तो नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेश बन्ध करता है । पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

बं० संखेजगुणहीणं बं० । मणुसं०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-मणुसाणु०-थिराथिर-
सुमासुभ-अजस० सिया० संखेजदिभागूणं बं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-
अगु०४-तस०४-णिमि० णि० बं० संखेजदिभागूणं बं० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-
सुस्सर-आदे० णि० बं० णि० तं तु० संखेजदिभागूणं बं० । देवगदि०४-आहार०२
सिया० संखेजदिभागूणं बं० । जस० सिया० संखेजगुणहीणं बं० । एवं पयला० ।

४१२. चन्नुदं उक्क० पदे०बं० पंचणा०-तिण्णिदंस०-सादा०-चदु०संज०-
उच्चा०-पंचंतं० णि० बं० णि० उक्क० । पुरिस०-जस० णि० बं० णि० तं तु०
संखेजगुणहीणं बं० । हस्स-रदि-भय-दु०-तित्थ० सिया० उक्क० । वेउच्चि०४-
आहार०२-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० तं तु० संखेजदिभागूणं
बं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-थिर-सुभ०-णिमि० सिया०
संखेजदिभागूणं बं० । एवं तिण्णिदंस० ।

मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, और अयश.कीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामंशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायो-
गति, सुभग, सुस्वर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेश-
बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता
है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देवगतिचतुष्क और
आहारकद्विकका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात-
भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध
करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार
प्रचलाकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४१२. चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, तीन
दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध
करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेद और यश.कीर्तिका
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुण-
हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । हास्य, रति, भय, जुगुप्सा और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रीयकचतुष्क,
आहारकद्विक, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित्
बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी
करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो
इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर,
कामंशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, स्थिर, शुभ और अशुभ और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है । इसी प्रकार तीन दर्शनावरणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४१३. साद० उक्क० पदे० वं० आभिणि० भंगो । गवरि गिरयगदिपगदीओ वज्ज । अप्पसत्थ० दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
 ४१४. असाद० उक्क० पदे० वं० पंचणा० पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० ।
 थोणगिद्धि० ३-मिच्छ० अणंताणु० ४-इत्थि० गलुंस० गिरय० गिरयाणु० आदाव० तित्थ०-
 दोगोद० सिया० उक्क० । चदुदंस० णि० वं० णि० अणु० अणंतभागूणं वं० ।
 दोण्णिदंस० चदुसंज० भयदु० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० । अड्ढक०-
 चदुणोक० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । पुरिस० जस० सिया० संखेज्जदिगुण-
 हीणं । तिण्णिगदिपंचजादि' दोसरीर-उस्संठा० दोअंगो० उस्संघ० तिण्णिआणु० पर०-
 उस्सा० उज्जो० दोविहा० तसादिणवयुग० अजस० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
 तेजा० ऋ० वण्ण० ४-अगु० उप० णिमि० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

४१३. सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है। इतनी विशेषता है कि नरकगति सम्बन्धी प्रकृतियोंको छोड़ देना चाहिये। तथा अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

४१४. असानावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थानवृद्धिद्विक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, नरकगति, नरकगत्यागु-पूर्वी, आठप, तीर्थङ्कर और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। आठ कषाय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेद और यज्ञःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तीन गति, पाँच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, दो आज्ञापाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि नौ युगल और अयज्ञःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

४१५. अपञ्चक्खाणकोध० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-णिद्दा-पयला-तिण्णिक०-
 भय-दु०-पंचंत० णि० वं० उक्क० । चदुदंस०-अट्टक० णि० वं० णि० अपंतभागूणं
 वं० । पुरिस०-जस० णि० वं० णि० संखेज्जदिगुणहीणं० । णवरि जस० सिया० ।
 सादासाद०-चदुणोक्क०-[वज्जरि०-] तित्थ० सिया० उक्क० । मणुस०-ओरालि०-
 ओरालि०-अंगो०-मणुसाणु०-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
 देवगदि०४ सिया० .तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचिदि०-तेजा०-क्क०-वण्ण०४-
 अगु०४-तस०४-णिमि० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं वं० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-
 सुस्सर-आदे० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं तिण्णिक० ।
 पञ्चक्खाणकोध० उक्क० अपञ्चक्खाणभंगो । णवरि मणुसगदिपंचगं वज्ज । एवं तिण्णिक० ।
 ४१६. कोधसंज० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-तिण्णिसंज०-उच्चा०-पंचंत० णि०
 वं० णि० उक्क० । णिद्दा पयला-दोवेदणी०-चदुणोक्क०-तित्थ० सिया० उक्क० । चदुदंस०

४१५. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, निद्रा, प्रचला, तीन कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार दर्शनावरण और आठ कषायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेद और यशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात गुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, वज्रैर्भनाराचसंहनन और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात-भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। देवगतिचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायो-गति, सुभग, सुस्वर और आदेशका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। प्रत्याख्यानावरणक्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी मुख्यतासे सन्निकर्ष अप्रत्याख्यानावरणक्रोधकी मुख्यतासे कहे गए सन्निकर्षके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिपञ्चकको छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए।

४१६. क्रोधसंवलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, तीन संव-
 लन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेश-
 बन्ध करता है। निद्रा, प्रचला, दो वेदनीय, चार नोकषाय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्
 बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार

।ण० वं० णि० तं तु० अणतभागूणं वं० । पुरिस० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिगुणहीणं० ।
 देवगादि०४-आहार०२-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० वं० तं तु०
 संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-
 अजस०-णिमि० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । जस० सिया० तं तु० संखेज्जगुणही० ।
 एवं तिण्णिसंज० । इत्थि०-णउंस० तिरिक्ख०भंगो । णयरि जस० सिया०
 संखेज्जगुणहीणं० ।

४१७. पुरिस उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंस०-सादा० चदुसंज०-जस०-उच्चा०-
 पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० ।

४१८. हस्स० उक्क० पदे०वं० पंचणा० रदि-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं०
 णि० उक्क० । णिहा-पयला-सादासाद०-अपच्चक्खणा०४-वज्जरि०-तित्थि०^२ सिया०

दर्पनावरणका नियमसे बन्ध करता है किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। देवगतिचतुष्क, आहारकद्विक, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगवि, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अयशःकीर्ति और निर्माणका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार मान आदि तीन संज्ञलनोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष तिर्यञ्चोमे इनकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

४१७. पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संखलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

४१८. हास्यका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, रति, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। निद्रा, प्रचला, सातावेदनीय, असातावेदनीय, अपत्याख्यानावरण चतुष्क, वज्रपथ-नाराचसंहनन और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो

१. ता०प्रती 'रा (र) दिमयदु०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'वज्जि० । तित्थि०' इति पाठः ।

उक्० । चतुर्दस०-चतुस्रंज० णि० वं० णि० तं तु० अर्णतभागूणं वं० । पञ्चक्खाण०४
सिया० तं तु० अर्णतभागूणं वं० । पुरिस० णियमा संखेज्जगुणहीणं वं० । मणुस०-
ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-मणुसाणु०-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० सिया० संखेज्जदिभागूणं
वं० । देवगदि०४-आहार०२ सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचिदि०-तेजा०-
क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० संखेज्जदिभागूणं वं० । जस० सिया० तं तु०
संखेज्जगुणही० । एवं रदीए ।

४१९. अरदि० उक्० पदे०वं० पंचणा०-णिहा-पयला-सोग-भय-दु०-उच्चा०-
पंचंत० णि० वं० णि० उक्० । चतुर्दस० णि० वं० अर्णतभागूणं वं० । दोवेद०-
अपञ्चक्खाण०४-तित्थ० सिया० उक्० । पञ्चक्खाण०४ सिया० तं तु० अर्णतभागूणं

इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार दर्शनावरण और चार संव्वलनका नियमसे
बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनु-
त्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित्
बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग-
हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे
संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर
आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित्
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है । देवगति चतुष्क और आहारकद्रिकका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित्
बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग-
हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चोन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क,
अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे
संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और
कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे
संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष
जानना चाहिए ।

४१९. अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण, निद्रा, प्रचला, शोक,
भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अनन्त-
भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और तीर्थङ्कर
प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेश-
बन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध
नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

वं० । चदुसंज० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० । पुरिस० णि० संखेज्ज-
गुणही० । णामाणं ओघमंगो । णवरि वज्जरि० - तिथ्य०^१ सिया० उक्कस्सं० ।
एवं सोग० ।

४२०. णिरयाउ० उक्क० पंचणा०-णवदंस०-असाद०-मिच्छ०-सोलसक०-
पंचणोक्क०-णिरयगदिअट्ठावीस-णीचा०-पंचंत० णि० संखेज्जदिभागणं वं० । एवं
सव्वाउगाणं । णवरि पुरिस०-जस० सिया० संखेज्जगुणही० । तिणिगदि-पंचजादि०
सव्वाओ णामपगदीओ पंचिदियतिरिक्खमंगो । णवरि जस० एसिं० आगच्छदि तेसिं
संखेज्जगुणहीणं वं० ।

४२१. देवग० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-उच्चा०-पंचंत० णि० उक्क० । थीण-
गिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-आहार०२ सिया० उक्क० । णिहा-
पयला-अट्ठक०-चटुणोक्क० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । [चदुदंस० णि० वं०

भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार संबलनका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेदका
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातरुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।
नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि वज्रपर्मनाराचसंहनन
और तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४२०. नरकायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाचरण, नौ दर्शनाचरण,
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति आदि अट्ठाईस प्रकृतियों,
नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार सब आयुओंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।
इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता
है तो इनका नियमसे संख्यातरुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तीन गति और पाँच जाति
आदि सब नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है। इतनी विशेषता
है कि यशःकीर्ति जिनके आती है उनका संख्यातरुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

४२१. देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाचरण, उच्चगोत्र और
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।
स्त्यानगृह्णिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और आहारकद्विकका
कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।
निद्रा, प्रचला, आठ कषाय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध
नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी
करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करता है। चार दर्शनाचरणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुरक्त प्रदेशबन्ध

णि० तं तु० अणंतभागूणं ।] पुरिस०-जस० सिया० संखेज्जगुणहीणं० । [चदुसंज०-] मय-दु० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० । णामाणं सत्थाण० भंगो ।

४२२. आहार० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-सादा०-चदुसंज०-हस्सरदि भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० उक्क० । णिदा-पयला सिया० उक्क० । चदुदंस णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० । [पुरिस० णि० वं० णि० संखेज्जगुणहीणं ।] णामाणं सत्थाण० भंगो । एवं आहारंगो० ।

४२३. वज्जरि० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । थोणमिद्धि० ३-[दोवेदणी०-] मिच्छ०-अणंताणु० ४-इत्थि०-णवुंस०-चदुसंठा०-णीचुच्चा० सिया० उक्क० । णिदा-पयला-अपच्चक्खण० ४-[भय-दु०-] णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० । चदुदंस०-अट्टका० णि० वं० णि० अणु० अणंतभागूणं वं० । पुरिस०-जस०

करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे सख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार संज्वलन, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है।

४२२. आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, साता-वेदनीय, चार संज्वलन, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। निद्रा और प्रचलाका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये।

४२३. वज्रर्षभनाराचसंहननका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थानगृह्णिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार सस्थान, नीचगोत्र और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार दर्शनावरण और आठ कपायका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

सिया० संखेज्जगुणहीणं । चदुणोक० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । णामाणं सत्थाण०भंगो ।

४२४. तित्थ० उक्क० प०वं० पंचणा०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । णिहा-पयला-दोवेदणी०-अपच्चक्खाण०४-चदुणोक० सिया० उक्क० । चदु-दंस०-चदुसंज० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० । पच्चक्खाण०४ सिया० तं तु० अणंतभागूणं० । पुरिस० णि० वं० संखेज्जगुणही० । जस० सिया० संखेज्ज-गुणही० । णामाणं सत्थाण०भंगो ।

४२५. उच्चा० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । धीणगिद्धि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि० - णवुंस० - चदुसंठा०-चदुसंध०-तित्थ० सिया० उक्क० । णिहा-पयला-अड्ढक०-छण्णोक० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । चदुदंस०-चदुसंज० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० । पुरिस०-

करता है । चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

४२४. तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्टप्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, दो वेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे संख्यातरुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे इसका संख्यातरुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

४२५. उच्चगोत्रका उत्कृष्टप्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थान-शुद्धित्रिकः दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार संस्थान, चार सहनन और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय और छह नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करना है । किन्तु वह उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट

जस० सिया० तं तु० संखेज्जगुणहीणं०^१ बं० । मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-
क०-हुंड०-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-वण्ण०-४-मणुसाणु०-अगु०-४-अपसत्थ०-त्स०-४-
थिरादित्तिणियुग०-दुमग-दुस्सर-अणादे०-अजस०-णिमि० सिया० संखेज्जदिभागूणं
वं० । देवगदि सह गदाओ^२ छप्पगदीओ समचदु०-[वज्जरी०-] पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-
आदे० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं बं० । णीचागोदं ओघं । णवरि चदुसंज०
कोधसंज०भंगो । एवं इत्थिवेदभंगो पुरिस-णवुंसगेसु । णवरि आभिणि० उक्क०
पदे०वं० तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं बं० । एवमेदेसिं तित्थयरं आगच्छदि
तेसिं एदेण क्रमेण णेदव्वं । अणगदवे० ओघं ।

४२६. कोधकसाईसु आभिणि० उक्क० पदे०वं० इत्थिवेदभंगो^३ । णवरि

प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग-
हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और
कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे
संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर,
सैजसशरीर, कामेशशरीर, वृण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्त पाटिका संहनन,
वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, शुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, व्रसचतुष्क, स्थिर आदि
तीन युगल, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका कदाचित् बन्ध करता है ।
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देव-
गतिके साथ बंधनेवाली छह प्रकृतियों देवगति, वैक्रियिक शरीर, आहारकशरीर, वैक्रियिकशरीर
आङ्गोपाङ्ग, आहारकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रपभनाराचसहनन,
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध
नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है ।
इतनी विशेषता है कि चार संव्वलनका भङ्ग क्रोधसंव्वलनके समान है । इसी प्रकार
स्त्रीवेदी जीवोंके समान पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी
विशेषता है कि आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव तीर्थङ्कर-
प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता
है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी
प्रकार जिनके तीर्थङ्कर प्रकृति आती है उनका इसी क्रमसे सन्निकर्ष ले जाना चाहिए ।
अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

४२६. क्रोधकषायवाले जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-
वाले जीवका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि चार संव्वलनका नियमसे
बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी

१. ता०श्रा० प्रत्यो 'संखेज्जगुणहीणं' इति पाठः । २. ता०प्रती 'सहगा (ग) दाओ' इति पाठः ।
३. ता०श्रा० प्रत्यो 'पदे०वं० पदमदंडओ इत्थिवेदभंगो' इति पाठः ।

चदुसंज० णि० वं० णि० तं तु० दुभागूणं वं० । तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं चदुणा०-पंचनं० ।

४२७. थीणगिद्धि० ३दंडओ इत्थिवेदभंगो । णवरि संज० दुभागूणं । णिहा-
पयल्लाबंधओ इत्थिवेदभंगो । णवरि चदुसंज० णि० दुभागूणं वं० । वज्जरि०
तित्थ० आभिणि०भंगो । चक्खुदं० उक्क० पदे०दं० इत्थिवेदभंगो । णवरि चदुसंज०
णि० तं तु० दुभागूणं वं० । एवं तिण्णं दंसं । सादा० उक्क० पदे०वं० इत्थि०
भंगो । णवरि चदुसंज० णि० वं० तं तु० दुभागूणं । तित्थकरं सिया० तं तु०
संखेज्जदिभागूणं वं० । असाद० इत्थि०भंगो । चदुसंज० णि० दुभागूणं वं० ।
तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । अट्टक० इत्थि०भंगो । णवरि चदुसंज०

करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४२७. स्थानगृद्धिप्रकृष्टकदण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यह संज्वलनका दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा और प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यह चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । वज्रर्षभनाराचसंहनन और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके समान है । चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार तीन दर्शनावरणको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वह चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । असातावेदनीयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । वह चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । आठ कथायाकी मुख्यतासे सन्निकर्ष स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता

१. आ०प्रती 'निया० मन्हेज्जदिभागूणं' इति पाठः । २ आ०प्रती. 'निया० मन्हेज्जदिभागूणं' इति पाठः ।

णिय० दुभागूणं वं० । वज्जरि०-तित्थ० आभिणि०भंगो । क्रोधसंज० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-तिणिंसंज०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । एवं तिणिंसंज० । इत्थि०-णुंसं० इत्थि०भंगो । णवरि चदुसंज० णि० वं० णि० अणु० दुभागूणं० । पुरिस० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० उक्क० । चदुसंज० णि० वं० दुभागूणं० । हस्स-दिदंढओ इत्थिवेदभंगो । णवरि चदुसंजलणणं० णि० दुभागूणं वं० । वज्जरि०-तित्थि० आभिणि०भंगो । एवं पंचणोक० । चदुआउ० इत्थिवेदभंगो । णवरि० चदुसंज० णि० संखेज्जगुणही० । एत्तिं पुरिस०-जस० आगच्छदि तेत्तिं सिया० संखेज्जगुणही० । णामा-गोदाणं ओघभंगो । णवरि चदुसंज० णि० वं० दुभागूणं वं० । पुरिस०-जस०

है कि वह चार संव्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । वज्जरिभनाराचसंहनन और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके समान है । क्रोधसंव्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, तीन संव्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार तीन संव्वलनोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वह चार संव्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संव्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । हास्य रविदण्डकी मुख्यतासे सन्निकर्ष स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि चार संव्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । वज्जरिभनाराचसंहनन और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग आभिनिबोधिकज्ञानीके समान है । इसी प्रकार पाँच नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । चार आयुओंकी मुख्यतासे सन्निकर्षका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि चार संव्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे सख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । जिनके पुरुषवेद और यशःकीर्ति आती हैं उनका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे सख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्म और गोत्रकर्मकी प्रवृत्तियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि चार संव्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है या नियमसे बन्ध करता है । बन्धके समय इनका सख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इतनी और विशेषता है कि यशः-

१. ता०प्रती 'क्रोधसंज० ज० (उ०) वं०' इति पाठः । २. ता०आ० प्रत्यो० 'पंचंत० णवरि ज० णि०' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'चदुसंजया (लणा) यं' आ०प्रती 'चदुसंजदार्य' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'दुभं (भागू०) । वज्जरि०' इति पाठः । ५. ता०प्रती 'चदुआउ० सीदिभंगो (?) णवरि' आ०प्रती 'चदुआउ० सीदिभंगो । णवरि' इति पाठः । ६. आ०प्रती 'एत्तिं पुरिस० पुरिस०' इति पाठः ।

सिया० वा णियमा वा संखेज्जगु० । णवरि जस०-उच्चा० उक्क०^१ चटुसंज० णि० तं तु० दुभागूणं वं० ।

४२८. माणकसाईसु आभिणि० उक्क० वं० चटुणा०-पंचंत० णि० वं० उक्क० । शीणगिद्धि०-२-दोषेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४ - इत्थि०-णजुंसं-णिरथ०-णिरयाणु०-आदाव०-दोगोद० सिया० उक्क० । णिहा-पयला-अट्टक०-छण्णोक० सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । चटुदंसं णि० वं० तं तु० अणंतभागूणं वं० । क्रोधसंज० सिया० तं तु० दुभागूणं वं० । तिण्णिसंज० णि० वं० णि० तं तु० विहाणपदिदं वं० संखेज्जदिभागहीणं वं० सादिरेयं दिवड्डुभागूणं वं० । पुरिस०-जस० सिया० तं तु० संखेज्जगुणही० । तिण्णिगदि-पंचजादि-तिण्णिसरीर-छस्संठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संध०-तिण्णिआणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-दोविहा०-तसादिणवयुग०-अज०-सिया० तं

कीर्ति और ऊंचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

४२८. मानकपायवाले जीवोमे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थानगृद्धिन्निक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। निद्रा, प्रचला, आठ कपाय और छह नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। क्रोधसंज्वलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तीन संज्वलनोका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे दो स्थान पतित अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है, संख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है और साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तीन गति, पाँच जाति, तीन शरीर, छह सस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि नौ युगल और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध

१. ता०-या०-प्रत्योः 'णामामोटाणं ओधभंगो । पुरिस० जस० सिया० वा णियमा वा संखेज्जगु० । णवरि चटुदंसं णि वं० दुभागूणं वं० । णवरि चटु-संज उच्चा० उक्क०' इति पाठः ।

तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । वेउव्वि०-आहार० २- [वण्ण०-अगु०-उप०-] णिमि०-तित्थ०
सिया० तं० तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । वेउव्वि०-अंगो० सिया० तं तु० सादिरेयं
दिव्वहभागूणं वं० । एवं चदुणाणा०-पंचंत० ।

४२९. णिहाणिहाए उक्क० पदे०व० पंचणा०-दोदंस०-भिच्छ०-अणंताणु०-
पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंस०-अट्ठक०-भयदु० णि० वं० अणंतभागूणं०
वं० । दोवेदणी०-इत्थि०-णसुंस०-वेउव्वियल्ल०-आदाव०-दोमोद० सिया० उक्क० ।
कोधसंज० णि० वं० णि० अणु० दुभागूणं० वं० । तिणिसंज० णि० वं० णि०
सादिरेयं दिव्वहभागूणं० वं० । पुरिस०-जस० सिया० संखेज्जगुणहीणं० । चदुणोक्क०
सिया० अणंतभागूणं० वं० । दोगदि-पंचजादि-ओरालि०-छसंठा०-ओरालि०-अंगो०-
छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०- [दोविहा०-] तसादिणवयुग०-अजस०-सिया०

करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर, आहारकद्विक, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिक शरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४२९. निदानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, खोवेद, नपुंसकवेद, वैक्रियिकपदक, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसंवलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन संवलनोका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि नौ युगल और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता

तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० णि०^३ वं०
णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । एवं दोदंस०-मिच्छ०-अणंताणु०४ ।

४३०. णिहाए उक्क० पदे० वं०^३ पंचणा०-पयला-भय-दु०-उच्चागो०-पंचंत०
णि० वं० णि० उक्क० । चदुदंस० णि० वं० णि० अणंतभागूणं वं० । दोवेदणी०-
अपक्खखाण०४-चदुणोको० सिया० उक्क० । पक्खखाण०४ सिया० तं तु० अणंत-
भागूणं वं० । कोधसंज० णि० वं० दुभागूणं वं० । तिणिसंज० णि० वं० सादिरेयं
दिव्हभागूणं वंधदि । पुरिस० णि० संखेज्जगुणही० । मणुस०-ओरालि०-ओरालि०-
अंगो०-मणुसाणु०-थिराथिर-सुभासुभ-अज० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । देवगदि-
वेउन्वि०-आहार०-आहार०अंगो०^३-देवाणु०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं
वं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४ अगु०४-तस०४-णिमि० णि० वं० णि०

है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

४३०. निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, प्रचला, भय, जुगुप्सा उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेश-
बन्ध करता है । चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्त-
भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, अपत्याख्यानावरण चतुष्क और चार
नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेश-
बन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं
करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी
करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो
भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो
इनका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका नियमसे
बन्ध करता है जो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्य-
गति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यान्त्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ,
अशुभ और अयश कीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे
संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देवगति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर,
आहारकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है
और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे
संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर,
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका

१. आ०प्रती 'सिया० संखेज्जदिभागूणं' इति पाठः । २. ता० प्रती 'णिमि० णिमि० (?) णि०'
इति पाठः । ३. ता०प्रती 'णिहाए जह० (उ०) वं०' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'वेद० [अंगो०]
आहारंगो०' आ०प्रती 'वेद० आहार०अंगो०' इति पाठः ।

संखेज्जदिभागूणं वं० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० णि० वं० तं तु०
संखेज्जदिभागूणं वं० । वेउच्चि०अंगो० सिया० तं तु० सादिरेयं दुभागूणं वं० ।
वज्जरि० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । जस०' सिया० संखेज्जगु० ।
एवं पयत्ता० ।

४३१. चक्सुदं उक्क० पदे०वं० पंचणा०-तिण्णिदंस०-सादा०-उच्चा०-पंचंत०
णि० वं० णि० उक्क० । क्रोधसंज० सिया० तं तु० संखेज्जगु० । तिण्णिसंज० णि०
वं० णि० तं तु० विट्ठाणपदिदं० संखेज्जदिभागूणं वं० सादिरेयं दिवड्ढुभागूणं वं० ।
पुरिस०-[जस०] सिया० तं तु० संखेज्जगुणही० । हस्स-रदि-भय-दु० सिया० उक्क० ।
देवगदि०-वेउच्चि०-आहार०-समचदु०-आहारंगो०-देवाणु०^१-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-

नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायो-
गति, सुभग, सुस्वर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेश-
बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है
तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। वैकिकिकशरीर आज्ञोपाज्ञ
का कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है तो इसका नियमसे साधिक दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।
वज्रपभनाराचसंहननका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध
करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इसका
नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यतासे सन्न-
कर्म जानना चाहिए।

४३१. चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, तीन
दर्शनावरण, सातावेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। क्रोधसंज्वलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित्
बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका संख्यातगुणहीन
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है तो इनका नियमसे दो स्थानपतित, संख्यातभागहीन और साधिक डेढ़ भागहीन
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और
कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे
संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। हास्य, रति, भय और जुगुप्साका कदाचित्
बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। देवगति,
वैकिकिकशरीर, आहारकशरीर, समचतुरस्र संस्थान, आहारकशरीर आज्ञोपाज्ञ, देवगत्यानुपूर्वी,
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है

१. ता०प्रती 'वेउच्चि०अंगो० सिया० तं तु० संखेज्जदिभा० । जस०' इति पाठः । २. ता०प्रती
'आहारंगो० । देवाणु०' इति पाठः ।

आदे०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-
अगु०४-तस ४-थिरं-सुभ०-[णिमि०] सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । वेउच्चि०अंगो०
सिया० तं तु० सादिरयं दुभागूणं० । एवं तिण्णिदंस० ।

४३२. सादा०^२ आभिणि०भंगो । णवरि णिरय०-णिरयाणु० वज्ज । अप्पसत्थ०-
दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

४३३. असादा० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० ।
धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ - इत्थि० - णवुंस०-णिरय०-णिरयाणु०-आदाव०-
दोगोदं^३ सिया० उक्क० । णिहा-पयला-भयदु० णि० वं० णि० तं तु० अणंत-
भागूणं वं० । चदुदंसं० णि० वं० णि० अणंतभागूणं वं० । अट्ठक०-चदुणोक०

और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, स्थिर, शुभ और निर्माणका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इसका नियमसे साधिक दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार अचक्षुदर्शनावरण आदि तीन दर्शनावरणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४३२. सातावेदनीयका मुख्यतासे सन्निकर्षका भङ्ग आभिनिवोधिकज्ञानावरणकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है । इतनी विशेषता है कि नरकगति और नरकगत्यानु-पूर्विको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है ।

४३३. असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । स्थान-गृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुसकवेद, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, आवप और दो गोत्रका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, भय, और जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । चार दर्शनावरणका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । आठ कषाय और चार नोकषायका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट

१. आ० प्रती 'तस थिर' इति पाठः । २. ता० प्रती 'तिण्णिदंसं साठ' इति पाठः । ३. ता० आ० प्रत्ये 'आदाव तित्थ दोगोदं' इति पाठः ।

सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । कोधसंज० णि० वं० णि० दुभागूणं वं० । तिणिसंज० णि० वं० णि० सादिरैयं दिवडुभागूणं वं० । पुरिस०-जस० सिधा० संखेज्जगु० । तिणिणदि-पंचजादि-दोसरीर-छसंठा०-दोअंगोवंग०-छसंध०-तिणि-आणु० पर०-उस्सा०-उज्जो०-दोविहा०-तसादिणवयुग०-अज० सिया० तं तु० संखेज्जदि-भागूणं वं० । तेजा०-क०-वण्ण०-४-अगु०-उप०-णिमि० णि० वं० णि० संखेज्जदि-भागूणं । तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

४३४. अपचक्ष्णान्कोध० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-णिदा-पयला-तिणिक०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । चदुदंस०-पचक्ष्णान्०-४ णि० वं० णि० अणंतभागूणं । दोवेद०-चदुणोक० सिया० उक्क० । कोधसंज० णि० वं० दुभागूणं । तिणिसंज० णियमा सादिरैयं दिवडुभागूणं० । पुरिस० णियमा संखेज्जगुणहीणं । मणुस०-[ओरालि०]-ओरालि०-अंगो०-मणुसाणु०-थिराथिर-सुभासु-

प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोध-संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन गति, पाँच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, दो शरीरआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, द्वां विहायोगति, त्रस आदि नौ शुगल और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर, कामेणशरीर, चर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

४३४. अपत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, निद्रा, प्रचला, तीन कपाय, भय, जुगुप्सा उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार दर्शनावरण और प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग,

१ ता०प्रती 'अगु० ४ उप० णि० वं०' इति पाठः । २, ता०प्रती 'कोधसंज० णिय० सादिरैयं' इति पाठः ।

अजस्रं सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । देवगदि०४ वज्जरि०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं वं० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । जस० सिया० संखेज्जगुणही० । एवं तिण्णिक० । एवं चैव पच्चकखाण०४ । णवरि मणुसगदिपंचगं वज्ज ।

४३५. क्रोधसंज० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । तिण्णिसंज० णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं० ।

४३६. माणसंज० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-दोसंज०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । एवं दोसंज० ।

४३७. इत्थि०' उक्क० पदे०वं० पंचणा०-धीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-

मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् वन्ध करता है। यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेश-वन्ध करता है। देवगतिचतुष्क, वज्रपंभनाराचसहनन और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता। यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। यशःकीर्तिका कदाचित् वन्ध करता है। यदि वन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यात-गुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। इसी प्रकार अपत्याख्यानावरण मान आदि तीन कपायोको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिपञ्चकको छोड़कर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४३५. क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। तीन सज्वलनका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है।

४३६. मानसज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, दो संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। इसी प्रकार दो सज्वलनकी मुख्यता सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४३७. स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका

पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंस०-अहक०-भय-दु० णि० वं० णि० अणु०
अणंतभागूणं वं० । दोवेदणी०-देवगदि०-४-दोगोद० सिया० उक्क० । कोधसंज०
णि० दुभागूणं वं० । तिणिसंज० णियमा वं० सादिरैयदिवहभागूणं वं० ।
चदुणोक्क० सिया० अणंतभागूणं वं० । दोगदि-ओरा०-हुंड०-ओरालि०-अंगो०-असंप०-
दोआणु०-उजो०-अप्पसत्थ०-थिराथिर-सुमासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-अजस० सिया०
संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचसंटा-पंचसंध०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० तं तु०
संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०-४ अणु०-४-त्तस०-४ [णिमि०]
णि० संखेज्जदिभागूणं वं० । जम० सिया० संखेज्जगुणही० ।

४३८. गणुंस० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-थीणगिद्धि०-३-मिच्छ०-अणंताणु०-४-
पंचंत० णि० उक्क० । सेमाणं इत्थि०-भंगो । णवरि णामाणं ओघमंगो ।

४३९. पुरिस० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-जस०-उच्चा०-पंचंत०

नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छद् दर्शनावरण, आठ कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । वं वेदनीय, देवगतिचतुष्क और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन संवत्सनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, आदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, आदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असगप्राप्ताष्टपाटिकासंहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विद्यायांगति, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, अश्रुभ, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करना है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच संस्थान, पाँच सहनन, प्रशस्त विद्यायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्च न्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अणु रुक्षपुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातरगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।

४३८. नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृह्णिक, मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओषधे समान है ।

४३९. पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सात्तावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो

णि० वं० णि० उक्क० । क्रोधसंज० णि० वं० दुभागूणं वं० । तिणिसंज० सादिरेयं दिवङ्गुभागूणं वं० ।

४४०. हस्स० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-रदि-भय-दु०-[उच्चा०-] पंचंत० णि० वं० उक्क० । णिहा-पयस्ता-दोवेद०-अपच्चक्खणाण०४ सिया० उक्क० । चदुदंस० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं वं० । पच्चक्खणाण०४ सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० । क्रोधसंज० णि० वं० णि० दुभागूणं वं० । तिणिसंज० णि० वं० सादिरेयं दिवङ्गुभागूणं वं० । पुरिसं^१ णि० संखेज्जगुणही० । मणुसगदि-पंचिदि०-ओरा०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अनु०४-तस०४-थिराथिर^२ - सुभासुभ-अजस०-णिमि० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० । देवग०-वेउच्चि०-आहार०-समचदु०-आहार०-अंगो०^३-वज्जरि०-देवाणु०-[पसत्थ०-] सुभग-सुस्सर-आदे०-तित्थ० सिया०

इनका नियमसे उदकप्रदेशबन्ध करता है । क्रोध संञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुदकप्रदेशबन्ध करता है । तीन सञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साविक डेढ़ भागहीन अनुदकप्रदेशबन्ध करता है ।

४४०. हास्यका उदकप्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, रति, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उदकप्रदेशबन्ध करता है । चिन्ना, प्रचला, दो वेदनीय और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उदकप्रदेशबन्ध करता है । चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उदकप्रदेशबन्ध भी करता है और अनुदकप्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुदकप्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुदकप्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उदकप्रदेशबन्ध भी करता है और अनुदकप्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुदकप्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुदकप्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागहीन अनुदकप्रदेशबन्ध करता है । तीन सञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साविक डेढ़ भागहीन अनुदकप्रदेशबन्ध करता है । पुन्यवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे सख्यातगुणहीन अनुदकप्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामगणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अयराःकीर्ति और निर्माणका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे सख्यातभागहीन अनुदकप्रदेशबन्ध करता है । देवगति, वैकिधिकशरीर, आहारकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, आहारकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराचसंहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका उदकप्रदेशबन्ध भी करता है और अनुदकप्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुदकप्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे सख्यातभागहीन अनुदकप्रदेशबन्ध करता है ।

१. ता०प्रती 'दिवङ्गुगो० (भागूण) । पुरि० इति पाठः । २. आ०प्रती 'सस थिराथिर' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'समच० अ (आ) हार० अंगो०' इति पाठः ।

तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । वेउव्वि०अंगो० सिया० तं तु० सादिरेयं दुभागूणं० ।
जस० सिया० संखेज्जगुणहीणं० । एवं रदि-भय-दु० ।

४४१. अरदि० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-णिहा-पयस्सा-सोग-भय-दु०-उच्चा०-
पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । चतुदंस० णि० वं० अणंतभागूणं वं० । दोवेद०-
अपचक्खाण०४ सिया० उक्क० । पचक्खाण०४ सिया० तं तु० अणंतभागूणं वं० ।
कोधसंज० णि० दुभागूणं वं० । तिणिसंज० णि० सादिरेयं दिवड्ढुभागूणं वं० ।
पुरिस०-जस० सिया० संखेज्जगुणही० । णवरि पुरिस० णि० । णामाणं० हससंगो० ।
णवरि वेउव्वि०अंगो० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचिदियादिपगदोओ
णि० वं० । एवं सोग० ।

वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे साधिक दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार रति, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४४१. अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, निद्रा, प्रचला, शोक, भय, जुगुप्सा, लज्जगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और अपत्याख्यानावरण-चतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसंक्चलनका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु यह इनका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुत्रप-वेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है । इसके नामक्रमकी प्रकृतियोंका भङ्ग हास्य प्रकृतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है । इतनी विशेषता है कि यह वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तथा यह पञ्चेन्द्रियजाति आदि प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१. ता०प्रतौ 'पुरि० सिया (?) । णामाणं' आ०प्रतो 'पुरिस० सिया० । णामाणं' इति पाठः ।

४४२. गिरयाउ० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-
वारसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दु०-गिरयगदिअट्टावीस-णीचा०-पंचंत० णि० वं०
अणु० संखेज्जदिभागूणं वं० । चदुसंज० णि० वं० णि० संखेज्जगुणही० । तिण्ण-
माउगाणं' ओषभंगो ।

४४३. गिरयगदि० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-थीणगिद्धि०-३-असादा०-३-मिच्छ०-
अणंताणु०-४-णवुंस०-णीचा०-पंचंत०^३ णि० वं० णि० उक्क० । छदंस०-अट्टक०-
अरदि-सोग-भय-दु० णि० वं० णि० अणंतभागूणं वं० । कोधसंज० णि० वं०
दुभागूणं वं० । तिण्णिसंज० णि० वं० सादिरियं दिवड्डुभागूणं वं० । णामाणं
सत्थाण०भंगो । एवं गिरयाणु०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० ।

४४४. तिरिक्ख० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-थीणगिद्धि०-३-मिच्छ०-अणंताणु०-४-
णवुंस०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंस०-अट्टक०-भय-दु० णि० वं०
णि० अणंतभागूणं वं० । [दोवेदणी० सिया उक्क० ।] कोधसंज० णि० वं० दुभागूणं०

४४२. नरकायुका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, वारह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति आदि अट्टाईस प्रकृतियों, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। तीन आयुभोकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओषके समान है।

४४३. नरकगतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। छह दर्शनावरण, आठ कपाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वा, अप्रगमत् विहायोगति और दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४४४. तिर्यञ्जगतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। दो वेदनीयका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। क्रोध संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो

१. ता०आ०प्रत्योः 'संखेज्जगुणही० । एवं तिण्णमाउगाणं' इति पाठ । २. ता०आ०प्रत्योः 'थीणगिद्धि०३ सादा' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'णीचा० एवं (?) पंचंत०' आ०प्रती 'णीचा० एव पंचंत०' इति पाठः ।

बं० । तिणिसंज्ञं० णि० बं० सादिरैयं दिवहभागूणं बं० । चटुणोक्० सिया० अणंतभागूणं बं० । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं तिरिक्खगदिभंगो मणुसगदि-पंचजादि-ओरालि०-तेजा०-क०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-पंचसंध०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४- [आदाव-उज्जो] तसादिचटुयुग०-धिराथिर-सुभासुम-दूभम-अणादे०-अजस०-णिमि० । णवरि चटुसंठा०-चटुसंध० इत्थि०-णवुंस-उच्चा० सिया० उक्क० । पुरिस० सिया० संखेजगुणही० । णामाणं अप्पणो सत्थाणभंगो ।

४४५. देवग० उक्क० पदे० बं० पंचणा०-उच्चा०-पंचंत० णि० बं० णि० उक्क० । थोगि०२-[दोवेदणो-] मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि० सिया० उक्क० । णिदा-पचला-अट्टक०-चटुणोक्० सिया० तं तु० अणंतभागूणं बं० । चटुदंस०-भय-दु० णि० बं० तं तु० अणंतभागूणं बं० । क्रोधसंज्ञं० णि० बं० दुभागूणं० । तिणिसंज्ञं० सादिरैयं

भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार तिर्यञ्जगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान मनुष्यगति, पौंच जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मगणशरीर, पौंच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, पौंच संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रस आदि चार युगल, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि चार संस्थान और चार संहननका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने अपने स्वस्थानसन्निकर्षके समान है ।

४४५. देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण, उच्चगोत्र और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । म्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार दर्शनावरण, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे

१. ता०आ०प्रत्योः 'द्युगु०४ अप्पसत्थं तसादिचटुयुगं' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'दूभम दुस्सर अणादे' इति पाठः ।

दिवङ्गुभागूणं वं० । एरिस० सिया० संखेज्जगुणही० । णामाणं सत्थाण० भंगो । एवं देवाणु० । एवं हेट्ठा उवरिं देवगदिमंगो इमेसिं वेउव्वि०-समचदु०-वेउव्वि०-अंगो-वज्जरी०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० । णामाणं सत्थाण० भंगो । णवरि णरुंस०-णीचा-गोदं पि अत्थि ।

४४६. आहार० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-सादा०-हस्स-रदि-भय-दु०-उच्चा०-पंचत० णि० वं० णि० उक्क० । दोदंस० सिया० उक्क० । चदुदंस० णि० वं० णि० तं तु० अणंत०-भागूणं वं० । क्रोधसंज० णि० वं० दुभागूणं वं० । तिण्णिसंज० णि० वं० सादिरेंयं दिवङ्गुभागूणं वं० । पुरिस०-जस० णि० वं० णि० संखेज्जगुणही० । णामाणं सत्थाण० भंगो । [एवं आहारंगो०] ।

४४७. तित्थ० उक्क० पदे० वं० पंचणा०-भय-दु०-उच्चा०-पंचत० णि० वं० णि० उक्क० । णिद्दा-पयत्ता०-दोवेद०-अपच्चक्खाण०-४-चदु० णोक्क० सिया० उक्क० ।

साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंकी अपेक्षा देवगतिकी मुख्यतासे कहे गए सन्निकर्षके समान वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आवेय इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद और नीचगोत्र भी है।

४४६. आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो दर्शनावरणका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेद और यश कौर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार आहारकशरीर आज्ञोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४४७. तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। निद्रा, प्रचला, दो वेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

चदुदंसं० णि० बं० णि० तं तु० अणंतभागूणं० वं० । पचक्खण००४ णि० वं०
 तं तु० अणंतभागूणं० । कोधसंजं० णि० वं० दुभागूणं० । तिण्णिसंजं० णि० वं०
 सादिरेयं दिवड्ढभागूणं० । पुरिसं० णि० वं० संखेज्जगुणही० । णामाणं सत्थाणं०भंगो ।
 ४४८. उच्चा० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचंतं० णि० वं० णि० उक्क० ।
 थीणगिद्धि०३-मिच्छं०-अणंताणु०४-इत्थि०-णत्तुं०-चदुसंठां०-चदुसंच० सिया०
 उक्क० । णिहा-पयला-अट्टक०-छण्णोक० सिया० तं तु० अणंतभागूणं० वं० । कोधसंजं०
 सिया० तं तु० दुभागूणं० । तिण्णिसंजं० णि० वं० णि० तं तु० सादिरेयं दिवड्ढ-
 भागूणं० चदुभागूणं० । पुरिसं०-जसं० सिया० तं तु० संखेअगुणहीणं० । मणुसगं०-
 पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि०-असंपत्तं०-वण्णं०४-मणुसाणु०-अगु०४-

करता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। प्रत्याख्यानावरणपञ्चतुष्कका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है।

४४८. उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तराय का नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थानगृद्धिभ्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार संस्थान और चार संहननका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। निद्रा, प्रचला, आठ कषाय और छह नोकपाय का कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। क्रोधसंज्वलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन और साधिक चार भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पुरुषवेद और यज्ञ-कौर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पृष्टिका संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी अगुरुलबुचतुष्क,

१. ता०शा०प्रत्ययोः 'कोधसंजं० णि० वं० दुभागूणं०' इति पाठः ।

अप्यसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ दूमग-दुस्सर-अणादे०-अजस०-णिमि० सिया० संखेज्जदिभागूणं० । देवगदि-वेउज्वि०-आहार० समचदु०-दोअंगो०-वज्जरि०-देवाणु०-पसत्थ०-सुभग०-सुस्सर-आदे०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । णीचा० ओधं ।

४४९. मायकसाईसु आभिणि०दंडओ माणकसाइभंगो । णवरि कोधसंज० सिया० तं तु० दुभागूणं० । माणसंज० सिया० तं तु० सादिरैयं दिवड्ढभागूणं० वं० संखेज्जदिभागूणं वा । माया-लोभाणं णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागहीणं वा संखेज्जगुणहीणं वा । एवं चदुणा०-पंचंत० ।

४५०. णिहाणिहाए दंडओ माणकसाइभंगो । णवरि कोधसंज० णि० वं० दुभागूणं वं० । माणसंज० णि० सादिरैयं दिवड्ढभागूणं० । मायसंज०-लोभसंज० णि० वं० संखेज्जगुणही० । एवं दोदंसणा०-मिच्छ०-अणंताणु०४ ।

अप्रशस्तविहायोगति, प्रसत्तुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माण का कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। देवगनि, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आज्ञोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नीचगोत्रकी मुख्यता से सन्निकर्ष ओषके समान है।

४४९. मायाकषायवाले जीवोंमें आभिनिबोधिकदण्डकका भङ्ग मानकषायवाले जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-वाला जीव क्रोधसंज्वलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मानसंज्वलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन या संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका नियमसे संख्यातभागहीन या संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४५०. निद्रानिद्रादण्डकका भङ्ग मानकषायवाले जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मानसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४५१. गिहाए दंडओ माण०भंगो । णवरि कोधसंज० णि० दुभागूणं० । माणसंज० सादिरेयं० दिवहुभागूणं० । माया-लोभे० पुरिस० णि० संखेजगुणही० । एवं प्रयत्ता० ।

४५२. चक्रुदुदं०दंडओ माणकसाइभंगो । णवरि कोधसंज० सिया० तं तु० दुभागूणं० । माणसंज० सिया० तं तु० संखेजगुणहीणं० वा सादिरेयं दिवहुभागूणं० । माया-लोभ० णि० वं० तं तु० संखेजगुणहीणं वा दुभागूणं वा तिभागूणं वा । पुरिस० सिया० तं तु० संखेजगुणहीणं । जस० णि० तं तु० संखेजगुणहीणं । एवं तिण्णदंस० ।

४५३. सादं माणकसाइ भंगो । णवरि चदुसंज० आभिणि०भंगो । आसाददंडओ

४५१ निद्रादण्डकका भङ्ग मानकपायवाले जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव क्रोधसंस्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियम से दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंस्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंस्वलन, लोभसंस्वलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४५२. चक्रुदर्शनावरणदण्डकका भङ्ग मानकपायवाले जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव क्रोधसंस्वलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंस्वलन का कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यात भागहीन या साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंस्वलन और लोभ-संस्वलनका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु यह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका संख्यातगुणहीन या दो भागहीन या तीन भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यज्ञःकौर्तिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु यह इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अचक्रुदर्शनावरण आदि तीन दर्शनावरणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४५३. सातावेदनीय-दण्डकका भङ्ग मानकपायवाले जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि चार संस्वलनका भङ्ग आभिनिबोधक ज्ञानावरणके समान है । अर्थात् यहाँ पर आभिनिबोधक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके चार संस्वलनका जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा है उसी प्रकार सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके जानना चाहिए । असतावेदनीयदण्डकका भङ्ग मानकपायवाले जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है

माणकसाइभंगो । णवरि चदुसंजलणाणं णिहाए भंगो । अपच्चखाण०४-पच्चखाण०४-
दंडओ माणकसाइभंगो । णवरि चदुसंज० णिहाए भंगो ।

४५४. क्रोधसंज० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंस०-साद०-जस०-उच्चा०-
पंचंत० णि० वं० [णि० उक्क० । माणसंज० णि० वं०] चदुभागूणं । माया-लोभ-
संज० णि० वं० संखेज्जगुणहीणं । माणसंज० उक्क० पदे०वं० पंचणा० चदुदंस०-
साद०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । माया-लोभसंज० णि० वं० संखेज्जदि-
भागूणं । मायाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंस०-साद०-लोभसंज०-जस०-उच्चा०-
पंचंत० णि० वं० उक्क० । एवं लोभसंज० ।

४५५. इत्थि०-णवुसं० माणभंगो । णवरि क्रोधसंज० णि० वं० दुभागूणं० ।
माणसंज० णि० सादिरेयं दिवडुभागूणं० । माया-लोभसंज० णि० संखेज्जगुणही० ।
पुरिसं० माणभंगो । णवरि चदुसंज० इत्थि०भंगो । छणोक्क० माणकसाइभंगो । णवरि

कि चार संज्वलनका भङ्ग निद्राके समान है । अर्थात् यहाँ पर निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-
वाले जीवके चार संज्वलनका जिसप्रकार सन्निकर्ष कहा है उसी प्रकार असातावेदनीयका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके जानना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और प्रत्याख्याना-
वरण चतुष्कदण्डकका भङ्ग मानकपायवाले जीवके समान है । इतनी विशेषता है कि चार
संज्वलनका भङ्ग निद्राके समान है । अर्थात् यहाँ पर निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले
जीवके जिस प्रकार चार संज्वलनका भङ्ग कहा है उसी प्रकार उक्त आठ कषायोका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके जानना चाहिए ।

४५४. क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार
दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है
जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो
इनका नियमसे चार भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन
का नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।
मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता-
वेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनका नियम बन्ध करता है जो
इनका संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, लोभसंज्वलन, यशःकीर्ति
उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है । इसी प्रकार लोभसंज्वलनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४५५. स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग मानकपायवाले जीवके समान है । इतनी विशेषता
है कि इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो
इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता
है जो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंज्वलन
और लोभसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका भङ्ग मानकपायवाले जीवके समान है । इतनी विशेषता है
कि इसका उत्कृष्ट बन्ध करनेवाले जीवके चार संज्वलनका भङ्ग स्त्रीवेदकी मुख्यतासे कहे गये
सन्निकर्षके समान है । छह नोकपायोका भङ्ग मानकपायवाले जीवके समान है । इतनी विशेषता

चदु संजलणाणं णिहाए भंगो । चत्तारिआउ० ओघो । णामाणं सज्वाणं माणकसाइभंगो ।
णवरि कोधसंज० णि० द्भागूणं० । माणसंज० सादिरियं दिवह्मभागूणं । माया-
लोभसंज० णि० वं० संखेज्जगुणही० । णवरि जस० वं० चदुसंज० चक्खुदंस० भंगो ।
लोभकसाईसु मूलोघं ।

४५६. मदि० सुद० आभिणि० उक्क० पदे० वं० चदुणा० णवदंस० मिच्छ०-
सोलसक०-भय-दु०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । सादासाद०-सत्तणोक्क०-वेउविद्ययल्ल०-
आदाव-दोगो० सिया० उक्क० । दोगदि-पंचजादि-ओरालि०-छस्संटा०-ओरालि० अंगो०-
छस्संघ०-दोआणु०-उज्जो०-दोविहा०-त्तसादिदसयु० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं
वं० । तेजा०-क्क०-वण्ण०-४-अगु०-उप०-णिमि० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० ।
पर०-उस्सा० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । एवं चदुणा०-णवदंसणा०-सादा-

है कि इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके चार संज्वलनका भङ्ग निजकी मुख्यतासे कहे
गये सन्निकर्षके समान है । चार आयुशोकी मुख्यतासे सन्निकर्षका भङ्ग ओधके समान है ।
नामकर्मकी सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष मानकपायवाले जीवोंके समान है । इतनी
विशेषता है कि इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता
है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंज्वलनका नियमसे
बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । माया-
संज्वलन और लोभसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियों में से इतनी और विशेषता है कि यशःकीर्ति
का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके चार संज्वलनोका भङ्ग चक्षुदर्शनावरणकी मुख्यतासे
कहे गये सन्निकर्षके समान है । लोभकपायवालोमें मूलोघके समान भङ्ग है ।

४५६. मत्यज्ञानो और श्रुताज्ञानो जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा
और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता
है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, वैक्रियिक छह, आतप और दो योत्रका
कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ।
दो गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन,
दो आनुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति और त्रसादि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है और
कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करना है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे
संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर, कामर्णशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु-
लघु, उपवात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो
इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । परघात और उच्छ्वासका
कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार

साद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-पंचंत० । णवरि सादा०-हस्सरदीणं गिरय०-
गिरयाणु० वज्ज० । अप्पसत्थ०-दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागूणं वं० ।

४५७. इत्थि० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-[मिच्छ०-सोलसक० भय-
दु०पंचंत० णि० वं० णि० उक्क०] । दोवेद०चदु०णोक०-देवगदि०४-दोगोद०^१ सिया०
उक्क० । दोगदि-ओरालि०-हुंडु०-ओरालि०अंगो०-असंप०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-
थिरादितिण्णियुग०-दुभग-दुस्सर-अणादे० सिया० संखेज्जदिभागूणं० । पंचिदि०-
तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तत्त०४-णिमि० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं वं० । पंचसंटा०-
पंचसंध०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । एवं पुरिस० ।

४५८. गिरयाउ० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-[णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोल]
स०-णवुंस०-अरदि-सोभ-भय-दु०-गिरयगदिअट्टावीस^२-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि०^३

ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, हास्य और रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय नरकगति और नरकगत्यानु-पूर्विको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। तथा इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव अप्रशस्तविहायोगति और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

४५७. स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, चार नोकषाय, देवगतिचतुष्क और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, असम्प्राप्तासु-पाटिकासंहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४५८. नरकायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति आदि अट्टाईस प्रकृतियों, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका

१. ता०प्रती 'पंचणा०... '[कोधोवेद० चदुणोक० देवगदि० ४] दोगो०' आ०प्रती 'पंचणा० णवदंसणा०... :को दोवेद० चदुणोक० देवगदि०४ दोगोठ०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'पंचणा०... [णवदंसणा० असादा० मिच्छ० सोलसक० णवुंस० अरदि सोगभयदु०] गिरयगदिअट्टावीस' आ०प्रती 'पंचणा०... णवुंस० अरदि सोग भय दु० गिरयगदिअट्टावीस' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'णि० [वं०] णि० पंचंत० णि०' इति पाठः ।

संखेज्जदिभागणं० । एवं तिण्णं आउगणं अप्पप्पणो पगदीहि णेदव्वा ।

४५९. गिरय० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल-
सक०-णउंस०-अरदि-सोग-भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । णामाणं
सत्थाण०भंगो । णामाणं हेड्ढा उवरि गिरयगदिभंगो । णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणमंगो
कादव्वो । णवरि देवग० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत०
णि० वं० णि० उक्क० । सादासाद०-छणोक०^२ सिया० उक्क० । णामाणं
सत्थाण०भंगो । एवं देवगदि०४ । णवरि वेउव्वि०दुगस्स णउंस० णीचागोदं पि
अत्थि । समचदु० उक्क० पदे०वं० देवगदिभंगो । एवं पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-
आदेजाणं । चदुसंठा०-पंचसंव०^३ उक्कस्स पंचंतो सादासादा०-सत्तणोक०-
णीचुच्चागो० सिया० उक्क० । दोगोदं तिरिक्खगदिभंगो० । विसैसो जाणिदव्वो ।
एवं विभंग०-अव्वमव०-मिच्छा०-असण्णि चि ।

नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार शेष तीन आयुओंकी मुख्यतासे अपनी-अपनी प्रकृतियोंके साथ सन्निकर्ष जान लेना चाहिए।

४५९. नरकगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है। नामकर्मकी अन्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग नरकगतिकी मुख्यतासे इन प्रकृतियोंके कहे गये सन्निकर्षके समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने-अपने स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय और छह नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार देवगति चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वैकृतिकद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालेके नपुंसकवेद और नीचगोत्र भी है। समचतुरस्रसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके देवगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान भङ्ग है। इसी प्रकार प्रशस्त बिहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। चार संस्थान और पाँच सहननका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, नीचगोत्र और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दोगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष तिर्यञ्चगतिसे इनकी मुख्यतासे जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा है उसके समान है। जो विशेष हो वह जान लेना चाहिए। इसी प्रकार अर्थात् मत्तज्जानी जीवोंके समान विमज्जानी, अवबन्ध, मिथ्यादृष्टि और असंही जीवोंमें जानना चाहिए।

१. ता०श्रा०प्रथोः 'णवरिस० मिच्छ०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'सादासाद० णोक०'
श्रा०प्रती 'सादासाद० सत्तणोक०' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'आदेजाणं चदुसंठा० । पंचसंव०' इति पाठः ।

४६०. आभिणि०-सुद०-ओधि० आभिणि०दंडओ ओधो । गिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं वं० । पयला-भय-दु० णि० वं० णि० उक्क० । सादा० सिया० संखेज्जभागू० । असादा०-अपच्चक्खाण०४-चदुणोको० सिया० उक्क० । पच्चक्खाण०४ सिया० तं तु० अगंत-भागूणं० । कोधसंज० णि० वं० णि० दुभागू० । माणसंज० सादिरेयं दिवड्ढुभागूणं० । मायासंज०-लोभसंज०-पुरिसं० णि० संखेज्जगुणही०^१ । दोगदि-तिणिसरीर-दोअंगो-वज्जरि०-दोआणु०-थिराथिर-सुभासुभ-अजसं० तित्थं० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थं०-तसं०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं०^२ णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । वेउच्चि०अंगो० सिया० तं तु०

४६० आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, और अवधिज्ञानी जीवोमे आभिनिबोधिकज्ञाना-वरणदण्डकका भङ्ग ओघके समान है । निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, उद्योगत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रचला, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । असातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासञ्चलन, लोभसञ्चलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातरुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, तीन शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रपंभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अयशःकीर्ति और तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे साधिक दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध

१. ता०भा० प्रत्योः 'सखेज्जदिभागूणं' इति पाठः । २. ता०प्रती 'आदे० णि० वं०' इति पाठः ।

सादिरेयं दुभागूर्णं । जस० सिया० संखेज्जगुणही० । एवं पयत्ता० ।

४६१. असादा० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागूर्णं० । णिहा-पयत्ता-भय-दु० णि० वं० णि० उक्क० । अपच्चखाण०४-चदुगोक्क० सिया० उक्क० । पच्चखाण०४ सिया० तं तु० अणंतभागूर्णं । चदुसंज०-पुरिस० सव्वाओ णामाओ णिहाए भंगो कादव्वो । एवं अरदि-सोगार्णं ।

४६२. अपच्चखाण०४-पच्चखाण०४ णिहाए भंगो । णवरि अप्पप्पो तिण्णिक०'-भय-दु० णि० वं० णि० उक्क० । चदुसंज०-पुरिस० मूलोघो । दोआउ० ओघो । णवरि पाओग्माओ कादव्वाओ ।

४६३. मणुसग० उक्क० पदे०वं० पंचणा० - चदुदंस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागूर्णं० । णिहा-पयत्ता-अपच्चखाण०४-भय-दु० णि० वं० णि० उक्क० ।

करता है तो इसका नियमसे संश्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४६१ असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संश्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । अपत्याख्यानावरण चार और चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्क का कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संव्वलन, पुरुषवेद और नामकर्मकी सच प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४६२. अपत्याख्यानावरणचतुष्क और प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष निद्राकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन दोनों प्रकारकी कषायोंसे विवक्षित क्रोधादि दो-दो कषायोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव अपने अपने तीन कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है चार संव्वलन और पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष मूलोघके समान है । दो आयुओंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अपने-अपने प्राथम्य प्रकृतियों करनी चाहिए ।

४६३. मणुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संश्यात भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, अपत्याख्यानावरणचतुष्क, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियम अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

पञ्चक्खाण०४ णि० वं० अणंतभागूणं० । क्रोधसंज०^१ णि० दुभागूणं० । माणसंज० णि० सादिरियं दिवड्ढुभागूणं० । मायसंज०-लोभसंज०-पुरिसं० णि० वं० संखेज्ज-गुणही० । गामाणं सत्थाण० भंगो । एवं ओरासि-ओरासि० अंगो-वज्जरी-मणुसाणु० ।

४६४. हस्स० उक्क० पदे० वं० ओघं । एवं रदि-भय-दु० । गामाणं हेट्ठा उवर्णि मणुसगदिभंगो । गामाणं अप्पप्पणो सत्थाण० भंगो । णवरि देवगदिआदीणं णिहा-पयत्ता-अपचक्खाण०४ सिया० उक्क० । पञ्चक्खाण०४ सिया० तं तु० अणंत-भागूणं० । एवं आभिणि० भंगो ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-उवसम० ।

४६५. मणपज्जव० आभिणि० दंडओ^२ ओघो । णिहाए उक्क० पदे० वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागूणं० । पयत्ता-भय-दु० णि० वं० उक्क० । सादा० सिया०^३ संखेज्जदिभागूणं० । असादा०-चदुणोक्क० सिया० उक्क० ।

करता है । क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियम से दो भागहीन अनुक्कट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक जेड भागहीन अनुक्कट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंज्वलन, लोभसंज्वलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुक्कट प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार अर्थात् मनुष्यगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आह्नोपाङ्ग, वज्रपेभ-नाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४६४. हास्यका उत्कट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । इसी प्रकार रति, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । नामकर्मकी प्रकृतियोंसे विचक्षित प्रकृतिका उत्कट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्व और वादकी प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने अपने स्वस्थानसन्निकर्षके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति आदिका उत्कट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव निद्रा, प्रचला और अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुदृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुदृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुक्कट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके समान अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

४६५ मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणदण्डकका भङ्ग ओघके समान है । निद्राका उत्कट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, उच्चोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुक्कट प्रदेशबन्ध करता है । प्रचला, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीयका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुक्कट प्रदेशबन्ध करता है । असातावेदनीय और चार नोकधायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कट प्रदेशबन्ध करता है ।

१. ता० प्रतौ 'अणत्ता०४ (?) क्रोधसंज०' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'उवसम० मणपज्जव० । आभिणिदंडओ' इति पाठः । ३. ता० प्रतौ 'व० उ० साद० सिया०' इति पाठः ।

चदुसंज० ओषो । पुरिस० णि० संखेज्जगुणही० । देवग०-पंचिदि०-तिणिसरो-
समचदु०-वण्ण०-४-देवाणु०-अगु०-४-पसत्थ०-तस०-४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० तं तु०
संखेज्जदिभागूणं । आहारदुग-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० सिया० तं तु० संखेज्जदि-
भागूणं । वेउच्चि०अंगो० सिया० तं तु० सादिरेयं दुभागूणं । तित्थ० सिया०
उक्क० । जस० सिया० संखेज्जगुणही० । एध पयला० । एदेण कमेण सव्वाओ पगदीओ
णादव्वाओ । एवं संजदाणं ।

४६६. सामाइ०-छेदो० आभिणि०^१ उक्क० पदे०बंधं पंचणा०-चदुदंसाणा०-
उच्चा०-पंचंत० णि० बंधं णि० उक्क० । णिहा-पयला-सादासाद०-छण्णोक्क०-तित्थ०
सिया० उक्क० । कोधसंज० सिया० तं तु० दुभागूणं । माणसंज० सिया० तं तु०

चार संव्वलन का भङ्ग ओषके समान है । पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इसका
नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर,
समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,
सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेश-
बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता
है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । आहारकद्विक, स्थिर,
अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं
करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी
करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करता है । वैकिक्रियकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध
नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह उसका साधिक दो भागहीन अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो
वह इसका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि
बन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी
प्रकार प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इस
क्रमसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी
प्रकार अथोत् सनःपर्यङ्गान्ती जीवोंके समान संयत जीवोंमें सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४६६. सामाधिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पंच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, उच्चगोत्र और पंच
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा,
प्रचला, सातावेदनीय, असातावेदनीय, छह नोकषाय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध
करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोसंधवलन
का कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता
है तो वह इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंवलनका कदाचित्
बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी
करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह

१. ता०भसौ 'एवं संजदाणं सामा० छेदो० आभिणि०' इति पाठः ।

सादिर्यं दिवङ्गुभागूणं० संखेज्जदिभागूणं वा । मायसंज० सिया० तं तु० संखेज्ज-
गुणही० दुभागूणं० तिभागूणं वा । अथवा मायाए सिया० तं तु० विहाणपदिदं
वं० संखेज्जदिभागहीणं० संखेज्जगुणहीणं वा । लोमसंज० णि० वं० तं तु० संखेज्ज-
गुणही० । पुरिस० सिया० तं तु० संखेज्जगुणही० । देवगदिआदीणं सच्चाणं गामाणं
सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । वेउच्चि०अंगो० सिया० तं तु० सादिर्यं
दुभागूणं । जस० सिया० तं तु० संखेज्जगुणहीणं० । एवं चदुणा०-सादा०-उच्चो-
पंचंत० ।

४६७. णिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पयला-भय-दु०-उच्चागो०-पंचंत०

इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन या संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । माया संखलानका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश-
वन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीन, दो भागहीन या तीन भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । अथवा मायाका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इसका नियमसे द्विस्थानपतित वन्ध करता है या संख्यातभागहीन या संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । लोम संखलानका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पुरुषवेदका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । देवगति आदि सब नामकर्मकी प्रकृतियोंका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । वैक्रियिक-
शरीर आह्नोपाह्नका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इसका नियमसे साधिक दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् आभिनवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके समान चार ज्ञानावरण, सातावेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४६७. निद्राको उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, प्रचला, भय, जुगुप्सा उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध

णि० वं० णि० उक्क० । चदुदंसं णि० वं० अणंतभागूणं । सादासाद०-चदुणो-
 तित्थ० सिया० उक्क० । कोधसंजं णि० वं० दुभागूणं० । माणसंजं णि० सादिरेंयं
 दिवड्ढभागूणं० । मायासं०-लोभसं०-पुरिसं० णि० वं० संखेज्जगुणहीणं० वं० ।
 देवगदिअट्ठावीसं णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । णवरि चेउच्चि०अंगो० णि०
 तं तु० सादिरेंयं दुभागूणं० । आहारदुग्ग-थिराथिर-सुमासुम-अजसं० सिया० तं तु०
 संखेज्जदिभागूणं० । जसं० सिया० संखेज्जगुणही० । एवं पयत्ता० ।

४६८. असाद० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-णिद्दा-पयत्ता-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत०
 णि० वं० णि० उक्क० । चदुदंसं णि० वं० अणंतभागूणं० । चदुसंजं-[चदुणोक्क०]
 णिद्दाए भंगो । पुरिसं० णि० संखेज्जगुणहीणं० । णामाणं णिद्दाए भंगो । एवं

करता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय और तीर्थङ्करप्रकृति का कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। क्रोधसंवलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मानसंवलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। मायासंवलन, लोभसंवलन और पुत्रववेदका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। देवगति आदि अट्ठाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इतनी विशेषता है कि वैकिक शरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इसका नियमसे साधिक दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। आहारकफिक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये सन्निकर्षके समान प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष कहना चाहिए।

४६८. असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, लज्जगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार संवलन और चार नोकपायका भङ्ग निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये सन्निकर्षके समान है। पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसके नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार अर्थात् असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

छण्णोक० । णवरि अरदि-सोगाणं आहारदुग्गं वज्ज ।

४६९. चक्खुदं० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-तिण्णिदंसं०-सादा०-उच्चा०-पंचंत०
णि० वं० णि० उक्क० । चदुसंज० आभिणि०भंगो । पुरिसं०-जस० सिया० तं तु०
संखेज्जगुणही० । णवरि जस० णि० । णामाणं सच्चार्णं मणपज्जवभंगो ।

४७०. जस०' उक्क० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंसं०-सादावेद०-उच्चा०-पंचंत० णि०
वं० उक्क० । क्रोधसंज० सिया० तं तु० दुभागूणं० । माणसंज० सिया० तं तु०
सादिरेयं दिव्वुभागूणं वा चदुभागूणं वा । मायासंज० सिया० तं तु० संखेज्जगुणही०
दुभागूणं० तिभागूणं वा । लोमसंज० णि० वं० तं तु० संखेज्जगुणही० । पुरिसं०

करनेवाले जीवका जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा है उसी प्रकार छह नोकषायोंका उरुष्ट्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अरति और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके आहारकद्विकको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

४६९. चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, सातावेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। चार संव्वलनका भङ्ग अभिनिवोधिकज्ञानी जीवके जिस प्रकार कह आये हैं उस प्रकार है। पुरुषवेद और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। इतनी विशेषता है कि वह यशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है। नामकर्मकी सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है।

४७०. यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। क्रोधसंवलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। मानसंवलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन या चार भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। मायासंवलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इसका संख्यातगुणहीन या दो भागहीन या तीन भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। लोमसंवलनका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है।

सिया० तं तु० संखेजगुणही० । एवं सेसाओ वि पगदीओ एदेण कमेण जेदव्वाओ ।
णामाणं हेट्ठा उवरिं णिहाए भंगो । णामाणं सत्थाण०भंगो ।

४७१. परिहारेसु आभिणि० उक्क० पदे०वं० चटुणा०-उदंस०-चदुसंज०-
पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । सादासाद०-चदुपोक०-तित्थ०
सिया० उक्क० । देवगदिअट्ठावीसं० णि० वं० तं तु० संखेजदिभागूणं० । णवरि
वेउच्चि [अंगो] सादिरेयं दुभागूणं० । आहारदुग-थिरादितिण्णियुग० सिया० तं तु०
संखेजदिभागूणं । एवं चटुणा०-उदंस०-सादा०-चदुसंज०-उण्णोक्क०-उच्चा०-पंचंत० ।

४७२. असादा०' उक्क० पदे०वं० आभिणि०भंगो । णवरि आहारदुगं वज्ज ।

पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार जेप प्रकृतियोंकी मुख्यतासे भी इसी क्रमसे सन्निकर्ष ले जाना चाहिए । मात्र नामकर्मसे पूर्वकी और वादकी प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राकी मुख्यतासे कहे गए सन्निकर्षके समान है । तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

४७१. परिहारविशुद्धिसयन जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संच्चलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देवगति आदि अट्ठाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो उनका वह नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इतनी विशेषता है कि वैकृतिकदारी आङ्गोपाङ्गका वह नियमसे साधिक दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । आहारकद्विक और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह उनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संच्चलन, छह नोकपाय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अर्थात् जिस प्रकार आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष कहा है उसी प्रकार इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

४७२. असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये सन्निकर्षके समान सन्निकर्ष कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आहारकद्विकको छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

वेउच्चि [अंगो०] णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० ।

४७३. देवाउ० ओघं । सच्चाओ पगदीओ संखेज्जदिभागूणं० ।

४७४. देवगदि० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-उदंस०-चदुसंज०^१-पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० उक्क० । सादासाद०-चदुणोक्क० सिया० उक्क० । णामाणं सत्थाण०भंगो । एवं सच्चाणं णामाणं हेड्ढा उवरिं देवगदिभंगो । णामाणं अप्पप्पणो सत्थाण०भंगो ।

४७५. सुहुमसंप० ओघभंगो । संजदासंजदेसु आभिणि० उक्क० पदे०वं० चदुणा०-उदंसणा०-अड्ढक०-पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । सादासाद०-चदुणोक्क०-तित्थ० सिया० उक्क० । देवगदिपणुवीसं० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं । थिरादितिण्णियु० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं वं० । एदेण

तथा वह वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

४७३. देवायुः उक्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके ओषके समान भङ्ग है। मात्र वह सब प्रकृतियोंका संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

४७४. देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय और चार नोक्कषायका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार सब नामकर्मकी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके जिस प्रकार इन प्रकृतियोंका सन्निकर्ष कहा है उस प्रकार है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने अपने स्वस्थान सन्निकर्षके समान है।

४७५. सुहमसान्परायसंयत जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है। संयतासंयत जीवोंमें आभिनित्रोषिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोक्कषाय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। देवगतिचतुष्क आदि पञ्चस्य प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी क्रमसे सब प्रकृतियोंका

१. ता०भा० प्रत्योः 'उदंस० सादा० चदुसंज०' इति पाठः ।

कमेण सच्चपगदीओ षेदव्वाओ ।

४७६. असंजदेसु आभिणि० उक्क० पदे०वं० चट्टुणा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । धीणगिद्धि०-३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०-४-इत्थि०-गणुंस०-गिरय०-णिरयाणु०-आदाव०-दोमोद० सिया० उक्क० । इदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० णि० तंतु० अणंतभाग्णं । पंचणोक० मिया० तंतु० अणंतभाग्णं० । तेजा०-क०-वण्ण०-४-अगु०-उप०-णिमि० णि० वं० तंतु० संखेज्जदिभाग्णं० । सेसाओ पगदीओ सिया० तंतु० संखेज्जदिभाग्णं० । एवं चट्टुणाणा०-असाद०-पंचंत० । धीणगिद्धिदंडओ^१ तिरिस्सगदिभंगो ।

४७७. णिहाए उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचदंस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । दोवेदणी०-चट्टुणोक० सिया० उक्क० ।

उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करके उनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ले जाना चाहिए ।

४७६. अर्नयतांमै आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिश्रयात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, नगरगति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वाग्दत्तपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे सख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । शेष प्रकृतियोंका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए । स्थानगृद्धित्रिकदण्डकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग तिर्यञ्चगति मार्गणामे इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जानना चाहिए ।

४७७. निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, पाँच दर्शनावरण, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति,

१. ता०प्रती 'एवं चट्टुणो० । असाद०' वा०प्रती 'एवं चट्टुणोक० असाद०' इति पाठः । २. ता० प्रती० 'पंचंत० धीणगिद्धिदंडओ' इति पाठः ।

मणुसं-[ओरालि-] ओरालि०अंगो०-मणुसाणु० - थिरादितिणिगुग० सिया०
संखेज्जदिभागूणं० । देवगदि-वेउच्चियदुग०-वज्जरि०-देवाणु-तित्थ० सिया० तं तु०
संखेज्जदिभागूणं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० वं०
णि० संखेज्जदिभागूणं० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० णि० वं० णि०
तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । एवं पंचदंसं०-वारसक०-सचणोको० ।

४७८. सादा० उक्क० पदे०वं० पंचणा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० ।
थीणगिद्धि०३-मिच्छ०^१-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंसं०-आदाव-दोगोद० सिया० उक्क० ।
छदंसं०-वारसक०-भय-दु०-णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागूणं० । पंचणोको० सिया०^२
अणंतभागूणं० । तिणिगदि-पंचजादि-दोसरो-छस्संठा०-दोअंगो०-छस्संधं०-तिणिगआणु०-
पर०-उस्सा०-उज्जो०^३-पसत्थ०-तसादिणवयुगल-सुस्सर० सिया० तं तु० संखेज्जदि-

औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्-बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध करता है । देवगति, वैक्रियिकद्विक, वज्रभनाराचसहनन, देवगत्यापूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृ-तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामगशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अथोत् निर्द्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्षके समान पाँच दर्शनावरण, वारह कषाय और सात नोकषायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

४७८. मातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, ननुंसकवेद, आतप और दोगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग-हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन गति, पाँच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, दो आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस आदि नौ युगल और सुस्वरका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध

१. ता०प्रती 'उक्क० थोण० ३ मिच्छ' इति पाठः । २. आ०प्रवी 'पंचणा० सिया०' इति पाठः ।
३. ता०आ०प्रत्यो 'छस्संधं' 'उज्जो०' इति पाठः ।

भागूणं । अप्पसत्थ०-दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागूणं० । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-
उप० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं । एवं एदेण बीजेण सच्चाओ
पगदीओ षोदन्वाओ ।

४७९. चक्खु०-अचक्खु०ओघं । किण्ण-णील-काउ० असंजदभंगो । णवरि
किण्ण-णील्लाणं तित्थयरं हेट्ठिम-उवरिमाणं सिया० वं० उक्क० । णत्थि अण्णो विगप्पो ।

४८०. तेऊए आभिणि० उक्क० पदे०वं० च्चटुणा०-पंचंत० णि० वं० णि०
उक्क० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-सादासाद०-इत्थि०-णवुंस०-दोगोद०
सिया०' उक्क० । छदंस०-चदुसंज०-भय-दु० णि० तं तु० अणंतभागूणं । अट्ठक०-
पंचणोक० सिया० तं तु० अणंतभागूणं । तिण्णिगदि-दोजादि-दोसरीर-आहार०दुग्-
छस्संटा० - दोअंगो०-छस्संध०-तिण्णिआणु०-उज्जो० -दोविहा० - तस थावर-थिरादि-

करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । अप्रशस्त विद्वाद्योगति और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और उपघातका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी बीजपदके अनुसार अन्य सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कराके उनकी मुख्यतासे सन्निरुद्ध ले जाना चाहिए ।

४७९. चक्षुदर्शनवाले और अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । कृणलेइया, नीललेइया और कापीतलेइयावाले जीवोंमें असंयत जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि कृण और नीललेइयामें अधस्तन और उपरिम प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । अन्य विकल्प नहीं है ।

४८०. पीतलेइयामें आभिनिबोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियम से बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सातावेदनीय, असाता-वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । आठ कषाय और पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन राति, दो जाति, दो शरीर, आहारक द्विक, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, उद्योत, दो विद्वाद्योगति, त्रस, स्थावर, स्थिर आदि छह युगल और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित्

१. ता०प्रतो 'थियि०३.....[सादासाद० इत्थि० णवुंस० दोगो०] सिया० इत्ति पाठः ।

• छयुग०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-
पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं । एवं चटुणा०-पंचंत० ।

४८१. णिहाणिहाए उक्क० पदे०व०^१ पंचणा०-दोदंस०-सिच्छ०-अणंताणु०४-
पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० अणंतभागूणं० ।
दोवेद०-इत्थि०-णनुंस०-दोगदि०-वेउन्वि०-[वेउन्वि०-] अंगो०-दोआणु० - आदाव०-
दोगोद० सिया० उक्क० । [पंचणोफ० सिया० अणंतभागूणं वं०] । तिरिक्ख०-
दोजादि-ओरालि०-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-तिरिक्खाणु०-[उज्जो०]-दोविहा०-
तस-थावर-थिरादिछयुग० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । तेजा०-क०-वण्ण०४-
४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०^२ णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । एवं दोदंस०-

बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेश-
बन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर,
पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माण का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो
इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण
और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए ।

४८१. निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दो दर्शनावरण,
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो
वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी,
आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता ।
यदि बन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यञ्चगति, दो
जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानु-
पूर्वी, उद्योत, दो विद्यायोगति, त्रस, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता
है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है
और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे
संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-
चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है तो वह इनका संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात्
निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये सन्निकर्षके समान दो दर्शनावरण,

१. ता०प्रती 'तं तु० । ' [ए० उक्क० पदे०] वं०' आ०प्रती 'तं तु० । ' ए० उक्क०
पदे०व०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'अगु०४.....[अत्र क्रमांकरहितः तादपशोस्ति] णिमि०' आ०प्रती
'अगु०४ .. णिमि०' इति पाठः ।

मिच्छ०-अणंताणु०४ ।

४८२. णिहाए उक्क० पदे०यं० पंचणा०-पंचदंस०-पुरिस०-मय-दु०-उच्चा०-
पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । सादासाद०-अपच्चक्खाण०४-चदुणोक्क० सिया०
उक्क० । पच्चक्खाण०४ सिया० तं तु० अणंतभागूणं । चदुसंज० णिय० तं तु०
अणंतभागूणं । दोगदि-दोणिसरीर-दोअंगो०-वज्जरि०-दोआणु०-तित्थ० सिया० तं तु०
संखेज्जदिभागूणं० । पंचिदि०-तेजा०-क्क०-समचदु०-वण्ण० '४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-
सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० तं तु० संखेज्जदिभागूणं०^१ । वेउच्चि०अंगो०
सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । णदरि तेजा०-क्क०-वण्ण०४-अगु०४-वादर०३-
णिमि० णि० तं तु० णत्थि । ओरालियसरी०-थिरादितिणियुग० सिया० संखेज्जदि-

मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निर्कष कहना चाहिए ।

४८२. निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण; पाँच दर्शनावरण, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, लज्जा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, षड्वर्षमनाराचसंहनन, दो आतुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, वैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । वैकियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इतनी विशेषता है कि वैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लुचतुष्क, वादरत्रिक और निर्माण इन प्रकृतियाँका नियमसे बन्ध होकर भी 'तं तु' पठित बन्ध नहीं होता । औदारिकशरीर और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये

१. 'आ० प्रती तेजाक० वण्ण०४' इति पाठः । २. सा० प्रती 'णि० [तं तु०] संखेज्जदि भा०'

भाग्णं । एवं पंचदंसं-सत्तपोकं । एदेण कमेण णोदव्वं ।

४८३. एवं पम्माए । णवरि एइदिं३ वज्ज । सुक्काए आभिणिं०दंडओ मूलोघं । णिहाणिहाए उक्कं पदे०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतं० णिं वं० णिं संखेज्जदि-भाग्णं० । दोदंसं०-मिच्छं०-अणंताणुं०४ णिं वं० णिं उक्कं । णिहा-पयसा-अहकं०-भय-दु० णिं वं० अणंतभाग्णं० । दोवेदणी०-छण्णोक्कं०-दोगदि०-दोसरी-पंचसंठां०-दोअंगो०-उस्संघं०^३-दोआणुं०-अप्पसत्थं०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-[दोगोदं०] सिया- उक्कं । कोधसंजं० णिं वं० दुभाग्णं० । माणसंजं० णिं वं० सादिरेयं दिवड्ढुभाग्णं० । मायासं०-लोभसं० णिं वं० णिं संखेज्जगुणही० । पुरिसं० सियां संखेज्जगुं० । पंचिदिं०^३-तेजां०-कं०-वण्णं०४-अगुं०४-तसं०४-णिमिं० णिं वं० णिं तं तु० संखेज्जभाग्णं० । समचदुं०-[वज्जरिं०-] पसत्थं०-थिरादिदोणिगियुगं०^४-सुभग-

उक्त सन्निकर्षके समान पाँच दर्शनावरण और सात नोकषायोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी क्रमसे अन्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करके उनकी अपेक्षा सन्निकर्ष ले जाना चाहिए ।

४८३. इसी प्रकार अर्थात् पीतलेइयाके समान पद्मलेइयामें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियजाति त्रिकको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । शुक्लेइयामें आभिनिबोधिकज्ञानावरणदण्डकका भङ्ग मूलोघके समान है । निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो दर्शनावरण, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, छह नोकषाय, दो गति, दो शरीर, पाँच सस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर अनादेय और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डेढ़ भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासञ्चलन और लोभसञ्चलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात-गुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदक कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर आदि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और अयशःकोर्तिका कदाचित्

१. ता०प्रती 'अखंतभाग्णं । दोगदि' आ०प्रती 'अखंतभाग्णं । 'दोगदि' इति पाठः ।

२. आ०प्रती 'दोअंगो० पंचसंघं' इति पाठः । ३. आ०प्रती 'लोभसं० णिं वं० णिं संखेज्जगुणही० । पंचिदिं०' इति पाठः । ४. ता०आ०प्रत्योः 'थिरादिनिगियुगं' इति पाठः ।

सुस्सर-आदे०-अजस० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । जस० सिया० संखेज्ज-
गुणही० । एवं०^१ थोणगिद्धि०-३-मिच्छ०-अर्णताणु०-४-इत्थि०-णउंसं^२-णीचा० ।
णवरि इत्थि०-णउंसं०-णीचा० मणुसगदिपंचग० णि० वं० णि० उक्क० । पंचसंठा०-
छस्संघ०-अप्पसत्थं०-दूभग-दुस्सर-अणादे० सिया० उक्क० । अट्टावीससंजुत्ताओ
धुवियाओ पगदीओ णि० वं० संखेज्जदिभागूणं० । याओ परियत्तमाण्याओ ताओ
सिया० संखेज्जदिभागूणं० । देवगदि०-४ वज्ज । एदेण वीजेण णेदन्वाओ भवंति ।

४८४. भवसि० ओषं । वेदगस० आभिणि० उक्क० पदे० वं० चटुणाणा छर्दंसं^३-
पुरिसं०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । दोषेदं अपचक्खणाणा-
वरण०-४- [चटुणोक०] सिया०^४ उक्क० । दोगदि-तिणिणसरीर-दोअंगो०-वज्जति०-

बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यात-गुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थोत् निर्वाणिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगतिपञ्चकका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच संस्थान, छह संहनन, अग्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । अट्टाईस प्रकृतिसहित भ्रुवबन्ध-वाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । जो परावर्तमान प्रकृतियों हैं उनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मात्र देवगतिचतुष्कको छोड़ देना चाहिए । इस बीज पदके अनुसार शेष सब सन्निकर्ष जान लेना चाहिए ।

४८४. भव्योमे ओषके समान मज्ज है । वेदकसम्पन्नदृष्टि जीवोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, पुरुषवेद, भय जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है, जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, अप्रत्याख्यनावरणचतुष्क और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियम से उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, तीन शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रपर्मनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, स्थिर आदि तीन थुगल और तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और

१. ता०शा०प्रत्योः 'संखेज्जदि० । एवं' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'मिच्छ०.....[इत्थि०] णउं'
इति पाठः । ३. आ०प्रतौ 'चटुणोक० छर्दंसं' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ 'अपच [क्खणावरण०-४-] सिया०'
इति पाठः ।

दोआणु०-थिरादितिणियुग०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । पंचिदि०-
तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०
णि० वं० तं तु० संखेज्जभागूणं । वेउच्चि०अंगो० सिया० तं तु० सादिरियं दुभागूणं ।
पच्चक्खाण०४ सिया० तं तु० अणंतभागूणं० । चदुसंज० णि० वं० णि० तं तु०
अणंतभागूणं० । एवं णेद्व्वं ।

४८५. सासणे आभिणि० उक्क० पदे०वं० चदुणा०-णवर्दस०-सोलसक०-
भय-दु०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । दोवेदणी०-उण्णो०-दोगादि-वेउच्चि०-
वेउच्चि०अंगो०-दोआणु०-उज्जो०-दोगोद० सिया० उक्क० । तिरिक्ख०-ओरालि०-
पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-पंचसंध०-तिरिक्खाणु०-दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया०
तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०^३

अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुम्बर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाज्ञका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे इसका साधिक दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संवलनका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट-प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार सब सन्निकर्ष ले जाना चाहिए ।

४८५ सासादनसम्यरदृष्टि जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, छह नोकषाय, दो गति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाज्ञ, दो आनुपूर्वी, उद्योत और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यञ्चगति, औदारिक-शरीर, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाज्ञ, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दो विहायो-गति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनु-

१. ता०आ०प्रत्योः 'बहुणा०.....सोलसक०' इति पाठः । २. आ०प्रती 'अगु० पसत्थ० तस०४ णिमि०' इति पाठः ।

णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । एवं चदु णाणा०-दोवेदणी०^१ णवदंस०-सोलसक०-
अट्टणोक०-दोगोद०-पंचंत० । णवरि णीचा० देवगदि०४ वज्ज । एवं एदेण^२ वीजेण
णेदव्वाओ ।

४८६. सम्मामि० आभिणि० उक्क० पदे०वं० चदुणा०-छदंस०-वारसक०-
पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्क० । दोवेदणी०-चदुणोक०^३-
दोगदि-दोसरीर-दोअंगो०-वज्जिरि०-दोआणु० सिया० उक्क० । पंचिदि०-तेजा०-क०-
समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०^४-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं०
तं तु० संखेज्जदिभागूणं० । थिरादितिणियु० सिया० संखेज्जभागूणं० । आहार०
ओधं० । अणाहार० कम्मइगसंगो ।

एवं उक्कस्सपरत्थाणसण्णियासो समत्तो ।

उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-
चतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार
अर्थात् आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्नि-
कर्षके समान चार ज्ञानावरण, दो वेदनीय, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, आठ नोकषाय,
दो गोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष कहना चाहिए ।
इतनी विशेषता है कि नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके देवगतिचतुष्कको
छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार सब सन्निकर्ष ले
जाना चाहिए ।

४८६. सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें आभिनिवोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-
वाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्च-
गोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय, दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्णपभनाराचसंहनन
और दो आनुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता
है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर,
समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग,
सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेश-
बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता
है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन
युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो
इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । आहारक मार्गणामे ओषके
समान भङ्ग है और अनाहारक मार्गणामे कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

१. आ०प्रतौ 'चदुणोक० दोवेदणी०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'पुंचं णा०... एदेण' इति पाठः ।
३. आ०प्रतौ 'उक्क० । चदुणोक०' इति पाठः । ४. आ०प्रतौ 'अगु० पत्तय' इति पाठः ।

४८७. एत्तो णाणापगदिबंधसण्णिकासस्स साधणत्थं णिदरिसणाणि वत्तइस्सामो । मूलपगदिविसेसो पिंडपगदिविसेसो उत्तरपगदिविसेसो' एदे तिण्णि विसेसा आवलियाए असंखेज्जदिमा० । किं पुण पवाहज्जंत्तेण उवदेसेण मूलपगदिविसेसेण कम्मस्स अवहारकालो थोवो । पिंडपगदिविसेसेण कम्मस्स अवहारकालो असंखेज्जगुणो । उत्तरपगदिविसेसेण कम्मस्स अवहारकालो^१ असंखेज्जगुणो । अण्णोण उवदेसेण मूलपगदिविसेसो आवलियवग्गमूलस्स असंखेज्जदिमागो । पिंडपगदिविसेसो पलिदोवमस्स वग्गमूलस्स असंखेज्जदिमागो । उत्तरपगदिविसेसो पलिदोवम० असंखेज्जदिमागो । एदेण अट्ठपदेण उक्कस्सपरत्थाणसण्णिकासस्स साधणपदा णादव्वा । मिच्छत्तस्स भागो कसाय-णोकसाएसु गच्छदि । अणंताणु०४ भागो कसाएसु गच्छदि । मूलपगदीओ अट्ठ । उत्तरपगदीओ पंचणाणावरणादि० । पिंडपगदीओ बंधण^२-सरीर-संधाद-सरीर-अंगोवंग-अण्णपंच-दोगंध-रसपंच-अट्ठफास० एदाओ पिंडपगदीओ । अट्ठविधबंधगस्स० ४, २१, २२ एवं याव तीसं० । सचविधबंधगस्स० २४, २५ एवं याव तीसं० । छविधबंधगस्स० २८, २९ एवं याव तीसं० पगदिविसेसो णादव्वाओ ।

४८८. जहण्णपरत्थाणसण्णिकासे पगदं । दुविधो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण आभिणि० जहण्णपदेसग्गं बंधतो चटुणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोत्तसक०-भय-दु०-

४८७. आगे नाना प्रकृतियोंके बन्धके सन्निकर्षकी सिद्धि करनेके लिए उदाहरण वतलाते हैं—मूलप्रकृतिविशेष, पिण्डप्रकृतिविशेष और उत्तर प्रकृतिविशेष ये तीन विशेष आवलिके असंख्यातवै भागप्रमाण हैं । किन्तु प्रवर्तमान उपदेशके अनुसार मूलप्रकृति विशेषसे कर्मका अवहारकाल स्तोके है । पिण्डप्रकृतिविशेषसे कर्मका अवहारकाल असंख्यातगुणा है । उत्तरप्रकृतिविशेषसे कर्मका अवहारकाल असंख्यातगुणा है । अन्य उपदेशके अनुसार मूलप्रकृतिविशेष आवलिके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवै भागप्रमाण है । पिण्डप्रकृतिविशेष पल्यके वर्गमूलके असंख्यातवै भागप्रमाण है और उत्तरप्रकृतिविशेष पल्यके असंख्यातवै भागप्रमाण है । इस अर्थ पदके अनुसार उत्कृष्ट परस्थानसन्निकर्षके साधनपद जानने चाहिए । मिथ्यात्वका भाग कषायों और नोकषायोंको मिलता है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भाग कषायोंको मिलता है । मूलप्रकृतियों आठ हैं । उत्तर प्रकृतियों पाँच ज्ञानावरणादि रूप हैं । पिण्डप्रकृतियों—बन्धन, शरीर संधात, शरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्ण पाँच, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श ये पिण्डप्रकृतियाँ हैं । आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके चार इक्कीस और बाईससे लेकर तीस प्रकृति तक, सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके चौबीस और पच्चीस प्रकृतियोंसे लेकर तीस प्रकृतियों तक और छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके अट्ठाईस और उनतीस प्रकृतियोंसे लेकर तीस प्रकृतियों तक प्रकृतिविशेष जानना चाहिए ।

४८८. जघन्य परस्थान सन्निकर्षका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार

१. ता०प्रती 'उत्तरपगदिविसेसा' इति पाठः । २. आ०प्रती 'विसेसेण अवहारकालो' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'असंखेज्जगु० [णो]उपदेसेण' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'उत्तरपगदीय पंचणाणा-वरणादि० पि० बंधण' इति पाठः ।

पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०^१ सत्तणोक्क०-आदाव-दोगोद० सिया० बंधगो
सिया० अबंधगो । यदि बंधगो णियमा जहण्णा । दोगदि-पंचजादि-छस्संठा०-ओरालि०-
अंगो०-छस्संध०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-दोविहा०-त्तसादिदसयुग० सिया० तं तु०
जहण्णा वा अजहण्णा वा । जहण्णादो अजहण्णा संखेज्जदिभागम्भियं बंधदि । ओरालि०-
तेजा०-क्क०-वण्ण०४-अगु०-उप-णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागम्भियं बंधदि । एवं
चदुणा०-णवदंस^२-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक्क०-णवणोक्क०-पंचंत०^३ । णवरि इत्थि०-
पुरिस० एइदि०-विगल्लिदि०-आदाव-थावरादितिण्णि० वज्ज । णवरि इत्थि०-पुरिस० जह०
पदे०बंधंतो मणुसगदिदुगं उज्जो०-दोवेद०-चदुणो०-दोगोद० सिया० जहण्णा ।

४८९. णिरयाउ० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक्क०-
णवुंस०-अरदि - सोग-भय - दु०-पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क्क०-हुंड०-वेउन्वि०-अंगो०-

ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, सात
नोकषाय, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि
बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, पाँच जाति, छह
संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत,
दो विहायोगति और त्रसादि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध
नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेश-
बन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो वह अपने जघन्यकी अपेक्षा
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर,
कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है।
किन्तु वह जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो अपने जघन्यकी अपेक्षा संख्यातभाग अधिक अजघन्य
प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेद-
नीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है खीवेद और पुरुषवेदका
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके एकेन्द्रियजाति, विकलेन्द्रियजाति, आतप और स्थावर
आदि तीनको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। तथा इतनी और विशेषता है कि खीवेद
और पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगतिद्विक, उद्योत, दो वेदनीय, चार
नोकषाय और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध
करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है।

४८९. नरकायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चन्द्रियजाति,
वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क,

१. ता०प्रती 'सोलस०भ [यदुगु०]...दोवेद' आ०प्रती 'सोलसक्क० भयदु०...दोवेद०'
इति पाठः । २. आ०प्रती 'चदुणो०णवदंस०' इति पाठः । ३. ता०आ०प्रत्योः 'मिच्छ'... पंचंत०' इति पाठः ।

वण्ण०४-अगु०४-अप्यसत्थं०^१-तसादि०४-अथिरादिछ०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि०
वं० णि० अजहण्णा असंखेज्जगुणम्महियं० । णिरयगदि-णिरयाणु० णि० वं०
णि० जह० । एवं णिरयगदि-णिरयाणु० ।

४९०. तिरिक्खाउ०^२ जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-
भय-दु०-तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-णिमि०-
णीचाणो०-पंचंत० णि० वं० णि० अजह० असंखेज्जगुणम्महियं० । दोवेद०-सत्तणोक्क०-
पंचजा०-छस्संठा०^३-ओरालि०अंगो०-छस्संध०-पर०-उस्सा०-आदाउजो०-दोविहा०-
तसादिदसयुग० सिया० असंखेज्जगुणम्महियं० ।

४९१. मणुसाउ० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-
दु०-मणुसगइ-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-मणुसाणु०^३-
अगु०-उप०-तस-वादर-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० णि० अजह० असंखेज्जगुणम्महियं० ।
दोवेद०-सत्तणोक्क०-छस्संठा०-छस्संध०-पर०-उस्सा०-दोविहा०-पज्जत्तापज्जत्त०-थिरादि-
छयुग०-दोगोद० सिया० अणंतगुणम्महियं० ।

अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस आदि चार, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् नरकायुका जघन्य प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

४९०. तिर्यञ्चायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेणशरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति और त्रस आदि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

४९१. मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कामेणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, दो विहायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर आदि छह युगल और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

१. आ०प्रती 'अगु०४ पसत्थं' इति पाठः । २. ता०था०प्रत्यो 'णिरव... तिरिक्खाउ०' इति पाठः । ३. आ०प्रती 'पंचजा० पंचसंठा०' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'मणुस [गइ] 'वण्ण०४ मणुसाणु०' आ०प्रती 'मणुसगइ... वण्ण०४ मणुसाणु०' इति पाठः ।

४९२. देवाउ० जह० पदे०बंधं० पंचणा०-गवर्दंस०-सादा०-मिच्छ०-सोलसक०-
हसस-रदि-भय-दु०-देवगदि-पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-समच०-वेउन्वि०-अंगो०-
वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ-तस०४-थिरादिछ-उच्चागोद० णि० वं० णि० असंखेज-
गुण०भहियं० । इत्थि०-पुरिस० सिया० असंखेजगुण०भहियं० ।

४९३. तिरिक्ख० जह० पदे०बंधं० पंचणा०-गवर्दंस०-मिच्छ० सोलसक०-भय-
दु०-पीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-सत्तपोक० सिया० जह० ।
णामाणं सत्थाण०भंगो । एवं तिरिक्खगदिभंगो मणुसगदि०-पंचजादि-तिणिसरीर-
छस्संटा०-ओरालि०अंगो०-छस्संध०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-आदाउजो०-दोविहा०-
तसादि०दसयुग०-णिमि० हेट्ठा उवरिं० । णामाणं अप्पप्पणो सत्थाण०भंगो । मणुसगदि-
दुगस्स दोगोद० सिया०० जह० । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ जह० पदे०बंधं०
इत्थि०-पुरिसवेदा णांगच्छंति ।

४९२. देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यालु-पूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

४९३. तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और सात नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो नियमसे इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान मनुष्यगति, पाँच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और निर्माणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने-अपने स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तथा चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव स्त्रीवेद और पुरुषवेदका बन्ध नहीं करते ।

१. आ०प्रती 'तेजाक० वेउन्वि० अगो० इति पाठः । २. ता०प्रती 'थिरादिङ्' 'अस० गुण०भ' आ०प्रती 'थिरादिङ्गुण० दोगोद० सिया० अस्संखेजगुण०भहियं' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'तिरिक्खगदिभंगो । मणुसगदि' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'सत्त्वा [त्या] णमंगो । ' ' ' 'सिया' आ०प्रती 'सत्थाणभंगो । सिधा०' इति पाठः ।

४९४. देवगदि^१ जह० पदे०वं० पंचणा०-छदंस०-चारसक०-भय-दु०-पुरिस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० अजह० असंखेज्जगुणम्महियं० । दोवेद०-चदुणोक्क० सिया० असंखेज्जगुणम्महियं० । णामाणं सत्थाण०भंगो । एवं वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो-देवाणु० ।

४९५. आहार० जह० पदे०वं० पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-हस-रदि-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० अजह० असंखेज्जगुणम्म० । णामाणं सत्थाण०भंगो ।

४९६. तित्थ^२ जह० पदे०वं० पंचणा०-छदंसणा०-चारसक०-पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० अजह० असंखेज्जगुणम्म० । दोवेद०-चदुणोक्क० सिया० असंखेज्जगुणम्म० । णामाणं सत्थाण०भंगो ।

४९७. उच्चा० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय दु०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-सच्चणोक्क० सिया० जह० । मणुसग^३-मणुसाणु०

४९४. देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार अर्थात् देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४९५. आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है ।

४९६. तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

४९७. उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यास्य, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और सात नोकषायका कदाचित्

१. ता०प्रतौ 'पुरिसवेदणा गच्छति । देवग०' आ०प्रतौ 'पुरिसवेदाणं गच्छति । देवगदि०' इति पाठः ।
२. ता०प्रतौ 'णामा [सं सत्थाणभंगो] तित्थ०' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'सिया० मणुसग०' इति पाठः ।

णि० जह० । पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-वण्ण०-४-अगु०-४-
तस०-४-णिमि० णि० वं० अजह० संखेज्जभागम्भ० । छस्संठा०-छस्संधं०-दोविहा०-
थिरादिछयुग० सिया० संखेज्जभागम्भहियं वंधदि० ।

४९८. आदेसेण षोरइएसु आभिणि० जह० पदे०वं० चहुणा०-णवदंसणा०-
मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेदे०-सत्तणोक्क०-
मणुस०-मणुसाणु०-उज्जो०-दोगोद० सिया० जह० । तिरिक्ख०-छस्संठा-छस्संधं०-
तिरिक्खाणु०-दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० तं तु० संखेज्जभागम्भहियं० । पंचिदि०-
ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-वण्ण०-४-अगु०-४-तस०-४-णिमि० णि० वं०
णि० अजह० संखेज्जदिभागम्भ०^१ । एवं चहुणा०-णवदंसं-दोवेदे०-मिच्छ०-सोलसक०-
णवणोक्क०-दोगोद०-पंचंत० । णवरि उच्चागो० तिरिक्खगदितिगं वज्ज मणुसगदिदुगं

बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलधुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

४९८. आदेशसे नारकिबोमि आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उद्योत और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यञ्चगति, छह संस्थान, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलधुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष

१. ता०प्रतौ सखेज्जभागम्भ० । ' . . . [छस्संधं]० छस्संधं० आ०प्रतौ सखेज्जभागम्भ० । ' . . . 'छस्संधं० छस्संधं०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'तस० णिमि० णि० वं० [णि०] . . . संखेज्जदिभागम्भ०' आ०प्रतौ 'तस०-४-णिमि० णि० वं० णि० अजह० संखेज्जभागम्भ०' इति पाठः ।

णि० वं० णि० जह० । धुवियाणं' पंचिदियादीणं णि० संखेज्जदिभागम्भ० । परियत्ति-
याणं सिया० संखेज्जदिभागम्भ० ।

४९९. तिरिक्खाउ० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-
भय-दु०-तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-तिरि-
क्खाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० अजह० असंखेज्ज-
गुणम्भ०^२ । दोवेद०-सत्तणोक०-छस्संटा०-छस्संघ०-उज्जो०-दोविहा०-थिरादिह्युग०
सिया० असंखे०गुणम्भ० ।

५००. मणुसाउ० जह० पदे०वं० धुवियाणं सम्भत्तपगदीणं णि० वं० । तित्थं
सिया० असंखेज्जगुणम्भ० । धीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-सत्तणोक०-
छस्संटा०-छस्संघ०-दोविहा०-थिरादिह्युग०-दोगोद० सिया० असंखेज्जगुणम्भहियं० ।

५०१. तिरिक्ख० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-

जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगतित्रिकको छोड़कर मनुष्यगतिद्विकका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तथा पञ्चेन्द्रियजाति आदि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भी नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । परावर्तमान प्रकृतियोंका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

४९९. तिर्यञ्चायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, उद्योत, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

५००. मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव ध्रुवबन्धवाली सम्यक्त्वसम्बन्धी प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । तथा तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि इसका बन्ध करता है तो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके साथ इसका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगुह्यत्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सात नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

५०१. तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-

१. आ० प्रतौ 'मणुसगद्दिदुसं' णि० वं० धुवियाणं' इति पाठः ।

२. ता० प्रतौ 'पंचंत' [णि० वं० णि० अज्ज०] असंखेज्जगुणम्भ०' इति पाठः ।

भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-सत्तणो० सिया० जह० ।
णामाणं सत्थाण०भंगो । एवं सच्चाणं णामाणं हेट्ठा उवरिं तिरिक्खगदिभंगो । णामाणं
अप्पप्पणो सत्थाण०भंगो । णवरि मणुसगदिदुग्गस्स दोगोदं अत्थि ।

५०२. तित्थं जह० पदे० वं० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं०-
उचा०-पंचंत० णि० वं० णि० अजह० असंखे०गुणवमहियं० । दोवेद०-चदुणो०
सिया० असंखे०गुणवमहियं० । णामाणं सत्थाण०भंगो ।

५०३. एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि विदिय-तदिय० [सादा०] जह० पदे० वं०
पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय-दुगुं० - मणुस०-पंचिदि० - ओरालि०-तेजां० - क०-
ओरालि०अंगो०-वण्ण०-मणुसाणु०-अगु०-तस०-णिमि०-पंचंत० णि० वं० णि०
अजह० असंखे०गुणवम० । थीणगिद्धि०-दोवेद०-मिच्छ०-अणताणु०-सत्तणो०-
छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा०-थिरादिछयुग०-दोगोद० सिया० असंखेज्जगुणवम० ।

वरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और सात नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार नामकर्मकी सब प्रकृतियोंमेंसे विवक्षित प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान है । तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने-अपने स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके दो गोत्रका यथायोग्य बन्ध होता है ।

५०२. तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-
वरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

५०३. इसी प्रकार अर्थात् सामान्य नारकियोंमें कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दूसरी और तीसरी पृथिवीमें साता-
वेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक-
शरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृह्णिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सात नोकपाय, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे

१. ता०प्रती 'णीचा० [पंचंत० णि० वं० णि०] जह०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'तदिय०'
[जह० पदे०] वं० पंचणा०' आ०प्रती 'तदिय० जह० पदे० वं० पंचणा०' इति पाठः । ३. आ०प्रती
'थीणगिद्धि ३ मिच्छ०' इति पाठः ।

तित्थ० सिया० जह० । तित्थ० जह० पदे०वं० मणुसाउ० णि० वं० णि० जह० ।
सेसाणं ध्रुवपगादीणं णि० वं० णि० अजह० असंखे०गुणम्भहि० । सत्तमाए मणुस०
जह०^१ पदे०वं० सम्मत्तपाओग्माणं ध्रुवियाणं णि० वं० णि० अजह० असंखेज्जगुणम्भ-
हियं० । परियत्तमाणिमाणं सिया०^२ असंखे०गुणम्भहियं० । एवं मणुसाणु०-उच्चा० ।

५०४. तिरिक्ख०-पंचिदि०तिरिक्ख०-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीसु^३ ओघो ।
णवरि जोणिणीसु गिरयाउ० जह० पदे०वं० गिरय०-त्रेउव्वि०-त्रेउव्वि०अंगो०-गिर-
याणु० णि० जह० । सेसाणं णि० वं० णि० अजह० असंखेज्जगुणम्भहियं० । देवाउ०
जह० पदे०वं० देवगदि-त्रेउव्वि०-त्रेउव्वि०अंगो०-देवाणु० णि० वं० णि० जह० ।
सेसाणं ध्रुवियाणं णि० अजह० असंखेज्जगुणम्भहियं० । परियत्तमाणिमाणं सिया०^४

असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव मनुष्यायुका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव सन्धक्त्वप्रायोपय ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । परावर्तमान प्रकृतियोंका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५०४. सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च यांनिर्ना जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च थोनिनिथोंमें नरकायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव नरकगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । परावर्तमान प्रकृतियोंका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । खीवेद और पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता ।

१. ता०प्रती 'सत्तमाए जह०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'परियत्तमाणिगाणं सिया०' इति पाठः ।

३. ता०प्रती 'उच्चा० तिरिक्ख० पंचि० तिरि० । पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तजोणिणीसु' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'वेड०अंगो० [देवाणु०] ध्रुवियाणं रि० अज० असंखे० गु० परियत्तमाणिगाणं [विह्वान्तगत्तपाठः ताइपत्रमंनसूलप्रती सुनरुकोस्ति] । [अत्र ताइपत्रमेकं विनटम्] सिया०' इति पाठः ।

असंखेजगुणम् । इत्थि-पुरिस० सिया० असंखेजगुणम्हि० । एवं देवगदि-देवाणु० । वेउच्चि० जह० पदे०वं० दोआउ०-दोगदि-दोआणु० सिया० जह० । वेउच्चि०अंगो० णि० जह० । सेसं दुगदिमंगो । एवं वेउच्चि० वेउच्चि०अंगो० ।

५०५. पंचिदि०तिरिक्खअपज्ज० सब्वअपज्जचाणं एइदिय-विगलिदिय-पंचकायाणं च मूलोर्धं । णवरि तेज०-वाउ० मणुसगादि०४ वज्ज ।

५०६. मणुस०-मणुसपज्जत्त-मणुसि० ओघो । णवरि मणुसिणीसु देवाउ० जह० पदे०वं० पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-पसत्थ० - थिरादिह०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० अजह० असंखेजगुणम् । धीणगि०३-मिच्छ०-वारसक०-इत्थि०-पुरिस० सिया० असंखेजगुणम् । देवगदि०३ णि०^२ चं० णि० तं तु० संखेजदिभागम्हियं । आहारदुग-तित्थि० सिया० जह० । वेउच्चि० अंगो० णि०^३

यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातरुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान देवगति और देवगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए । वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव दो आयु, दो गति और दो आनुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग दो गतिके समान है । इसी प्रकार अर्थात् वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५०५. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक, सब अपर्याप्तक, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें मूलोर्धके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगतित्तुष्कको छोड़कर सन्निकर्ष करना चाहिए ।

५०६. मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्योमे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनिर्योमे देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संव्वलन, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तीजसजरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातरुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, वारह कषाय, स्त्रीवेद और पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातरुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । देवगतिन्निकका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । आहारकद्रिक और तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य

१. आ०प्रती 'वण्ण० तस० ४ पसत्थ० थिरादिदुगुं णिमि०' इति पाठः ।

२. ता०आ०प्रत्योः 'देवगदि०४णि०' इति पाठः । ३. ता०आ०प्रत्योः 'वेउच्चि० णि०' इति पाठः ।

बंधं णि० तं तु० सादरेयं दुभागबभहियं० । वेउव्वि० जह० पदे०वं० देवाउ०-देवग०-
आहारदुग-देवाणु०-तित्थ० णि० बं० णि० जह० । वेउव्वि०अंगो० णि० जहण्णा ।
एवं वेउव्वि०अंगो० । आहार० जह० पदे०वं० देवाउ०-देवग०-वेउव्वि०-वेउव्वि०-
अंगो०-आहार०अंगो०-देवाणु०-तित्थ० णि० बं० णि० जहण्णा । एवं आहारंगो० ।

५०७. देवगदि० देवेसु^३ भवण०-वाणवे०-जोदिसिय० पदमपुढविभंगो ।
सोधम्मसीसाणेसु आभिणि० जह० पदे०वं० चटुणा०-पंचंत० णि० बं० जहण्णा ।
थीगगिद्धि०३-दोवेदणी०-मिच्छ० - अणंताणु०४-इत्थि० - णुत्स०-आदाव० - तित्थ० -
दोगोद० सिया० जहण्णा । छदंस०-धारसक०-भय-दु० णि० बं० तं तु० अणंत-
भागबभहियं० । पंचणोक० सिया० तं तु० अणंतभागबभहियं० । दोगदि-दोजदि-

प्रदेशबन्ध करता है। वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु इसका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे साधिक दो भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव देवायु, देवगति, आहारकद्विक, देव-गत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवके समान वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष जानना चाहिए। आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव देवायु, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, आहारकशरीर आज्ञोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान आहार-कशरीर आज्ञोपाङ्गका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए।

५०७. देवगतिमें देवोमे तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे पहली पृथिवीके समान भङ्ग है। सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोमे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धोचतुष्क, खोवेद, नपुंसकवेद, आतप, तीर्थङ्कर और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। छह दर्शनावरण, दारह कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। पाँच नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, दो जाति, छह संस्थान, औदारिक-

३. ता०प्रती 'एवं आहारंगो० देवगदि । देवेसु' इति पाठः ।

छस्संठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्सबंध० - दोआणु०-उज्जो० -दोविहा० - तस-थावर - थिरादि-
छयुग०^१ सिया० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं । ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-
वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० तं तु० संखेज्जदिभागम्भ० । एवं चहुणा०-सादासाद०-
पंचंत० ।

५०८. णिदाणिहाए जह० पदे०वं० पंचणा०-अहदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-
भय-दु०-पंचंत० णि० वं० णि० जहण्णा । दोवेदणी०-सत्तणोक०-आदाव०-दोगोद०
सिया० जहण्णा । तिरिक्ख०-दोजादि-छस्संठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्सबंध०-तिरिक्खाणु०-
उज्जो०-दोविहा०-तस-थावर-थिरादिछयुग०^२ सिया० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं० ।
मणुसग०-मणुसाणु० सिया० संखेज्जभागम्भहियं० । ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-
अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमिणं णियमा० वं० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं० ।

शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्या प्रदेशबन्ध करता है । औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान चार ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५०८. निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, आठ दर्शना-
वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यञ्चगति, दो जाति, छह संस्थान, औदारिक-
शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश बन्ध करता है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-
चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी

१. आ०प्रती 'तसादि थावरदिछयुग०' इति पाठः । २. आ०प्रती 'तसयावरादिछयुग०' इति पाठः ।

एवं० अट्टंसं०-मिच्छं०-सोलसकं०-णवणोकं०-णीचागोदं । णवरि इत्थिं०-पुरिसवे०
जहं० बंधं० एइंदियतिगं वज्ज । उज्जीवं० सियां० जहण्णा ।

५०९. दोआउं० णिरयमंगो । णवरि तिरिक्खाउं० जहं० पदे०वं० एइंदियतिगं०
सियां० असंखेज्जगुणंमहियं० ।

५१०. तिरिक्खं० जहं० पदे०वं० पंचणां०-णवदंसणां०-मिच्छं०-सोलसकं०-
भय-दु०-णीचां०-पंचंतं० णियमा वं० णियमा जहण्णा । दोवेदणीय-सत्तणोकसायं
सियां० जहण्णा । णामाणं सत्थाणं०मंगो । एवं तिरिक्खगदिमंगो एइंदिं०-पंचसंठां०-
पंचसंधं०-तिरिक्खाणुं०-आदाउज्जीव-अप्पसत्थं०-थात्र-दूसग-दुस्सर-अणादे० ।

५११. मणुसगं० जहं० वं० पंचणां०-उच्चां०-पंचंतं० णियमां० बंधं० णियमा
जहण्णा । छदंसं०-चारसकं०-पुरिसं०-भय-दु० णिं० धं० णिं० अजहं० अणंतभाग-
महियं० । दोवेदणीं० सियां० जहण्णा । चटुणोकं० सियां० अणंतभागंमहियं ।

प्रकार अर्थात् निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान आठ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय और नीचगोत्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि खीवेद और पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके एकेन्द्रियजाति आदि तीनको छोड़कर सन्निकर्ष करना चाहिए । वह उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

५०९. दो आयुओका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जिस प्रकार नारकियोंमें कह आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रियजातित्रिकका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

५१०. तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और सात नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५११. मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता

गामाणं सत्थाण०भंगो । एवं मणुसाणु०-तित्थ० ।

५१२. पंचिदि० जह०' पदे०वं० पंचणाणावरणी०-पंचंत० णियमा बंध० णियमा जहणा । धीणगिद्धि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०'-णवुंस०-दोभोद० सिया० जहणा । छदसणा०-चारसक०-भय-दुगुं णियमा बंध० तं तु० अणंतभागव्भहियं० । पंचणोक० सिया० तं तु० अणंतभागव्भहियं० । गामाणं सत्थाण०भंगो । एवं पंचिदियजादिभंगो तिणिसरीर-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४- थिरादितिणियुग० - सुभग-सुस्सर -आदे०-णिमि० । एदेण वीजेण याव सव्वट्ठ त्ति षोदव्वं ।

५१३. पंचिदिय०-तस०२ मूलोघं । पंचमण०-तिणिवचि०^३ आभिणि० जह० पदे०वं० चदुणा०-पंचंत० णियमा वं० णियमा जहणा । धीणगिद्धि०३-दोवेदणीय-

हे । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार अर्थात् मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान मनुष्यगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर-प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५१२. पञ्चेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगुद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व अनन्तालुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, चारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराच-संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा आगे सर्वार्थसिद्धिके देवों तक इसी बीज पदके अनुसार अर्थात् सौधर्म-पेशान कल्पमे जिस प्रकार कहा है उसे ध्यानमें रखकर सन्निकर्ष ले जाना चाहिए ।

५१३. पञ्चेन्द्रियदिक और त्रसदिकमें मूलोघके समान भङ्ग है । पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगुद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तालुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद,

१. ता०प्रतौ 'मणुसाणु० । तित्थ० पंचंत० जह०' आ०प्रतौ 'मणुसाणु० ति०' । पंचंत० जह०' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'दोवेदणी० अणंताणु०४ इत्थि०' इति पाठः । ३. आ०प्रतौ 'पंचमण० पंचवचि० तिणिवचि०' इति पाठः ।

मिच्छ०-अणंताणु०-४-इत्थि०-णवुंस०-चदुआउग०-गिरयग०-गिरयाणु०-आदाव-दोगोद०
सिया० जह० । छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दु० गियमा० वं० तं तु० अणंतभागम्भहियं
बंधदि । अडुक०-पंचणोक्क० सिया० तं तु० अणंतभागम्भहियं बंधदि त्ति । तिगादि-
पंचजादि० तिणिसरीरं छस्संठाणं दोअंगोवंगं छस्संधणं तिणियाणुपुच्चि० पर०
उस्सात्तं उजोवं दोविहा० तसादिदसयुगलं तित्थयरं सिया० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं
बंधदि । तेजा-कम्मइग०-वण्ण०-४-अगु०-उप०-णिमि० गियमा बंधदि तं तु०
संखेज्जदिभागम्भहियं बंधदि । वेउच्चि०अंगो० सिया० तं तु० विट्ठानपदिदं बंधदि
संखेज्जभागम्भहियं बंधदि संखेज्जगुणम्भहियं वा । एवं चदुणाणावरणीयं पंचंतराइगं ।

५१४. गिहाणियाहाए जह० पदे०वं० पंचणाणा०-अट्ठदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-
भय-दुगुं०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-सत्तणोक्क०-चदुआउ०-गिरयग०-

नपुंसकवेद, चार आयु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और दो गोत्रका कदाचित् वन्ध
करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य
प्रदेशवन्ध करता है । छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय और जुगुप्ताका नियमसे वन्ध
करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशवन्ध भी
करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक
अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । आठ कषाय और पाँच नोकषायका कदाचित् वन्ध करता है
और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है
और अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे
अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । तीन गति, पाँच जाति, तीन शरीर, छह
संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आलुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति,
त्रस आदि दस युगल और तीर्थङ्करप्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध
नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेश-
वन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक
अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । तैजसशरीर, कामेणशर, वर्णचतुष्क, अगुल्लु, उपघात और
निर्माणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है और
अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । वैकियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित्
वन्ध करता है और कदाचित् वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उसका जघन्य
प्रदेशवन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता
है तो उसका द्विस्थान पतित वन्ध करता है, संख्यातभाग अधिक वन्ध करता है या संख्यातगुणा
अधिक वन्ध करता है । इसी प्रकार अर्धान् आभिनियोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध
करनेवाले जीवके समान चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले
जीवके संश्लिष्य जानना चाहिये ।

५१४. निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, आठ दर्शना-
वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्ता और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता
है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, चार
आयु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और दो गोत्रका कदाचित् वन्ध करता है और
४१

गिरयाणु०-आदाव-दोगोद०^१ सिया० जह० । तिरिक्ख०-पंचजादि-ओरालि०-उस्संठा०-ओरालि०-अंगो०-उस्संथ०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा० - उज्जो० - दोविहा०^२-ततादिस-युग० सिया० संखेज्जदिभागब्भहियं बंधदि । दोगदि-वेउग्घि०-दोआणु० सिया० संखेज्जदिभागब्भहियं^३ बं० । तेजा०-क० णि० संखेज्जदिभागब्भहियं बं० । वण्ण०-अगु०^४-उप०-णिमि णि० बं० तं तु० संखेज्जदिभागब्भहियं बं० । वेउग्घि०-अंगो० सिया० बं० सिया० अबं० । यदि बं० अजह० संखेज्जगुणब्भहियं० । एवं णिहा-णिहाए^५ अंगो० अट्टदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु० ।

५१५. सादा० आभिणि०-अंगो० । णवरि गिरयगदित्तिगं वज्ज ।

५१६. असादा० जह० पदे०बं० पंचणा०पंचंत० णि० बं० णि०^६ जह० ।

थीणगिद्धि०-३ - मिच्छ० - अणंताणु०-४ - इत्थि० - णवुंस०-तिणिणआउ०-गिरयगदि०-२-

कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यञ्चगति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, छद्द संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गो-पाङ्ग, छद्द संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति और त्रस आदि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, वैक्रियिकशरीर और दो आनुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करना है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर और कार्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वर्णचतुष्क, अगुरुल्लघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान आठ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५१५. सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष भङ्ग आभिनि-बोधिक ज्ञानाचरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान है । इतनी विशेषता है कि नरकगतित्रिकको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

५१६. असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । त्यानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तीन आयु, नरकगति-

१. ता०प्रती 'गिरयाणु० आ...गोद०' जा०प्रती 'गिरयाणु० दोगोद०' इति पाठः । २. आ०प्रती 'उस्सा० दोविहा०' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'वेउग्घि० [दोआणु०]...संखेज्जदिभा०' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'संखेज्जदिभा० वण्ण० ४ अगु०' इति पाठः । ५. आ०प्रती 'एवं णिहाए' इति पाठः । ६. ता०प्रती 'ज० बं० पंचंत० णि० [बं०] णि०' आ०प्रती 'जह० पदे० बं० पंचंत० णि० बं०' इति पाठः ।

आदाव०-तित्थ०-[दोगोदं०] सिया० जह० । छदंस० बारसक०-भय-दु० णि०' तं तु० अणंतभागम्भहियं० । पंचणोक० सिया० तं तु० अणंतभागम्भहियं बं० । दोगदि^२-पंचजादि-ओरालि०-छस्संठा० - ओरालि०अंगो०-छस्संघ० - दोआणु० - पर० - उस्सा०-उज्जो०-दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं बं० । तेजा०-क० णिद्दाए भंगो । वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० णि० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं बं० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो०^३ सिया० संखेज्जगुणम्भहियं बं० ।

५१७. इत्थि० जह० पदे०बं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-पंचंत० णि० बं० णि० जह० । दोवेदणी०-चदुणोक०-तिणिआउ०-उज्जो०^२-दोगोद० सिया० जह० । तिरिक्ख०-ओरालि०-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-तिरिक्खाणु०-

द्विक, आतप, तीर्थङ्कर और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, पाँच जानि, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति और त्रस आदि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर और कामणशरीरका भङ्ग निद्राका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके इनका जिस प्रकार सन्निकर्ष कह आये है उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए । वर्षचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

५१७. स्त्रीवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय, तीन आयु, उद्योत और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यञ्जगति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति

१ ता०प्रती 'ञ्ज [दंसणा० णि० बं०] णि०' आ०प्रती 'छदंस .. 'णि०' इति पाठः ।

२. आ०प्रती 'तं तु० । दोगदि०' इति पाठः । ३. आ०प्रती 'वेउन्वि० सिया० वेउन्वि०अंगो०' इति पाठः ।

४. ता०प्रती 'भयदु० [पंचदंस०] '...उज्जो०' आ०प्रती 'भय-दु० पंचदंसउज्जो०' इति पाठः ।

दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागम्बहियं वं० । दोगदि-वेउच्चि०-
दोआणु० सिया० संखेज्जदिभागम्बहियं वं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण०४-अगु०४-
तस०४-णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागम्बहियं वं० । णवरि तेजा०-क० तं तु०
णत्थि । वेउच्चि०अंगो० सिया० संखेज्जदिभागम्बहियं० संखेज्जगुणम्बहियं० । पुरिसं०
इत्थि०भंगो ।

५१८. णत्तुसं० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-
पंचंत०' णि० वं० णि० [जह०] । दोवेद०-चदुणोक्क०-तिण्णआउ०-णिरय०-णिरयाणु०-
आदाव०-दोगोद० सिया० जह० । तिरिक्ख०-पंचजादि-ओरालि०-छस्संठा०-ओरा०अंगो०-
छस्संध०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया० तं तु०

और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, वैक्रियिकशरीर और दो आनुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इतनी विशेषता है कि तैजसशरीर और कार्मणशरीरका तंतु बन्ध नहीं होता । वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है या संख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष भङ्ग स्त्रीवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्षके समान है ।

५१८. नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-
वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय, तीन आयु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यञ्चगति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गो-
पाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति और त्रस आदि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश-

संखेज्जभागग्महियं वं० । मणुस०-वेउव्वि०-मणुसाणु० सिया० संखेज्जदिभागग्महियं वं० । तेजा०-क० णियमा संखेज्जदिभागग्महियं० । वण्ण०४-अगु०-उप० णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागग्महियं वं० । वेउव्वि०अंगो० सिया० संखेज्जदिभागग्महियं वं० । अरदि-सोग० णडुंसगभंगो' । हस्सरदि-भय-दु० णिहाए भंगो ।

५१९. णिरयाउ० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णडुंस०-अरदि-सोग-भय-दु०-णिरय०-णिरयाणु०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० जहणा । पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अधिरादिछ०-णिमि० णि० संखेज्जदिभागग्महियं० । वेउव्वि०अंगो० णि० सादिरैयं दुभागग्महियं वं० ।

५२०. तिरिक्खाउ०^३ जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह०^३ । दोवेद०-सत्तणोक्क०-आदा० सिया०

बन्ध करता है । मनुष्यगति, वैक्रियिकशरीर और मनुष्यगत्यानुपूर्विका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर और कार्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपयात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर आङ्गो-पाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । अरति और शोकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्षका भङ्ग नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान है । हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्षका भङ्ग निद्राका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान है ।

५१९. नरकायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्विका, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चोन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक दो भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

५२०. तिर्यञ्जायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय

१. ता०प्रती 'सिया' [संखेज्जदिभा०] 'णडुंसकभंगो' आ०प्रती 'सिया० संखेज्जदिभागग्महियं वं० ।' 'णडुंसगभंगो' इति पाठः । २. ता०प्रती 'सादिरैयं दुभागग्महियं वं० । एवं णिरय० । तिरिक्खाउ०' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'णीचा' [पंचंत० णि०] जह०' आ०प्रती 'णीचा पंचंत सिया० जह०' इति पाठः ।

जह० । तिरिक्ख०-ओरालि०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० णि० वं तं तु० संखेज्जदि-
भाग्ग्महियं वं० । पंचजादि-छस्संठा०-ओरा०अंगो०-छस्संध०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-
दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया० तं तु० संखेज्जदिभाग्ग्महियं वं० । तेजा०-क०-
णि० वं० संखेज्जदिभाग्ग्म० ।

५२१. मणुसाउ० जह० प०वं० पंचणा०^३-पंचंत० णि० वं० णि० जह० ।
थीणगिद्धि०२-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-अपज्ज० - तित्थ०-दोगोद०
सिया० जह० । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभाग्ग्महियं
वं० । पंचणोक्क० सिया० तं तु० अणंतभाग्ग्महियं वं० । मणुस०-पंचिदि०-
ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-मणुसाणु० - अगु०-उप०-तस-वाद्द - पत्ते०-णिमि०

और आतपका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। तिर्यङ्गगति, औदारिकशरीर, वर्ण-
चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका जघन्य
प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध
करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। पाँच
जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो
विद्यायोगति और त्रस आदि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध
नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य
प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। तैजसशरीर और कार्मणशरीरका नियमसे बन्ध
करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है।

५२१. मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्त-
रायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। स्वानगृहि-
त्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अपर्याप्त, तीर्थङ्कर
और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि
बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। छह दर्शनावरण,
बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका
जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य
प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है।
पाँच तोक्षायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध
करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध
करता है। मनुष्यगति, पञ्चोन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्ण-
चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वाद्द, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे
बन्ध करता है। किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध
भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक

१. ता०प्रती 'सिया०' [तं तु०] संखेज्जदिभा०' आ०प्रती 'सिया तं तु० संखेज्जदिभाग्ग्महियं'
इति पाठः । २. ता०प्रती 'ज० [पदे० वं०] पचणा०' इति पाठः ।

णि० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं वं० । तेजा०-क० णि० संखेज्जदिभागम्भहियं वं० । समचदु०-वज्जरि०-[पर०-उस्सा०-] पसत्थ०-पज्जत्त०-थिरादितिणियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं वं० । पंचसंठा०-पंचसंघ०-अपपसत्थ०-[अपज्जत्त-] द्भग-दुस्सर-अणादे० सिया० संखेज्जदिभागम्भ० ।

५२२. देवाउ० जह० पदे०व० पंचणा०-सादा०-[उच्चा०-] पंचंतरा० णि० वं० णि० जह० । थोणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि० सिया० जह० । छदंसणा०-चदुसंज०-हस्सर-दि-भय-दु० णि०, वं० तं तु० अणंतभागम्भहियं वं० । अट्ठक०-पुरिस० सिया० तं तु० अणंतभागम्भहियं वं० । देवगदि-वेउच्चि०-तेजा०-क०-देवाणु० णि० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं० । पंचिदि०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०' णि० वं० णि० अजह० संखेज्जदिभागम्भहि० । वेउच्चि०-

अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर और कार्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुम्बर और आदेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात-भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पौंच संस्थान, पौंच संहनन, अप्रशस्त विहायो-गति, अपर्याप्त, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश-बन्ध करता है ।

५२२. देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, उच्चगोत्र और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश-बन्ध करता है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्याज्ञ, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, चार संवलन, हान्य, रति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । आठ कषाय और पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । देवगति, वैक्रियिक-शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश-बन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है

अंगो० णि० तं तु० सादिरेयं दुभाग० संखेज्जदिभागम्भ० । आहारदुगं सिया० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं० । तित्थ० सिया० संखेज्जदिभागम्भ० ।

५२३. गिरय० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दु०-णिरयाउ०-णिरयाणु०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० जहण्णा । पंचिदि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-अगु०४-अप्पसत्य०-त्तस०४-अथिरादिछ०-णिमि०^१ णि० संखेज्जदिभागम्भ० । वेउच्चि०अंगो० णि० संखेज्जगु० ।

५२४. तिरिक्ख० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तिरिक्खाउ०-ओरालि०^२-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-उज्जो०-त्तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोषेद०-सत्तणोक्क०-चदुजादि-छस्संठा०-छस्संध०-दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० जह० । तेजा०-क०^३

जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। वैकिक्रियकारि आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उसका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे साधिक दो भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है या संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। आहारकद्विकका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है।

५२३. नरकगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकायु, नरकगत्यानुपूर्वी, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। पञ्चेन्द्रियजगति, वैकिक्रियकारारी, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, व्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। वैकिक्रियकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे संख्यातरुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है।

५२४. तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चायु, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर-आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, व्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, सात नोकषाय, द्वीन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तक चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध

१. आ०प्रतो 'अथिरादिछयु० णिमि०' इति पाठः । २. ता०आ० प्रत्योः 'तिरिक्खाउ० ओरालि०' इति पाठः । ३. भा०प्रतो 'सिया० तं तु० । तेजाक०' इति पाठः ।

णि० वं० णि० संखेज्जदिभागम्० । एवं तिरिक्खगदिभंगो हुंढ०-असंप०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० ।

५२५. मणुसग० जह० पदे०वं० पंचणा०-[मणुसाउ०-] पंचिदि०-[ओरालि०-] ओरालि०-अंगो०-वज्जि०-वण्ण०-४-मणुसाणु०-अगु०-४-पसत्थ०-तस०-४-सुभग-उस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । छदंस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु० णिय० अणंतभागम्० । दोवेदणी०-थिरादितिण्णियुग० सिया० जह० । चटुणोको सिया० अणंतभागम्०हि० । तेजा०-क० णिय० संखेज्जदिभागम्० ।

५२६. देवगदि जह० पदे०वं० पंचणा०-सादा०-देवाउ०-देवाणु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । छदंस०-चटुसंज०-पुरिस०-हस्सर-दि-भय-दु० णि० अणंत-भागम्० । अट्टक० सिया० अणंतभागम्० । पंचिदि०-समचटु०-वण्ण०-४-अगु०-४-पसत्थ०-तस०-४-थिरादिछ०-णिमि० णि० अजह० संखेज्जदिभाग० । वेउच्चि०-

करता है । तैजसशरीर और कर्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान हुण्डसस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्चमात्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर और अनादेयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५२५. मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, मनुष्यायु, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रप्रभनाराचसंहनन, वर्ण-चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थेङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेश-बन्ध करता है । दो वेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर और कर्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

५२६. देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, देवायु, देवगत्यानुपूर्वी, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । आठ कषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेश-बन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर, तैजस

तेजा०-क णि० तं तु० संखेज्जदिभा० । आहार०२ सिया० जह० । वेउन्वि०अंगो०
 णि० तं तु० सादिरेयं दुभागम्भ० । तित्थ० णियमा० संखेज्जदिभागम्भ० । एवं देवाणु० ।
 ५२७. एइंदि० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णुसंस०-
 भय-दुगुं-थावर०-णीचा०-पंचंत० णि० चं० जह० । दोवेद०-चदुणोफ०-आदाव०
 सिया० जह० । तिरिखखगदिसंजुत्ताओ णि० वं० संखेज्जदिभागम्भ० । उज्जो०-थिरादि-
 तिणियुग० सिया० संखेज्जदिभा० । एवं आदाव-थावर० ।

५२८. वीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि० हेहा उवरिं एइंदियभंगो । णामाणं
 सत्थाण० भंगो ।

५२९. पंचिदि० जह० पदे०वं० पंचणा०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-

शरीर और कार्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे सख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। आहारकद्विकका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु इसका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे साधिक दो भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। तीर्थङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गए सन्निकर्षके समान देवगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष कहना चाहिए।

५२७. एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, स्थावर, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, चार नोकपाय और आतपका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। तिर्यञ्चगतिसंयुक्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे सख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। उद्योत और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गए उक्त सन्निकर्षके समान आतप और स्थावरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष जानना चाहिए।

५२८. द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके इन प्रकृतियोंके कहे गए सन्निकर्षके समान जानना चाहिए। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है।

५२९. पञ्चेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण

अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । धीणाणि०३-दोवेद०-मिच्छ०-
अणंताणु०४-इत्थि०-णखुंस०-दोआउ०-दोगदि-छस्संठा०-छस्संघ०-दोआणु०-उज्जो०-
दोविहा०-थिरादिछयुग०-तित्थि०-दोगोद० सिया० जह० । छदंस०-चारसक०-भय-दुगुं०
णि० तं तु० अणंतभागम्भ० । पंचणोक० सिया० तं तु० अणंतभागम्भ० । तेजा०-क०
णि० संखेज्जदिभागम्भ० । एवं-पंचिदियजादिभंगो० समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-सुभग-
सुस्सर-आदे०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-थिरादितिणियुग०-
णिमि०^१ एदाणं पंचिदियभंगो ।

५३०. वेउव्वि० जह० पदे०वं० पंचणा०-सादा०-देवाउ०-देवग०-आहार०-
तेजा०-क०-दोअंगो०-देवाणु०-उच्चा०-पंचंत णि० वं० णि० जह० । छदंस०-चदुसंज०-
पुरिसं०-हस्स-रदि-भय-दु० णि० वं०^२ अणंतभागम्भ० । पंचिदि०-समचदु०-वण्ण०४-
अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०^३-तित्थि० णि० वं० णि० अजह०

और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। स्थानगृद्धि तीन, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसक-वेद, दो आयु, दो गति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल, तीर्थङ्कर और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। पौंच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। तैजसशरीर और कार्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे सख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गए सन्निकर्षके समान समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराच-संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगत और निर्माण इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए।

५३०. वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण, साता-वेदनीय, देवायु, देवगति, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, देव-गयानुपूर्वी, उच्चगोत्र और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। छह दर्शनावरण, चार संव्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रत्ति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और तीर्थङ्कर प्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे सख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी

१. ता०प्रतौ 'तस० णिमि०' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'रदि णि० वं०' इति पाठः । ३. आ०प्रतौ 'थिरादिद्यु० णिमि०' इति पाठः ।

संखेज्जदिभागवम० । एवं आहार०-तेजा०-क०^१-दोअंगो० । चदुसंठा०-चदुसंघ०
तिरिक्खगदिभंगो । णवरि पंचिदि० धुव० ।

५३१. सुहुम० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-
णवुंस०-भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-चदुणोफ०-साधार०
सिया० जह० । तिरिक्खाउ० णि० जह० । तिरिक्ख०-एईदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-
हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-[थावर०-पज्जत्त०-] दूमग-अपादे०-अजस०-णिमि०
णि० अजह० संखेज्जदिभागवमहियं । पत्तेय०-थिराथिर-सुभासुम० सिया० संखेज्जदि-
भागवम० । एवं साधार० ।

५३२. अपज्ज० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-
भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-चदुणोफ०-दोआउ० सिया०
जह० । दोगदि-चदुजादि-दोआणु० सिया० संखेज्जदिभागवम० । ओरालि०-तेजा०-क०-

प्रकार अर्थात् चैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्नि कर्षके समान आहारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर और दो आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका कहना चाहिए। चार संस्थान और चार संहननका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्नि कर्ष तिर्यञ्जगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये सन्नि कर्षके समान जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रियजातिका नियमसे बन्ध करता है।

५३१. सूक्ष्मकर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, चार नोकषाय और साधारणका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। तिर्यञ्जायुका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। तिर्यञ्जगति, एकैन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्यावर, पर्याप्त, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् सूक्ष्मकर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्नि कर्षके समान साधारण कर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्नि कर्ष कहना चाहिए।

५३२. अपर्याप्तका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, चार नोकषाय और दो आयुका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, चार जाति और दो आनुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर,

हुंङ०-ओरोलि०-अंगो०-असंप०-वण्ण०४-अगु०-उप०-तस०-वादर-पत्ते० - अथिरादिपंच०-
णिमि०' णि० अजह० संखेज्जदिभागम्भ० ।

५३३. तित्थ० मणुसगदिभंगो । उचा० जह० पदे०वं० पंचणा०-पंचंत० णि०
वं० णि० जह० । थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अर्णताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-दोआउ०
सिया० जह० । छदंस०-चदुसंज०-भय-दु० णि० वं० तं तु० अर्णतभागम्भहियं ।
अइक०-पंचणोक० सिया० तं तु० अर्णतभागम्भहियं० । दोगदि-तिणिसरीर-[समचदु०-]
दोअंगो०-वजरि०-दोआणु०-पसत्थ० - थिरादितिणियुग०-सुभग०-सुस्सर-आदे० - तित्थ०
सिया० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं० । [पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-
तस०४-णिमि० णि० वं० णि० अजह० संखेज्जभागम्भहियं वं०] । पंचसंठा०-पंचसंध०-
अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० सिया० संखेज्जभागम्भहियं० । वेउच्चि०-अंगो०

कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासूपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

५३३. तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये सन्निकर्षके समान जानना चाहिए । उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धित्तिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और दो आयुका कदाचित् बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, चार सञ्चलन, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । आठ कषाय और पाँच नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, तीन शरीर, समचतुरस्र-संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसहनन, दो आनुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे साधिक दो भाग अधिक अजघन्य

सिया० तं तु० सादिरैयं दुभाग० संखेज्जदिभागम्भदियं वा ।

५३४. वचिजो०-असच्चमोसवचि० तसपञ्जत्तभंगो । णवरि दोआउ०-वेउच्चियल्ल० जोणिणि०भंगो । आहारदुगं तित्थ० ओषं । कायजोगि० ओषं । ओरालियका० ओषभंगो । णवरि सुहुमपदमसमयसरीरपञ्जत्तयस्स सामित्तादो सण्णिकासो कादब्बो । चहुआउ०-वेउच्चिय०छक्क-आहारदुग-तित्थयराणं सह याओ पगदीओ आगच्छति ताओ असंखेज्जगुणाओ एदेण वोजेण णेदव्वाओ सच्चपगदीओ । ओरालियमि० ओषं । णवरि देवगदिपंचगं मणुसभंगो । वेउच्चियका०-वेउच्चियमि० सोधम्मभंगो ।

५३५. आहार०-आहार०मि० आभिणि० जह० पदे०वं० चहुणा०-छदंस०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगु०-देवाउ०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । देवगदि०-पंचिदि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउच्चि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि० णि० वं० णि० तं तु० संखेज्जदि-

प्रदेशबन्ध करता है या संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

५३४. वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि दां आयु और वैक्रियिकपट्टकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सन्निकर्ष भङ्ग पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान है । तथा आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है । काययोगी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । औदारिककाययोगी जीवोंमें भी ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि शरीरपर्याप्त होकर जो सूक्ष्म जीव प्रथम समयमें स्थित है वह यथायोग्य प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी होता है, इसलिए यहाँ इस बातको ध्यानमें रखकर सन्निकर्ष करना चाहिए । तथा चार आयु, वैक्रियिकपट्टक, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके साथ जो प्रकृतियों आती हैं वे नियमसे असंख्यातगुणी अजघन्य प्रदेशबन्धवाली होती हैं । इस वीजपदके अनुसार सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष ले जाना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चकका भङ्ग मनुष्योंके समान है । वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सौधर्म्यरूपके देवोंके समान भङ्ग है ।

५३५. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आभिनवोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवासु, लज्जोत्र और पाँच अन्तराक्षका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । देवगति, पञ्चन्द्रिय-जाति, वैक्रियिकशरीर, वैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गो-पाङ्ग, षण्चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्ररास्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इसका

भागम् । तित्थं सियां जहं । एवं चटुणां-छदंसं-सादां-चदुसंजं-पंचणोकं-
देवाउं-उच्चां-पंचंतं ।

५३६. असादां^१ जहं पदेवं पंचणां-छदंसं-चदुसंजं-पुरिसं-भयदुं-
देवगदि-पंचिदि-वेउच्चि-तेजां-क-समचदुं-वेउच्चि-अंगो-वण्णं-४-देवाणुं-
अगुं-४-पसत्थं-तसं-४-सुभग-सुस्सर-आदे-णिमि-उच्चां-पंचंतं, णिं वं णिं
अजहं संखेज्जभागम् । हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस-तित्थं सियां संखेज्जदिभागम् ।
अरदि-सोगं सियां जहं । अथिर-असुभ-अजसं सियां तं तुं संखेज्जदिभां ।
एवं अरदि-सोगाणं ।

५३७. देवगं जहं पदेवं पंचणां-छदंसणां-सादां-चदुसंजं-पुरिसं-
हस्स-रदि-भय-दु-देवाउं-पंचिदि-वेउच्चि-तेजां-क-समचदुं-वेउच्चि-अंगो-
वण्णं-४-देवाणुं-अगुं-४-पसत्थं-तसं-४-थिरादिछं^२-णिमि-तित्थं-उच्चां-पंचंतं

नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् आभिनियोधिकज्ञानावरणका
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान चार ज्ञानावरण, छह
दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, देवायु, उच्चगोत्र और पाँच
अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५३६. असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह
दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिक-
शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क,
देवगत्यागुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय,
निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। हास्य, रति, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति
और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि
बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। अरति
और शोकिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता
है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। अस्थिर, अनुभ और अयगःकीर्तिका
कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो जघन्य
प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध
करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार
अर्थात् असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके
समान अरति और शोकिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५३७. देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण,
सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवायु, पञ्चेन्द्रियजाति,
वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग,
वर्णचतुष्क, देवगत्यागुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि
छह, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका

१. तांप्रती 'पंचंतं असादं' इति पाठः । २. तांप्रती 'अगुं ४ तसं ४ थिरादिछं'
इति पाठः ।

णि० बं० णि० जह० । एवं देवगदिभंगो सव्याणं पसत्थाणं षामाणं ।

५३८. अधिर० जह० पदे०बंधं० सादावे०-हस्सरदि-सुभ-जस० सिया० संखेज्जदि-
भाग्ब० । असादा०-अरदि-सोग-असुभ-अजस० सिया० जह० । सेसाओ' णि० बं० णि०
अजह० संखेज्जदिभाग्ब० । एवं असुभ-अजस० ।

५३९. कम्महग० मूलोघभंगो । इत्थिवेदेसु पंचिंदियतिरिक्खजोणिणिभंगो ।
णवरि आहार०-आहार०अंगो०-तित्थ० मणुसि०भंगो । पुरिस० पंचिंदियतिरिक्खभंगो ।
णवरि आहारदुग-तित्थ० ओधो । णडुंसगे संठाणं^१ मूलोघं । णवरि वेउच्चियल्लं
जोणिणिभंगो । तित्थपरं ओषं पेरइगस्स भवदि ।

५४०. अवगदवेदेसु आभिणि० जह० पदे०बंधतो चतुणा०-चतुदंसणा०-
सादावे०-जसगि०-उच्चागो०-पंचंतरा० णि० बंधं० णियमा जहण्णा । क्रोधसंज० सिया०
जह० । माणसंज० सिया० तं तु० संखेज्जदिभाग्ब० । मायासंज० सिया० तं तु०

नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान नामकर्मकी सब प्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५३८. अस्थिर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव सातावेदनीय, हास्य, रति, शुभ और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् अस्थिरप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान अशुभ और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

५३९. कर्मणकायथोगी जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । स्त्रीवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आहारकशरीर, आहारक-शरीरआङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग मनुष्यनीके समान है । पुरुषवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है । नपुंसकवेदी जीवोंमें स्वस्थान मूलोघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकषट्कका पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान भङ्ग है । तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है । इसका जघन्य स्वामी नारकी होता है ।

५४०. अपगतवेदी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, लक्ष्मण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसंवलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । मानसंवलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता

१. ता०प्रतौ 'जह० सेसाओ' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'णु'सके० सं (स) इत्यं'

संखेज्जदिभागम्भ० संखेज्जगुणम्भहियं वा । लोभसंज० णियमा तं तु० संखेज्जदिभागम्भ०
संखेज्जगुणम्भहियं वा चटुभागम्भहियं वा । एवं चटुणा०-चटुदंस०-सादा०-जस०-
उच्चा०-पंचंत० ।

५४१. क्रोधसंज० जह० पदे०वं० पंचणा०-चटुदंस०-सादा०-तिणिसंज०-जस०-
उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । एवं तिणिसंज० ।

५४२. क्रोध-माण-माया-लोभं ओषं । मदि-सुद० सव्वाणं ओषं । णवरि
वेउव्वियल्लङ्गं जोणिसिंभंगो ।

५४३. विभंगे आभिणि० जह० पदे०वं० चटुणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-
भय-दु०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-सत्तणोको०-चटुआउ०-वेउव्वियल्ल०-
आदाव-दोगोद०' सिया० जह० । दोगदि०-पंचजादि-ओरालि०-ल्लसंठा०-ओरालि०-

है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। मायासंवलनका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभाग अधिक या संख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। लोभसंवलनका नियमसे प्रदेशबन्ध करता है। किन्तु वह इसका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभाग अधिक या संख्यातगुणा अधिक या चार भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करने-वाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय का जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए।

५४१. क्रोधसंवलनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना-
वरण, सातावेदनीय, तीन संवलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे
बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात्
क्रोधसंवलनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान तीन
संवलनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष कहना चाहिए।

५४२. क्रोधकषायवाले, मानकषायवाले, मायाकषायवाले और लोभकषायवाले जीवोंमें
ओषके समान भङ्ग है। मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके
समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें वैक्रियिकषट्कका भङ्ग पञ्चन्द्रिय तियञ्च योनिनी
जीवोंके समान है।

५४३. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला
जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो
वेदनीय, सात नोकषाय, चार आयु, वैक्रियिकषट्क, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता
है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य
प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर

१. आ०प्रती 'वेउव्वियल्ल० आहार० दोगोद०' इति पाठः । २. आ०प्रती 'सिया० दोगदि' इति पाठः ।

अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-पर०^१-उस्सा०-उज्जो०-दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया०
तं तु० संखेज्जदिभागम्भ० । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० णि० वं०
तं तु० संखेज्जदिभागम्भ० । एवं चदुणा०-णवदंस०-दोवेद०-भिच्छ०-सोलसक०-
णवणो०क०-दोगोद०-पंचतरा० । णवरि सादावेद० बंधंतस्स० णिरयगदितिर्गं वज्ज
असादावेदणीर्यं बंधंतस्स देवार० वज्ज० ।

५४४. इत्थि० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-भिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु०-
पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-चदुणा०-तिणिआउ०-दोगदि-वेसव्वि०-
वेसव्वि-अंगो०-दोआणु०-उज्जो०-दोगोद० सिया० जह० । तिरिक्ख०-ओरालि०-
छस्संटा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-तिरिक्खाणु०-दोविहा०-थिरादिछ्यु० सिया० तं तु०
संखेज्जदिभागम्भ० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० वं०

आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति और त्रस आदि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेश-बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् आभिनवोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करने-वाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके नरकगतिसन्निकर्षो छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । तथा असाता-वेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके देवायुको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

५४४. स्त्रीवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, लुगुप्ता और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय, तीन आयु, दो गति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, उद्योत और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यञ्जगति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रिय-जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस चतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात

तं तु० संखेज्जदिभागम्भ० । एवमेदेण कमेण षोदव्वाओ सव्वाओ पगदीओ । एवं पुरिस० । हस्सरदीणां साद०भंगो । अरदि-सोगाणं असाद०भंगो । णामाणं हेड्ढा उवरिं आभिणि०भंगो । णामाणं सत्थाण०भंगो ।

५४५. आभिणि०-सुद-ओधिणा० आभिणि० जह० पदे०वं० चदुणा०-छदंसणा०^१-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-चदुणोक० सिया० जह० । दोगदि-दोसरीर-दोअंगो०-वज्जरि०-दोआणु०-थिरादि-तिणिणयुग०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागम्भ० । पंचिदि०-नेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० तं तु० संखेज्जदिभागम्भ० । एवं चदुणा०-छदंसणा०-दोवेद०-वारसक०-सत्तणोक०-उच्चा०-पंचंत० ।

भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार इस क्रमसे सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष ले जाना चाहिए । इसी प्रकार पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष कहना चाहिए । तथा हास्य और रतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके साता-वेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान सन्निकर्ष कहना चाहिए और अरति व शोकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके समान सन्निकर्ष कहना चाहिए । नामकर्मकी प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले पृथक् पृथक् जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञाना-वरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये सन्निकर्षके समान है । तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

५४५. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्ता, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्षर्षमनोराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, स्थिर आदि तीन युगल और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामैणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, दो वेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

१. ता०प्रती 'चदुणो० छदंस०' इति पाठः ।

५४६. मणुसा० जह० पदे०वं० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-
दुगुं०-मणुसगदि० उवरि याव उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० अजह० असंखेज्जगुणब्भ० ।
दोवेद०-चदुणोको-थिरादित्तिणियुग०-तित्थ० सिया० वं० सिया० अवं० । यदि वं०
णि० अजह० असंखेज्जगुणब्भ० । एवं देवाउ० । णवरि देवाउगपाओग्गपगदीओ
णादन्वाओ भवति । आहारदुगं सिया० तं तु० संखेज्जदिभागब्भ० । तित्थ० सिया०
असंखेज्जगुणब्भ० ।

५४७. मणुस० जह० पदे०वं० पंचणा०-छदंस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-
उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० ज० । दोवेद०^१-चदुणोको सिया० जह० । णामाणं^२
सत्थाण०भंगो । एवं सब्बणामाणं । णवरि देवगदि० जह० पदे०वं० पंचणा०-छदंस०-
वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-चदुणोको

५४६. मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँचज्ञा नावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा तथा मनुष्यगतिसे लेकर उच्चगोत्र तक और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यालगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर आदि तीन युगल और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यालगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ र देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धके साथ बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियों जाननी चाहिए। यह देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव आहारकद्विकका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है।

५४७. मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार अर्थात् मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्षके समान नामकर्मकी अन्य प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता।

१. ता०प्रती 'पुरि०...दोवेद०' आ०प्रती० 'पुरिस० भय दु०...उच्चा० पंचंत० णि० वं० णि० ज० दोवेद०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'जह० णामाणं' इति पाठः ।

सिया० जह० । णामाणं सत्थाण० भंगो । एवं [वेउव्वि०-] वेउव्वि० अंगो०-देवाणु० ।
आहारदुगं^१ओषं । एवं ओधिदं०-सम्मादि० ।

५४८. मणपज्ज० आभिणि० ज्रह० पदे० वं० चदुणा०-छदंसणा०-सादा०-
चदुसंज०^२-पुरिस०-हस्स-रदि-भय दुगुं०-देवाउ०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० ।
देवगदि०-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा० - क० - समचदु०-वेउव्वि० अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-
अगु०४-पसत्थ०^३-तस०४-थिरादिछ०-णिमि० णि० तं तु० संखेज्जदिभागम्महियं० ।
आहारदुगं सिया० तं तु० संखेज्जदिभागम्महियं । तित्थ० सिया० जर्हं० । एवं
चदुणा०-छदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-उच्चा०-पंचंत० ;

५४९. असादा० जह० पदे० वं० पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-

यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। नामकर्षकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार अर्थात् देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरआङ्गोपाङ्ग और देशगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष कहना चाहिए। आहारक-शरीरद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्षका भङ्ग ओषके समान है। इसी प्रकार अर्थात् आभिनिबोधिकज्ञानी आदिके समान अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोके जानना चाहिए।

५४८. मनःपर्ययज्ञानी जीवोमे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवाणु, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुस्तरसंस्थान, वैक्रियिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। आहारकद्विकका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष कहना चाहिए।

५४९. असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह

१. ता०प्रती 'देवाणु० आहार०२' इति पाठः । २. ता०प्रती 'सम्मादि० मणु०... चदुसंज०' आ० प्रती 'सम्मादि० मणु०... चदुसंज०' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'वेउ० [तेजाक० समचदु० वेउव्वि० अंगो० वण्ण० ४]... देवाणु० अगु०४ पसत्थ' आ० प्रती 'वेउव्वि० तेजाक० समचदु० वेउव्वि० अंगो० वण्ण०४ देवाणु०' अगु०४ पसत्थ' इति पाठः ।

देवग०-पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-
तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० अजह० संखेज्ज-
भागवमि० । हस्सरदि-थिर-सुभ-जस०-तित्थ० सिया० संखेज्जदिभा० । अरदि-सोग०
सिया० जह० । वेउन्वि०अंगो० णि० वं० सादिरेयं दुभागवम० । अथिर-असुभ-
अजस० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागवम० । एवं अरदि-सोगाणं ।

५५०. देवगदि० जह० पदे०वं० पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-
हस्सरदि-भय-दुगुं०-देवाउ०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । णामाणं सत्थाण-
भंगो ।

५५१. अथिर० जह० पदे०वं० पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-
उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० अजह० संखेज्जभागवम० । सादा०-हस्सरदि-सुभ-जस०
सिया० संखेज्जभागवम० । असादा०-अरदि-सोग-असुभ-अजस० सिया० जह० । एवं

दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । हास्य, रति, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । अरति और शोकका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साधिक दो भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान अरति और शोकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५५०. देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवायु, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मको प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

५५१. अस्थिर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय, हास्य, रति, शुभ और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित्

असुभ-अजस० । सेसाणं तित्थयरेण सह णि० वं० णि० अजह० संखेज्जभगग्भ० । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार० । सुहुमसंप० उक्कसभंगो ।

५५२. संजदासंजदेसु आमिणि० जह० पदे०वं० चटुणा०-छदंस०-सादा०-अहक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगु०-देवाउ०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । देवग०-पंचिदि०-वेउच्चि०-तेजा० - क० - समचटु० - वेउच्चि०-अंगो०-वण्ण०-देवाणु०-अगु०-पसत्थ०-तस०-ध-थिरादिछ०-णिमि० णि० वं० तं तु० संखेज्जदिभागग्भ० । तित्थ० सिया० जह० । एवमेदेण कमेण परिहार०भंगो ।

५५३. असंदेसु मूलोघं । चक्खु०-अचक्खु०-सणिण० मूलोघं । किण्ण-णील-काउ० मूलोघं । केण कारणेण ? दब्बलेस्सा तस्स तिणिणवि भावलेस्सा^१ परियत्तं तेण कारणेण० । तित्थ० जह० पदे०वं० देवगदि०४ णि० वं० णि० अजह० असंखेज्जगुणग्भ० ।

बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् अस्थिरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान अणुभ और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका तीर्थङ्कर प्रकृतिके साथ नियमसे बन्ध करता है जो इनका संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् मनःपर्ययज्ञानी जीवके समान संयत, सामाधिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहार-विशुद्धिसंयत जीवोंमें जानना चाहिए । सूक्ष्मसान्प्ररायसंयत जीवोंमें अपने उत्कृष्ट सन्निकर्षके समान भङ्ग है ।

५५०. संयतासंयत जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, आठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवायु, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इस प्रकार इस क्रमसे परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान संयतासंयत जीवोंमें सन्निकर्ष भङ्ग जानना चाहिए ।

५५३. असंयतोमें मूलोघके समान भङ्ग है । चक्षुदर्शनवाले, अचक्षुदर्शनवाले और संज्ञी जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । किस कारणसे ? क्यों कि जो द्रव्यलेश्या है उसकी तीनों ही भावलेइयाएँ परावर्तमान हैं इस कारणसे । यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव देवगतिचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य

१. ता०प्रवै, दब्बा लेस्सा ? तस्स तिणिण विभाग (व) लेस्सा' इति पाठः ।

सेसाओ पगदीओ धुवियाओ परियत्तमाणिगाए असंखेजगुणाओ । किण्ण-णीत्ताणं देवगदि०४ जह० पदे०वं० तित्थकरं णत्थि ।

५५४. तेऊए आभिणि० जह० पदे०वं० चटुणा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । थीणगिद्धि०३ -दोवेद० - मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णुत्तंस०-आदाव-दोगो० सिया० जह० । छदंसणा०-वारसक०-भय-दु० णि० वं० तं तु० अणंतभागव्महियं० । पंचणोक० सिया० तं तु० अणंतभागव्महियं० । तिण्णिगदि-दोजादि-दोसरर-छस्संठा०-दोअंगो०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-उजो०-दोविहा०-तस०-थावर - थिरादिछयुग०^१-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्जदिभागव्महियं० । [तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-बादर-पज्जच-पत्ते०-णिमि० णि० तं तु० संखेज्जदिभागव्म० ।] एवं चटुणा०-दोवेद०-पंचंत० ।

५५५. गिहाणिहाए जह० पदे०वं० पंचणा०-अह्दंस०-मिच्छ०-सोलसक०-

प्रदेशबन्ध करता है । शेष ध्रुव प्रकृतियोंको परावर्तमान प्रकृतियोंके साथ असंख्यातगुणा बाँधता है । मात्र कृष्ण और नीललेइयामें देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता ।

५५४. पीतलेइयावाले जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगुद्धित्तिक, दो वेदनीय, सिथ्याएव, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, खीवेद, नपुंसकवेद, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । प.च नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तीन गति, दो जाति, दो शरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, रथावर, स्थिर आदि छह युगल और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तैजस-शरीर, काम्येणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे इनका संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात् आभिनिवोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये वक्त सन्निकर्षके समान चार ज्ञानावरण, दो वेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

५५५. मिद्धानिद्धाना जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, आठ दर्शना-

भय-दु०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-सत्तणोक्०-आदाव-दोगो० सिया० जह० । तिरिक्ख०-दोजादि-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-दोविहा०-तस-थावर०-थिरादिछियुग०' सिया० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं० । मणुसगं०-मणुसाणु० सिया० संखेज्जदिभागम्भहियं० । ओरालि०-तेजा०-क०-वण्णा०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं० । एवं अट्टदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंसं०-छण्णोक्०-णीचा० । इत्थि^२-पुरिसाणं पि तं चेव । णवरि एइंदियसंजुत्ताओ णिय० । दोआउ०^३ देवभंगो । देवाउ० ओघं० ।

५५६. तिरिक्ख० जह० पदे०वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुशुं०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेदणी०-सत्तणोक्०-छस्संठा०-छस्संघ०-

वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, सात नोकषाय, आतप और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। तिर्यञ्जगति, दो जाति, छह संस्थान, औदारिक-शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह सहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेश-बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात् निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान आठ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, छह नोकषाय और नीचगोत्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए। स्त्रीवेद और पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके भी वही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि यह एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंका नियमसे प्रदेशबन्ध करता है। दो आयुओका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग देवोंके समान है। तथा देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग ओघके समान है।

५५६. तिर्यञ्जगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, सात नोकषाय, छह संस्थान, छह सहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध

१. ता०भा०प्रत्योः 'थिरादित्तिणियुग०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'णीचा०इ इत्थि०' इति पाठः । ३. ता०भा०प्रत्योः 'संजुत्ताओ जह० । दोआउ०' इति पाठः ।

दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० जह० । पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-
अंगो०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-उज्जो०-तस०४-णिमि० णि० वं० णि० जह० ।
एवं तिरिक्खगदिभंगो संठाणं सम्माणं मिच्छादिट्ठिपाओग्गणं ।

५५७. मणुस० जह० पदे०वं० पंचणा०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० ।
छदंस०-बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं० णि० वं० णि० अजह० अणंतभागम्भ० ।
दोवेदणी०-थिरादितिणियुग०^१ सिया० जह० । चदुणोक० सिया० अणंतभागम्भं० ।
णामाणं सत्थाण०भंगो । एवं मणुसाणु०-तित्थ० ।

५५८. देवग० जह० पदे०वं० हेडा उवरिं मणुसगदिभंगो । णामाणं सत्थाण०-
भंगो । मणुस० जहण्यं देवगदि० ४ ।

५५९. पंचिदि० जह० पदे०वं० पंचणा०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालिअंगो०-
वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । श्रीणगिद्धि०-३-

करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, - तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इस प्रकार अर्थात् तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान मिथ्यादृष्टिप्रायोग्य संस्थान आदि जो भी प्रकृतियों हैं उन सबका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५५७. मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार अर्थात् मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान मनुष्यगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्करका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

५५८. देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके इन प्रकृतियोंका कहे गये सन्निकर्षके समान भङ्ग है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । मात्र देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध मनुष्यके होता है ।

५५९. पञ्चेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, औदारिक-शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य

दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०-४-इत्थि०-णवुंस०-दोगदि-छस्संठा०-छस्संघ०-दोआणु०-उज्जो०-दोविहा०-थिरादिछयुग०-तित्थि०-दोगो० सिया० जह० । छदंस०-वारसक०-भय-दुगुं० णि० तं तु० अणंतभागम्भहियं० । पंचपोक० सिया० तं तु० अणंतभागम्भहियं० । एवं पंचिंदियमंगो ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-त्रण०-४-अगु०-४-पसत्थि०-त्तस०-४-थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमिणत्ति । सेसाणं तीसंसंजुत्ताणं तिरिक्खगदिभंगो । एवं णेदव्वाओ' सव्वाओ पगदीओ ।

५६०. एवं पम्माए सुक्काए वि । सुक्काए आभिणि०^२ जह० पदे०वं० चटुणा०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । थोणगिद्धि०-३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०-४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थि०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-दोगोद० सिया० जह० ।

प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल, तीर्थङ्कर और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्त भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार पञ्चन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके समान औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष जानना चाहिए । तीस संयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंको ले जाना चाहिए ।

५६०. पीतलेश्यावालोके समान पद्मलेश्यावाले और शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें भी ले जाना चाहिए । मात्र शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय,

१. ता०आ०प्रत्योः णिमिणत्ति । सेसाणं तीसं संजुत्ताणं तिरिक्खगदिभंगो । देवगदि० जह० पदे० वं० वेडव्वियस० वेडव्वि० संगो० देवाणु० उच्चा० णाणंतरायं पंचंत० णि० वं० णि० जह० । सेसाओ पानपगदीओ संसेजभागम्भहियं । एवं णेदव्वाओ' इति पाठः । २. ता०प्रती 'सुक्काए वि । आभिणि०' इति पाठः ।

छदंस०-वारसक०-भय-दुगुं० णि० वं० णि० तं तु० अणंतभागम्भहियं० । पंचणोक० सिया० तं तु० अणंतभागम्भहियं० । दोगदि-दोसरीर-समचदु०-दोअंगो०-वज्जरि०-दोआणु०-पसत्थवि०-थिरादितिणियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे०-तित्थ० सिया० तं तु० संखेज्ज-भागम्भहियं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० तं तु० संखेज्जभागम्भहियं० । एवमेदेण क्रमेण षोडश्वं ।

५६१. भवसिद्धिया० ओघं । वेदगे आभिणि०भंगो । उवसमस० ओधि०भंगो । णवरि देवगदि०४-आहारदुगुं० घोलमाणगस्स याओ पगदीओ आगच्छंति ताओ असंखेज्जगु० ।

५६२. सासणे आभिणि० जह० पदे०वं चदुणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-छण्णोक०-मणुस०-मणुसाणु०-उज्जो०-दोगोद० सिया० जह० । सेसाओ णामपगदीओ' णि० तं० तु० सिया० तं तु०

भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्त भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। पाँच नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, दो शरीर, समचतुरल-सस्थान, दो आद्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, प्रशस्त विद्यायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार इसी क्रमसे शेष सन्निकर्ष ले जाना चाहिए।

५६१. भयोंमें ओषके समान भङ्ग है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवधिज्ञानो जीवोंके समान भङ्ग है। इनमें इतनी विशेषता है कि घोलमान योगसे बंधनेवाली देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकके साथ जो प्रकृतियों आती हैं वे नियमसे असंख्यातगुणे प्रदेशबन्धको लिए हुए होती हैं।

५६२. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, छह नोकषाय, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उद्योत और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। शेष नामकर्मकी जो प्रकृतियों नियमसे बंधती हैं उनका जघन्य

संखेज्जदिभागम्भ० । एवं^१ पेद्वं । दोआउ० गिरयभंगो । देवाउ० पंचिंदियतिरिक्ख-
जोगिणिभंगो ।

५६३. सम्मामि० आभिणि० जह० पदे०वं० चदुणा०-छदंसणा०-वारसक०-
पुरिस०-भय-दुगुं०-उच्चाओ०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-चदुणोको०-
देवगदि०४ सिया० जह० । मणुस०-मणुसाणु०^२ सिया० जह० । पंचिंदियादि याव
णिमिण त्ति णि० तं तु० संखेज्जदिभागम्भहियं० ।

५६४. देवगदि० जह० पदे०वं० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-
दुगुं०-उच्चाओ०-पंचंत० णि० वं० णि० जह० । दोवेद०-चदुणोको० सिया० जह० ।
पंचिंदियजादि याव णिमिण त्ति णि० वं० णि० संखेज्जभागम्भहियं । वेउव्वि०-
वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० णि० वं० णि० जह० । सव्वाओ णामपगदीओ मणुसगदि-

प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध
करता है तो उनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तथा जो
कदाचित् बंधती हैं और कदाचित् नहीं बंधती उनका भी जघन्य प्रदेशबन्ध करता है
और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो उनका
नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इस प्रकार आगे भी ले जाना
चाहिए । दो आयुओका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष नारक्रियोके समान
है । देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी
जीवोके समान है ।

५६३. सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा,
उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध
करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और देवगतित्तुष्कका कदाचित् बन्ध करता है और
कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध
करता है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित्
बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।
पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तककी प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका
जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है और अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य
प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ।

५६४^१ देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण,
बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध
करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय और चार नोकषायका
कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तक की प्रकृतियोंका
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता
है । वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता
है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । सब नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग

१. ता०प्रतौ 'तं तु० संखेज्ज०मा० एवं' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'जह० मणुसाणु०' इति० पाठः ।

भंगो । देवगदि०४^१ मोत्तूण ।

५६५. सण्णि० मणुसभंगो । असण्णि० तिरिक्खोघं । णवरि वेउच्चियल्लक्कं जोणिणभंगो । आहार० ओघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं जहण्णपत्थाणसण्णिकासं समचं ।

एवं सण्णिकासं समचं ।

भंगविचयपरूवणा

५६६. णाणाजीवेहि भंगविचयं दुविधं-जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । तत्थ इमं अट्टपदं-मूलपगदिभंगो । सव्वपगदीणं उक्कस्साणुकस्सं मूलपगदिभंगो । तिण्णिआउ० उक्कस्साणुकस्सं अट्टभंगो । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचवत्तु०-किण्ण०-पील०-काउ०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार देवगदिपंचग० उक्क० अणु० अट्टभंगो ।

मनुष्यगतिके समान है । मात्र देवगतित्तुष्कको छोड़ देना चाहिए ।

५६५. संज्ञी जीवोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें वैकिकिकपटकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान है । आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाय-योगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार जघन्य पररथान सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

इस प्रकार सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

भङ्गविचयप्ररूपणा

५६६. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसमें यह अर्थपद है—जो मूलप्रकृतिके समय कहे गये अर्थपदके अनुसार है । सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट भङ्गविचय और अनुत्कृष्ट भङ्गविचय मूलप्रकृतिके भङ्गके समान है । तीन आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके आठ भङ्ग होते हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्चोंमें तथा काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मणकाय-योगी, ननुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असयत, अचक्षुदर्शनवाले, कृष्णलेइयावाले, नीललेइयावाले, कापोतलेइयावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके आठ भङ्ग होते हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ सब उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंके भङ्गोंका संकलन किया गया है । इस विषयमें यह अर्थपद है कि जो जिस प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं वे उस समय उस प्रकृतिका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नहीं करते । तथा जो जिस प्रकृतिका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं वे उस समय उस प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नहीं

५६७. गिरणसु सव्वपगदीणं मूलपगदिभंगो । एवं सव्वपुढवीणं । संखेज्ज-
असंखेज्जगसीणं गिरयगदिभंगो । णवरि मणुस०अपज्ज०वेउत्वि०मि०-आहार०-आहार०-
मि०-अवगद०-सुहुम०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० सव्वपगदीणं अडुभंगो ।

करते । इस अर्थपदके अनुसार उत्कृष्ट बन्धकी अपेक्षा सब उत्तर प्रकृतियोंके भङ्ग लाने पर वे तीन भङ्ग प्राप्त होते हैं—सब उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा १ कदाचित् सब जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले नहीं होते । २ कदाचित् बहुत जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले नहीं होते और एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला होता है । ३ कदाचित् अनेक जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करवाले नहीं होते और अनेक जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले होते हैं । इस प्रकार सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी मुख्यतासे ये तीन भङ्ग होते हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी अपेक्षा भङ्ग लाने पर ये तीन भङ्ग प्राप्त होते हैं—१ कदाचित् सब जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले होते हैं । २ कदाचित् अनेक जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले होते हैं और एक जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला नहीं होता । ३ कदाचित् अनेक जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले होते हैं और अनेक ज व अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले नहीं होते । इस प्रकार अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी अपेक्षा ये तीन भङ्ग होते हैं । मूलप्रकृतिप्रदेशबन्धकी अपेक्षा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके ये ही तीन-तीन भङ्ग प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ उसके समान जाननेकी सूचना की है । ओषसे यहाँ अन्य सब प्रकृतियोंके तो ये सब भङ्ग बन जाते हैं मात्र तीन आयु अर्थात् नरकायु, मनुष्यायु और देवायु इसके अपवाद हैं । कारण कि इन आयुओंका बन्ध कदाचित् होता है, इसलिए बन्धाबन्ध और एक तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके आठ भङ्ग होते हैं । यथा—१ कदाचित् एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । २ कदाचित् एक भी जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नहीं करता । ३ कदाचित् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं । ४ कदाचित् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नहीं करते । ५ कदाचित् एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है और एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नहीं करता । ६ कदाचित् एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नहीं करता और नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं । ७ कदाचित् एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है और नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नहीं करते । ८ कदाचित् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं और नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नहीं करते । इस प्रकार तीनों आयुओंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका विधि-निषेध करनेसे ये आठ भङ्ग होते हैं । इसी प्रकार अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी मुख्य कर आठ भङ्ग कहने चाहिये । यहाँ सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनकी परूषणा ओषके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र जिस मार्गणामें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता हो उसीके अनुसार वहाँ भङ्गविचयकी परूषणा करनी चाहिए । किन्तु औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक मार्गणामें देवगतिपञ्चकका बन्ध कदाचित् एक या नाना जीव करते हैं और कदाचित् नहीं करते, इसलिए यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकारसे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके आठ भङ्ग होते हैं ।

५६७. नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके मूल प्रकृतिके समान भङ्ग होते हैं । इसी प्रकार सब पृथिवियोंमें जानना चाहिये । संख्यात और असंख्यात संख्यावाली अन्य जितनी मार्गणाएँ हैं उनमें नारकियोंके समान भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्थात्, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूक्ष्म-सास्परायसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके आठ भङ्ग होते हैं ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें सब उत्तर प्रकृतियोंका विचार अपनी-अपनी मूलप्रकृतिके अनुसार जाननेकी सूचना की है सो इसका यही अभिप्राय है कि जिस प्रकार आयुर्कर्मको

५६८. ईदिय-बादर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त० सव्वपगदीणं उक्क० अणु० अत्थि बंधगा य अवंधगा य । मणुसाउ० ओवं । एवं पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं च बादर-बादरअपञ्ज०-सव्वसुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्तयाणं च । सव्ववणप्फदि-णियोद०-बादर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्तयाणं बादरवणप्फदिपत्तेय० तस्सेव अपञ्ज० ईदियभंगो । सेसाणं णिरयभंगो ।

छोड़कर सब मूल प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टकी अपेक्षा तीन-तीन भङ्ग होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानने चाहिए । तथा आयुकर्मका बन्ध कदाचित्क है, इसलिए इसकी अपेक्षा मूल-प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टका आश्रय कर जिस प्रकार आठ-आठ भङ्ग होते हैं उसी प्रकार यहाँ तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुकी अपेक्षा आठ-आठ भङ्ग जानने चाहिए । इन भङ्गोंका खुलासा पहले कर आये हैं । यहाँ सातों पृथिवियोंमें तथा संख्यात संख्यावाली और असंख्यात संख्यावाली अन्य मार्गणाओंमें भी यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनकी प्ररूपणा सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्य अपर्याप्त आदि जितनी सान्तर मार्गणाएँ है उनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टकी अपेक्षा आठ-आठ भङ्ग होते हैं, क्योंकि इन मार्गणाओंमें कदाचित् कोई जीव होता है और कदाचित् कोई जीव नहीं होता । यदि होता है तो कदाचित् एक जीव होता है और कदाचित् नाना जीव होते हैं । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट बन्धकी अपेक्षा भी बन्धाबन्ध तथा एक और नाना जीवोंकी अपेक्षा विकल्प बन जाते हैं, इसलिए उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टकी अपेक्षा आठ-आठ भङ्ग कहे हैं । यहाँ विशेष बात यह कहनी है कि यद्यपि अपगतवेद् मार्गणा निरन्तर होती है पर इसका यह नैरन्तर्य संयोगकेवली गुणस्थानकी अपेक्षासे ही है । किन्तु बन्धका विचार दसवें गुणस्थान तक ही किया जाता है, इसलिए दसवें गुणस्थान तक तो यह भी सान्तर मार्गणा है, अतः यहाँ पर इसकी भी अन्य सान्तर मार्गणाओंके साथ परिगणना की है ।

५६८. एकेन्द्रिय, बादर और सूक्ष्म तथा बादर और सूक्ष्मके पर्याप्त और अपर्याप्त इनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव भी हैं और अबन्धक जीव भी हैं । मात्र मनुष्यायुका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार पृथिवीकायिक, जलकायिक, अमिकायिक और वायुकायिक जीव तथा इनके बादर और बादर अपर्याप्त तथा सब सूक्ष्म और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए । सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें तथा बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर और उनके अपर्याप्तकोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । शेष सब मार्गणाओंमें नारकियोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय और उनके अवान्तर भेदोंमें एक मनुष्यायुको छोड़कर अन्य जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनका उत्कृष्ट बन्ध करनेवाले भी नाना जीव निरन्तर पाये जाते हैं और अनुत्कृष्ट बन्ध करनेवाले भी नाना जीव निरन्तर पाये जाते हैं, इसलिए उत्कृष्ट की अपेक्षा नाना जीव उसके बन्धक हैं और नाना जीव उसके बन्धक नहीं हैं यही एक भङ्ग पाया जाता है । तथा इसी प्रकार अनुत्कृष्ट की अपेक्षा भी यही एक भङ्ग पाया जाता है । मात्र मनुष्यायुका भङ्ग कदाचित् होता है । उसमें भी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट बन्ध कदाचित् एक जीव और कदाचित् नाना जीव करते हैं । इसलिए ओषके समान यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके आठ आठ भङ्ग बन जाते हैं । पृथिवी आदि चार तथा उनके बादर, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म और सूक्ष्मके सब अवान्तर भेदोंमें भी ये ही भङ्ग बन जाते हैं, इसलिए इनकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है । आगे सब वनस्पति, सब निगोद तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त तथा बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक

५६९, जहणणए पगदं । तं चेव अट्टपदं—मूलपगदिभंगो । ओषेण तिण्णिआउ०-
वेउव्वियल्ल०-आहार०२-तित्थ० जह० अजह० उक्कस्सभंगो । सेसाणं सव्वपगदीणं
ज० अज०^१ अत्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं ओधभंगो तिरिक्खोवो सव्वएहंदि०-
पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं चेव^२ वादरअपज्जत्त-सव्वसुहुम०—सव्ववणप्फदि-
णियोदाणं वादरपत्ते० तस्सेव अपज्ज० कायजोगि-ओरालि०-ओरालि०मि०-कम्मह०-
णरुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किण्ण०-णील०-फ़ाउ०-भवसि०-
अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार-अणाहार^३ त्ति । णवरि ओरालि०मि०-कम्मह०-
अणाहार० देवग०पंचग० उक्कस्सभंगो । सेसाणं सव्वेसिं उक्कस्सभंगो ।

एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समत्तं^४ ।

और उनके अपर्याप्तक जीवोंमें भी यही व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें भी एकेन्द्रियोके समान जाननेकी सूचना की है। इस प्रकार यहाँ एकेन्द्रियादि अनन्त संख्यावाली और असंख्यात संख्यावाली जितनी मार्गणाए गिनाई हैं उनके सिवा संख्यात और असंख्यात संख्यावाली जिन मार्गणाओंका अलगसे उल्लेख नहीं किया है उनमें सब प्रकृतियोंके सब भङ्ग नारकियोंके समान जाननेकी पुनः सूचना की है।

५६९. जघन्यका प्रकरण है। मूलप्रकृतिके समान वही अर्थपद है। ओषसे तीन आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग उत्कृष्ट अनुयोगद्वारके समान है। शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशके बन्धक जीव हैं और अबन्धक जीव भी हैं। इसी प्रकार आषके समान सामान्य तिर्यञ्च, सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक तथा इन पृथिवीकायिक आदिके वादर अपर्याप्त और सब सूक्ष्म जीव, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, वादर प्रत्येक वनस्पति कायिक, वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र-काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेद्यावाले, नीललेद्यावाले, फ़ापोतलेद्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या-दृष्टि, असङ्गी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगातपञ्चकका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेष सब मार्गणाओंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—ओषसे नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी अपेक्षा आठ आठ भङ्ग वतलों आये हैं। यहाँ इनके जघन्य प्रदेशबन्ध और अजघन्य प्रदेशबन्धकी अपेक्षा भी वे ही आठ आठ भङ्ग प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका भङ्ग उत्कृष्टके समान कहा है। तथा वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी अपेक्षा तीन तीन भङ्ग वतलों आए हैं। वे ही यहाँ इनके जघन्य प्रदेशबन्ध और अजघन्य प्रदेशबन्धकी अपेक्षा प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका भङ्ग भी उत्कृष्टके समान कहा है। इनके सिवा शेष जितनी प्रकृतियाँ हैं उनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले नाना जीव निरन्तर पाये जाते हैं और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले नाना

१. आ०प्रती 'सव्वपगदीणं अज्ज' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'वाउ० ओवो तेसिं चेव' इति पाठः । ३. ता०प्रती असण्णि० आहारेण अणाहारग' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समत्तं' इति पाठो नास्ति ।

भागभागपरूवणा

५७०. भागाभागं दुविधं—जह० उक्तस्सयंच । उक्तस्सए पगदं० । दुवि०-ओषे० आदे० । ओषे० सव्वपगदीणं उक्तस्सपदेसबंधगा जीवा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? अणंतभागो । अणु० सव्वजी० अणंता भागा । णवरि तिण्णिआउ०-वेउव्वि०-उ०-तित्थ० उक्क० पदे०बंधं० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जदिभागो । अणु० पदे०बंधं० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । आहार०२ उक्क० पदे०बंधं० सव्वजीवाणं केव० ? संखेज्जदि-भागो । अणु० पदे०बंधं० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । एवं ओधमंगो तिरिक्खोबंधं कायजोगि-ओरासि०-ओरासि० मि०-कम्मइ०-णखुंस०-फोधादि०-४-मदि०-सुद०-असंज०-

जीव निरन्तर पाये जाते हैं इसलिए इनके भङ्गविचयका विचार स्वतन्त्र रूपसे किया है । यहाँ मूलमें सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओधमरूपणा अविच्छेद बन जाती है, इमलिए उनकी प्ररूपणा ओधके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारकमार्गणामे वैक्रियिकपञ्चकका जघन्य प्रदेशबन्ध और अजघन्य प्रदेशबन्ध कदाचित् होता है और कदाचित् नहीं होता । तथा कदाचित् इनका बन्ध करनेवाला कोई जीव नहीं पाया जाता और कदाचित् इनका बन्ध करने-वाले एक व नाना जीव पाये जाते हैं, इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्टके समान जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्धकी अपेक्षा आठ आठ भङ्ग बन जाते हैं, इसलिए इन तीन मार्गणाओंमें इस प्ररूपणा को उत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है । यहाँ जिन मार्गणाओंका नामनिर्देश करके भङ्गविचयकी प्ररूपणा की है उनके सिवा अन्य जितनी मार्गणाएँ शेष रहती हैं उनसे उत्कृष्टके समान भङ्ग है ऐसा कहनेका यही तात्पर्य है कि जिस प्रकार उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय इन मार्गणाओंमें तीन आयुओंके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके तीन तीन भङ्ग कहे हैं और तीन आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी अपेक्षा आठ आठ भङ्ग कहे हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानने चा हए ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

भागभागप्ररूपणा

५७०. भागाभाग दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओध और आदेश । ओधसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-वाले जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि तीन आयु, वैक्रियिकषट्क और तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । आहारकद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसी प्रकार ओधके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असत्य,

अचक्रवु०-किण्ण०-पील०-काड०-भवसि०-अन्भवसि०-मिच्छा० - आसण्णि० - आहार०-
अणाहारग ति । णवरि ओरालि०मि०-कम्मइ०-अणाहारगेसु देवगदिपंचगं आहारसरीर-
भंगो । एवं इदरेसिं सन्वेसिं । असखेजरासीणं ओघं देवगदिभंगो । एवं संखेजरासीणं
तेसिं आहारसरीरभंगो कादव्वो ।

५७१. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० आहारदुगं'
उक्कससभंगो । सेसाणं सव्वपगदीणं जह० पदे०वं० सव्वजी० केव० भागो ? असंखेज-
भागो । अजह० पदे०वं० केवडि० ? असंखेज्जा भागा । एवं याव अणाहारग ति

अचक्षुदर्शनी, कृण्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि
असंज्ञा, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिक-
मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका भङ्ग आहारकशरीरके
समान जानना चाहिए । इसी प्रकार अन्य सब मार्गणाओंमें जानना चाहिए । उसमें भी
असंख्यात संख्यावाली मार्गणाओंमें ओघसे कहे गये देवगतिके समान भङ्ग जानने चाहिए ।
तथा इसी प्रकार जो संख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ हैं उनमें आहारकशरीरके समान भङ्ग
जानने चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्यसे नरकायु, मनुष्यायु और देवायु तथा वैक्रियिकषट्क और
तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले
जीव असंख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात बहुभाग-
प्रमाण कहे हैं । आहारकद्विकके बन्धक जीव संख्यात हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-
वाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण
कहे हैं । तथा इनके सिवा अन्य जितनी प्रकृतियाँ शेष रहती हैं उनके बन्धक जीव अनन्त हैं ।
उसमें भी उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अपनी अपनी अन्य योग्यताके साथ संज्ञी जीव ही करते हैं ।
शेष सब अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव अनन्तवें
भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव अनन्त बहुभागप्रमाण कहे हैं । यहाँ
सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें अपनी अपनी बन्धको प्राप्त
होनेवाली प्रकृतियोंके अनुसार यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनका भागाभाग ओघके
समान जाननेकी सूचना की है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और
अनाहारक जीवोंमें वैक्रियिकपञ्चकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले कुल जीव
संख्यात ही होते हैं, इसलिए इनमें इन पांच प्रकृतियोंका भागाभाग आहारकशरीरके कहे गये
भागभागके समान जाननेकी सूचना की है । इसके सिवा एकैन्द्रिय आदि अन्य जितनी
मार्गणाएँ हैं उनमें अपनी अपनी बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।
मात्र असंख्यात संख्यावाली मार्गणाओं में ओघ से देवगतिके समान भङ्ग है और संख्यात
संख्यावाली मार्गणाओं में आहारकशरीरके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है ।

५७१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
आहारिकद्विकका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करने-
वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अजघन्य प्रदेश-
बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसी

णोदन्वं । गवरि ए सिं संखेजरासी० तेसिं आहारशरीरभंगो कादव्वो ।

एवं भागामागं समत्तरं ।

परिमाणपरूषणा

५७२. परिमाणं दुविधं—जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० तिण्णिआउ०-वेउन्विउ० उक्कस्साणुक्कस्सपदेसंबंधगो केवडियो ? असंखेजा । आहारदुगं उक्क० अणु० केव० ? संखेजा । तिउ० उक्क० पदे०बं० केव० ? संखेजा । अणु० केव० ? असंखेजा । सेसाणं उक्क० केव० ? असंखेजा । अणु० केत्ति० ? अणंता । गवरि पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० पदे०बं० केत्ति० ? संखेजा । अणु० केत्ति० ? अणंता ।

प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिनकी राशि संख्यात है उनमें आहारकशरीरके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ ओघसे असंख्यातका भाग देने पर एक भागप्रमाण जघन्य प्रदेश-बन्ध करनेवालोंका प्रमाण आता है और बहुभागप्रमाण अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवालोंका प्रमाण आता है, इसलिए आहारकद्विकको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंख्यातवें भागप्रमाण जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कहे हैं और असंख्यात बहुभागप्रमाण अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कहे हैं । मात्र आहारकद्विकका बन्ध करनेवाले जीव ही संख्यात होते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा भागाभाग उत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है । नरकगतिसे लेकर अनाहारक तक अनन्त संख्यावाली और असंख्यात संख्यावाली जितनी मार्गणाएँ हैं उनमें ओघके समान परूपणा वन जानेसे उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । तथा जो संख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ हैं उनमें आहारकशरीरकी अपेक्षा कहा गया भागाभाग ही घटित हो जाता है, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंके भागाभागको आहारक शरीरके समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

परिमाणपरूपणा

५७२. परिणाम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु और वैकिकिक छहका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आहारकद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । शेष सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यश-कीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसी प्रकार ओघके

१. ता०प्रती 'ए संखेजरासी०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'एवं भागाभाग' समत्तरं इति पाठो नास्ति ।

एवं ओधभंगो तिरिकखोर्धं कायजोगि-ओरालि०ओरालि०मि०कम्मइ '०-णजुंस०-कोधादि
४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किण्ण०-णील०-काल०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-
असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालि०मि०कम्मइ०-अणाहारगेसुदेवगदि-
पंचग० उक्क० अणु० के० ? संखेज्जा । पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे० उक्क० पदे०
वं० के० ? संखेज्जा । अणु० के० ? अणता । सेसाणं च विसेसो जाणिदव्वो
सामित्तेण ।

समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मण-
काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षु-
दर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, सिध्यादृष्टि,
असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिक-
मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका उत्कृष्ट और
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । प्रशस्व विहायोगति, सुभग,
सुस्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा जो विशेषता है
वह स्वामित्वके अनुसार जान लेनी चाहिए ।

विशेषार्थ—दो आयु और वैकियिकषट्कका बन्ध असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी
पञ्चेन्द्रिय जीव ही करते हैं । उसमें भी सब नहीं करते । तथा मनुष्यायुके बन्धक पाँचो इन्द्रिय
के जीव होते हुये भी असंख्यात ही हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध
करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । आहारकद्विकका बन्ध अप्रमत्तसंयत और
अपूर्वकरण जीव करते हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका
परिमाण संख्यात कहा है । ओषसे तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सन्ध्यदृष्टि मनुष्य
करते हैं, इसलिए इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है ।
इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं यह स्पष्ट ही है । शेष प्रकृतियोंका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अपनी-अपनी योग्य सामग्रिके सद्भावमें संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव करते
हैं, इसलिए शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात कहे हैं और
इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव अनन्त है यह स्पष्ट ही है । यहाँ इतनी विशेषता
है कि पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संव्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति,
उच्चगौर और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अपने-अपने योग्य स्थानमें उपशमश्रेणिवाले
या क्षपकश्रेणिवाले जीव करते हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण
संख्यात कहा है । अन्य प्रकृतियोंके समान इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका
परिमाण अनन्त है यह स्पष्ट ही है । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाए गिनाई है उनमें भी अपनी-
अपनी बन्ध योग्य सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह परिमाण बन जाता है, इसलिए उत्तम धोषके
समान जाननेकी सूचना की है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी कार्मणकाययोगी और अनाहारक
जीवोंमें देवगतिपञ्चकका ऐसे सन्ध्यदृष्टि जीव ही बन्ध करते हैं जो या तो देव और नरक
पर्यायसे च्युत होकर मनुष्योंमें आकर उत्पन्न होते हैं या जो मनुष्य पर्यायसे च्युत होकर उत्तम
भोगभूमिके वियञ्चों और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं । यतः इन सबका परिमाण संख्यात है, अतः
इन मार्गणाओंमें देवगतिपञ्चकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण

५७३. गिरएसु ^१ सव्वपगदीणं उक्कं अणुं के० ? असंखेजा । मणुसाउ० उक्कं अणुं संखेजा । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिंदियतिरिक्खा सव्वअपज्जत्ता सव्व-विगल्लिंदिय-सव्वपचकायाणं वेउच्चि०-वेउच्चियमिस्सकायजोगीणं च ।

५७४. मणुसेसु दोआउ०-वेउच्चियल्ल०-आहारदुग-तित्थ० उक्कं अणुं के० ? संखेजा । सेसाणं उक्कं के० ? संखेजा । अणुं के० ? असंखेजा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपगदीणं उक्कं अणुं के० ? संखेजा । एवं मणुसिभंगो सव्वड्ड०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० ।

संख्यात कहा है । मात्र तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले भोगभूमिमें जन्म नहीं लेते इतना विशेष जानना चाहिए । यहाँ इन तीनों मार्गणाओंमें प्रशस्त विहायोगति आदि कुछ अन्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी उक्त जीव ही करते हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है । समचतुरस्रसंस्थान भी प्रशस्त विहायोगतिके साथ गिनी जानी चाहिए, क्योंकि इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी उक्त जीव ही करते हैं । इसी बातको सूचित करनेके लिए शेष प्रकृतियोंके विषयमें विशेषता जान लेनी चाहिए यह कहा है ।

५७३. नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मात्र मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय प्रारम्भके चार और प्रत्येक वनस्पति ये सब पौंच स्थावरकायिक, वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ये सब राशियों असंख्यात हैं, इसलिए इनमें अपने-अपने स्वामित्वको देखते हुए मनुष्यायुके सिवा शेष सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात बन जाता है । तथा सब प्रकारके नारकियोंसे आकर यदि मनुष्य होते हैं तो गर्भज मनुष्य ही होते हैं, इसलिए इनमें मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । यहाँ सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाए गिनाई है उनमें नारकियोंके समान मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव तो संख्यात ही है पर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं इतना विशेष जानना चाहिए । यद्यपि मूलमें इस विशेषताका निर्देश नहीं किया है पर प्रकृतिबन्ध आदिके देखनेसे यह ज्ञात होता है ।

५७४. मनुष्योंमें दो आयु, वैक्रियिकवृत्क, आहारकद्विक और तीर्थंकरप्रकृतिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार मनुष्यनियोंके समान सर्वार्थ-सिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययह्वानी, सयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसयत और सूक्ष्मसाम्भरायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—मनुष्योंमें दो आयु आदि ग्यारह प्रकृतियोंका बन्ध लब्धपर्याप्त मनुष्य नहीं करते, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव

५७५. देवेषु सन्वपगदीणं उक्तं अणु० के० ? असंखेजा । णवरि मणुसाउ० उक्तं अणु० के० ? संखेजा । एवं सन्वदेवाणं ।

५७६. गुह्यदिग्गदर-सुहुम-पज्जत्तापज्ज०-सन्ववणप्फदि-णियोद० सन्वपगदीणं उक्तं अणु० के० ? अणता । णवरि मणुसाउ० उक्तं अणु० केव० ? असंखेजा ।

५७७. पंचिदिं०-तस०२ पंचणा०-चतुदंसणा०-सादा०-चतुसंज०-पुरिस०-जस०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उक्तं के० ? संखेजा । अणु० के० ? असंखेजा । आहार०२ उक्तं अणु० के० ? संखेजा । सेसाणं उक्तं अणु० के० ? असंखेजा । एवं पंचिदियभंगो पंचमण०-पंचवचि०-चवखु०-सणि चि ।

संख्यात कहे हैं। तथा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी लब्धपर्याप्त मनुष्य नहीं करते, इसलिए इनमें शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है। शेष कथन सुगम है।

५७५. देवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण कितना है ? असंख्यात है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण कितना है ? संख्यात है। इसी प्रकार सब देवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें नारकियोंके और उनके अवान्तर भेदोंके समान स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। मात्र सर्वार्थसिद्धिमें संख्यात देव होते हैं, इसलिए उनका विचार मनुष्यिनियोंके समान पूर्वमें ही कर आये हैं।

५७६. एकेन्द्रिय तथा उनके वादर और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात है।

विशेषार्थ—ये सब राशियाँ अनन्त हैं, इसलिए इनमें मनुष्यायुके सिवा सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण अनन्त बन जाना है। मात्र कुल मनुष्य ही असंख्यात होते हैं, इसलिए उक्त मार्गणाओंमें मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है।

५७७. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रिसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातान्वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यज्ञऋति, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। आहारकद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जीवोंके समान पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, चक्षुदर्शनवाले और संज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—उक्त मार्गणावाले जीव असंख्यात होते हैं, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण और शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है। पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण और आहारकद्विकका उत्कृष्ट और

५७८. इत्थिवेदेसु [पंचणाणा०-] चदुदंस०- [सादा०-] चदुसंज०-पुरिस०-जस०- [उच्चा०-पंचंत०] उक्क० के० ? संखेजा। अणु० के० ? असंखेजा। आहार०-२-तित्थ० उक्क० अणु० के० ? संखेजा। सेसाणं दो वि पदा असंखेजा। एवं पुरिस० । णवरि० तित्थ ओघं ।

५७९. विभंग'०-संजदासंजद०-सासण०-सम्मामि० सव्वपगदीणं उक्क० अणु० केव० ? असंखेजा। णवरि संजदासंजदेसु तित्थ० उक्क० अणु० केव० ? संखेजा। सासणे मणुसाउ० उक्क० अणु० केव० ? संखेजा।

अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण जो संख्यात कहा है सो इसका स्पष्टीकरण ओघके समान जान लेना चाहिए।

५७८. स्त्रीवेदी, जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद यशःकीर्ति, उच्चवोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। आहारकद्रिक और तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंके दोनों ही पदवाले जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध गुणस्थानप्रतिपन्न मनुष्यिनी जीव स्वामित्वके अनुसार यथायोग्य स्थानमें करते हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले स्त्रीवेदियोंका परिमाण संख्यात कहा है। किन्तु इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सभी स्त्रीवेदी जीव करते हैं, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है। स्त्रीवेदियोंमें आहारकद्रिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध मनुष्यिनी जीव ही करते हैं इसलिए इनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा इनके सिवा यहाँ जितनी प्रकृतियाँ बंधनी हैं उनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्वामित्वके अनुसार यथायोग्य सर्वत्र सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे दोनों पदवालोंका परिमाण असंख्यात कहा है। पुरुषवेदी जीवोंमें भी यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें स्त्रीवेदियोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिके विषयमें ओघमें जो प्ररूपणा की है वह पुरुषवेदियोंमें बन जाती है, इसलिए पुरुषवेदियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है।

५७९. विभङ्गज्ञानी, संयतासंयत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने होते हैं ? असंख्यात होते हैं। इतनी विशेषता है कि संयतासंयतोंमें तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने होते हैं ? संख्यात होते हैं। तथा सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने होते हैं ? संख्यात होते हैं।

विशेषार्थ—तिर्थङ्गोंमें तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध नहीं होता, इसलिए संयतासंयतोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा

१ ता० आ० प्रत्येः णवरि तित्थ० ओघं । णु'ससके । पंचणा० सादा० उच्चा० पंचंत० उ० के० ? असंखेजा। अणु० के० ? असंखेजा। अणु० के० ? अणता० । सेसं ओघं । एवं तिण्णिक्क० । विभंग०' इति पाठः ।

५८०. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-जसणि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० केव० ? संखेजा । अणु० केव० ? असंखेजा । मणुसाउ०-आहार० दोपदा० केव० ? संखेजा । सेसाणं उक्क० अणु० के० ? असंखेजा । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदग० । णवरि' वेदगे चदुसंज०-मणुसाउ०-आहार०-२-तित्थय० ओधिभंगो । सेसाणं दोपदा असंखेजा । तेउ-पम्माए वि एसो चव भंगो ।

सासादनसम्यग्दृष्टि जीव मरकर लक्ष्यपर्याप्तक मनुष्योंमें नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें संख्यात जीव ही मनुष्यायुका बन्ध करते हैं। इस कारण यहाँ मनुष्यायुके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है। शेष कथन सुगम है ?

५८०. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संव्वलन, पुरुषवेद, यशाःकीर्ति, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। मनुष्यायु और आहारकद्विकके दो पदोंका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात है ? शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार संव्वलन, मनुष्यायु, आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंके दो पदोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं। पीतलेश्या और पद्मलेश्यामें भी यही भङ्ग है।

विशेषार्थ—आभिनिबोधिक आदि तीनों ज्ञानोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात होनेका जो कारण ओघ प्ररूपणामें बतला आये हैं वही यहाँ भी जान लेना चाहिए। तथा ये तीनों ज्ञानवाले जीव असंख्यात होते हैं, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात बतलाया है। यहाँ मनुष्यायु और आहारकद्विकके दो पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात होते हैं तथा शेष प्रकृतियोंके दो पदोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात होते हैं यह स्पष्ट ही है। यहाँ कही गई अवधिदर्शनी आदि तीन मार्गणाओंमें यह प्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए उनमें आभिनिबोधिकज्ञानी आदिके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र वेदकसम्यक्त्वमें चार संव्वलन, मनुष्यायु, आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिके दोनों पदोंके बन्धन जीवोंका भङ्ग तो अवधिज्ञानी जीवोंके समान ही है, क्योंकि जिस प्रकार अवधिज्ञानियोंमें चार संव्वलन और तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात तथा मनुष्यायु और आहारकद्विकके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बतलाये हैं उसी प्रकार वेदकसम्यक्त्वमें भी इन प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त परिमाण प्राप्त होता है। अब वहीं शेष प्रकृतियोंसो उनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात ही होते हैं, इसलिए आभिनिबोधिकज्ञानी आदिसे वेदकसम्यग्दृष्टिमें जो विशेषता है उसका सूचन अलगसे किया है। तात्पर्य यह है कि वेदकसम्यक्त्वकी प्राप्ति सातवे गुणस्थान तक ही होती है, इसलिए इसमें चार संव्वलन और तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालोंका परिमाण संख्यात तो बन जाता है पर पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशाःकीर्ति, उच्चगोत्र और

५८१. सुकाए पदमदंडओ चक्खुदंसणिभंगो । दोआउ०-आहार०२ उक्क० अणु० केव० ? संखेजा । सेसाणं उक्क० अणु० केव० ? असंखेजा । एवं खइग० । उवसस० पदमदंडओ आभिणि०भंगो । णवरि आहार०२-तित्थ० उक्क० अणु० केव० ? संखेजा । सेसाणं उक्क० अणु० के० ? असंखेजा ।

५८२. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेदणी०-मिच्छ^१०-सोल्लसक०-णवणोक्क०-तिरिक्खाउ०-सव्वणामपगदीओ दोमोद-पंचंत० जह० अज० पदे०वं० केव० ? अणता । णवरि तिण्ण०आउ०-णिरयगदि-णिरयाणु०

पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालोंका परिमाण स्वामित्व बदल जानेसे संख्यात न होकर असंख्यात हो जाता है। अवधिज्ञानी जीवोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मात्र इतनी ही विशेषता है। पीतलेइया और पद्मलेइया भी सातवें गुणस्थान तक होती हैं, इसलिए इनमें वेदकसम्यग्दृष्टियोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे वेदकसम्यग्दृष्टियोंके समान जाननेकी सूचना की है।

५८१. शुक्ललेइयामें प्रथम दण्डकका भङ्ग चक्षुदर्शनी जीवोंके समान है। दो आयु और आहारकद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं।

विशेषार्थ—चक्षुदर्शनी जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग ओघके समान कहा है। उसी प्रकार शुक्ललेइयामें भी बन जाता है, अतः यहाँ प्रथम दण्डकका भङ्ग चक्षुदर्शनी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। यहाँ मनुष्यायु और देवायु इन दो आयुओं तथा आहारकद्विकका बन्ध संख्यात जीव ही करते हैं, इसलिए इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा यहाँ शेष प्रकृतियोंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं यह स्पष्ट ही है। शुक्ललेइयाके समान क्षायिकसम्यक्त्वमें भी व्यवस्था बन जाती है। उपशमसम्यक्त्व ग्यारहवें गुणस्थान तक होता है, इसलिए इसमें प्रथम दण्डकका भङ्ग आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके समान बन जानेसे उनके समान कहा है। मात्र तीर्थङ्कर प्रकृति इसका अपवाद है, क्योंकि उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं, इसलिए इसकी प्ररूपणा आहारिकद्विकके साथ की है। यहाँ भी शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं यह स्पष्ट ही है।

५८२. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यञ्चायु, नामकर्मकी सब प्रकृतियों, दो गीत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने होते हैं ? अनन्त होते हैं। इतनी विशेषता है कि तीन आयु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने होते हैं ?

१ ता०प्रती 'दोलेत्त [वेद०] मिच्छ' इति पाठः ।

जह० अज० केव० ? असंखेजा । देवग०-वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-देवाणु०-तित्थ०
जह० केव० ? संखेजा । अजह० केव० ? असंखेजा । आहारदुगं जह० अजह०
केव० ? संखेजा । एवं ओधमंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि०-ओरालि०-मि०-
कम्मह०-णुसु०-कोधादि०४ - मदि-सुद०-असंज०-अचक्खुद०-किण्णले०-णील०-काउ०-
भवसि०-अवभवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालि०-मि०-
कम्मह०-अणाहारगेसु देवगदिपंचग० जह० अजह० के० ? संखेजा । मदि-सुद०-
अवभवसि०-मिच्छा०-असण्णि ति तिण्णिआउ०-वेउव्वियल्लकं जह० अजह० के० ?
असंखेजा ।

असंख्यात होते है । देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी
और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने होते है ? संख्यात होते है ।
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने होते है ? असंख्यात होते है । आहारकद्विकके
दो पदोंका बन्ध करनेवाले जीव कितने होते है ? संख्यात होते है । इस प्रकार ओधके समान
सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी,
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण-
लेस्यावाले, नीललेस्यावाले, कापोतलेस्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक
और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी,
कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीव कितने है ? संख्यात है । तथा मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि
और असंज्ञी जीवोंमें तीन आयु और वैक्रियिकषट्कका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीव कितने है ? असंख्यात है ।

विशेषार्थ—जिन प्रकृतियोंका 'णवरि' पद द्वारा अलगसे उल्लेख किया है उन्हें
छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव भवके प्रथम
समयमें योग्य सामग्रीके सद्भावमें करते है । तथा इन प्रकृतियोंका एकेन्द्रियादि सभी जीव
बन्ध करते है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण
अनन्त कहा है । तीन आयु और नरकगतिद्विकका बन्ध असंज्ञी आदि जीव करते है,
इसलिए इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । देवगति
आदि पाँच प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयमें तद्भवस्थ हुए मनुष्य, योग्य सामग्रीके
सद्भावमें करते है । ऐसे मनुष्योंका परिमाण संख्यात कहा है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त
पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात है यह स्पष्ट ही है । आहारकद्विकका बन्ध करनेवाले ही
संख्यात है, इसलिए इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है ।
यह ओधप्ररूपणा तिर्यञ्चगति आदि अन्य निर्दिष्ट मार्गणाओंमें भी यथासम्भव बन जातो
है, अतः उनमें ओधके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी,
कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका बन्ध करनेवाले जीव ही संख्यात
होते है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात
कहा है । तथा मत्स्यज्ञानी आदि पाँच मार्गणोंमें ऐसी है जिनमें देवगतिचतुष्कके जघन्य

५८३. गिरएसु सव्वाणं जह० अजह० के० ? असंखेजा । णवरि मणुसाउ० दो-
पदा संखेजा । तित्थ० जह० के० ? संखेजा । अजह० के० ? असंखेजा । एवं
पढमाए । विदियाए याव सत्तमा त्ति उक्कस्सभंगो ।

५८४. पंचिदि०तिरिक्ख-पंचिदि०तिरिक्खपज्जत्त० सव्वपगदीणं जह० अजह०
के० ? असंखेजा । णवरि देवगदि०४ जह० के० ? संखेजा । अजह० के० ? असंखेजा ।
एवं जोणिणीसु वि । णवरि वेउच्चि०छक्कं० जह० अजह० के० ? असंखेजा ।
पंचिदि०तिरि०अपज्ज० सव्वपगदीणं जह० अजह० के० ? असंखेजा । एवं मणुस०-

प्रदेशबन्धका स्वामी ओषके समान नहीं बनता, इसलिए इन मार्गणाओंमें तीन आयु और
वैक्रियिकषट्कका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है। यद्यपि
तीन आयु और नरकगतिद्विकके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात
ओष प्ररूपणामें भी कहा है। उससे यहां कोई विशेषता नहीं आती पर यहां इसे देवगति-
चतुष्कके साथ दुहरा दिया है।

५८३. नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव
कितने हैं ? असंख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुके दोनों पदवाले जीव संख्यात
हैं। तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं।
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें
जानना चाहिए। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें उत्कृष्टके
समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—नरकमें अधिकसे अधिक संख्यात जीव ही मनुष्यायुका बन्ध करते हैं;
इसलिए यहां मनुष्यायुके दोनों पदवालोंका परिमाण संख्यात कहा है। जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य
मर कर प्रथम नरकमें उत्पन्न होते हैं उनमेंसे कुछके ही प्रथम समयमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका
जघन्य प्रदेशबन्ध होता है, अतः यहां तीर्थङ्करप्रकृतिके उक्त पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका
परिमाण संख्यात कहा है। तथा निरन्तर असंख्यात जीव नरकमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध
करनेवाले पाये जाते हैं, इसलिए यहां इसके अजघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका
परिमाण असंख्यात कहा है। इनके सिवा अन्य सब प्रकृतियोंके दोनों पदवाले जीव
वहां असंख्यात होते हैं यह स्पष्ट ही है। सामान्य नारकियोंके समान प्रथम नरकमें प्ररूपणा
बन जाती है, इसलिए प्रथम नरकमें सामान्य नारकियोंके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना
की है। उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय सब प्रकृतियोंके दोनों पदवालोंका परिमाण असंख्यात और
मनुष्यायुके दोनों पदवालोंका परिमाण संख्यात बतला आये हैं। यहां द्वितीयादि नरकोंमें
यह स्थान अविकल बन जाता है, इसलिए इन नरकोंमें उत्कृष्टके समान परिमाण जाननेकी
सूचना की है।

५८४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंका
जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इतनी विशेषता
है देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अजघन्य
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी
जीवोंमें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें वैक्रियिकषट्कका जघन्य और
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च
अपर्याप्तकोमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ?

अपज्ज०-सव्वविगलिदि०-पंचिदि०-तसअपज्ज^१० चटुण्णं कायाणं वादरपत्तेगाणं च ।

५८५. मणुसेसु दोआउ०-चेउव्वियल्ल०-आहार०-र-तित्थ० जह० अजह० वं० केव० ? संखेजा । सेसाणं जह० अजह^२० केव० ? असंखेजा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपगदीणं जह० अजह० के० ? संखेजा^३ । एवं सव्वड्ड०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्ज०-सज्जद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० ।

५८६. देवसेसु णिरयमंगो । एवं भवण०-वाणवे०-जोदिसि० । सोधम्मीसाणं [एवं चेव । णवरि] मणुस०-मणुसाणु^४०-तित्थ० जह० के० ? संखेजा । अजह० के० ? असंखेजा । एवं याव सहस्सार त्ति । आणद याव णवगेवज्जा त्ति सव्वपगदीणं

असंख्यात है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त पृथिवी आदि चारों स्थावरकायिक और वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोमे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोमे प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ असंयतसम्यग्दृष्टि जीव योग्य सामग्रीके सद्भावमे देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । परन्तु पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमे वैक्रियिकषट्कका जघन्य प्रदेशबन्ध योग्य सामग्रीके सद्भावमे असंखी जीव करते हैं, इसलिए इनमे उक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका परिमाण असंख्यात बन जानेसे उसका विशेषरूपसे निर्देश किया है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५८५. मनुष्योंमे दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमे सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात है । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाय-योगी, अपगतवेदवाले, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार-विशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोमे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—दो आयु आदि ग्यारह प्रकृतियोंका मनुष्य अपर्याप्त बन्ध नहीं करते, इसलिए मनुष्योंमे उनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । शेष परूवणा स्पष्ट ही है ।

५८६. देवोमे नारकियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे जानना चाहिए । तथा सौधर्म और ऐशान कल्पमे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । मात्र यहां मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इस प्रकार सहस्वार कल्प तक जानना चाहिए । आनतकल्पसे लेकर नौ त्रैवेयकतकके देवोमे सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेश-

१. ता०प्रतौ 'पंचिदि० तस्स (स)० अपज्ज०' आ०प्रतौ 'पंचिदि० तस्सेव अपज्ज०' इति पाठ ।
२. आ०प्रतौ 'सेसाणं वं० अजह०' इति पाठः । ३. ता०आ०प्रत्योः 'असंखेजा०' इति पाठः ।
४. आ०प्रतौ 'सोधम्मीसाणं मणुसाणु०' इति पाठः ।

जह० के० ? संखेज्जा । अजह० के० ? असंखेज्जा । एवं अणुदिस-अणुत्तर० ।

५८७. सव्वएईदि०-सव्ववणप्फदि-णियोद० ओघमंगो । पंचिदि०-त्स०२ देवगदि०४-तित्थ० जह० के० ? संखेज्जा । अजह० के० ? असंखेज्जा । आहार०२ ओघं । सेसाणं जह० अजह० केव० ? असंखेज्जा ।

५८८. पंचमण०-तिण्णघचिं० दोगदि-वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०अंगो०-दो-आणु०-तित्थ० जह० के० ? संखेज्जा । अजह० के० ? असंखेज्जा । [आहारदुगं ओघं] ।

बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार नौ अनुदिश और चार अनुत्तरके देवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार नारकियोंमें परिमाणकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार सामान्य देवोंमें भी उसकी प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उसे नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें भी इसी प्रकार वह प्ररूपणा घटित कर लेनी चाहिए । मात्र जहां जो प्रकृतियाँ हों उनके अनुसार ही वहां उसका विचार करना चाहिए । सौधर्म और ऐशान कल्पमें अन्य प्ररूपणा तो इसी प्रकार है मात्र इन कल्पोंमें मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्विका भङ्ग तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान होनेसे तीर्थङ्कर प्रकृतिके साथ इन दो प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण अलगसे कहा है । सनत्कुमारसे लेकर महात्मार कल्प तकके देवोंका भङ्ग सौधर्म-ऐशान कल्पके समान होनेसे इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । आनतसे लेकर चार अनुत्तर तकके भागके देवोंमें यद्यपि देवराशि असंख्यात है फिर भी इनमें सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात ही प्राप्त होते हैं । कारणका विचार स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए ।

५८९. सब एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक और निर्गोद् जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्करप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें बंधनेवाली प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध ओघसे भी एकेन्द्रियोंमें ही होता है, इसलिए यहां सब एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक और निर्गोद् जीवोंमें ओघके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक असंख्यात होते हैं, इसलिए इनमें देवगतिचतुष्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात बन जानेसे वह उतना कहा है । तथा देवगतिचतुष्क आदिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पष्टीकरण जिस प्रकार ओघमें किया है उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

५८८. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें दो गति, वैक्रियिकशरीर, तैजस-शरीर, कामणशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य

सेसाणं जह० अजह^१० वं० के० ? असंखेजा । वचि०-असच्चमोसवचि० सच्चपगदीणं जोणिणिभंगो । णवरि आहार०-र-तित्थ० ओषं । वेउव्वि०-वेउव्वि०मि० देवोषभंगो ।

५८९. इत्थि-पुरिसेसु पंचिदियभंगो । णवरि इत्थि० तित्थियरं जह० अजह० के० ? संखेजा । विभंगे सच्चपगदीणं जह० अजह० केव० ? असंखेजा ।

५९०. आमिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-छदंस०-सादासाद०-वारसक०-सत्तणोक०-

और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । वचनयोगी और असत्यमृषावचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है । वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—पॉच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें संख्यात जीव ही दो गति आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए यहां इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण पहले असंख्यात बतला आये हैं । अपने स्वामित्वको देखते हुए उसी प्रकार यहां वचनयोगी और असत्यमृषावचनयोगी जीवोंमें भी वह घटित हो जाता है, इसलिए इन मार्गणाओंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । मात्र इन दोनों मार्गणाओंमें आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भी बन्ध होता है, इसलिए इनके विषयमें अलगसे सूचना की है । वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है । मात्र इनमें मनुष्यगतिद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयमें तद्वत्त्व्य हुए सन्यगृष्टि देव नारकी करते हैं इतना जानकर मनुष्यगतिद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण कहना चाहिए ।

५८९. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंकी मुख्यता है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है । मात्र स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध मनुष्यनी करती है और मनुष्यनी संख्यात होती है, इसलिए स्त्रीवेदियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे हैं । विभङ्गज्ञानमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जो स्वामी बतलाया है उसे देखते हुए इसमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात बन जावा है यह स्पष्ट ही है ।

५९०. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पॉच ज्ञानावरण, छह दर्शानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, देवायु, उच्चगोत्र

देवाउ० उच्चा० पंचंत० जह० अजह० के० ? असंखेजा । मणुसाउ० आहार० २ जह० अजह० केव० ? संखेजा । सेसाणं जह० के० ? संखेजा । अजह० के० ? असंखेजा । एवं ओधिदं० सम्मा० खड्ग० वेदग० उवसम० ।

५९१. संजदासंजदं^३ सच्चपगदीणं जह० अजह० के० ? असंखेजा । णवरि सच्चपणं णामाणं जह० के० ? संखेजा । अजह० के० ? असंखेजा । णवरि तित्थं जह० अजह० के० ? संखेजा ।

५९२. चक्खु० पंचिदियमंगो । तेउ-पम्माणं दोगादि-वेउन्वि० तेजा०-क०-वेउन्वि-

और पाँच अन्तरायका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यायु और आहारकद्विकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—चारों गतिके असंयतसम्यग्दृष्टि जीव प्रथम समयमें तद्भवस्थ होकर पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध करते हैं । यथा—देवायुका दो गतिके जीव योग्य सामग्रीके सद्भावमें जघन्य प्रदेशबन्ध करते हैं । अतः इनका परिमाण असंख्यात है, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात कहे हैं । तथा इन मार्गणाओंमें असंख्यात जीव होते हैं, इसलिए पाँच ज्ञानावरणादिका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव भी असंख्यात कहे हैं । मनुष्यायु और आहारकद्विकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं यह स्पष्ट ही है । अब वहीं शेष प्रकृतियाँ सो इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव संख्यात होते हैं, अतः यहाँ इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है और इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात होते हैं यह स्पष्ट ही है । अवधिदर्शनी आदि मार्गणाओंमें अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार यह प्ररूपणा इसी प्रकार बन जाती है, इसलिए उनमें आभिनिवोधिक-ज्ञानी आदिके समान जाननेकी सूचना की है ।

५९१. संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि नामकर्मकी सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । उसमें भी इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ पर नामकर्मकी अन्य सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धके समय होता है, इसलिए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है, क्योंकि संयतासंयत गुणस्थानमें मनुष्य ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करते हैं और इसी कारणसे तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५९२ चक्षुदर्शनेवाले जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियों के समान है । पीतलेप्या और पद्म-लेप्यामे दो गति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामर्णशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग,

१. भा० प्रती 'असंखेजा' इति पाठः । २. ता० प्रती 'ओधिदं०' सम्मा० खड्ग० वेदग० उवसम० संजदासंजदं० इति पाठः ।

अंगो०-दोआणु०-तित्थ जह० के० ? संखेज्जा । अजह० के० ? असंखेज्जा । मणुसाउ०-
आहार०२ मणुसि०भंगो । सेसाणं जह० अह० अजह० के० ? असंखेज्जा । सुक्काए पंचणा०-
णवदसणा०-सादासाद०-मिच्छ-सोलसक०-णवणोको०-दोगो०-पंचंत० जह० के० ?
संखेज्जा^१ । अजह० के० । असंखेज्जा । एवं सव्वपगदीणं जाणिदूणं णेदव्वा ।

५६३. सासणे मणुसाउ० मणुसि०भंगो । सेसाणं जह० अजह० असंखेज्जा ।
सम्मामि० सव्वपगदीणं जह० अजह० के० । असंखेज्जा । सण्णीसु देवगदि० ४-तित्थ०
जह० के० ? संखेज्जा । अजह० के० ? असंखेज्जा । सेसाणं पंचिदियभंगो ।

एवं परिमाणं समचं ।

दो आनुपूर्वीं और तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात है ।
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात है । मनुष्यायु और आहारकट्टिकका
भंग मनुष्यनिधियोंके समान हैं । शेष प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । शुक्ललेइयामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय,
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात है । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने
हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका जानकर ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—पीत और पद्मलेइयामे अपने स्वामित्वके अनुसार दो गति आदिका जघन्य
प्रदेशबन्ध संख्यात जीव ही करते हैं, इसलिए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका
परिमाण संख्यात कहा है । यही बात शुक्ललेइयामें पाँच ज्ञानावरण आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवोंके परिमाणके विषयमे जाननी चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

५९३. सासादनसम्यक्त्वमें मनुष्यायुका भंग मनुष्यनिधियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका
जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । सम्यग्मिथ्यात्वमें सब प्रकृतियोंका
जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने है ? असंख्यात है । संक्षियोंमें देवगति-
चतुष्क और तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने है ? संख्यात है ।
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंका भंग पञ्चेन्द्रियोंके
समान है ।

विशेषार्थ—सासादन सम्यक्त्व आदि उक्त मार्गणाओंमें भी अपने-अपने स्वामित्वके
अनुसार सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण घटित
कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।